

खर्गवासी साधुवरित श्रीमान् डालचन्दजी सिंघी



बाबू श्रीबहादुर सिंघीके पुण्यश्लोक विता

जन्म-वि स १९२१, मार्ग शुद्ध ६ ॥ खर्गवासी-वि स १९८४, पौष शुद्ध ६

4968

दानशील-साहित्यरसिक-संस्कृतिप्रिय
स्व. श्रीबाबू महादुरसिंहजी सिंघी



मजीमगज बालकला

[जन्म सा १८९५-१८८५]

[मृत्यु सा १९५९]

THE SUPPLEMENTARY EASTERN
RESEARCH INSTITUTE, NYLAPUR
MADRAS-605 004.

सिंघी जैन ग्रन्थमाला

*****[प्रन्थांक २८]*****

श्री जयसिंहसूरिविरचित

[शकृत भाषामय]

धर्मोपदेशमाला-विवरण

THE UNIVERSITY OF
RESEARCH INSTITUTE, MYSAPUR
MADRAS-600 004



SINGHI JAIN SERIES

*****[NUMBER 28]*****

DHARMOPADEŚAMĀLĀ-VIVARAṆA

OF

ŚRĪ JAYASINHA SŪRI

क ल क षा मि वा सी

साधुचरित-श्रेष्ठिजनं श्रीमद् डालचन्दजी सिंघी पुण्यसृष्टिनिमित्तं

प्रतिष्ठापित एव प्रकाशित

सिंघी जैन ग्रन्थ माला

[जैन धार्मिक, दार्शनिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, कथात्मक - इत्यादि विविधविधसमुच्चिनम् ।
प्राकृत, संस्कृत, मराठी, आर्यभट्ट-राजवन्शी-नाथि नामानामाधिकार, आर्यभट्ट-पुराण
वाक्य तथा नृपत साधुचरित-साहित्य महाशिवी सर्वविध जैन ग्रन्थसहितः]

प्रतिष्ठापना

श्रीमद् डालचन्दजी सिंघीसत्युक्त

स्व० दानशील - साहित्यरसिक - संस्कृतिप्रिय

श्रीमद् बहादुर सिंहजी सिंघी



प्रधान संपादक तथा संचालक

आचार्य जि न वि ज य मुनि

(सामान्य विद्यालय - भारतीय विद्या भवन - बंबई)

सर्वप्रकार संस्करण

श्री राजेन्द्र सिंह सिंघी तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिंघी

प्रकाशनकर्ता

सिंघी जैनशास्त्र शिक्षापीठ

भारतीय विद्या भवन, मुंबई

प्रकाशक-भवनसङ्घान्त द. दवे, मीनरी रजिस्टार, भारतीय विद्या भवन, पोस्टादी रोड, बंबई ४.
मुद्रक-जयदेव देव देवले, विनिष्ठाकर रोड, १५-१८, बोमनाथ मंदिर, राजकोठी, बंबई १.

4918

श्री जयसिंहसूरिविरचित

[सङ्कत मायामय]

धर्मोपदेशमाला - विवरण

ॐ

THE RAJAWADEE SOCIETY
RESEARCH INSTITUTE, BANGKOK
BANGKOK-100 000.

संपादक

पण्डित श्री लालचन्द्र भगवान्दास गान्धी

[जैन पण्डित - प्राण्यविद्यामन्दिर, पट्टोवरा]



प्रकाशक

सिंघी जैनशास्त्र शिक्षापीठ

भारतीय विद्या भवन

बंबई

विक्रयम् २.००५] इत्यमरुति, पञ्चसत इति [१५०५ विक्रयम्

ग्रन्थांक २८] सर्वोच्चकार सत्सक मा वि. म [सू० सू० ९-१२-०

॥ सिंधीजैनग्रन्थमालासंस्थापकपत्राणि ॥

—०—

कति वज्रविभे देवो मुनिविद्या मनोरथा । मुनीदाबाद् दृष्टान्त्वा पुत्री वैभवाशक्तिम् ॥
 बहवो निवसन्त्यत्र पैना उद्वेगार्थकता । अनात्मा नृपसम्मान्या धर्मधर्मपरायणा ॥
 श्रीवज्रपद्म दृष्टासीद् देवैको बहुभान्ववान् । साधुनन् स्वधर्मो न सिन्धीकुम्भवाहनः ॥
 वास्तु पद्मागतो वक्र कर्तुं स्वान्तकिसृष्टिम् । कतिकातामहापुत्रं स्वधर्मोपनिषत् ॥
 कुशाग्रीवस्वतुङ्गदेव सप्तधा न मुनिवत् । उपार्णं विपुला कर्णी कोऽन्धविशोऽन्धविह कः ॥
 तस्य मनुकुमारोति लक्षारीकुलमन्वया । कल्पू कीर्यता यत्र श्रीश्रीनाम्भरूपया ॥
 श्रीवज्रपुत्रसिंहात्म्यो गुणवीर्यवन्धवो । अन्धवद् मुकुली दानो धर्मविषय धीमिधि ॥
 याज्ञा तुम्बकता तेन यत्रो विरक्तमुन्दरी । यस्या श्रीभागवतज्ञेन मासिद् वत्कुलाम्बार् ॥
 श्रीजान् रातेन्वशिरोऽन्ध श्रेष्ठपुत्र मुनिविध । न लक्षैकावेदक्षणात् विदुर्दीक्षितवाहुवन् ॥
 परेन्द्रसिद् दृष्टान्तपतोयत्री मन्वया पुत्र । सुतुर्वीरिन्द्रसिद्दह कसिद् श्रीम्बदान ॥
 कसिद् ज्योऽग्नि सप्तुता मासभक्तिसामया । सिन्धीया हात्ता धम्या विदुर्मौगोदुगाधिन ॥
 धर्मोऽग्नि बहकस्तानामवद् स्वधार्मिकान्वया । धर्मोऽग्नि सप्तुद् सद् स रातेन स्वतज्जत ॥

अन्वय-

लक्षकां लक्षान्तो मूया कर्णीकियोऽन्धपद् । उक्तान्तासीद् लक्षार्थी कश्चिन् विदुर्वां कस्तु ॥
 वास्तुकारो न तुर्णीयो न विरक्तो न तुम्बेय । एत कदापि लक्षीदे सता तद् विक्रवास्तद् ॥
 मन्वो सुकल्याणं च विनीत सप्तकाद् प्रति । वन्पुत्रनेऽस्तुतकोऽमूर् प्रीत कोष्मणेनमि ॥
 देव-कस्तिसिद्धोऽग्नी विद्या-विज्ञानपुत्रक । इतिहासादि-साहित्य-सङ्कलि-सम्कलानि ॥
 सप्तुक्तने स्यात्तस्य धर्मसौकर्यदेवते । मन्वात्त न सिद्धाया दत्त तेन धन धनम् ॥
 मन्वा सत्ता-ममिन्नादौ मूयाऽन्धस्वदानिवत् । दत्ता दान वधानोन्ध प्रोत्साहित्यात् कर्णः ॥
 एव धनेन देवेन ज्ञानेन मुनिविद्या । मनोरं स वधासिधि सन्धर्मोपि सदायया ॥
 अनाम्बदा प्रसङ्गेन क्वचित् स्फुटिहेतवे । कर्तुं सिद्धिद् विविध स कार्य मनसापिन्यवत् ॥
 पूय विता लक्षैवासीद् कल्पवृक्षानर्थि सप्तम् । उक्तान्त् उक्तान्त्कर्णं वलनीय मयाऽन्धम् ॥
 सिन्धीयं क्वच चिन्ने पुत्र प्राप्य सुखम्बसिन् । अद्वास्तदधर्मिवाया विदुषा क्वचि लक्षतम् ॥
 वैभवात्तज्जगत्यं स्याने वा सिद्दि सि क्त् त ने । सिन्धीवदाङ्गित ने न हा न पी द मर्तोविषम् ॥
 श्रीविन्दविषय ज्यो मुनिराज्ञा च विदुषु । श्रीकर्तुं धार्मिदलेन उक्ताविज्ञानक वत् ॥
 तस्य श्रीसन्ध-श्रीहार्द-श्रीवीर-श्रीदीक्षदुम् । वनीमूय मुना तेन श्रीकृत लक्षद् वरम् ॥
 कर्णोन्धेन रमोन्धेन श्रीपदादरपानिदा । र्णो-र्नागाद् चन्द्रोद्दे लक्षविद्या म्पदीमत् ॥
 ज्ञानस्य मुनिना चरि कर्णं वदुपयोगिवत् । ज्ञान ज्ञानविज्ञाना उभैव ज्ञानदुम्बनम् ॥
 लक्षैव वेदया नाथ श्रीमिच्छोक्तुन्धेऽनुना । स्वविच्छेयसे चेवा ज्ञानया ज्ञानमाशिका ॥
 उरतन्वेतया तेन धर्मशीलेन दामिवा । ध्ययित् तुम्बक दम् उक्तकार्यमुपिच्छये ॥
 ज्ञानतां इतिच्छेयेन नैकेषां विदुषा तथा । ज्ञानान्वाज्ञान विष्णुनासाज्ञान्य स वद्वकान् ॥
 लक्षान्वाधिकानां तु वानेकुम्भार्सी मुनि । कर्णं विवाधिकं तस्य सन्ध्यान्धमत्र कश्चित् ॥
 उक्तापि सप्त कर्णं साहाय्य तेन पच्छता । ग्रन्थमालाधर्मवताम महोऽन्दा प्रसृष्टित ॥
 कर्णे विच्छेत्-कर्मोन्धे जाता पुत्र सुवीरता । सन्ध्याऽन्धया शिराधाय विरदाय च दृष्टवा ॥
 तस्य मुकुलपाम्बार्त् सिन्धीवज्ञानमन्वया । भा सि हा न न ता वेव ज्ञानकाज्ञा सप्तारिता ॥
 आसीत्तस्य मन्वेकासाऽन्धी ग्रन्थप्रकाशने । वद्वं चरित् तेन लक्षणवि दि स्फकम् ॥
 दुर्विजासाद् विच्छेत्स्यं श्रीवीर्यासाधनवन्द्याम् । सन्धेवैशय काठेन कर्णं स मुकुली यथै ॥
 इन्दु-म्-दुम्-वेवोन्धे मासे आषाढसम्बन्धे । कतिकातामपुत्रीं स प्रातवान् वरमा गतिम् ॥
 विदुन्धैक उन्धे वेवसे विदुतामय । उपैव प्रवित् सन्धेन उक्तवसेऽनुना पुत्र ॥
 इन्धे मन्वाधिकं वेद्वा वेद्वा प्रकाशता मया । मूयाद् मूले सया सिन्धीकुम्भवीर्यवदशिका ॥
 सिद्धमन्ध्याङ्गाद् कश्चित्तान्भदा सदा । विर वन्द्विन दोके श्रीश्रीवी ग्रन्थपदति ॥

॥ सिंधीजैनग्रन्थमालासम्पादकप्रशस्तिः ॥

कालि कीर्तयारारुको देवो भवतमिदुत । क्याहेलीलि लवाली सुरिया वत्र सुखिया ॥ १
 सदाचर-विद्याभ्यास्य मन्वीरुवते भव । बीजवपुरविदोऽथ राडोपास्यवदुमिप ॥ २
 वत्र बीवुदिसिंहोऽसूद् रावदुत्र प्रसिदिवाद् । कावचदीवतो वत्र सदावदुलाभयो ॥ ३
 मुत्र-मोचमुत्रा भूता जाला वसिद् महसुते । किं कथ्यते कुडीनाथ तदुक्तव्यातज्जमनाः ॥ ४
 पत्नी रावकुमारिणि लकाभूद् गुणवहिता । चातुर्व-रुष कावचप सुवाह-सीज्जवदुविता ॥ ५
 कविपाचोपमार्णा लीमोरीरमुवाहलिद् । वा द्दुव ज्जो ज्जे रावन्वदुकरवा विववद् ॥ ६
 पुत्र किंजनसिंहल्लो जालकावोरतिविप । रजवत् इति पाम्बद् वचाम जनवीकृदम् ॥ ७
 बीरेवीहलनामाऽऽ राजवदुवो कवीच । ज्योतिर्मैवज्यविद्यातो पाव्यावी जलविप ॥ ८
 कावो वद्वेहाद् वो ज्जम् वववदुम् बहूद् । ज्ञात बीवुदिसिंहक बीरी-अव्वासाद् पम् ॥ ९
 सेनापाचोपमेव्वा च तम्पु स्यादिवी । रक्षिण , विक्षिण सन्दद्, ह्को जेवमत्तनुम ॥ १०
 दौर्भावाद् पन्चकोचोले गुह-राती इवराती । विमूढ सपुहाद् सोऽथ वरप्यका विदिमद्, ॥ ११

उपा ५-

ज्ञानवा मैवेपु देवोपु केविवा च बहूद् रावद् । दीक्षितो सुखिको भूत्वा जाले वैवदुमिक्त ॥ १२
 ज्ञावाभ्येकव्याप्राप्ति भावापनेमजाले च । मन्वस्यदुपिना तेन तप्यातप्यवधेविवा ॥ १३
 कवीचा विविवा माच भासीवा पुरोचवा । ज्येका विपचोऽथेव प्रक-भूत्तनवाटिका ॥ १४
 वेन प्रवद्विता मैके ज्ञप्था विद्वज्जालेना । विविता बधो लेका ऐकिञ्जप्यगुमिक्ता ॥ १५
 स च्चुमिः सुविद्विज्जालावलेभ सन्वत । विनविज्जन्वात्ताऽथो कवातीऽमवद् कवीचिद् ॥ १६
 वल तां विदुर्वी ज्ञावा बीमदुवाणवीव्वाज्जवा । सद्दुत सद्दर पुत्रवदवाद् सवमन्वरा ॥ १७
 पुत्रे च्चद्दमदावदि सद्दीवविद्वज्जालेभ । विद्यावीठ इति क्यात जलिकिती वदाऽमवद् ॥ १८
 कावाकेवेन कावोविदुक्क स महाभवा । ली-सुमि-विधीन्वेन्दे पुत्रावप्याव्यमन्दिरे ॥ १९
 कर्वाणामक कावद् सन्वदुप्य वद् वद् वत्र । गला जर्मवद्वे स ललासुदिसिमीकान् ॥ २०
 वत्र भागस वैहो उरुधर्मे च लविपम् । कावावालोऽपि सन्वतो वेन सवाज्जवर्धनि ॥ २१
 वमाद् उतो विदिदुक्क विद्या वाग्निविदेवने । विपवन्वकवीन्व बीववीन्ववदुपुमिरे ॥ २२
 सिंधीनरपुत्र जेवज्ञानवीठ वदावितव् । स्थापित वत्र सिंधीबीकावकन्वक्य च्चुपुना ॥ २३
 बीवदुदुवसिंहिन द्वाकवीरिण यौमता । सद्दुवर्ध विवकतल जेवज्ञानवद्वारावद् ॥ २४
 जलिविद्वत् कवाली वदेऽथिद्वदुक्कल्लके । सन्वाववद् वदाद् विद्याद् ज्जववद् जेवकाववम् ॥ २५
 लवीव जेववां प्राप्प बीविधीकृल्लकेमुका । सविद्वेवमे देवा प्राप्पत्वा ज्जवमालिका ॥ २६
 ज्येव विपल वल कर्वाणामक पुन । सन्वनासामिकालावप्यदुपिपु प्रवससः ॥ २७
 काले-रके-नेवेन्दुमे सुवाहकवीमिवा । सुदीप्ति विद्वज्जाल कर्वावद्वाराकवीवस ॥ २८
 प्रदुवो भाववीवनां विद्याना पीममिर्वी । कर्वाविद्वत् कवाभूद् प्रवत् सन्वकोऽविराद् ॥ २९
 विदुवा बीमतां वोवाद् सन्वा जाला वदिहिता । भा र वी च वदोकेत वि वा च व व ज्जवद्ववा ॥ ३०
 सद्दुत सव्वावत्त सुदुवा स मुमि कुती । वत्र वभुति तप्यानि सद्दुवोऽथ वद्ववाद् ॥ ३१
 तद्ववेऽन्वद्वा वल सेनाऽपिका ज्जवेविवा । लीकृता वक्रमावेन साऽन्वावाकवपदुविवा ॥ ३२
 नन्द-लीमन्वे-वेन्दुमे वैकले विद्विता पुन । एतद्दमन्वाकवीलीवकृद् वेन सन्वकोज्जवा ॥ ३३
 परामकोर् वलकल बीविधीकृल्लकावता । वाविक्कववनावेन सन्वमात्ता सजाविंवा ॥ ३४
 वदुवा वलसाव्ही पुनकलोवदेवत । सविद्वदुपिपुमन्दिरेववप सुदीर्विवा ॥ ३५
 देवावले वले काडे सिंधीवधो विववा । सलल ज्ञानमेवावा साद्दुववकरोद् बहूद् ॥ ३६
 विद्वकवेऽन्ववर्मे पद्वीवीवद्वामवे । राडेन्दुविद्वमुवैव सद्दुत तद्दवकटा ॥ ३७
 पुनकोऽपिनुवोऽथ सन्वागात्तुते पुन । वन्दुवैवो पुनवेवो कर्वावक मद्दववाद् ॥ ३८
 सन्ववावावलिज्जवर् विद्वज्जाल कविज्जवद् । बीविधीवदुमि सर् वद्विनाऽसुविधीवो । ॥ ३९
 विद्वकवदुवदुवा वविवाववद्वा सद्दा । निर नन्दविप कोके विनविज्जवद्वारा ॥ ४०

सिंधी जैन ग्रन्थमाला

अधावधि मुद्रितग्रन्थनामावलि ॥

- १ वेदुत्तावर्णित ग्रन्थविशालम्बि सु-
ल्लस्यत इत्य
- २ पुत्रावतमवन्धसमह बुध्नि ऐतिहास-
कीदृती वनेव निरुप्य मंत्र
- ३ राजसोवन्धुनिरुपित प्रवन्धकोश
- ४ विनासदुष्टिण विविधकीर्षकस्य
- ५ वेदोपयोगोपायस्य वेदान्तमुद्राकारस्य
- ६ यदोपयोगोपायस्य जैनतर्कशापा
- ७ हेमचन्द्रकर्मका प्रवन्धकीर्षका
- ८ महाभारतस्य अक्षरमुद्रावधायनी.
- ९ महाभारतविशालम्बि-हिन्दी भाषान्तर.
- १० महाभारतस्य प्रवन्धकवर्णित.
- ११ विविधोपायस्य विदुः वातुचन्द्रवर्णि-
कृत
- १२ यदोपयोगोपायस्य विदुः वातुचन्द्रवर्ण-
कृत.

- १३ जनेगवर्णित बृहत्कथाकोश.
- १४ जैनपुस्तकप्रवृत्तिसमह, प्रथम भाग
- १५ जैनपुस्तकप्रवृत्तिस्य प्रवृत्तिस्य
- १६ जनेगवर्णित विप्रसमुच्चय
- १७ जनेगवर्णित विविधव्याख्याकारस्य
- १८ जनेगवर्णित विप्रसमुच्चय
- १९ जनेगवर्णित विप्रसमुच्चयस्य
- २० जनेगवर्णित विप्रसमुच्चयस्य
- २१ जनेगवर्णित विप्रसमुच्चयस्य
- २२ जनेगवर्णित विप्रसमुच्चयस्य
- २३ जनेगवर्णित विप्रसमुच्चयस्य
- २४ जनेगवर्णित विप्रसमुच्चयस्य
- २५ जनेगवर्णित विप्रसमुच्चयस्य
- २६ जनेगवर्णित विप्रसमुच्चयस्य

Life of Hamaśāśīchārya By Dr G Bühler

संप्रति मुद्रणाग्रन्थनामावली ॥

- १ अक्षरमुद्रावधायनी
- २ पुत्रावतमवन्धसमह
- ३ विविधव्याख्याकारस्य
- ४ जैनपुस्तकप्रवृत्तिसमह, भाग २
- ५ विविधव्याख्याकारस्य
- ६ जनेगवर्णित विप्रसमुच्चयस्य
- ७ जनेगवर्णित विप्रसमुच्चयस्य
- ८ जनेगवर्णित विप्रसमुच्चयस्य
- ९ जनेगवर्णित विप्रसमुच्चयस्य

- १० जनेगवर्णित विप्रसमुच्चयस्य
- ११ जनेगवर्णित विप्रसमुच्चयस्य
- १२ जनेगवर्णित विप्रसमुच्चयस्य
- १३ जनेगवर्णित विप्रसमुच्चयस्य
- १४ जनेगवर्णित विप्रसमुच्चयस्य
- १५ जनेगवर्णित विप्रसमुच्चयस्य
- १६ जनेगवर्णित विप्रसमुच्चयस्य
- १७ जनेगवर्णित विप्रसमुच्चयस्य
- १८ जनेगवर्णित विप्रसमुच्चयस्य

मुद्रणार्थे निर्धारित एवं सजीकृतग्रन्थनामावलि ॥

- १ जनेगवर्णित विप्रसमुच्चयस्य
- २ पुत्रावतमवन्धसमह
- ३ जनेगवर्णित विप्रसमुच्चयस्य
- ४ जनेगवर्णित विप्रसमुच्चयस्य
- ५ जनेगवर्णित विप्रसमुच्चयस्य
- ६ जनेगवर्णित विप्रसमुच्चयस्य
- ७ जनेगवर्णित विप्रसमुच्चयस्य
- ८ जनेगवर्णित विप्रसमुच्चयस्य
- ९ जनेगवर्णित विप्रसमुच्चयस्य
- १० जनेगवर्णित विप्रसमुच्चयस्य
- ११ जनेगवर्णित विप्रसमुच्चयस्य
- १२ जनेगवर्णित विप्रसमुच्चयस्य
- १३ जनेगवर्णित विप्रसमुच्चयस्य
- १४ जनेगवर्णित विप्रसमुच्चयस्य
- १५ जनेगवर्णित विप्रसमुच्चयस्य
- १६ जनेगवर्णित विप्रसमुच्चयस्य
- १७ जनेगवर्णित विप्रसमुच्चयस्य
- १८ जनेगवर्णित विप्रसमुच्चयस्य
- १९ जनेगवर्णित विप्रसमुच्चयस्य
- २० जनेगवर्णित विप्रसमुच्चयस्य
- २१ जनेगवर्णित विप्रसमुच्चयस्य
- २२ जनेगवर्णित विप्रसमुच्चयस्य
- २३ जनेगवर्णित विप्रसमुच्चयस्य
- २४ जनेगवर्णित विप्रसमुच्चयस्य
- २५ जनेगवर्णित विप्रसमुच्चयस्य
- २६ जनेगवर्णित विप्रसमुच्चयस्य
- २७ जनेगवर्णित विप्रसमुच्चयस्य
- २८ जनेगवर्णित विप्रसमुच्चयस्य
- २९ जनेगवर्णित विप्रसमुच्चयस्य
- ३० जनेगवर्णित विप्रसमुच्चयस्य

समर्पण

पूज्य मातांते

जेमना उपकारोने दुःप्रतीकार तरीके शास्त्रकारोए जगन्मया छे, तेमा मातांतु स्थान महत्त्वतु छे । ७ वर्षी वयमा पितृ-सुखपी अचित्त यथेला, शिक्षक मिताना पुत्र आ बालकने, वात्सल्यभरी मली मोळी जे माताए विद्यावान् सुशिक्षित उत्कृष्टरी बनानवा प्रोत्साहित कर्यो, विशेष विद्याभ्यास माटे १३ वर्षीनी वयमा पोताना बालकने दादा (लौराड्ड)पी काशी जेवा विद्याभाम तरफ मोकलवा अनुपम उत्साह दर्शाव्यो, सनत् १९६४ थी १९७२ सुधीना ८ वर्षी सुधी सतत पुत्रवियोग सहन कर्यो, ममताभरी मायाळु जे माता (नन्दु) स २००० नी विजयादशमीर् कबोदराची लग्गे सचर्या, तेमनी पवित्र स्मृतिमा प्रयत्न-संपादित धर्मोपदेशमय आ प्राचीन कृति सम्पादक समर्पण करे छे—

ला. भ. गान्धी

त २००५ वै सु. ११

विषयानुक्रमिका

सिंधी जैन ग्रन्थमाला - श्री महादुर सिंहाजी स्वरणाजलि	१५-३ ११
धर्मोपदेशमाला - प्रास्ताविक चर्चात्मक	११२-३ १५
प्रस्तावना	१-२२

अध्यायम्	विषय	पृष्ठे	अध्यायम्	विषय	पृष्ठे
१-१	ब्रह्मसूत्र, सविधेयधर्माद्यम्	१	१५	मातृसमप्रवृत्तधाम	१५
२	पुण्यधर्मोपदेश	२	१६	तत्र अन्तर्गतिक (बद्धबुद्ध) कथा	
	शुद्धे धनसत्त्वव्याहकथा [१]	२-५		[२०]	१७-७२
३	शौचधर्मोपदेश	३	२०	सत्य करुण्यकथाया	७२
	शौचे राज्ञीमतीकथा [२]	६-२१	२४	तत्र यथिह्वायायाकथा [२१]	७२-७३
४	शोकधर्मोपदेश	४	२५	शोकस्य गुणधर्मम्	७३
	तत्प्रथमाधे कथप्रहारिकथा [३]	६१-२३	२५	तत्र राजकुमारकथा [२२]	७४
५	भास्वधर्मोपदेश	५	२६	पुत्री अनेकव्यतिहृत	७४
	भास्वे इन्द्रायुधकथा [४]	२३-२५	२६	तत्र अग्न्ययुक्तकथा [२३]	७४-७५
६	अर्थधर्मोपदेश	६	२७	विभवधर्मसमुत्थितां प्रपत्तयेति	
	अर्थे जलधर्मोपदेश [५]	२७-२९			
७	स्वधर्मोपदेश	७			
	स्वधर्मे काशिकथुरिकथा [७]	३०-३२			
८	दण्डधर्मोपदेश	८			
	दण्डधर्मोपदेश	३२			
९	राजधर्मोपदेश	९			
	राजधर्मोपदेश	३२-७१			
१०	धर्मोपदेशचक्रान्ता नित्योपदेश	१०			
	गुरुविषये गुणधर्मोपदेश [९]	७१-७३			
११-१२	श्रीमहावैशम्पयणम्	११			
	तत्र गुणधर्मोपदेश - राजपत्नी कथा [१०-११]	७५-७६			
१३	अध्यायधर्मोपदेश	१३			
	तत्र शिशुकथा [१२]	७६			
१४	आत्मधर्मोपदेश	१४			
	तत्र सायब-शासककथा [१३]	७७			
१५	धर्मधर्मोपदेश	१५			
	तत्र सुमान्द्यकथा [१४]	७८-७९			
१६	धर्मधर्मोपदेश	१६			
	तत्र इन्द्रधर्मकथा [१५]	७९-८०			
१७	धर्मधर्मोपदेश	१७			
	तत्र अन्तर्गतिक, पुनःसायिपुत्रे च अन्तर्गतिक	८०			
१८	धर्मधर्मोपदेश	१८			
	तत्र मातृसमप्रवृत्तकथा [१६]	८१-८२			
१९	धर्मधर्मोपदेश	१९			
	तत्र सुप्रधानादरे राजसुताकथा [१७]	८३			
२०	धर्मधर्मोपदेश	२०			
	तत्र सुप्रधानादरे राजसुताकथा [१८]	८४			
२१	धर्मधर्मोपदेश	२१			
	तत्र अन्तर्गतिक, पुनःसायिपुत्रे च अन्तर्गतिक	८५			

नामवाच्यम्	विषयः	पृष्ठे	नामवाच्यम्	विषयः	पृष्ठे
तत्र वैदिकावधानकम् [३७]		१११	तत्र वर्तुण्येवकथा [५२]		१११
तत्रैव भद्रिनीकपालकम् [३८]		"	२५ देवद्विभु भावने देवानुत्कर्षार्थं मेघनीकम् "		"
" सखिचक्रनामकम् [३९]		११२-११२	तत्र सङ्गमाचार्यकथा [५३]		"
११ परीक्षायां विरलपञ्चमम्		"	२६ उक्तसङ्गीतसङ्घस्य न चित्तिलि		"
तत्र नन्दिदेशकानुपकथा [७०]		११३-११५	तत्र सार्थीरीवधनकनकनित्यकथा [५४]		११३
तत्रैव सुखसाकथा [४१]		११५-११६	२७ विषयनि पुत्रप्राप्तिलोभस्य जयते		११५
१२ सुखविपर्ययात् सङ्गुहा		११६-११६	तत्र सुभूमचक्रवर्तिकथा [५५]		"
४ आश्विकपुत्रा [४२-४५]			२८ आत्मकामनि कर्मे मुक्ता शिव वरते		११६
१३ अविद्यात् लज्जे क्षीयमाना पश्य		११६	तत्र वेदकन्युकथा [५६]		"
तत्र सङ्गदशाचक्रवर्तिकथा [८६]		१२३-१२३	२९ महाविमान नाम कर्णे न कर्णेन		"
तत्रैव प्रथमवासुदेव (विदुष्ट)			तत्र विषयकसुहृता (राजमहिता)		
" कथा [४७]		१२४-१२६	कथा [५७]		१२७
सन्निधाने उपस्थि तन्नावासुदेव			३० भाववर्तिकायां मुनिपेच्छतो न शीघ्र		"
कथा [४८]		१२६-१२७	तत्र सङ्गमर्ककथा [५८]		"
१५ कर्मलोच मुनिमत्स्य परितरुं पुत्रसि			" सुखसुखविषयकथा [५९]		"
सीकलयम्		१२७	३१ पादमीलो क्षीयमानमनि राज्य न सुहृदि १२७		
तत्र नन्दिदेशकमुनिकथा [४९]		"	तत्र अमकमहायातयोः कथासङ्के [७०, ७१]		
१६ अन्य क्षेत्र-काठ-भावनशीतल भवसाय			३२ सुखानुसारेण कालसङ्कटा विद्या कर्तव्या "		
पदासिचयम्		१२८	तत्र केशियायणधरकथा [७२]		१३०-१३२
तत्र आर्षवज्जालयानकम् [५०]		"	३३ तस्मिन् मोक्षसुखे सुखमिन्दुमिच्छन्		
२० अस्त्राग्नि पुत्रसिद्धिं भगता लोहस्यम्		"	विदुक्लानि दू नामि यत्ते		१३३
तत्र गणपतिगीतम् उवाचरथम् [५१]		"	तत्र मधुविन्दुसुहृवनरकथा [७३]		"
२० सुहृत्सप्रेया ददा सुकर्मलोचोऽग्नि पुत्रस्ये		"	३४ तन्नेति साठमिन्नकथा सुनय प्रसया		"
तत्र चित्तानसा कथा [५२]		"	तत्र श्रेणिकानुपकथा [७४]		"
तत्रैव प्रथमका कथा [५३]		"	३५ साठमिन्नकथा दुर्योधोऽग्नि धर्मे		
२१ केषन सुहृत्पुत्र इव गोपालसुखकामि			अथारुणि विरिं कुपीष्ट		"
कथ इत्यसि		१३५	तत्र अमयसन्निकथा [७५]		१३५
तत्र विषयज्ञेयकथा [५४]		"	३६ आन्यो केवलज्ञानम्		"
१ केषन योगात् सुखसा धीतकर्मोऽथ			तत्र शम्भुसङ्गक्षिप्यकथा [७६]		"
सिद्धिं प्राप्ति		"	" सन्धकशिष्यकथा [७७]		"
तत्र अरुणचक्रवर्तिकथा [५५]		"	३७ राक्षीमनसाराया विदुषसुखा कलि		
२० अरुणकथेऽग्नि इत्यथत त्त्वामोऽथ		"	इत्यनीका भवन्ति		१३६
तत्र वाजस्यकथा [५६]		१३९-१३०	तत्र द्विजतन्त्रकथा [७८]		१३६-१३८
२१ सुखचरसङ्गद्वारा अग्नि देवतये		"	३८ दृष्य (पात्र) नो स्थिष्य विद्या साक्षा "		"
तत्र बोद्धामादिल-जमानि रौद्रमुत्ताना			तत्र विदुर्मिथिकथा [७९]		"
निद्रकथा भवत्य चरित [५७-५९]		"	" अज्ञानजननेमाना विद्या मोक्षकथा "		"
२२ विद्यालक्षणेऽग्नि इत्युर्ध्वं सुसुखाभ्यवस्यते			तत्र काठकसुहृदकथा [८०]		१३९
तत्र परित्याजक-बोद्धातलकथा [६०]		"	३९ विरिंरुं साङ्गो राजस्यम्		१४०
२३ अज्ञानिभेदेऽथ साठिनां साण्वेदु भवति		१३९	तत्र सुत-बद्ध-पुण्यमिन्न-		
तत्र कालिककथा [६१]		"	कथा [८१-८९]		१५१
२४ तीर्थहरनामक्ये कथम्		"			

भाषाभाष्य	विषय	पृष्ठे	भाषाभाष्य	विषय	पृष्ठे
तथैव बाहुसंख्यु (अरतजीव)			७३ तयो विषय-स्यमादिषु न स्वाने स्वाने		
कथा [८३]	"		विशेषित, स साङ्गिनियोगस्य		१८३
१० सुत-अथसोत्पत्त्यधिकार्यं वरुणिका			तत्र सुतस्यकथा [९९]		३०
कथिका	१५१		७४ तपसोऽभाव्ये वरुण, तपसि तलोऽपि		
तत्र महाबाहोर्धर्म-सुख्यस्यस्यमहाकथा			कामिण सुतस्य		"
[८४]	"		काम्यो सुतस्यकथा [१००]		"
११ इत्यासी, अथासी	१५४		७५ तत्र ह्यु न न वास, तत्र ह्यु सुतो		
दुष्वाटया धनसार्धबाहकथा [८५]	१५५		सुतो यो न करोति		"
भाषाटयीस्यकथम् [८६]	"		तत्र तन्तुवेनात्तकथा [१०१]		"
१२ केचन द्वाभ्यां सुनिवर्तये सुव्यसे	"		७६ सुत सुतोना न कथनीयम्		१८५
तत्र इन्द्रबाहकथा [८७]	"		तत्र कथकथकथा [१०२]		"
अन्वे बहुविधेन वचनेन सुव्यसे	"		७७ विदोक्तु आत्म्य प्रकरोति		१९१
तत्र अङ्गदत्तस्यकथार्थिकथा [८८]	१५६-१५८		तत्र सुवर्तमानन्दकथा [१०३]		३०
१३ अश्विनाथमेव कर्तव्यमेव	१५८		७८ यो द्वाभ्यां कथितेन द्वौ मन्वसु वचयति		१९७
तत्र धामेयकथा [८९]	१५९		तत्र श्रीशरिषकथा [१०४]		"
१४ विदुष्यकारमाह्वयम्	१६०		७९ कथार्थकथयतिता मन्वसुना		
तत्र मेघद्वारकथा	"		मिथकथं कथयति		"
१५ तत्रम् अतिक्रम्य कर्तव्येषु कर्तव्यानि कथयते	"		तत्र वासुदेयकथा [१०५]		१९५
तत्र उद्वपनकथा [९०]	"		८० तपान्तरमन्वसितं सुखं कार्थकथं		
१६ पत्नीविक्रमयन्त प्रादुरात्मने शिल्पं			न वेकते		१९०
इत्या अदिहमेव सुकृति	"		तत्र क्षान्दरचन्द्रकथा [१०६]		"
तत्र बोधिस्यमथशिवस्यसुमिकथा [९१]	"		८१ मन्वसुरा यो विवर्तते सुकथा यद्		
१७ चारुलीका इहलोकेऽपि कथं कथयते	"		सुकृति		"
श्रीशोभी मधोसोऽथवेन वदः [९२]	"		तत्र सुकुमारिकाकथा [१०७]	१९८-१९९	
१८ सङ्ग सुकथं सुन्दरप्रसुन्दरा या			८२ श्रीशेन्द्रियादिचरणा अप यति		१९९
अनासित अकलीया	"		श्रीशेन्द्रिये महाकथा [१०८]		"
तत्र विष्णुकुमारकथा [९३]	१६२-१७५		श्रीशेन्द्रिये राजकुमारकथा [१०९]		"
१९ रोमसुरा इति सुन्दर कथयति किं			श्रीशेन्द्रिये श्रीवासकथा [११०]		"
वेकयति	१७५		शङ्खुचिन्द्रिये माधुर्यसिद्धकथा [१११]		"
तत्र सप्तकुमारसुमिकथा [९४]	१७५-१७७		८३ श्रीशक्तिस्वार्थिदुष्टिप्रमेयाः सुत-सोम्या		
७० सुत-सोम्यश्रीशेन्द्रा अमरस्यसुन्दरीनाम्			मयि		१०१
सुव्यसे	१७७		तत्र रोहकथिकथा- [११३-११०]		२०१-२०३
तत्र विद्याभरधाह्वय कथा [९५]	"		८४ तत्रा नशिका सुतं मर्तोमपि वाचयति		२०८
७१ तत्रकथारमाह्वयम्	१७८-१७९		तत्र वज्राकथा [११२]		२०८-२०९
तत्र धावकसुतस्यकथा [९६]	"		८५ विवर्तयति स्वानं न प्रकरोति,		
७२ तत्रकथालोकविधयता संवसोमेतु			विषयवाद् प्रकरोति		"
मिथमेव वरुणस्यम्	"		तत्र मिथकथा [११३]		"
तत्र कुसुमकथा [९७]	"		८६ महाशक्तिसेन्द्रवचना उपदिष्टं सम्यग् न		
मिथमेव वरुणस्यम्	"		प्रतिपद्यते		"
तत्र कुसुमकथा [९७]	"		तत्र पुष्पासुमिचिन्मकथा [११४]		"
मिथमेव वरुणस्यम्	"		८७ द्वेषात्कथयति सुतं प्रकरोति च		
तत्र कुसुमकथा [९८]	"		ह्यु न प्रकरोति		"

संख्या	विषय	पृष्ठ	संख्या	विषय	पृष्ठ
४४	तत्र धर्मवर्धनविवेकनम्कथा [१४४]	२११-२१२	१५	तत्र धृतिवृत्तिकथा [१५१]	"
				१५ कथिविधा व्यापकसम्यक्त्वम्	"
४५	तत्र शोचिता अग्नि कोपपरा सुखम् सहस्रश्लेषे कथयति	"	१६	तत्र पद्मधीकथा [१५२]	"
४६	तत्र कण्टक-कुचकण्ठकथा [१४५]	"	१६	तत्र श्विनदेवकथा [१५३]	२१३
४७	तत्र सम्पद् भवाभोग्यम् मिलासं कथयति, सुरोत्तमोच्चकम् सुखी मयति	"	१७	तत्र त्रिलोक्यकथा [१५४]	२१४
४८	तत्र मह्य-ज्ञानकथा [१४६]	२१३	१८	तत्र महासाधुमतिकथा [१५५]	"
४९	तत्र सुखला रामकथा सुखो रामविरह कथयति, मित्रमग्नि आग्निं यज्ञियति	"	१८	तत्र महासाधुमतिकथा [१५६]	२१५
५०	तत्र धर्मसिद्धकथा [१४७]	२१४	१९	तत्र महासाधुमतिकथा [१५७]	"
५१	तत्र इन्द्रलोऽग्नि तुल्य-रहितकथा दूरा न भवति, अग्निभक्तोऽग्नि तुल्यै दूरा मयति	"	२०	तत्र महासाधुमतिकथा [१५८]	२१६
५२	तत्र धर्मसाध-धर्मपञ्चकथा [१४८]	२१५	२०	तत्र महासाधुमतिकथा [१५९]	२१७
५३	तत्र कुचकथा अग्ने कन्या पृथि-कोपक इव नो दीप द्वादि, कर्तव्यं यति	२१६	२१	तत्र महासाधुमतिकथा [१६०]	२१८
५४	तत्र पद्मकथा [१४९]	२१६	२२	तत्र महासाधुमतिकथा [१६१]	२१९
५५	तत्र शोचिता अग्नि न च इति कथयति, इन्द्रोऽग्ने कथयति अ महासाधु	२१७	२३	तत्र महासाधुमतिकथा [१६२]	२२०
५६	तत्र सुखलापुत्रकथा [१५०]	"	२४	तत्र महासाधुमतिकथा [१६३]	२२१
५७	तत्र महासाधुमतिकथा अग्निमिति	२१८	२५	तत्र महासाधुमतिकथा [१६४]	२२२

स्व० बाबू श्री बहादुर सिंहजी सिंघी

अने

सिंघी जैन ग्रन्थ माला

— [स र ण ङ लि] —

धर्मोपदेशमाला - प्रास्ताविक वक्तव्य

जैन पूर्वाचार्योंके प्राथमिक कथाना साधु, साध्वी, श्रावक अने शक्तिवा - एन चतुर्विध जैन सभने निबन्धित भगवान्-गुणना माटे जे केटलाक सामान्य ज्ञानेवाचक प्रकरण मन्थोनी रचना करी छे तेमानो प्रस्तुत 'धर्मोपदेशमाला' प्रकरण पन एक प्रदुल ग्रन्थ छे.

ए प्रकरणना प्रकरणपोसां सौधी मुख्य अने सौधी प्राचीन प्रकरण ग्रन्थ ते धर्मशास्त्र गणीनो कनायेछो 'उपदेशमाला' नामनो छे जेकी मूळ ५४१ श्लोक नामानो छे, बहुत न ज्ञानीय समस्यो लईने वर्तमान समय सुधीमा, ए प्रकरणहु पठन-गुणन जैन ब्रह्मगु बर्षोवा न्यायकरुने बहुत आननु छे, शेषाम्बर सपना सर्व प्राचीन समस्योमा ए प्रकरण पन्थनी विशिष्ट प्रकरणनी ललित मन्थनी आवी छे अने आधुनिक मन्थोना जेठली न ब्रह्मगु एते स्थापना करवानो प्रचार चालयो आव्यो छे.

ए ग्रन्थना कथा धर्मशास्त्र गणी कपारे तथा तेजो पोकरा निर्णय करवा माटेनां पुरां प्रमाणो हनी ज्ञान नवी बधा, ए ग्रन्थना केटलाक व्याख्याकारोए तो, तेजो ज्ञान भगवान् महावीर स्वामिना न एक इच्छ-दीक्षित शिष्य तरीके बनेकथा छे अने ए टीते ए प्रकरणनी रचना महावीर स्वामीना समयना न बरली होवानी मान्यता प्रकट करी छे, परंतु ऐतिहासिक दृष्टि लेन न प्रकृत भाषाना अक्षरना तुल्यतामक अवलोकन विवेरेनी दृष्टि, ए ग्रन्थ तेठको प्राचीन हो सिद्ध नवी बरतो. कारण के एना भगवान् महावीरना निर्वाण बाहु केटलाय कैना कही बरला आर्य बक आदि आचार्योंनो पन प्रकटकरे बनेन बरलो मने छे, तेवी इतिहासज्ञानो दृष्टि ए ग्रन्थ, विक्रमना ४ या - ५ मा कटक इरम्याल के तेवी न पकरीना पक्षाध कैकना रचाबलो सिद्ध बाध छे, ए समय गने ते होय, परंतु भूतकालना १२००-१४०० जेठला बर्षोवी जो निश्चित रूपे धर्मशास्त्र गणीनी ए इति शेषाम्बर सपना चतुमान्य बरली छे, बरली बहुत सुस्पष्ट छे.

ए 'धर्मोपदेशमाला' मा सामान्य प्रकारे सर्वकथाना जैन सभने जीवननां वाचरवा अने अनुसरवा सोन्य ज्ञान, ध्यान, तप, सपम, क्षमा, दया, चित्त, विवेक, अनुकथा, अपरीग्रह, निर्ममता, निर्दोषता, अग्रजाय अने अनासक्ति - इत्यादि इत्यादि विविध प्रकारना आत्मवि-शुद्धि अने आध्यात्मिक लक्षि कराना गुणोना बहुत न सरल अने सुकोय टीते परंतु अक्षर-रकरक अने आदेशात्मकरूपे, सुन्दर उपदेश आपनवामा आव्यो छे बाध: नचदीक्षित साधु - साध्वीओ अने स्पृहलतवादी श्रावक - शक्तिवाओ माटे ए प्रकरणने कटक करवानी अवका तो निबन्धित टीते बहुत वाचन करवानी परंपरा बहुत जना कालवी जैन समाजना चली आवे छे. प्रकटकरे पोते पन एना अन्त नामना बहुत छे के "आ उपदेशमालाके जे मनुष्य अने छे, सामके छे अथवा इच्छता धारण करे छे ते मनुष्य, पौताना आत्महितने नवी बने छे अने ते प्राचीने सुखदायक (नार्थ) वाचनी बने छे."

उपदेशवाचकमेवं ओ पदाद् सुपद् कुपद् वा द्वियत् ।
सो ज्ञापद् अन्वष्टिद्, नाड्यत् सुद् समापद् ॥ ५३९ ॥

वेम अ ए मन्थना महत्त्वतु वर्जित करता अथकार पोते अ कहे छे के - आ उपदेशमात्रा रूप मन्थकृति, एना अथका अने भोग्यवर्गमे ज्ञान्ति करतारी, वृद्धि करतारी, कल्याण करतारी, सुजात करतारी, वेम अ विर्वाण कळ आततारी छे.

संज्ञिकरी वृद्धिकरी कल्याणकरी सुजातकरी व ।

होद् कङ्कस्त परिसाद् तद् य तिभ्याथकळदाई ॥ ५४१ ॥

आ एते मन्थकारे पोते अ ए प्रकरण मन्थना पठन वेम अ अथपत्तु विशिष्ट साहाय्य कथावेत्त होकापी, वेम अ एना विषय करैजा विविध प्रकारना प्रयोग उपदेशात्मक अथकोनी हृदयंगमवाची, अद्यापीठ सुसुद्ध जनने ए मन्थ बहु अ द्वितीयदेशक अने सुवागीशेरक ज्ञानको रह्यो छे अने ऐपी अ एना पठन-पाठनको सतत प्रचार बाल्यो आब्यो छे.

ए मन्थनी जापी सुवसिद्धि अने समाररता जोई, एना अनुकरणरूपे ए पद्धीया मन्थान्न आनाथोप पण, ए शैलीय अने ए अ प्रकारना, केटलाय तथा तथा उपदेशात्मक प्रकारक मन्थोनी रचना करी छे, जेका हरिभद्रपुरित्तु 'उपदेशपद् प्रकरण', जयसिद्धपुरिनी प्रस्तुत 'धर्मोपदेशमात्रा', वेम अ मल्लथारी हेमचन्द्रपुरित्तु 'पुष्पमात्रा' आदि जनैक कृतिओ मन्थानी प्रकाय वेम छे

जयसिद्धपुरिय आ कृति मुख्यतमे धर्मदास मन्थोनी उक्त 'उपदेशमात्रा' अनुकरण-रूपे अ बनानी छे ए एनी रचना जोका स्पष्ट ज्ञाप्य छे, कारण के एका सूचबेला उपदेशो अने वेमनी पुष्टिवादे कहेलेका कथानकोनो जोटी भाग, ए उपदेशमात्राका अ आकारे प्रथित करवामा आब्यो छे. उपदेशात्मकानी उपदेशात्मक अर्थको बकारे विस्तृत अने बकारे वैविध्य करैती छे जारे प्रस्तुत धर्मोपदेशमात्राकी रचना अक्षिप्त अने सूचनारमक रूप छे मन्थकारको उपदेश उपदेशात्मक अथननी अर्थको करवा लघुउपदेशसूचक कथानकोनी नामावलि सूचनयानो विशेष देखाय छे, अने ऐपी वेमने ९८ कथाका भा ज्यु प्रकरणमा, मित्र मित्र उपदेशोनी सूचक १५८ केटली कथाओकी नामावलि प्रथित करी दीबेली छे जारे धर्मदास मन्थोनी उपदेशमात्रा जे ५४१ गाथा केटली सुरत्त कृति छे, जेकां उदाहरण ७० केटली अ कथाओनो उदाहरण करवामा आब्यो छे.

मन्थकारे भोगानी प्रस्तुत नूतन कृतिनी रचना करवा पूर्व, धर्मदास मन्थोनी कथ 'उपदेशमात्रा' उपर विस्तृत विवरण कर्युं हतु जेनो उदाहरण जनैक देखावे आना करवामा आब्यो छे अने जे जे कथाओ उक्त विवरणमा वेमने विस्तृत रूपे प्रथित करी छे जेनी पुनर्प्रथित आ विवरणमा न करवा ते विवरणवाची अ ते वै कथाओ जापी वेमानी भ्रमजय करी छे.^१ पन्द्रमा शैकमा पाठय, संयात, महत्त्व, देवपत्तव विधेरे सातोना प्रथिद्ध ज्ञानमन्थकोनो अथकोन्य करी, जोई कलोचक सिद्धने 'हरद्विप्लविका' नामनी जे एक बहु अ अथकोनी अने प्रमाणमूल प्राचीन जैन मन्थोनी 'सूचि' बनानी छे, जेका पद्य ए विवरणनी पदके के एमनी 'उपदेशमात्रासूचि'नी बोध देवामा आब्यो छे, अने ऐनी रचनामात्रक रूप जेकां बोधी छे. ते अनुपादे सं. ९१२ मा पदके के प्रस्तुत धर्मोपदेशमात्राविवरणकी सजाति

१ कृषी, पृष्ठ ८१, ८१, १००, १०१, ११६, ६२८, ११० आदि उपर करैजा उदाहरण

पूर्व, वे वर्षे उपर, तेनी रचना करी हती.^१ ए वृत्ति अर्थात् कदा जोषामा आनी नवी. संभव हे के तेन इत्यवसारे प्रस्तुत विवरणनी अन्ये ठावी प्रकृति उच्चैमे पोटाया सात, समस्त सुकसुत आदिओ योग्य परिचय आण्यो हे, तेन ए वृत्ति = विवरणमा पय आण्यो होच अने र्मा अन्वकार विवे कोई विशेष ऐतिहासिक ज्ञातव्य पय नोंधान्तु होच. निद्रानोच ए वृत्तिनी शोध करती जोईए अने उपलब्ध बाय ले तेने पय प्रकाशमा सुकडानी प्रवृत्ति करवी जोईए.

सकडारे पोटाणी जे एक अन्य विशिष्ट रचनाओ पय अक्षेप, प्रस्तुत विवरणनी प्रकृतिमा करेलो हे ते पूर्वकथमा मात जोषामा नवी आची परतु तेनो अल एवो पुढित भाय मात जोषामा आण्यो हे. ए रचना ते 'नेमिनाइपरिय' हे

अन्वकार बहे हे के— 'अथ सुधी आ जगत्मा हीप, सतुद, कुलनबंध, चन्द्र, सूर्य अने स्वर्गा देवो विद्यमान रहे आ सुधी आ विवरण पय, 'नेमिचरित'नी जेम प्रसार पावतु रह्यो. (प्रकृति गाथा २७, पृ. २२९) अने अने हे के अन्वकारनी रचनाओंमा ए 'नेमिचरिय' कदा च सोपी मोटी अने महारवनी वृत्ति ह्यो. जेसलवेरना भडारणा, ए अन्वनी राखनकनी प्रविन्न बोधाक पुढक पाना मात जोषामा आण्यो जेवो एक पातु अन्वना अन्वभागांतु पय एहि गौचर वातु ह्यु.

ए पानामा सवनी अन्वप्रकृतिनी वेदलोच मात सने उपलब्ध बवो हे जे आ नीचेनी पक्रीओमा आपणामा आवे हे

- (२) नेमिचरितोप इवा-इति केवलाएवम पि । परिपठित परिपठित विमलपुत्र * (५ २)
- (३) एव काण्ड एव विदुषणपुत्रो आदिनेमिस । रावराए वहा जगत्सुहृदोपम चरित इ-ए ॥
सिंहकडानाचेल्ये मातुकाणिम अविचमदमिते । सिंहपादुनिजइपरिय [पैरि !] पयचवो ॥
पयं च... (५ ३)
- (४) * 'सुतसु पि बीषो रोचिण्यइ अरुमि एमलि ॥
मनमोरोडिपुनाए आदुरमसकडकसने अये । होअरीच केवलि सिवड[वा]ए अमुनि वेदिणया ।
एत पि कमाचरीओ तस पि वेचवनी महापणे । पयवो च... * (५ ४)
- (५) बीषो परिपुमिवायनाचरो । ओ सुकवाचकड रोचिण्यइ चहुनवेदि ॥
सिंहि कमाचरी कडवपयो वहा जगलेयो । अह जगत्सुहृदो पि आ बीषो हे आनि कुवली ॥
एत पि सिपणायन (५ ५)
- (६) * हेमवहुचसिपणचविहुरियमपयो ॥
अयोसदि निषोसदि जगोपदे सिमिहउदेकण्यो । जिपडीपणय चरित पुपमाकडे नि पवरी ॥
बीषो अहेलि पुपणयभूषिओ मलिच * (५ ६)
- (७) सिंहि अविहउलिपरेज । ममएत पि एत एव सिमिनेमिओ परिय ॥
सिमेनेमिहउपरिय कडन अमजिअ वए पुण । एतवत मलि * (५ ७)

दुर्भाये ए पानानो ठावी मातुएवी उचमम एक हवीयात करया वपारे मात तुटी मचओ होवाची, प्रकृतिमात पात अंदिअ कवमा अ मेळपी उवाचो हे ए जे लेकतु पय जोषामा आण्यो हे तेनो पयक २३८ नो हे. पयवी कडाई उवाचय २६-२७ इंच वेदवी होवाची तेन ज वरेक वृत्त उपर ६-७ पकियो उखेळी होवाची, उचमम वारेक हमार लोच = अन्वय वेदलो ए अन्व मोडो ह्यो, एन अतुनान करी इकाय हे.

एक 'बहुरिपिका'वा ए परिपटी नोच लेवाया नवी आची, तेवी हे हवीपयने लेने अकडोकेज कोई पय प्रकृति अंभारमा एवी प्रति उपलब्ध बई नहि होच. परंतु

१ सुवी, जेन बाहिल संतोचक, प्रकडकय, सिटीय अंभ, वसिष्ठ ६

सिंधी जैन ग्रन्थमाला]

ताडपत्रीय प्रति, आदि पत्र

[धर्मोपदेशमाला



अधिकार
पत्र

अधिकारपत्रेण विद्वत्पुत्राणां वदन्तु त्रिविधेषु च । तद्विद्वत्पुत्रान् त्रिविधेषु च ।
 विद्वत्पुत्रान् त्रिविधेषु च । तद्विद्वत्पुत्रान् त्रिविधेषु च । तद्विद्वत्पुत्रान् त्रिविधेषु च ।
 तद्विद्वत्पुत्रान् त्रिविधेषु च । तद्विद्वत्पुत्रान् त्रिविधेषु च । तद्विद्वत्पुत्रान् त्रिविधेषु च ।
 तद्विद्वत्पुत्रान् त्रिविधेषु च । तद्विद्वत्पुत्रान् त्रिविधेषु च । तद्विद्वत्पुत्रान् त्रिविधेषु च ।

अधिकारपत्रेण विद्वत्पुत्रान् त्रिविधेषु च । तद्विद्वत्पुत्रान् त्रिविधेषु च ।
 तद्विद्वत्पुत्रान् त्रिविधेषु च । तद्विद्वत्पुत्रान् त्रिविधेषु च । तद्विद्वत्पुत्रान् त्रिविधेषु च ।
 तद्विद्वत्पुत्रान् त्रिविधेषु च । तद्विद्वत्पुत्रान् त्रिविधेषु च । तद्विद्वत्पुत्रान् त्रिविधेषु च ।

अधिकारपत्रेण विद्वत्पुत्रान् त्रिविधेषु च । तद्विद्वत्पुत्रान् त्रिविधेषु च ।
 तद्विद्वत्पुत्रान् त्रिविधेषु च । तद्विद्वत्पुत्रान् त्रिविधेषु च । तद्विद्वत्पुत्रान् त्रिविधेषु च ।

अधिकार
पत्र



एक सा० श्रीमान् बाबू बहादुर सिंहजी विधीन शुद्ध आरकसक्य 'सिंधी
छा'नां व श्मो व ए स मा ला (व र्मो प दे श मा ला) जेनुं प्रबंधनीय प्राचीन
रत्न अस्तुवशीची विवरण साये जे प्रकाशनां साये छे, एसां 'भारतीय
'ना सुप्रसिद्ध आचार्य श्रीविनविजयजीनी मेरणा मुख्य निमित्तभूत छे ।
इतुं सम्पादन-कार्य जेथोए आजधी जगजग साहाचार बर्षो-बहेलां सो
दीनी चीनी प्रहृदिबोभायी अथकाय मेळवीने, प्राचीन प्रतियोना आचारे,
उत्पन्नेनी बोधना साये, अथय परिश्रमची यथासति संशोधित करेछ, आ एतम
अथ आसिनी अनुकूलताए हात्मां प्रथम प्रकाशनां साये छे, ए आनन्द-अनन्

प्रन्धनी विशिष्टता ।

एक हजार अने एकसो बर्षो पूर्वे कई गयेला, श्रुतदेवीना परम प्रसादने प्राप्त
सिंहपुरि जेबा महान् सन्धर्ष पर्मोपदेशक पर्मोचार्यना विवरणची विधुवित्र
शास्त्रो आ विशिष्ट ग्रन्थ विद्वज्जनेना विस्तृत अनेक प्रकारे आकर्षण
अन्वने ब्रह्मा छे ।

दृष्टिची अथलोक्य करतारा माध्यविद्या-मेसीओ आ प्रन्धना पठन-वाठन-परि-
य प्रबोद प्राप्तये, आ एक ज अथसांची विविध विषयोतुं विद्वान मेळवी

, प्राकृतभाषायाय होई, प्राकृतभाषाया विद्यारणेने अने अन्व्यासीओने, एषा
अना ऐसिक पालकोने अथक प्रोसादन साये, ए स्वाभाविक छे ।

अथ अथसय अनोहर प्राकृत प्रन्धनी जयेथया करतारने आ प्रन्धनी शक्ति
अवा यथा सम्भव छे । सुप्रसिद्ध महाकवि वागमजुनी कारम्बरी आदिजी
-च्छटा जेची प्राकृत गद्य-च्छटा आमा अनेक लळे जोबा मळछे । अन्व्या-
नुकूलता माटे आ प्रकाशनां यथासाधारण परो बळे ... आकां किने अन्वे
।

अथी प्राकृत अन्वयया जोबा चाहतारने एव आ प्रन्ध, बहुधा अन्वोए
। आ प्रन्धना अथसाहनची महाकाम्पनी महत्ताये एव अथुसय बळे ।

अथ संस्कृत, प्राकृत सुभाषिवाच्यतुं एत करवा चाहतारने आमांतां सुप्रसुर
अथय आनन्द आचये । आमां अथुव अनातां पयोनी एक सूची अन्व अदि
() एरीके छळांवी छे, ते ते बर्षोनी प्राचीनता साये लोक-दिवता, सुप्रस
अवा बरोरे विचारवातां अथोनी बळे ।

4968

प्रस्तावना ।

THE UNIVERSITY OF DELHI
LIBRARY
DELHI-110022

सुष्यसङ्कोक ल० सीमांत धाम् बहादुर सिन्धी सिन्धीना मुक्त सारकसकल विधि
जैन ग्रन्थशास्त्राभा बम्भो ब द् स मा ला (ध मों प दे स मा ला) नेतुं प्रसंगनीय प्राचीन
सकल ग्रन्थ-साल अनुपयोगी विवरण साये ते प्रकलनवा आवे हे, एतां 'भारतीय
विद्याभवा व'ना सुप्रसिद्ध आचार्य श्रीजिनविजयजीनी देरना सुष्य निमित्तसूत हे ।
आ नेतुं ग्रन्थसुं सम्पादन-कार्य तेजोद आरथी जगन्नाथ साहायार बर्षो बर्षो मने
सोपेसु, हे बीबी बीबी उपधियोमाधी अककाठ मेळवीने, प्राचीन ग्रन्थिना आधारे,
आवश्यक पाठानुसरोनी जोडना साये, सकल परिश्रमधी पद्यामाली संशोधित करेक, आ एतां
ग्रन्थ, सुप्रवाक्य आरथी अतुल्यताय हाव्यां प्रथम प्रकाशना साये हे, ए आरम्भ-वक्तृ
पटना हे ।

ग्रन्थनी विशिष्टता ।

आरथी एक हजार अने एकतो बर्षो पूर्वे बई गवेला, सुतदेवीना परम प्रसादने प्राप्त
करना उपलब्धिद्वारे तेभा अतुल्य सत्यं धर्मोन्नेतृक बर्षोचार्यना विवरणनी विमुक्ति
बनेको विद्वानमर्षो आ विशिष्ट ग्रन्थ विद्वज्जनेना विस्तृत अनेक प्रकारे आरम्भ
करेके, एतां अन्वये मळा हे ।

विशेष दृष्टिधी अकलोचन करतारा ग्रन्थविद्या-जेन्नीको आ ग्रन्थना पठन-कारण-वारी-
शीतनधी परम प्रमोद प्राप्तके, आ एक व ग्रन्थमाधी विशिष विषयोतुं विज्ञान मेळवी
करके ।

आ ग्रन्थ, प्राकृतभाषावय होई, प्राकृतभाषावा विद्वज्जनेने बने अन्वयाधीजोने, एता
माह्य साहित्यका इतिहासकारने अकल प्रोत्साहन आवे, ए आभारविध हे ।

अकल पाठ्य सङ्ग्रह बनेद्वार प्राकृत ग्रन्थनी बनेरवा करतारने आ ग्रन्थनी शक्तिशी
अधिक प्रसंगता बवा सम्भव हे । सुप्रसिद्ध महाकवि बाणभट्टनी काव्यधी आरथी
सकल गद्य-श्रवण जेथी प्राकृत गद्य-श्रवण आतां अनेक मने जोडा मळके । अन्वया-
धीजोनी अतुल्यता साये आ प्रकाशनमां अन्वयकारां परो बर्षे ' ' आतां विद्वो अन्वै
परीत्यां हे ।

गद्य-वचनधी प्राकृत पन्कूडवा जोडा वाहतारने एव आ ग्रन्थ, बहुधा अन्वोच
आरी करके । आ ग्रन्थना अवागाहनधी महाकालनी नद्वज्जने एव अनुभव बने ।

संशोधित संस्कृत, प्राकृत सुभाषिताद्वयतुं धन करवा वाहतारने आतांनां सुप्रसुर-
सुभाषितो अकल आनन्द आणके । आतां अतुल्य जगतां परोनी एक तृपी अन्वै अर्द्ध
परिविष्ट (?) एतांके अर्थांनी हे, हे हे परोनी आरथिता साये जोड-मिथवा, सुकल
बने पाठ-विषयको विचारतालां अन्वोनी बने ।

व्याप्य-व्याप्यी विनोद वाक्य कविजोने, तथा साहित्य-वैदिक साधुजीने आ प्रत्य रचना-शैली आत्मप्रद तथा साधे वातुर्वैभवं उच्यते इति अत्र सा समर्थं भवे ।

भाषा-विचारदोने, अने भाषा-शास्त्रना अध्यासी सजोपकोने आ प्रत्य-द्वारा भाष विषयक पद्य जल्पना-कौशलता लेखु मळी इके तेम छे । प्राकृत भाषाको संस्कृत मा खावे केवो समीर सम्बन्ध छे ? तथा देशी भाषाको पर केठको महान् उपकार छे प्राकृतभाषानु देशीभाषाको खावे केठको सम्बन्ध छे ? प्राचीन प्राकृत भाषाभाषी केट विचारक प्रभावना इत्यो अने क्रियापदो ए व रूपमा अथवा कश्चि केरफार साधे आन वर्तमान प्राकृतभाषाको (गुजराती, हिन्दी, ब्राजी, मारवाडी, मालवी, बंगाली अ भाषाको)मा अत्रय प्राचीन समकथी, वक्ष-परम्पराकी कसरी आवेक छे ? आबो भाषाको पवित्र सम्बन्ध समकथानी, कटस्य अने गुणनात्मक दृष्टिधी विचारपानी एक तेबने सम्बन्धी कसरी छेले मळके *व्युत्पत्ति, भाषा-शुद्धि आदिमा पद्य आबो अनुकूलता अरे

* मूला शैलीके अहे द्वारा कर्षे परेकरा आ अत्रय प्रथमा वरपरत, वर्तमानका प्रकारके व कालना वरतता बीम काल कयो तरक अन्दे मध्य केपीर छीर -

प्राकृतकर्म	पूरवर्ण	संख्या	प्राकृतकर्म	पूरवर्ण	संख्या
अञ्ज	(अञ्ज)	५४,१९	डाञ्ज	(डाञ्ज)	१
आवेडा	(आवेडे)	१११	गहाण-बोली	(गहाणी बोली)	१
आहीरी	(आहीरि)	१११	गुण	(गुण)	
अभावेऽ	(अभावे)	११	नधि	(नधी)	
अशोभे	(अशोभे)	१२	नापय	(नाप)	२
अशोभिषो	(अशोभे)	१३	नीसरिषा	(नीसरि)	
एकहा	(एका)	११०	पञ्च	(पञ्च)	२
ओहदविषयो	(ओहदवे)	११८	पञ्चाण	(पञ्चाण)	
ओहारअय	(ओहारउ)	११	पुहलिषा	(पोहली)	
कहेषयो	(कहेषे)	१०	पुहयो	(पोह)	
कसदिषा	(कसे)	१०१	पुहिया	(पोह, पुहो हिरी)	
कोह	(कोहे)	५४,१९,११	पेह	(पेह)	
कुसमिह्वय	(कुसमिहे)	१००	पेह	(पेह ब्राजी)	
कालपलिषा	(कालपी)	१२	फादिह्वय	(फादिहे)	
कोहिषा	(कोही)	१११	कप्य	(कप)	१३
कुञ्जलता	(कुञ्जल)	२२०	काहया	(काहे)	१०
कुलिषा	(कुली)	११६	काह	(काहे)	
कर	(कर)	५८	काह	(काह ब्राजी)	
केह्यो	(केहो)	६२,८२,८३	कामो	(कामो)	१०८
क्या	(क्या)	१०३	ककुय	(ककुपी)	
जगविर्जित	(जगवता-कर्म करता)	१८६	कह	(कहे)	५०
जलिपुष	(जलिपे)	५०	काह	(काह)	१०६
कुषापय	(कुषाप)	१०,१००	लिहिषा	(लिहि)	
		६२,१८२,२०३	कहादिषो	(कहांदि)	
ओहय	(ओह)	६५,६५	कह	(कहे)	
ओहर	(ओह)	१५१,२०३	विह्विहिषि	(विह्विहिष)	

आ ग्रन्थमा कविर् अटवीतु वर्जनं करता मरुद्रूप भासा (मराठी-आकृत भाषा)ने, कामिनीने तथा अटवीने समाप्त विशेषणोपी ललित पद्-सम्भारबाळी, मदनने प्रकट करवारी तथा सुवर्ण-रचनाबाळी जगावी छे [१. ४]

आ आकृत ग्रन्थानी प्राचीन शास्त्रज्ञीय प्रति बरोरेना पाठो प्रकृति सुकुम्भ वर्जनी पूर्वता हकारने एकार तरीके, अने उकारने ओकार तरीके आ ग्रन्थमां राखवामा आवेळ छे । वरुचिना प्राकृतप्रकाश (पृष्टि १, सूत्र १२, २०) मना 'इत् एत् पिण्डनमेषुः 'उत् ओत् तुण्डकमेषु' सूत्रो, तथा सिद्धोत्तमग्रह सध्यामुद्रासम्भवा अ ८, पा १, सूत्र ८५ अने ११६ 'इत् एत् वा' तथा 'ओत् संयोगे' आ पद्धतिनु समर्थन करे छे ।

इतिहासना घेनीघोने, अने संशोधकोने आ ग्रन्थमाथी केटली व जाणया जेवी-नीधवा जेवी तारिणी मजी आवेजे । सुरद्रु (मीसाष्ट), लाट (लाट), गुजरता (गुजरात) जेवा अनेक देशे सम्बन्धमा, बाराई (इराका), भरुपण्ड (भुवण्ड) उजोपी (उजपनी), बहुरा (बहुरा), दांतपुर, सोप्यारज (नाहा-सोपाना), हाथकप (हाथप) आदि अनेक नगर-नगरीजोना सम्बन्धमा, सधुंजय (सधुंजय) तीर्थ, उजिन (उजयन्त-मिरवार) जेवा अनेक पर्वत-उपदेशोना सम्बन्धमा करेला सांस्कृतिक उदलो इतिहासना जणोनी पडे । आह्यर (आदिहर)-मठळ ए अ पाळवथी मसिद्ध पकेळ जाह्यर (आदिहर)मठळ, तथा कम्पाकुल (कपोत), पाटलिपुत्र (पाटलिपुत्र-कटना), पनास (प्रभास), पपाव (प्रपाव) जीर्ण आदि अनेक सजोनी जगपिचो इतिहास आमाथी जणवता मजजे । प्राचीन तीर्थे, मन्दिरो, सूत्रो, उल्लेखन प्रति, धारा-अडपत्र, वक्रमय कपोत, मठळ, सरोहिणी सूती, सतसहस्र (लक्ष)पाक लेख, वगेरे सम्बन्धमा जाणया योग्य अनेक हकीकतो जणाजे. घेताम्बर जैव साधुभोद्वारा आचीर्णत तरीके उचरातो धर्मज्ञान हाथ केटली प्राचीन छे ? ते आमाना खेखथी निचारी उचराजे । आ ग्रन्थमा आवेळा इतिहासोपयोगी विविध नामोनी एक सूची अग्ने अदि परिशिष्ट (२) तरीके दर्शवी छे, ते, ते विषयवा विज्ञान सजोवकोने अजान्त जणोनी पडे, एही आज्ञा छे ।

राज्य, लीळ, तप, भाव, अहिंसा, लळ, सवम, क्षम, दम जेवा सर्व-मान्य धार्मिक सधुपदेशोपी, अने तेने पुढ करतार, आराधन-विराधनथी सुमाधुम फळ दर्शवतार सुवर्णमय सरस सुवासित कला-सुधोपी गुंवापेठी आ मनोहर माळा धर्मोपदेशक

ग्रन्थनाम	सूत्रांती	पृष्ठ	ग्रन्थनाम	सूत्रांती	पृष्ठ
विद्वान्निधो	(कवचो)	१	सपथी	(कवचो)	२०५
विज्ञानिधय	(कवचो)	२१	सधुरो	(कवचो)	२०
वेदज्ञावसु	(वेदज्ञावसु)	११०	साम्	(कवचो)	१०९
सपथ	(कवचो)	२५	सिधाळ	(सिधाळ)	५९
सपथ	(कवचो)	५५	सुरद्रु	(कवचो)	६, २०
धर्मादिपं	(कवचो)	११०	वेद	(वेद)	२१, १०१
संघर्षवधो	(संघर्षवधो)	११६			

સમયોના કમળને મુજોબિત કરશે । ધર્મોપદેશ માટે આવા બેટ સાધકનો સુવપોગ કરવા તેઓ ઘેરાયે, પર્વદાઓના આના સ્વાસ્થ્યના આદિથી તેઓ ધર્મ-વિચાર કરી મુવક મેટલી રુકશે, ધર્મોપદેશના કાર્યના આથી કમલકા મેલવશે, અને અમ્હને વિશ્વાસ છે ।

ધર્મોપદેશ શુદ્ધ કરનારાઓને આથી ધર્મતું જ્ઞાન થશે, ધર્મ-ભેમ થવશે, ધર્મ અને અધર્મના કાલો સમજાશે, ધર્મ-ધર્મથી વ્યુત થતા લોકો ધર્મ-ધર્મના સિર થશે, તેમને કર્તવ્યોતુ અને અકર્તવ્યોતુ વિવેક-જ્ઞાન થશે, અધર્મનાથી તેઓ અધર્મ તરફ વળશે । યોગ્યો આ મન્યના વ્યાસ્યાજ-અવલથી પરમ આકાર સાથે પુરુષાર્થોતુ પરમ જ્ઞાન મેલવશે । ધાર્મિક રત્ન-જ્ઞાન સાથે અનેક પ્રકારતુ સામાજિક, વ્યાવહારિક આવશ્યક રવ્યોતી જ્ઞાન વન મેટલી રુકશે, ધર્મી આ મન્યનો સજ્જના છે । માવાન્યર-મેટીઓ આ મન્યના માવાન્યરો માટે ઘેરાયે, યમ ધારતુ અધોત્ય થવી ।

કર્મકાન્ત-જ્ઞાનના વિશ્વાસોને, અને વિવેકના અધ્યાત્મોને આનામાં અધ્યાત્મકારોતી અને અધ્યાત્મકારોતી અલકુલ પ્રવહોવિત વિવિધ વર્ણનો અસાધારણ વિનોદ સાથે વિવિધ વાતુર્થ આપશે । મેમ-વચિકાઓ, અન્યરાજાન-મખોતરવજ્જા, સહિરાજાનવાજ્જા, પ્રબોતરો, સમજવ, પ્રાકુલ પ્રબોના સમસંજવથી પ્રવ્યુતર, વાત-વૃદ્ધિ, વાલોકિ, વ્યાવોતિ, મેનોતિ, મૂતોતિ, અવોતિ, ઠેનોતિ આદિતુ વાતુર્થ વન આ મન્યમાથી મટી રહેશે ।

મા અવ્યકા પ્રસજ્જે વસજ્જે શૂરી શૂરી ઠેતીથી કહેજ્જા મિત્ર મિત્ર દેહોત્ત, અને અત-અતીઓનાં, મિત્ર મિત્ર અમાવના નાવક-નાવિકાઓના, ઠીર્થ-અઓ દેવ-અનિરોના, વર્વો, મુવવો અને અટવીઓના, અનાનોના અને વિવિધ સતુઓના, પુષ્કરિતીઓ (વાવકીઓ), સરિતાઓ, સ્નાતો, સરોવરો આદિ અલકાઓના, અલકાજ્જા, અલ-વિહાર આદિનાં, અલ-વર, અલવર, એવર આદિ અવરાવર સુતિના, દેશાટનના, સમુદ્ર વાવના અને આકાશ-ગમનના, વસમવ વવોત, વહવનાં, મૂર્વોત, મૂર્વોત આદિના, દેવ-અલકાનાં, દેવોત અને વિદ્યાવરોત, અલકોત અને દમજ્જાન આદિના, રાજ-માલકો, રાજસમાઓ અને રાજ-વેઅઓના, મુવવલી ગવિકાઓના, વાવા-વેઅના, વિવાદ-મવજ્જા, વધુ-વરવ, વસાવવના, સયોગ-વિવોવમય, મુલ-દુઝામય સમારના વિવિધ મજ્જોના, મલકિવાનાં વાતુર્થો ઠેનાના અને વુજ્જોના, શુજ્જાર, ઠીર, અરુન આદિ રઓના – શુજ્જા વિના પ્રવરના વર્વોતે અરુન આરુર્થક, વિવિધ જ્ઞાન આવનાર અને અધ્યાત્મિક અસાધારણ કવિત્વને પ્રવલિત કરવારા છે ।

ધાર્મીન સમવના સમીત-કલ્પા, શુજ્જા-કલ્પા, વિત્ર-કલ્પા, કિલ્પ-કલ્પા, પ્રસાવન-કલ્પા, રેવનકલ્પા, નાટક-વેશ્વક-કલ્પા તથા અવરતી હતી, ધાર્મીન સમવના વિત્ર-સમા, ઠેવજ્જા, રાજસાઓ હતી – તેના સૂચક પ્રસજ્જો આમા ઝોવા-ઝાવવા મટે છે । તથા વૈવાક, વ્યોલિત, સામુત્રિક, મિલિતજ્જાન, અધ્યુતજ્જા, અધ્યાત્મ કરો સંધવના પ્રાલિક ઝેલો વન આમાં છે । ઠાવિઓ, માવિઓ, વવાલિકો તથા માવાથી પૂર્વો કેવી વાટના પ્રવો કરતા હતા, તે વન આમાંથી સમવવા મટે છે । વિવિધ અલ-મીલવ વર્વોતી, અનેક પ્રકારતુ શુદ્ધિ-વાતુર્થ અને વ્યવહાર-વાતુર્થ વસારતી, વિવિધ વિકલોતુ જ્ઞાન અધ્યતી

विस्तृत अने संक्षिप्त १५६ केटली कथाओंमा विवरणकारी बहु कुलकथावी विज्ञान ज्ञान आशु छे, बहु जननीगी एवं प्रकारनु शिक्षण आशु छे ।

२ कथा-चरित्रोमा, मारुतवर्षने पानन करी मनेका बहुसुरकोना, परमपूष सर्वज्ञ तीर्थकरोना, चक्रवर्तिओना, रामुदेओना, कलदेओना, तथा मनेकपुत्र अनेक राजर्षिओना पवित्र चरित्रो विद्विष्ट देसीधी दर्शाव्वा छे । कलपरोक्ष अने अन्य प्रभावक, कल्पी, कुमाव्रमयोना, सन्ध-सुरकोना, तथा बीजा राजा-महाराजाओना पत्र चरित्रो छे । सात बार वसन्तो पृथ्वी करनार परशुपम, अने एकवीज्ञ बार राजाकनी पृथ्वी करनार सुदूम चक्रवर्ती जेवाना विचारवा सोष्य सोषक चरित्रो पत्र आमा छे । जयचक्रमार, रोहक, चौकनरावन, फलकन जेवा बुद्धि-निधान राज-मान्य मयीओना, सद्गुणोपी भेष्ट भेष्टी-ओना, तथा उदार सार्ववाहो जेवा अनेक सज्जन-सद्गुणकोना सरस चरित्रो आमा उत्तम देसीधी वर्णन करेछा मछे छे । ते साथे विरह सजावकाळा अने विपरीत व्यव-रण करनारा अपम दुर्वेओना दुष्ट चरित्रो पत्र परिहरवा सोष्य तरीके प्रसङ्गाशुकारं समजाववा छे । चोरी, चारी, पोर इत्या आदि वाने करवाता अपम अक्षरमौलोने पत्र अभ्यास मार्गे वाचनार उदारक उपदेशोकाळा दृष्टान्तो पत्र आमा जोवा - जालवा मछये ।

विज्ञान भारतने लखन बनारी राधेजी जार्ज महिषाओना, मुनीक सप्तारीओना, एवीमती केवी राजकुमारीओना, राज-रमणीओना, कल्पीओना, कली-सुरासरीओना आदिको पवित्र चरित्रो आ मन्थमां सरस देसीधी उत्तम प्रकारे दर्शाव्वा छे, ते आर्षो-कर्तवी पवित्र नीति-रीतिनो अने आर्षोनी पत्र सल्लसिनो सारो कथाक साथे रोषां छे । एसाथी देशने अने समाजने एवं प्रकारनु शिक्षण कळी सके तेम छे । पुत्रकोने पवित्र मार्गे वाचनारी, पत्रमयावी बचारी लेखारी भेष्ट महिषाओनी पुष्पकवा जनन्य देरवा आरहे । ते साथे बीजा केटलाक चतुर्गर्द-मर्वा ली-चरित्रो पत्र आमाथी जोवा - जालवा मछये, केटलीक अपम लीओना जिन दुःसाहसोनी कथाओमाथी पत्र सुद्धो सद्बोध देसवी सकये ।

आ सन्धवाना धर्म-मार्गमां लई जनार, नीतिव्यय पवित्र सन्ताने हरक बेरनार, ज्ञानरथने पुष्ट करनार, मरुतसमय कृपानकरो, आनना बचतिवा-रतिव तयकरवाकरोने, तथा नरक-बन्धा-वेनीओने प्राचीन कथाकारोनी विद्विष्ट सरस देसीनु परिज्ञान करावये, गद्याल कथाओधी सुख्य बनेसाओने भारतीय कथाओनी उत्तमता अने सरसताको कथाक करावये । अखन्ता प्राचीन सप्तली लोक-वालीओ, परम्परापी वर्तमानमा चली जावी छे, ते आमाथी केटलीव कथाओने वर्तमानमा अपलित लोक-वालीओ साथे सरसाथी जोवाथी समझी कथाव तेम छे । देव-परदेसनी वालीओने, देवी भावाओना प्रचलित कथाओने, आवा प्राचीन प्राकृत साहित्यनी कथाओ साथे सरसावशाथी लोक-वाली-वृत्त-ओना उंठा मूढो समजाये । सुकनात्मक दृष्टिअ अभ्यास करवा सोष्य जा गहन कर्षा रसवद विषय छे । दृष्टान्त तरीके आमा दर्शावैवी बुद्धि-वीन मूर्ख मानदिवावी कथा [इ. १५६]ने 'पुत्रको' साथे सरसाथी कथाव । मन्थव छे के आमाथी

केन्द्रीय भारत कथाओंने मातृकोमा अने स्त्रीमानी चित्रणमें उदारता के विषयमा निष्ठाको उल्लेख, तेरी तेरी उत्तम सङ्गठना के ।

विचरणकारे प्रारम्भमा ध्रुवदेशीय मयाल स्वरण कर्तुं छे, तेम प्रायः प्रत्येक चित्रित कथामा अन्तमा वध तेतु मारण करला जे ते कथाले ध्रुवने अनुसारे रचेली जयानी छे. 'ध्रुव' शब्दको अदि तेम आगम-सिद्धान्त प्रकारान्तरे अन्वय सूचवेल छे । जैम सिद्धान्तने अल्पम निष्ठ रही, ध्रुवदेशीया साक्षिभ्यवी या विचरणनी अने महन्तर्गत कथाओंनी पोते रचना करी छे - खु कविए आमा सूचन कर्तुं छे । जैम आगमोवा साक्षीकी कथाओंने कविए पोतानी सरत शैलीवी रचानी छे ।

आगमोवा मुख्यतया आराधन-विचरण, उचरण-वचन, ज्ञानाभ्यसन, हृष्यताग, इत्यै-साक्षिक, आचारकल्प, दण्ड-कल्प, न्ययहार आदि सूत्रोनी आधार लीपेलो जयाव छे, जेदतिके सङ्गे तेको नाम-निर्देश कयेलो छे । मूनि विटक (इन्द्राणागी), दृष्टिवाद, आत्म-मचार पूर्व, सुखापवाद पूर्व, वधमातुकोम आदि शचीन सुत्रोतु पत्र प्रासंगिक मरण कर्तुं छे । कृषि-चरित, जैमि-चरित, मन्कनार-चरित, चतुर्वेदहिंसी आदिना पत्र अङ्गरेओ आमा छे । विशेष ज्ञानका माते जेको निर्देश अनेक बार कयेलो छे, ते उचदेशमाला-म्यासपान (विचरण), तथा द्विदुमि-चरित (या), आ विचरणकरनी अन्व रचनाओ जयाव छे । उपसुक्त मर्ष साहित्य, प्रायः प्राकृत छे अन् अंगेनाम्बर जैनागम साथे सम्बन्ध परावे छे, तथा तेनी अविच्छिन्न परम्पराने, शचीकथाने अने प्रात्मनिकताते प्रकाशित करे छे । पम्पकारे सुवसिद्ध श्वेताम्बर जैनाचार्य सिद्धसेन दिवाकरनो, नाचक-मुक्ता (उनासावि)नो, तथा अपसिद्ध कृदिकाचार्यनो निर्देश करी, तेमनी कृतिपोनापी अचरको दर्शयला छे । जेनागम पम्पान्त्र वेद, अज्ञपाद, मुक्ता धर्मशोभि, कृषि, सांख्य, ज्ञानाद, भागवत आदि अन्व दर्शनेओ मन्तव्योना अने शाखापन, भारत, नीतिशास्त्र आदिना नाम-निर्देश साथे प्रासंगिक प्रकट पसेलो पत्र कर्वा छे । आधी मन्थकारनी बहुदुवता प्रकाशित थाव छे, जेको ज्ञान समानने आपी रीते आम्पो छे ।

अदि दर्शनेन विषयानुसङ्ग जोषापी या मन्थमाना विषयोनी, धर्मोपदेशोनी, तथा तेने अनुसरती कथाओंनी सामान्य रीते क्वाळ जावजे, अने कथावेलक कथन-भाटन-वसि-शीतनपी मन्थनी विच्छिन्न सुत्रोना उल्लेखमा आबजे । ते साथे, विषय सर्वत्र मैत्री विचारकार, अने शक्तिने स्वाभकार, विधनु कल्याण करकार, अदिना-उल्लेख, मन्थ-वसि-हित जेमधर्म तेमा उचकहातमय उत्तम मनुपदेशोपी निवृत्त-धर्मनी वास्तविक प्रतिष्ठाने प्राप्त करे छे, तेतु समझाजे ।

अन्तर्गत प्रतिभाशाली मजाने अने परोपकार-वराणक दक्षिण जीवन मालता धर्मो-चार्यो विषय विविध विषयोतु केतु विस्तृत ज्ञान परावता हता ? ते साथे पोतला विच्छिन्न बुद्धि-वैमवको, प्राप्त कयेली शक्तितो, अने पोतला अमूल्य समयनो मनुष्योवा तेओ केस प्रसंसनीय धर्मोमा फरदा हता ? ते आता मन्थ जोषा - ज्ञानवापी समझाजे । आधी मन्थ-रचना जोषा - ज्ञानवापी भारतीय वेद शचीमा प्रकाशमा आबजे, अने विचर-

एक मुञ्जोना अन्तःकरचोमायी इवशः महान् पन्थवाहना ज्युषोतो वकट करणवधे ।
 कर्ममाल परमाँचायैने निज कर्मज्योती लक्ष प्रकाशनी केरना आरवणे ।

आयी केव सरस कृति, आरणा प्रनाथयी अने वेदरक्षारीयी अकार सुधी अन्धकारका
 रही गई, प्रकाशना व आयी कबी, एकी एका लामयी आपणे वक्ति रखा—ए माटे
 आपणे मनेद् करमाजु बोडव । एक हजार वर्षे जगन्म लतामग एक नो वर्षे बीती
 जका कता सद्भाव्ये आ रचना सुरक्षित रही प्रजा-त्याडककता कर्ममाल तुलमा, अभिवाच
 गजराड विश्व-विद्यालयना प्राहुर्माँचकाळा पुन वातावरणमा प्रकाशमा आवे छे, एकी
 आपणे आनन्द मानीव । एवम धर्मोपदेशोनी आ माझा, विद्वज्जोना कर-रमल्लने, तथा
 कण्ठ-कमलने विमूर्धित करणे, एतलु ज नष्टि, महद्वोना इवज कमतोने उद्विग्न करवा
 वन समर्थ बछे-एकी आझा अस्माने कयी ।

विवरणकार जयसिंहसुरि ए अ मूलकार

मासना सामान्य रीते १०८ मन्थका, रत्नो, किवा पुष्पो होवानी मान्यता छे, परन्तु
 आ धर्मोपदेशमाका मूल मन्थमा प्राहुन ९८ गाथा व मने छे । आ मन्थयी चाल्ठवयी
 रचापली बीती वे विवरण-सुविशोना अन्तमा ४ गाथा अधिक मने छे, ते प्रक्षिप्त जकाव
 छे । जयसिंहसुरिना स ९१५ मा रचाव्येका ५,००८ फोक-रमाण आ विवरणमा,
 ते गाथामोने निर्देश के तेनी व्याख्या कर्तावेल मयी । मूल मन्थकल कोण ? एतु सूचन
 एकायी कजतु मयी । जयसिंहसुरिए मूलतु कर्तव्य योगातु होवातु एतु सूचयतु नथी । आ
 विवरणना प्रारम्भमा—‘अङ्गल प पराँमन् गावाड्यमाह प्रकरवकारः’—एकी रीते उहेक
 कयी मूल प्रकरणतु कर्तव्य अन्वयतु होव तेनी रीते उदस सूचन कर्तु छे, तेम छता मूलमा
 भावता सुषदेवी, विमलसुग मनेरे सूचक छव्योने विवरणकार जयसिंहसुरिए माव. मलेक
 कवाका अन्तमा, अने गुणधरकाव, जिनैन्द्र-जयशब्द-सुसुमनाळा आदि प्रसङ्गोना अन्तमा
 पोवाना अभिजात तरीके सूचव्य छे । मूलनी प्रथम गाथामा ‘जय-नटाव ज्य’ विशेषकता

१ “विमलसुग मज्ज वि सुषदेवि ! तुज्ज मरणउ वरुण कति ।

धम्मोक्कयसमाळा विमलसुगा जय वरुण ज्य ॥” (सुल्लका १) इ १

“सुषदेवि-अवाएण सुवाजुमारोण” - विमलका पृ ५, २५, २३, २६, २९, ३०, ३३, ४५,
 ४६, ५१, ५३, ५४, ५५, ५६, ६० कोरे

“असिज्ज महावीर वड सुषदेवीए मण्डरे पुमिने ।” इ २१६

“अस वीरा लेकथ विमलसुगा मण्डरा विट्टु ।” इ २१७

“असिज्ज महावीर वड सुषदेवीए ” इ २१७

“विमलसुगो वरुणो वड वरो वरुण ज्य ॥” इ २१८

“एतलु सुर मज्ज वीजुव-वसव-द्वेव पसुरेण अकमेव । वीरजमेण कव जयसिंहसुरियकमेव ॥

धम्मोक्कयसमाळा विवरण-देशापरुणकोण । सुषदेवि-अवाएण विमलसुगा इयुमथम ५ ॥

२ सुषदेवी-पुमिने कसिज्ज कटिउ पुमिनेट्टु । नो सुषदेवि-उमनेस विट्टव विविज्जण कए ॥” इ २३५

“एव जय वरुण-कण्डमुनि-वीर जयसिंहसुरिआ ररव ।

धम्मोक्कयसमाळा-विवरणकनिड विमलसुगा-वडिय ॥” इ २३५

सुनिकधी 'जुव' नाम सुचित करुं जग्या छे^१ एही विवरणकार जयसिंहसूरि द ज मूल
 वरकरणकार होय-पुन अतुमान बाब छे । वि स ११९१ मा बीजा विवरणने एचनाए
 विजयसिंहसूरि (मठपाटी हेमचन्द्रसूरिण शृंगरे) आ वरम विवरणमा जावेछा माहृत
 कथानकोने ज विसृत रचना होवा छता, प्रस्तुत जयसिंहसूरिण नामनो कथाव निर्देश कर्षो
 जग्याओ नथी । तेमथे १४४०१ श्लोक-वसाय विस्तीर्ण वृत्तिनो प्रारम्भ करवा सूत्रकारने
 'शास्त्रकर्षो' 'वरकरणकार' छन्दोपी सूचन्या छे, एम तेन्तु नाम त्या दर्शाव्यु नथी । वि.
 स ११२० छगमगजा, आ अन्वयी सस्कृतकथाओवासी ६८०० श्लोक-वसाय बीजी
 वृत्ति एचनाए सुविदेशसूरि (बाही देवसूरिण अनुवासीर) प्रारम्भ पूर्वं वृत्तिकार वरीके
 जयसिंहसूरिनु स्मरण करुं छे, एत मगल-गावामी वकास्या करवा सूत्रकारने नाम-निर्देश
 बिना 'वरकरणकारसूत्रधार' छन्दद्वारा सुचित कर्षो छे तेम छवा तेमनी वृत्तिना अन्वया
 श्लेषक सूत्रवेसी गाथाओनी व्याख्या कर्षा पत्नी, छेथी १०२३ मी गाथा आवेसी छे, सुगम

१ इत्युच्यते नाम विजयसिंहसूरि वि स ११९१ एतेन सस्कृतकथामय धर्मोपदेशमाहात्म्येण
 अन्वयां स्तितः यथाशौ वा प्रतीते शेषमा शब्दे छे-

"वेत्त-तेतुं कुंभे वैजय शृंगरीनो वरसिद्धो कोटु । तेन वैजयत वैजय-वेत्तजोवरुणापी न ॥ १९ ॥
 ऐतेन वैजय-वेत्तौ वैजय वरस्य वईओ न । वैजय-वेत्तधरिण 'वरसिद्ध' ए आहरण ॥ १०० ॥
 वरस्यैव कुंभोत्पद् 'सुगम' ए वैभिविधेय । चरुड वरु सिन्धुत सङ्घवदयो व(र)द्वय ॥ १०१ ॥
 वावेद्य जेवासी कुम्भोत्पत्तिमि इव 'गेविसे । समीग सागमिन् 'वेदुमाहिने भविनिसे ॥" (१०२)

— सुनितान इतिवपरीना शकसंभरणी न ६१९ एतेन धर्मोपदेशमाहात्म्येणो पौरीषा (पृ २८५,
 २९०, २९१)

२ वि स ११२० जगमगजा सुविदेशसूरि एतेन सस्कृतकथाओ धर्मोपदेशमाहात्म्येणो वदुं
 प्रजापता प्रथमा स्तितः १ गाथाओने स्तितः एत एतेन व्याख्या छवे आ जग्ये मते छे-

"अतः पर नाप्याचरं पूर्ववृत्तिकानेन श्लेषकत्वाच्चारतम्,
 भाव्यासाय ॥

एतेन वेत्त-वेत्तय वरस्येण वरुडता गर्षो य ।
 मयभव-वकाकारिय-वरुड(ज)ग्य ए आहरण ॥ १९ ॥
 सिद्धीसूरौ जयमक्ये दउमोदके इय गाथास्ति । असा गाथा पूर्वं एत कोषक न

चरुड वरु सिन्धुत एववर सव(ज)ओ जग्य ॥ १०० ॥
 मयमेव जग्यो कुम्भोत्पत्तिमि इव व गोविसे ।
 संसगि सागमिन् गुडुमाहिने भविनिसे ॥ १०१ ॥

हे एही अन्वयां कवी गाथा छे-

जपानी जेनी व्याख्या आनी नवी, तेन्ने क्षेत्रक न मान्य हो तेना आकारे आ पूर्वोपदेश-
माळा (मूळ प्रकरण) जे जगतसिद्ध कुण्डलुमिना शिष्य प्रसुद्ध विकल्पकार जपानिहसुरिप
रचिल्ले मानवी जोडिप । हे गाथा आ प्रमाणे हे—

“इव जव-वापड-कन्हसुमि-सांस-जपानिहसुरिषा श्रुथा ।

धम्मोवणसमासा धम्मकसुपमिच्छमाणेण ॥ १०२ ॥”

बर्मेजाना दुर्गिणय ओडवनिअवनीन पाठ—महावी न २९, ६ ह ति ज्जे क्व २७५

पूर्वोपदेशमाळा (मा.) मूळ प्रकरण, पदेला जपानवा प्रमाणे अक्षिप्त २, ३, ४ गाथाचो
जोडिल्ले १००, १०१, १०३, १०४ अस्ता पर प्राचीन पोथीभोवा जोवाज आये छे ।
प्राचीन समथना आ प्रथमे पठन-पाठगादिमा महत्त्वतु त्याच अस्त्यु हतु, तेच जथाथ
छे । जैन समथो आने समथीओ चोताना व्याख्याकारांते धर्मदासमिनी उपदेकनाथा
कोरे प्रकरणो साथे आ (मूळ) जे कप उज्जनी राख्ता हता । विद्वान्ना उक्तोत्ता ज्जे
इत्थाथ, हे माटे गाथा अदना उक्तावणा हता । १०३ इव वी १६ इव सुधीनी उंचाई
वाडी, आने १३ वी २ इव सुधीनी पडोसाईवाडी आनी २७ केवली वाटवनीच
पोथीओ—पूर्वोपदेशमाळा साथे अन्य प्रकरणोना समहनी प्रकरण-गुणिकाओ जग्गे
वाटवना जैकमहारोमा ररेली जथावी छे । तेना विकसनी तेरनी चौदनी सहीना
उक्तावेली पोथीओ छे । केवलीच पोथीओ जैन बहिशाओच पर उक्तावेली छे । धर्मनी
एक स १२७५ मा चन्द्रावतीमा जसपचग्गे रचेली छे, बीजी स १३९२ मा भृगुकण्ठ
(इत्थ) मा आनवेवीच उक्तावेली छे, बीजी स १३२६ मा उक्तावेली अन्वित छे,
आने चौजी स १३५४ मा श्रीमालवकी वाडवना आत्मज मा. हासकनी दुक्कित्त
सोडिणीच उक्तावेली छे [विशेष माटे जुओ ‘पुस्तनस-पान्नवैजनादानगारीच-कन्धसूची’
१ भाग उटवनीच, भावकवाट-भाचवमथमाळा न ७६, पृ. २२, २८४, २३, ३०५
कोरे]

पवी रीजे जेसजमेर (कारवाड) मा दुर्गावा ज्ञानीन मोटा महारमा नं. २५ नी
प्रकरणसुक्कित्त, जे ११४२ भाचरमा स. १३४५ मा उक्तावेली छे, तेच क्व आ
मूळ प्रकरण छे । जेसजमेर भाटगारोच-कन्धसूची (गा ओ शिरीअ न २१, पृ. ५) मा
जग्गे सूचवेल छे ।

जे. पीटसेमवा शिरोई १, पृ. २५, ४७, ५५, ६४, ७०, ८२, ९१, ९३ मा वया
शिरोई ५, पृ. ८० मा जपानवा प्रमाणे आ मूळ प्रकरणनी प्रतिको सुंमाल्न बनेवेना जैन
मज्जेमेना क्व छे । पी दि १, पृ २५ मा आ ज प्रथना कर्त्तव्य नाम सुओवेकसुमि
जपान्नु छे, जे मुक्त जपानु नवी, तेन्ने व्यापारमूळ पडेअ आ दर्शिल्लो नवी । बर्मेजान,
हान्नी, सीचकी, सुएत, बंगलर, पुवाच बगेरेला समहोमा क्व आ धम्मनी प्रतिको
जथाथ छे ।

पी. दि. १, पृ ४७, ५५, ६४, ७० मा प्रागची उक्तावेळ आ प्रथना जैकमां १०४
वी गाथा आ प्रमाणे छे—

“આત્મા કૃષણપાર્થ એવ જી પડદ માલદ ઈ (ઈ, ડ) કહે ।
તો પાલદ મિલાવ ધર્મિરેણ મિલાવવામ પ ॥ ૧૦૪ ॥”

તો કીલહોનેના વિગેટ (બોં ૨, ન ૩૮૨) વહેરેમા પમ આ ધમ્બતુ સુવત છે ।

અર્વાસિંહાચાર્યનો પરિચય ।

ધર્મોપદેશમાલા જેવા ૧૮ ગાથાઓ અતુ પ્રકરણ ધમ્બતુ ૧૭૭૮ શોભમમાલ આતુ કલમ વિશિષ્ટ વિચરણ રચના કૃષ્ણસિંહાચાર્યે પોતાની અનેકદેહીય પ્રોઢ મિહરાનો, વદુદુવવાનો પરિચય કરાવ્યો છે, પરંતુ સેડોળ પોતાના અમ્મ, વિદ્યાધવવન, દીધા આદિથી મારતના કલા મુખ પ્રવેશને વિદુમ્મિત કર્યા હતો ? કયા જ્ઞાતિ-વશને અલકૃત કરી વલ્લભી કર્યો હતો ? કયા કુલને ઈર્ષિયાતિ કર્યું હતું ? કયા પાન-વ્યાપી માત-મિવાને ધનવાદના પાત્ર કર્યા હતા ? ૧ વહેરે ધમ્બમ્બવા સેડોર આ મન્વમા કોઈ નિર્દેશ કર્યો નથી, વધી ૬ ધમ્બમ્બી આપની વિજ્ઞાના કુર્વ ઘડે જાહતી નથી । સમાર-વી વિગત મિ મુઠ ડેવાનાર્થે પોતાની પૂર્વોવશા મૂઠલાવશાને, અથવા પોતાના જ્ઞાન કરેલા સામસીરુ ધમ્બમ્બોને સ્વરખમા જામી પ્રકાશિત કરવાતુ ધાય વલદ કરતા નથી । આ પ્રોઢ ધમ્બકારે ૧૫ ધવા કોઈ આશ્વવથી પોતાનો ૧૫ અક્ષરનો પરિચય અપયો ગવિત નહિ માન્વો હોવ-વતુ અતુજાન થાય છે । ધમના કોઈ અતુવાથી માસ જિલ્લે અન્વત તેવો પરિચય કરાવ્યો હોવ, તો તે સાપત્ર અન્ને વલ્લભવ થતુ નથી ।

ધમ્બોવની કાઠ છે કે આ ધમ્બકારે ધનવાદના સાથે ધમ્બમ્બ ધરાવનો પોતાનો આવદવદ ઈતિહાસિક પરિચય આ મન્વના અન્વમા કરાવ્યો છે । આ ધમ્બમા [૫ ૧૧૨-૧૧૩ મા] ધમ્બજ્ઞાનુવાવ ‘જય’ અન્વોની અલકૃત, ‘કિલવેરેન્દ્રોની સુવિલ્લ અવશમ્બ-કુમુમમાલાર’ રખી ધમ્બકારે ૨૪ તીર્થકવો તલે પોતાનો નાતિ-માલ વલદ કર્યો છે ।

કયા ધમ્બમા અન્વમા - ‘કૃષ્ણમ વમેરે તર્વ કિલેન્દ્રોશ તવધરો અને સ્વવિરો વદ-કાતુઓળ(અવમાતુઓળ)આ કરેલા છે’ તેમ સુવની, વૈક ગાથાકારા મુદાશીરના અન્વમા જ્ઞાસાર્વના ધારવાની ૧૧ ગવવરોતો, ફેર, વર, અતુવ, આર-મિવાને પરિચય કરાવ્યો છે ।

ધમ્બકારે વપુન્ક તીર્થકારાવલી અને ધમ્બધરાવલી ગથાવ્યા વધી મુદાશીરના તીર્થમા ઘડે ત્વેજા ક્રુત-સ્વવિરોની આવલી ગવાથી છે । તેમા ક્રુત-રત્તના વદુદામગર જેવા અમ્બથી દેવ વાવક કુપીમા ઘડે મવલા ૧૪ ક્રુત-સ્વવિરોતુ કારણ કરી કિલવથી તેમને વલન કર્યું છે, તે સાથે વર્તમાન વાઠમા વિદ્યામાત અને ધવિવ્ય વાઠમા વન્વરા ક્રુત-સ્વવિ-રોને વલ પ્રમાન કરતા ધમ્બકારે પોતાનો અલ્લ-ક્રુમુલા વર્ણવો છે । પ્રકાવાન્વરથી તે પૂર્વોતના અતુવથી ક્રુત-સ્વવિર વરિથે પોતાને સુવિત વવો છે ।

ધમ્બકારે અન્વમા ૧૨ ગાથાઓ કાર પોતાની ક્રુત-વરવ્વરા વર્ણવે, ધમ્બ-રવજ, અન્વ, વામ્બ-સાસારિ સાન્વવિય વલ્લભ કર્યું છે ।

विवरणकारणं चकतञ्च

१. 'धीर तिनची प्राथम्य करेली ए (उपर्युक्त) अविवाहिलीने पूर्वे अवेळा सुविओर कोली छे [देव वाचये नन्दीसुत्रमा जगावी छे], ओप (वाणीना - पलीना बीडा कवि-तेनी) आपलीने हवे हु चहु छु, ते त्नी सामळो -

देव वाचक त्वां बटेअर

२. देव वाचक [स ५१०] पली अनेक सुविओ बई गवा पली विधवापत्नी अणकारणे दूर करवामा सूर्व जेवा वटसुर(बटेअर) नामना क्षणाक्षण बई गवा ।

तत्प्राथम्ये अने यत्न महत्तर

३. तेमना शिष्य त्र्यम्बार्च्य पथा तामची सुप्रसिद्ध शवा, जेवनी ज्ञज्ञ जगतूमा प्रकट कचो हलो, जे, चान प्रसारवा जाचारी (१ झलाचार, २ पलीनाचार, ३ पारिवाचार, ४ तप आचार अने ५ वीर्वाचार)ना साठी छिले शिष्य हवा, जिन-वचनरूप गणवाम चन्ह जेवा हवा ।

४. तेमना प्रथम शिष्य तप तेवा, यत्न महत्तर नामना बवा, जेजे सुदुत्तप(कट-कुच-वाट)ना सुप्रसिद्ध जिन-वचन स्थापित करान्नु हतु ।

कुण्ड मुनि

५. तेमना शिष्य कुण्डमुनि^१ भवा, जेजो तप-तेमना राशि होई हु।पना कलना करवाओ(हुड राजाओ, म्नुओ)ना मळकोने छूट चलय करनार अने भक्तीरुपी करिन्दोने विकलर करवाना सूर्व जेवा हवा ।

१ अणन्द ५०० = विजयवाङ् ४१० = दामिनीविह डण्डीलाचारी देखी उत्कृष्ट कुण्डमुन्याप्रधानां पोतना सुतो अतिके छे बटेअर, तपवाचनं अण यत्न वीरीने जेवळ करत छे, तेची अने वाच अणवीन एकी समान नमचारी अणिकते एक ज ते क वेग ए विचारवीन उ ।

मामिनन्दनविनोदर(ज्ञानुजलवीर्वाहार)अण्ड रचना: उपवेद्यपत्रका कडारिरे सि स ११११ नां हेमना उपवेद्यपत्र-परमना जणवैत यत्न महत्तर, कुण्डार्चि, तथा जणविरुपि, अने बहि जणवैत ते ते मळना आचारी एक हीचने मळव जाले छे । ह्या अणवना जमले तेमनी मळव अविच जाचीन जाले छे, अण वेमनी मळवता जाले तेजो उपवेद्यपत्रका पळना पळना हवा । अहि तत्प्राथम्ये तरीके विरीत छे, तेने ह्या तत्पुस्तके तरीके जणवना जाले । प्राकृत तत्प्राथम्ये, तत्प्राथम्ये तरीके कण बचव, अने वेवळी ह्या तत्पत्र अण्ड मळव ते - ४ जाणीर इतिविहित जिवी वाचनार विधाने सुनी अने तेन छे । अण्डुत नचारी, ज्ञानपुस्तके, तथा अण्ड जिवीवचनो वेवळ उपर्युक्त उपवेद्यपत्र परमनां पण आचि छे । श्रीज्ञानपुस्तके(ह्या तप देवपुस्तके)नी जेवणी स ११४० नां छे अण्ड अणवो हिनी अण्डार ते अटि जाचो हतो, ते सचि ते अण्ड कचो वनी, अण्ड तेवांतु कण आचवा अडे अहि अण्ड अणववना अणे छे ।

विश्वकर्षण ११५ वा देखेना भा मळवना अण्डनी कुण्डमुनिना शिष्य अणविकुण्डने पोतानी पुत्र पण्डाणे मळवण, मळवण, अणविरण मळवणे, सुत-सकिरोम मळवणं बट्टा देव वाचक (वाणीवृत्तार) अणे जोवो छे । तेव वाचकनी पण्डाणां पळना उपर्युक्त यत्न महत्तर अडे कुण्ड मुनि अणेदे ते पळी जणवण वचारी अणे पळी पळना अणव(अणव) अणवना आचारी पोतानी दणवणपत्राची पूर्व-अणवना: उपवेद्यपत्राची अण अणवना बट्टा सूर्वा वेवळो हण्डण अणवो छे, ते विचारवीन छे । सि. स. १११३ नां अणविरण अणवना: उपवेद्यपत्र अणवनी अणव-वचन मळव देखी छे, तेची अणव

६. जेणे झरतमा दिनबरोनी १ अक्षरान (देशलोकाची स्वकी मातृकाची कुहिमा अक्षरानु), २ जम्ब, ३ निष्कम्ब (मन्त्रमा), ४ ज्ञान(केवलज्ञान), जने ५ निर्वाण (बोध कर्मात्मक)नी भूमिओले शय राये बहु प्रकारे नयन करुं हनु (नीर्वाणाओ नरी हरी)

७. द्विन-कस्वी जेवा जे सुनिए एक मासना, जे मासना, जग मासना, चार मासना क्षमण (सय-उपवासो) काय-बरेण विना कर्वा हवा ।

८-९. भवितवी जेमनु नाम प्रहण करवाची पुरुणे(मनुष्यो)सु अविष्ट कड-सकट जरी नाइ पावे छे, चाहे जे वेणो, मनुष्यो जे शिर्षोण करेनु होय, महो, भूतो, रोगो, उषसो, मारि(करवी) जे श्रुत प्रवण करेनु होय, अक्षना बोरे, सों, मय राजाय, दुःखो जे अक्षकुने करेनु होय, ते क्षय पावे छे, पूर्वना किरवोची गड अन्यकार भेषय छे, तेमा विस्वाद् बया छे ?

१०. मसापची भूमिओला सर्व(जाती) राव सुमेकनी जेव अक्षय उभा रहेवा जे महात्मा वेणो पंगोरेवा बहु प्रकारेण उपसर्गो वडे पण अज्ञातनात करी शकया न हवा ।

“उपासीवस्वीमल्लिखि गनीरन्दाकस्यारामाततया इनामनविधि श्रीकृष्णनाम मुनिः ।
 वे विज श्वरतु को मत्तयाद् नोर्ध्वनहर तुर्ध्वान्, रते म्भानिचक्रुत्तत् पद् जडैरथीकनास व ।
 मलय बहुशया श्वरपद् व पारवाविद्यत व इमायास विषोभन कनकन कृष्णार्जिणार्वा दुरे व
 श्रीमसायानुरे तुरा विस्विए नारामनविधो निर्गणोक्तमथैत्यमन्तिमन्त्रिण वर उदितय व ।
 श्रीमोक्तन कड वा (१५) उदि धेरेतुमिष्वा सुवी कथवारकविस्वर व मुनिपद् इतमते वेदिवार ।”
 - कुमारवल्कील महाकाव्य (अष्टादि को १४)

वीरसमय वीरान इतिह जमीरमहात्म्य श्री इत्थममरी नदिश वीरे रचनार राज सन्व कथयास विचार महाकवि श्वरपद्दुरि वने मनेक कविओ एना मन्त्रय कड गवा ।

शरद कृष्णकथना महेता मूल नामन सुभाके पोतानी मलासा शेष जडे एण मनेक महावीर वरिय (विश्वि स पु व वी १०), पोताना कड वस्तुंक गणना मकरुने इत स १३६० ना कौवापुर्वीना एव आश्रयना वक्तु हनु (विश्वि मडे तुनी पाठ्यवेमनरर मन्त्रुची (वा ओ वि व ५६ ताक-परी वी १, पु ३२५-३२६)

जे स १३५० का हरिवंशदुरिची क्षेत्र कथानी श्री रचनार इत्थमदुरि निरेरे पोताने कर्तुंक मळना मन्त्रिक छे (श्रीरुपे रि १, पु २०६-२०७)

पूर्वोक्तदुरीना नद विदुक्त ए व इत्थमदुरीना मनुमेसरी ओतनी सुभितोपेवकया सोमविद्यया इमेरे पोतानी नाता सोमयोग शिव मडे विश्वि स पु अरि ११ व सनी ताकपीय श्री स १३५१ वा मद्र करी हरी, जे इत्थममरी इतिहासय इत्थमकरना छे ।

वा व मळना वा अक्षयकथय शिव कृष्ण देवदुरे जे स १३५१ वा सरसवीरानना लक्षवेक कर्षमन्त्रिका कया क्षेत्रमनेजा होगनु कन्हे जगानु जे [तुनी जेकामेर नगर मन्त्रुची वा ओ छे ११, पु ५६]

कन्हेकडवीर (ओत्थल) कडवीर्या-रोवयल व सोरुणे करावेक वा इत्थमकाचीना विन्धे स १३५० वा वा व मळना लक्षयकडुरीना नद पर मद्रम ज्ञपरीदुरि अरिहित कर्तु हनु ।

वा अक्षयना 'विष्कनी मरवी वरील प्रजाक केव महात्म्य कन्हे (इत्थ) दुनि' ए नामनी एक केव इत वर्ष कडया मन्हे उपाणे हरी, जे महात्म्यकडुकी मकर कया 'विष्कलायकथ' मन्त्रिणा एतात र्केण व १३५० वा दीपोतनी मळना पु १०० वी ११६ का अर्थाहित मनेक छे ।

११. जैमिने ब्राह्मणवर्षमा अज्ञानस्त्री गतं अन्धकारमां परेतान् मनुष्यीने जिन-वचन-स्त्रीं बर्षीणं चरे सिद्धपुरं (सौध्) लो मार्गं वन्दत कर्वाँ हस्ते (दक्षिण्यो हस्ते) ।

१२ जैमिने महात्मनस्वासी यथा राजाभ्यो, द्विजो जने केहीजोने प्रव्रजितुं कर्त्ते हता, जने स्वाने भागमा वीजाभ्योने अमया (मन्त्रीन्धर) तरस्मा भाव – महासु आचरते कर्वाँ हवा ।

१३-१४ जैमिने एवा देशोमा, चतुर्विध शीघ्रपथी पाया करत्वा अन्येन जिन-मन्दिरो करत्वाँ हवा । गुह्यरथा (गूजरात) अस्मा, नामाडा (नागौर, बाराबाद) वगेरे जे जे जगोमा जेवो भोजन माटे पन बन्ना, जा त्त जनेन जिन-मन्दिरो बवा हवा ।

१५ जैमिने स्वर्ग, वय, बल-सूत्र जने जेम पव जौपधिरुम बला होई विविध व्याधियोने आश्वर्यकारक हीने नास पराहत्वा २ (महात्वा) परत्वा जौपधिनो विभव करत्वा हवा ।

१६ एवा प्रकृत्वा ते महासुमिना गुणोने पार पायी कर्त्वाव बहि, अथवा गणजना विस्तारत्वा बहेत्वा हन्वो (नगराभ्यो) तु प्रमाण बोध ज्ञायी कर्त्ते ।

विष्णुप्रकाश उपनिषद्धार्य

१७-१८ हेभो जने मनुष्योबडे सुखी करयेता, ते (महात्वा कुण्डसुमि) ना परलीन रोख रज जेवा, अथसिद्धार्था नामना जन्म – असामान्य शिवायवसे (शिष्यरूप

१ सूत्रगत माथी माथीजने सूत्रयो, सूत्रगत नम सवे सव्य परानयो, अज्ञानभावात्मा कर्त्ताद् वा गुह्यरथा उपदरो जनेन न ११५ वा एतन्मेष वा एतन्मेष स्यपत्ता महती हीने महत्त्वो पूर्वी हत्वा । जने जनेन, जा पळे हीने वने न ११८ वा असहित एव अन्य विद्विधत्वा पत्र उच्यन्तेत्यात्मा मते हे । परिहार (परिहार) ली कर्त्तव्यी एवा कर्त्तव्ये भविती जिनोऽपुत्र पुत्र-विराजत, पुत्र-वत्त अथन अथ करत्तु हत, एव ते हिंन अनेजना कथना वीरिणे अन्धकारयो सुखीभ्यो जे वर्मर्षं नृ हतु, वे जन्वते न ११८ नो विद्वन्मेष, परिवाला जौपुर भारवाच्यत्वा न हे, वेमा वे महाराजानं वसता कर्त्त 'पर नायकत्वायां पौन्यत्वा अथ गुह्यरथा' एतेन पना ह, अर्था जेने माय अग्निं गुह्यरथा वगेरे अनेन देहीन वीराना पचरीत जने गुणे वरे जनेन कर्त्तव्य वताव कर्वाँ सुखी-वर्षं जा माता हे ।

'जर्मन रोमन एथिपट्टिक लोकायां' पद १०१५ वा इ ५१५ वी ५१८ वा, सुपुत्री देहीअवगतोऽयं 'प्रज्ञावन्ता माथीन केव' वा, जने कर्त्तव्य माथीन वृत्तवती माथ्या 'जैमिनेअमद' (पत्र १, इ १५६ वी १६१) वा एव महत् महत्ति वारे ए केष तवत् भवेत् हे ।

अथ गुह्यरथाअर्थने मज्जे, महत्त सुखीरथा अर्थ, नि न १०० वा तत्त्वयथा कर्मयोग जेन अजना मते हे । अतिज्ञाअन्ती महात्या मोज (१ वा) वा अन्तवद्ध एने जनेन हे जा अनुवा अनेन विष्णुअर्थने, सुखीरथासुमिना अनेन केवसावत् नियम एते महत्त्व वृत्तवती आनु हे । वेवी एते ए- अन्तवद्ध वीजा वाचयता, एतना अन्तवद्ध असावत्तवत् (महात्वाया) चान्नं एव सुखीरथा असावत्तवत् अन्तवत् अन्त हे, वे जने माथी हत्वा माथ्याया जौपुर तज्या असा हे । कियेन माटे सुखी एने एथिया (निष्ठा [गी ५, इ २१५-२१९] अज्ञाना गुह्यर वेन, देहीभावा वगेरे जनेने, जने महत्तव सुखीर अर्थ-अनेन एनी पना १-३ कथन जेत्वा माथीन अथवा अन्तवत् वीजा – अन्तवत् अर्थने हे केवसावत् अन्तवत् 'सुखीरथा' अर्थने अथवा एहीने 'प्राज्ञा'अर्थवती सुखीरती अन्तवत् अथवा कर्त्त हत वेवी वा 'गुह्यरथा' अर्थने माथीन वरीन, कियेन रोम निष्ठा पराधानं यज्ञोनी वरे । असावत्तवत् वा सुखीरथा वा निष्ठा पराधानं अन्तवत्तवत् एव वा अनेन कर्त्तव्य वरी ।

अज्ञे) अज्ञानता करेला आगमने अनुसारे, खुनदेवीना प्रसाथी विमलसुखवाची कुसुम-
जाता जेवु धर्मोपदेशमालानु विवरण करुं छे ।

१९ अज्ञान, राग, द्वेष वगैरे बडे जे कइ अदुख न्हायु होय, ज्ञाना करीने, ते कूट
करीने खुनदेवीना सुखवाळा-सुखजातीओ जेने सुखिल (सुखम्वद) करे ।

२० आ सर्बे आगमनी विधि प्रमाणे कहेवाला आनु छे, कल्पवाची न्यून नथी, तेथी
ज्ञान-वचनो प्रजे सद्य (सुखवाळा-अज्ञान) मननो आगम-भक्तिनी आ (विवरण
प्रण) जे पहण करे ।

खुनदेवीना मास्तिप्यची रचना

२१ जे (धर्मोपदेशक), आ (प्रण)जे खुनदेवीना स्थापि-वची रकेल चिन्ताची वर्षणावा
बाबे, ते, तेना अभावधी बन्य, मोक्ष वगैरेने जाले छे ।

२२-२६ अन्ध वगैरेने पक्षिपक्षी, पोसाकी छानि प्रमाणे मोक्ष जटे उग्रम करतो
सुख, निश्रुचे बीजा पुत्रपार्थी बडे पण सुख अतो नथी, जेम घान्य जटे उग्रम करतार,
पला(रा)सुधी सुख थलो नथी कारण के आ(प्रण)मा जिनोतु, मशवरोतु, चक्रवर्ती-
ओतु, बलदेवोतु, वामुदेवोतु, देवसङ्गामीओतु, मन-परवचजानीओतु, भवविज्ञानीओतु,
प्रलेखसुओतु, जिनकन्नीओ वगैरेतु चरित करेवाय छे, ते आ लोकना चिन्तामथिनी जेम
अभिष्टोओ विपन्न करतार अने चिन्तवेळ सुखने आपनाक नाय छे, तथा परलोका
मोक्षना सुखने कारण करतार नाय छे । तेथी दुखिलोता विपन्नने, अने आ लोकना तथा
सखेकना जे कल्याणने तु इच्छलो होय, वा प्रणने तु भावज, अने सर्व (प्रण)
सत्यने तु वचाय । आ प्रणने वाचनार, सामग्र्यकार अने आ प्रणना बहेल अनुज्ञानमा
वर्तनार अनुष्य प्रीजा भवना, अथवा सातना, आठना आदि (धर्मोपदेश) भयोना
सिद्ध नाय छे ।

२७ म्हा सुधी होमो अने समुद्रो विद्यमान छे, कुलपर्वतो, चन्द्र, सूर्य अने देवलोका
देशे विद्यमान छे, आ सुधी नेमिचरित जेरुं मनोहर आ विवरण अन्धविज्ञानने पसरु
-सर्बज प्रसार पासो ।

रचना-समय, १९२४, १९२६

१८-१९. पसर वर्षोपी अधिक, नवस्रो संवत्सरो (संवत् १९१५) स्वरीय वेदा,
हादवद छुट्ट पथनी अने सुखवाले विवसे, स्थापि सङ्गणना, जनाना मनने आनन्द

१ अज्ञान वारुओ कर्बे वहेला एवनेची दृष्टिनिष्ठा अज्ञानी प्रथीन जेरप्रणवर्ती, जे थो जिनविज्ञानची
हा जिनसाक्षिप्रमाणेक विमविज्ञाना आ १, अ १ मा अज्ञानित वनेल छे, तेना न १२० मा 'खुनदेवीना
पति प्रकृत छुन्वये-विषय-जखीरसुखेकृत ११३ पर्थे' आगे लेख छे । ते पळे व १०५ अने १००
। कथानु छे व-

"धर्मोपदेशमाला-सुखवृष्टिः १९५ वर्षे अर्थासिद्धीचा । - विवरण साम्प्रतीर्ष विद्या व १"

आपत्तार, िंभीमोजदेवतु राज्य प्रवर्धमान हतु, जारे, नागडर(नागौर)आ विनापत-
नमा (विनामन्दिरना साधिष्यमा) आ विवरण समाय क्युं ।

२० विवरण करवाशी के के कइ कुशल क्यार्जित क्युं होय, देना बडे, भय्यो कवि
साथे शासन सुखवाला मोझने शक्त करे ।

२१ ए क्माते जगतया प्रक्यात कुप्यसुनिषा सिष्य ज्यसिंहसूरिर् विमल गुणशी
गुण, धर्मोपदेशमालातु विवरण अहिं रभ्यु छे ।”

विवरणनुं स्मरण

पिन्दनेनुंवित्र(इ ६८ गाथा १८१)श्री म्वाख्यामा सुप्रसिद्ध म्वाख्यापार
मन्त्राधिरिर् नूपुरदिवाता इयाजकने जागवा माटे धर्मोपदेशमाला-विवरणनी सिर्देश
कर्मो छे, से आ प्रथम विवरणने न्देशीने जग्या छे ।

ज्यसिंहसूरिना सिष्य

श्रीलोपदेशमाला नामना प्रकृत ११५ गाथावय प्रकरण रचनार ज्यसिंहसूरिर्
पोनामे ज्यसिंहसुनीधरना विनेय हरिके अजाय्वा छे—

“ कही जयलोक महाराजा मोजदेव, त महाराजा जागकरीय(जयमहिसुरि प्रीतिवित क्यम्)ना
पोन जग्या छे, जे जयकर्मनेमने समेवात सि य ८१० नर अजपर तु ५ हुजकरे बडे हने, सेने
दु सोद्वार कर्मावने प्राथम उत्रेन आ जग्या मठ छे—

“मा भूत तव-सोपशी कसु एत नखेमी य ज्येयु विना,

विम् मात त यथम अक्यवि स काल सुहृदपशोऽपि पातु ।

मङ्गलिन्यां य शिखे विद्यतु हृत्कृत पञ्चमी वा तु सुके,

महालोपशिताथे विविधगुणयो वर माताकलोक ॥”

सि धे १३१० ना प्रभाव-सूरिर् रीना प्रवाहन परेयमा जयमहिसुरि-जगन्नामा श्री ७५५ गरीके
उक्त करेय छे ।

आ महाराजा मोजदेवे सि य ८१५ ना जयमहिसुरि न्देशीकी बय, जारे पने सोन कर्मने होवे,
अने गुना देवता अधिसुरधार प्रभे गोधाऽ उगीय बर कही पेशीनी अन्तरिक नामनी द्वासी हवीं, ए
करीके उत्रेयो पन सा छे ।

आ महाराजा मोजदेवना राज्य उत्रयो य ११५ गो एत जयम-देव जागवाया भायो छे, सेमा जग्या
छे के—“पठकमहात्मक महाराजाविद्याक परेयार श्रीमोजदेवतु कल्याणकारी विजयवन राज्य दुषीया प्रवर्ध-
मान हतु, से कर्मने, सेमने जारेन पन महामन्द आर जनार महाप्रान्त श्रीविष्णु [] ना योग
क्याक्या जयमन्त्रिनां श्रीशान्ताप्रान्तनी कमीनां कामलदेव आचार्येण सिष्य देवे आ जयम
क्यायो हवीं । मकर ५१५ अरिन ह १० कुरहरी दिनेर वर-क्यार नखेन आ सम्म समाय कयी
हवीं । कङ्काल गणार् गीहिक बदेने आ सम्म पयो हवीं । कङ्काल सलसी घोराही ५८५ ।”

सुख से केम वर पियमां आ कर्मने छे—

“क कामलार्थ [] महाराजाविद्या-परवेका श्रीमोजदेव न्देशीकर्मनाय कल्याणवितक्याने क्य-
वक-वैकमहात्मक-महाप्रान्त-श्रीविष्णु[ग]म परीमुत्क्याक(वे) सुकल्पगिरे श्रीशान्ताप्रान्त[न]-[क]-
मिने श्रीकामलदेवाकाये-शिष्येण श्रीदेवेन काल[नि]त्तम् हयम् साधयम् शकत् ५१५ अक(ब)सुख-
सुहृदकर्मसुरीनाम् ५(१)हयमिदिने कर्मभारुवरकर्मने हर कर्म समाय हवि । क । कङ्काल
मगादिन गीहिक-बूलेन हर सम्म परेयम् हवीं । क । शककाल सलशालानि चतुरशीत्यधिकानि
क-८६ ।”-इतिमाहिता इतिथ्य (धे ४, इ ११०)ने सवीनी सिषिकनी कर्गीक

“इव त्रयोविंशसुमीवर-विशेषतश्चक्रित्तिना रूपेण ।

श्रीलोकेश्वरमाहं नारायण लहट बोधिपत्र ॥ ११५ ॥”

संभव छे के ते आ जपसिंहमूरिना शिष्य हसे ।

[२] बीजुं विवरण

धर्मोपदेशमालातु बीजुं सुविस्तृत विवरण १४१०? ओकरनकारणु छे, ते हुबहुतुरीय-रामना देवचरितमूरिना प्रथम पट्टवर विलयसिंहमूरिद वि स ११९१ मा सिद्धराज जन्म-सिंहना राज्य-राज्यवना रच्यु हतु । तेनी ४३३ नाइपञ्चोकाही पोही पाठनमा छे । तेनी प्राप्त ब्रह्मसि अम्दे पाठन जैनसंसारोनी ग्रन्थ-मूर्ती (ना ओ ति न ७६ पृ ३११ थी ३१३) मा दर्शावी छे, पीठमन रि ५, पृ ८७ थी ९० मा पण छे ।

ते बीजुं विवरण, अदि पञ्चमिन बना आ त्रयोविंशसुमूरिना विवरणयो ज विस्तार छे, बड़ेला विवरणमा जगामेसी प्राकृत कथाओमे ज बीजुं विवरणमा विस्तारपी जगामी छे । बीजुं विवरणमी प्रकृति (पृ २३) मा, पूर्वमा आ विवरणतु स्वप्न आवी गिरे कर्तु छे -

“धर्मोपदेशमाला-निरणयमूर्तीविरतने तनुभव ।

नद् नत तेन तविस्तरमारविन रसितलोच-सुदे ॥”

[३] त्रींजी विवृति

बृहद्ब्रह्मसमां सुवसिद्ध वारी देवमूरिनी पन्पराला नरनचन्द्रमूरिना शिष्य सुमिदेश्वरि पद कथा, जेमजे वि स १६२० मा ज्ञानिनाच-चरित रच्यु हतु, जेमजे आ धर्मोपदेश-मालातु संस्कृत कथाओबाहु बीजुं विवरण रच्यु हतु, पाठनमा तेनी नाकनवीच बरी छे पाठन-जैनमहार-सन्ध्यामूर्ती (ना ओ ति न ७६, पृ १०९) मा उपदेशमाला-विवृति नामपी सूचवापेस, ते आ ज छे । त्या प्रारम्भमा कुञ्जा शरिने ‘सुवृद्धि-नामदेव, भक्ति ओछोना होकमे इरनार’ जगाम्या छे, तथा ‘जेमजे तपस्वी उजवृद्ध सुमिष्टव अविरल फलो बडे फल्यो हतो’ जेम जगाम्या पती तेजना शिष्य प्रथम विवरणकार जपसिंहमूरिदु अरण कर्तु छे के जेमना शास्त्रकपी पृथना अर्थरूप पुच्योनेो समद् कपी में आ श्रुति रपी छे -

“वशी सुवृद्धीतनामा कुञ्जासुनिर्भन्विकलोचकोकहर ।

पञ्च तपः-कल्पतर्ह्यविद्-फलेरभितो- फलित ॥ ७ ॥

तस्मान्तराविजयी जपसिंहश्रुतिः, शिष्यो वभूव भवकारिधिपालनायद् ।

अप्रेरणानुगुणमित्यसिपश्रुति, ततोन्वहमिमाजनुकूलसन्धे ॥ ८ ॥

आक-दुमलास्य न सुरिदयो वाम्यर्थ-कुण्ठामि पुरा चिदाय ।

तान्देव सपुत्र्य तनोमि बुधि मालामिनेना प्रतिभाशुभेन ॥ ९ ॥”

आ श्रुतिकी श्रीकटीना जैनज्ञानमहारनी न १२५१ पोथी स १४९५ मा लजायेसी छे, जेमा प. ६६५० जगामेस छे ।

बृहद्ब्रह्मसिना नामनी प्राचीन जैनग्रन्थमूर्ती न १०८ मा आयो बड़ेस जगत कयो छे - “धर्मोपदेशमाला-वृत्तिः ११९० वर्ष सुमिदेशीया ६८०० ।” अजे जाना आधारे ओ बेलमकरे सञ्चित करेला ‘विस्तृतपत्रे’ (पूञ्च, नाभारकर ओरिश्चरत दिमर्ष

હનિતરૂપ દ્વારા પ્રકાશિત ઇ. ૧૯૬) વગેરેમાં થી રચના સ. ૧૧૯૦ માં સૂચવેલી છે । વાસ્તવિક રીતે આ ગ્રન્થકારે શ્વાનિતનાથચરિત સ ૧૩૨૨ માં રચ્યુ હતુ, જેનો સહેલ અન્દે ડ્રેસલમેન-માત્રશાસ્ત્રીય અન્થસૂચી(વા ઓ સિરીઝ ન ૨૧)માં, અખસિદ્ધ-ગ્રન્થ-અન્થકૃત્તરિચત(ઇ ૫૨)માં દર્શાવ્યો છે વ શ્વાનિતનાથ ચરિતનુ કાલે આ કૃતિયક પારમ્પ્રયા હોવાથી અને તેના સર્ગશક સમકાલીન પ્રસિદ્ધ પ્રશુભસૂત્રિનુ પણ જાણ હોવાથી આ કૃતિનો રચના સ ૧૩૨૨ વર્ષી, સ ૧૩૦૪ લગભગમાં થઈ હોવી જોઈય । વર્ષુક સહેલ આ ધમત્યે જે -

“શ્વાનિતવૃત્ત-વેલ-સવલિર્ધમોપદેશમાલાયાઃ ।

एता रचयति कृति श्रीमान् मुनिदेवमुनिदेव ॥ ૧૦ ॥

શ્રીદેવાનન્દસિંધુકૃતનરવન-મિત્તરણ્ટ ।

શ્રીપ્રભુશ્ચરિત ઝીવાન્ વ્રતપમન્-વસુચિકુન્ ॥ ૧૧ ॥”

આ મુનિદેવસૂત્રિના અમલક સહેલ ‘મુનિ’ વાને જ્ઞાન્દિથી વિશેષય મગઝી, દેવસૂત્રિ કામ હોવાનુ સૂચન વીટસંવના સિવોટ ૧, ઇ ૪ માં સૂચવી વર્ધુ હતુ, તેની નકલ પાછજ્ઞા અલેક ડેમવેર કરી ગયાય છે । વાસ્તવિક રીતે મુનિદેવસૂત્રિ યનુ નામ સમગનુ જોઈય । વિશેષ માટ જુઓ તે આ અન્થસૂચી(અખસિદ્ધ ૦ ઇ ૫૨-૫૩), તથા શાટવઝીનના ગ્રન્થસૂચી (ઇ ૧૦૫-૧૧૦), અને ‘કશ્વ(કૃષ્ણ) મુનિ’ નામનો અન્દારો પૂર્વોક ડેવ ।

આધારભૂત ઉપસુક પુસ્તિકાઓનો પરિચય ।

શ્ર્લોકોદેશમાલાની શ્વાનિતસૂત્રિના વિચરણ માથેની પીચે ગણાવેલી ૪ ગ્રાંચીન પોથી-ઓથો સવયોગ અન્દે આ ગ્રન્થના સર્ગશકન-સમ્પાદનના ઝર્વા છે, શાટાન્દરો દર્શાવજ્ઞ આ ઝર્વે ડ, ક, જ, ય થવી સજ્ઞાઓથી સૂચવી છે, તેનો પરિચય અર્ધિ આપવામા આવે છે -

[૧] ડ, આ સજ્ઞાથી સૂચવેલી પોથી હનનિતવૃત્તી શ્વાનિતવૃત્ત શાશ્વ-સમઘ્ઠી, શ્લોકોદેશના આત્મારામઝી-ઝેન જ્ઞાન્થનન્દિરમાની છે, તે શાટવઝીય પોથી ૧૦૦ વર્ષની, અંતમા ઘોથી અપૂર્વ છે પ્રકાશિત ઇ ૨૧૨ માં સૂચવેલ નાગ સૂચીની છે, વર્ધીમાયાના ઘનોહર મધવજ અધરોજ્ઞા ઝલાવેઝી ઘોથી અસુદ્ધ ઝ, કિનારો વગ કેટલેક ઝલે સુધારેલ છે । ૧૦૩ વર્ષની પીઝી વાન્, તથા ૧૦૪ વર્ષની પહેલી વાજ્ઞના અધરો ધમાદ્ ઝાઝા વર્ધી ગપલા હોદ્ધ ઝલધો વચાય તેજા ડ । ઝલાર્ધે વઠ્ઠ હાય ગમતય, અને વહોઝાર્ધે ૩ ઝાગઝ-ક્રમામ ૧૬૦X૨૩૩ ડવ પ્રમાલના પ્રલેક શાટવઝમા વને વાજ્ઞની મઝી વાય. ૨૬ ઝોજ્ઞ વલિધો છે, પ્રલેક વલિધઘ માય ૧૦૦ વધરોનો સવધેઝ વરવામા જાન્થો છે । આ વુસ્તિકાનો આ નાગ અપૂર્વ હોવાથી, પ્રકાશિ અરો આગ ન હોવાથી, પોથી ઝલાવાનો વિશિષ્ટ સવઘ્ વગેરે સૂચની ઝલાવય તેજ નથી, અનુઝાનથી તે ગેરથી અવધા વૌદની સર્ધીમા ઝલાવઝી ધારવામા આવે છે । આ પોથી, સપારનમા મુસ્કવઝા અધારનુદ વઝી છે, તેના વચમ વઝની વલિધુસિ(પેટો) કરાથી અર્ધિ પ્રારમ્પ્રયા દર્શાવવામા આવેલ છે ।

[२] क. आ सहायी सूचपेढी पोथी, प्रवर्तक मुनिराज श्रीद्विजविजयजीना शास्त्र-सहायी, बडोदरान्त जेन्हावमविरनी छे । ते १२"X४२" इच लवाई, पडोळाइवाळा कागजो पर लखावेली छे. उना सौचसुन्दरसूरिवा समयमा-पत्ररमी मदीमा लखावेली मदीम जपाव छे । तेना प्रथम पत्र उपर काळ इयाहीवी करेछु नमद्यावर्तनु कागडिक चिह्न छे, अने प्रत्येक पत्रमा पहेंडी वानू मन्थमा २ काळ चरुशुभर लिखक, अने बीजी वानू ३ काळ लिखकीनी लिखावी छे । लखावनाते आ पहेंका अनेक मन्थो आवी रीते एक ज लेखकद्वारा लखाव्वा इत्ये, तेम सूचपती आ पोथीमा चानु पत्र-संख्या १३६८ वी १४४० जगावकामा आवी छे, तथा आ मन्थ पूर्वी जूरी पत्र-संख्या १ वी ८० जगावेल छे, जगणी वानू साकचपीन पोथी प्रत्येक पानीम द्विदिमा साहेलिक अक्षरोमा एव तेनु सूचन छे, वहीमात्रामा मनोहर अक्षरोमा शुद्धशुद्ध लखावणी आ पोथीमा प्रत्येक पत्रमा, अने वानूनी मळीने ३२ पत्रियो, अने प्रत्येक पत्रिमा प्राय ७२ अक्षरोमो समावेश भवेलो छे । तेना छेछ पत्रनी बलिष्ठसि(कांठो) कपारी अदि वहीनेक छे ।

[३] ग. आ भद्रावाळी पोथी, श्रीद्विजविजयजी द्वारा लेखकमेरवी आबेली छे, ते कागजो पर शुद्ध अक्षरोमा लखावेली छे । लवाई एक केर अने साठ आगळ, तथा पडोळाई साठ आगळ, इच १३ X ५ पत्र-संख्या १४३ छे । वनाते अशुद्ध छे । तेना प्रत्येक पत्रमा अने वानूनी मळी २६ पत्रियो छे, प्रत्येक पत्रिमा प्राय. ४८ अक्षरो छे । इयाहीमा गुहर वनाते होवाथी तेना प्राय एक बीजा साथे चोटी जाव छे, चहु सभाळपी तेनो उपयोग करवामा आब्यो छे तेना ९१ पत्रो ज प्राय मळ्या इवा, मन्थनी प्रकाशवनी समाप्तिमा साथे वाकीना वाना एव जोडा मळ्या इवा । पोथीमा अठमा जूरी जपावी लिहिमा लखनालो कानू १६७० वनेरे जगावकारी अशुद्ध पत्रि, पु २३० वी टिपचीम अग्ने प्रकट करी छे । जेमजमेर(मारवाड)ना भद्रारोमी सर्वज्ञानक मन्थ-सूची [गा ओ. सिरिख न २१, पृ १३, ५३] मा अग्ने आ पोथीने खाना तुनागळ्या उपलवना भद्रारमा खेळी जगावी छे ।

[४] घ. आ सहा अग्ने तुंगपपत्रन(दून)ना मांठारकर ओरियन्टल रिसेर्च इन्स्टिट्यूटवी बोर्डी माते सूचपेढ छे । वरअना २ पत्र विनामी पत्र ३ वी ९९ वाळी कागजो पर लखावेली ते पोथी चहु अशुद्ध होवाथी अने श्रीद्विजविजयजी मासे साथी मागणी आकवाथी जखी वाळी मोषजारी आनी हती, हती ते चहु उपयोगी बद्द लथी ।

[५] आ वपराज, धर्मोपदेशमालाना स ११९१ मा विजयमिहसूरिच एकेल सिद्ध पाहुव कथाओवाळा १४४०१ कोक-जगावकाळा बीजा विवरवनी आधुनिक लखावेली अशुद्ध पोथीमो पत्र आमा प्रसंगानुसार उपयोग कर्यो छे, ते २९९ पत्रवाळी पोथी, बडोदरान्त जेन्हावमविरनी, मुनिराज श्रीद्विजविजयजीना शास्त्र-सहायी न ६११ छे ।

[६] धर्मोपदेशमालानी मुनिदेवसूरिच स १३२४ लखवना रचेली लखन कथावाळी बीजी इचियो पत्र आ सहादनया प्रसंगानुसार उपयोग करवाव्वा आब्यो छे । प ७९२० सूचपेढी ते पोथी, मुनिराज श्रीद्विजविजयजीना अग्नेरथी स. १९६६ मा

વાટપર્વ સંસ્થાપેલી છે, સ્વયં સનોતર સિદ્ધિમા વાન્તુ અણ્ણ સલાચ્છી ૨૪૭ પત્રોવાચી બા પોથી પણ અપર જગાવેલા લેખના સમ્પત્તી ન ૪૧૬ છે ।

આખાર-પદ્ધતીન

ક્રમાંક ૧, ૨, ૫, ૬ પોથીઓ તાલા સત્તવ મુથી ઉપયોગ કરવા આરણ માટે વિદ્યુર્વ મુનિરાજ શ્રીપુત્રવિજયજીનો, અને મુનિરાજ રમણિકવિજયજીનો, તથા ક્રમાંક ૩, ૪ પોથીઓ માટે આપાર્વે શ્રીજિનવિજયજીનો, અને તે તે સલાના વ્યવસ્થાપકોનો પણ હુ અન્નપરપથી આખાર માતુ છુ ।

અર્થુક હ સિ પ્રતિયો અરાન્ત આપરવકમ્વ (જિનદાસગણિ મહત્તરની પૂર્તિ, હરિવટ્પૂર્તિ અને ક્ષત્પતિરિતી પૂતિ સાથે), તથા વિરોપાવદરકમાધ્વ (મહાધારિ હેમવન્દસૂરિની પૂતિ સાથે), નર્વીમ્વ (પૂર્તિ અને પૂતિવો સાથે), હુત્તરાધ્વવનહ્વ (પૂર્તિ અને પૂતિવો સાથે), ક્ષત્પત્તિવન (પૂતિ સાથે), ધર્મદાસગણિની હુવદેશમાલા (સ્તિપૂર્તિ વગેરેની પૂતિવો સાથે), હરિમટ્પૂર્તિનો હુવદેશવદ ક્ષત્વ (પૂતિવો સાથે) વગેરે સમ્બન્ધ ધરાવતા પ્રસિદ્ધ સિદ્ધાન્તાદિ ગ્રન્થોનો ઉપયોગ પણ મે આ ગ્રન્થના સ્ત્રોતપત્તા, વિશેષ કુદ્ધિ માટે વાહાન્તરવદિ-નિરીક્ષન માટે, કલાનકોની તુલ્યા કરવા માટે, તથા માપા-રચનાદિ-વિચારણા માટે પ્રસંગાનુસાર કર્યો છે, તે કુલજતાથી સહન અપાતુ છુ ।

આપાર્વે શ્રીજિનવિજયજીઈ આ ગ્રન્થના સ્ત્રોતપત્તા તેવે રાસી પરોતેથી તેલે મુથી નિરીક્ષન કર્યું છે, અને પ્રસંગાનુસાર મૂવનો કર્યા છે તથા વિદ્યુર્વ મુનિરાજ શ્રીપુત્રવ-વિજયજીઈ, અને પ્રસિદ્ધ વ શેષરવાઈ આદિય આ ગ્રન્થનો ક્ષત્કલિટ કેટલોક માત્ર અવકાશ પ્રમાણે તપાસી કેટલીક સૂચના કરી હતી, હવા વાહાન્દરો કેલવવામા નિ મશાયેક અન્ત જોશીઈ મશાયલા કરી હતી, તે કરવેનો હુ અદિ આખાર માતું છુ ।

અર્પણ

આ ગ્રન્થના સમ્પાદનમા વધી રીતે અલેક પ્રકારે યથામતિ શક્ય ક્ષવલ્ય કરવામા આમ્યો છે, વનસી માત્રવાહરવાથી સ્ત્રોતપત્તા કરવ્કમા આલ્યું છે, અન્થમા કુદ્ધિવત્કની શોજના કરી છે, હવા મત્તિ-મન્દગાથી, ત્તિ-વોષથી, વમાવથી, અથવા કુદ્ધિમાક્રવ આદિના કારણથી કોઈ સ્ત્રક્ષના રહી ગઈ હોય, તો તે અન્તપત્ત વગી વિદ્યુર્વનો મુધારી ધટન વાહવાદિ કરશે, અને અન્થને મૂવવવા કુવા કરશે, વધી આજ્ઞા છે ।

વિજયમણવ ૨૦૦૫ }
માષ્ટાક્ષમવગી, ૨૪ }
કાટવદ્ }

વિદ્યુર્વ વતુ વર -
સાતપન્દ્ર મયવાન્ માળ્થી ।

शुद्धिपत्रकम् ।

पृष्ठे	पङ्क्ति	अशुद्धम्	शुद्धम्	पृष्ठे	पङ्क्ति	अशुद्धम्	शुद्धम्
३	२५	वीद-व्यो	वीदवयो	४५	१८	कई	कद्
"	२८	न । उक्त	नक्त-	४७	१४	विद्या	वद्या
५	२	मन्मह	मन्मह	५	२३	अद्	अद्-
७	१८	पञ्चम्या	पञ्चम्या	"	२५	भरदन	भदन
१०	६	ज्योत्स्नो ज्ञ	ज्योत्स्नो ज्ञ	५८	२४	(ए ते)	
"	१०	ज्योत्स्ना	ज्योत्स्ना	५९	२०	भद्	भद्
"	११	ज्योत्स्नो यो	ज्योत्स्नो यो	६०	१	भ	भ
"	१२	ज्योत्स्ना	ज्योत्स्ना	५९	७	भडा	भडा
१३	२६	भिरव	भिरव	"	६	भानद्	भानभद्
१५	२२	भद्	भान	६३	५	भुषिद्	भुषिद्
"	२५	भति	भति	५५	२८	भुञ्जान	भुञ्जान
१५	२८	भद् विद्	भद्भिद्	६७	१८	(भिष)	(भिष)
२०	३	भक्त	भक्त [भि]	६८	४	भक्त [भ]	भक्त
"	"	भुञ्जो	(भुञ्जो)	"	२८	भिमते	भिमते
"	६३	भ (भ) भवेत्	भवेत्	"	१०	भ-भो	भ-भ
२३	२	भुञ्जानभुञ्जो	भुञ्जानभुञ्जो	६९	५	भान भिजे	भान भिजे
"	६	भेदिभ्यः क- भेदिभ्यः (') भ		"	३५	भो	भ
२५	६	'भ एभ-	'भ एभ-' भ	७०	३	भ भि भ	भ भि भ-
"	११	भक्ति	भक्ति	"	२५	भवेदि	भवेदि
२८	२३	भक्तिभ्यः	भक्तिभ्यः [भ]	७२	१०	भ	भ
"	२४	भक्तभक्ति	भक्त [भ]	८४	१६	भ	भ
२९	७	भक्तभक्ति	भक्त भि	८५	१७	'भक्त-	'भक्त-
३०	२२	भक्तभक्ति	भक्तभक्ति			[भक्त]	
३१	११	भुञ्जन्ते	भुञ्जन्ते	९१	१	भेद	भेद
"	"	-भ भक्ति	-भेभक्ति	"	१०	भिला	भिला
३३	२६	भित्तिभ्यः	भित्तिभ्यः	१०८	१०	भुञ्जन्ति-	भुञ्जन्ति
"	३०	भुञ्जन्ते	भुञ्जन्ते	११४	१३	भुञ्जन्-	भुञ्जन्-
३५	५	भद् भद्	भक्तभद्	११७	८	भान	भान-
३८	१६	भक्तिभ्यः (भ)	भक्तिभ्यः	११९	७	भक्ति	भक्ति
"	२३	भक्तभक्त-	भक्तभक्त	१२०	२६	भक्तभक्ति	भक्तभक्ति-
३९	१५	भवेत्	भवेत्			[भ]-	
४५	१८	भक्तिभ्यः [भ] भ	भक्तिभ्यः [भक्त]	१२४	६	भक्त	भक्त
		भक्ति	भक्ति	१२६	१५	'भक्त-	'भक्त-

हजे	पङ्क्ति	अक्षरम्	शब्दम्	हजे	पङ्क्ति	अक्षरम्	शब्दम्
१५३	३४	वि ह	विह्वल	१५४	१५	सविप-	सविप
१५५	११	दुपयदि	दुपयदि	१५६	५	सद्वयी	सद्व(र)यी
"	१७	मे	मे	१५८	५	सुधेयथा	सुधेयथा
१६०	११	सिधित्ति	सिधित्ति	"	११	सम्पना	सम्पना
"	२५, ३०	सद्वयिथा	सद्वयि (धि) था	१६४	७३	सिधिता	सिधिता
१६५	१५	वेधय	वेधय	१६५	३	सद्वयि	सद्वयि
"	१४	अय	अय	१६७	२७	सद्व	सद्व
"	१५	दय	दय	१६८	१०	सद्व	सद्व
"	२३	मय	मय	१६९	१५	सद्वयेदि	सद्वयेदि
१६२	३	मरयो	मरयो	"	३	य	य
"	३६	सिधित्ति	सिधित्ति	"	११	सद्व	सद्व
१६३	८	सिधित्ति	सिधित्ति	१६९	६	सद्व(ये)दि सि	सद्व(ये)दि सि
१६४	३१	सद्वयि	सद्व(यि) यि	१७१	८	सद्वयि	सद्वयि
१६५	७	सद्वयि	सद्व (दि) यि	"	१५	सद्व, सैव	सद्वसैव
१७०	२१	न इ इ	न इ (सि) इ	१७६	१४	सद्वय	सद्वय
"	१५	सुधेय वरी	सुधेय वरी	१७८	८	'सद्वय'	'सद्वयि'
१७१	६	सद्वययथा	सद्वययथा	"	१५	सद्वय(य)	सद्वयय
"	१७	सद्वययथा	सद्वययथा	"	३३	सद्वय	सद्वय
"	३१	सद्वययथा	सद्वययथा	१७९	१५	सु धित्ति	सु धित्ति
"	३४	सुधेयय	सुधेयय	१८५	३३	सद्व	सद्व
"	"	स धित्ति]	सधित्ति	१८५	१५	स । सुधेय	सुधेय
१७३	८	सिधित्ति	सिधित्ति	१८७	४	सुधेय	सुधेय(य)

4-968

श्रीजयसिंहसूरिविरचितं

THE EASTERN ARTS
RESEARCH INSTITUTE, BILAPUR
BANGALORE-560 004

धर्मोपदेशमालाप्रकरणम् ।

[सविवरणम् ।]

६० ॥ नमः श्रीशुतदेवतायै ॥

प्रथिपत्य जितं शुतदेवतां च धर्मोपदेशमालायाः ।

वक्ष्यामि विवरणमिदं गुरुपदेशेन विस्पष्टम् ॥

अथ कश्चिद्वाह - नारदपुत्रश्च विवरणमिदं श्रवोत्तराद्व्रितत्वात्, कथञ्चशास्त्रा-दर्शयन् ।
तथा विरभिशेषत्वात्, स्वयन्दन्व-वरीश्यावत् । तयोऽसम्बन्धात्, एतत् एवितानि,
पदं अपूया इत्यादिवाचकवत् । तदसीया हेतुना असिद्धावपदमेतानि केषानन्त(वा) कल्पयेत् च
प्रवोजमादि पूर्वं प्रदर्शयन् इति । अथ च -

‘‘प्रिद्धवन्त्(त्) प्रवृत्त्यै कालदि त्नु विज्ञानं स्पृष्टम् ।

मञ्जः चैव शास्त्रादी वाच्यविशेषैरिद्धये ॥’’

इत्यत्रः श्रवोत्तरम्, अभिशेष, सम्बन्धो(न्व) मञ्ज च प्रदर्शयन् वाच्यत्वमञ्ज
प्रकरणम् ८ -

सिञ्जत मञ्ज वि सुयदेवि ! तुञ्ज भ(स)रणात् सुंदरा इति ।

धम्मोपदेशमाला विमल-गुणा जव-महाव च ॥ १

त्रिप-सिद्ध-सूरि-उज्जाय-साहु-सुयदेवि-सध-नाण्याणि ।

धम्मोपदेशमालं शौक्येण भणामि सुय-विहिता ॥ २

[सिञ्जता भवति शुतदेवि ! तव स्मरणात् सुन्दरा इति ।

धर्मोपदेशमाला विमलगुणा जवमहाव च ॥ १

त्रिप-सिद्ध-सूरि-उज्जाय-साहु-शुतदेवि-सध-ज्ञानानि ।

धर्मोपदेशमालं सुत्या भणामि शुतविहिता ॥ २]

अथ प्रवोजन द्विविधं कर्तुं-श्रोतवेष्या । पुनरेकैक द्विविधं पठान्तरेण । अथ पर
कर्तुः शिवमति, [अ]वर तु मन्त्राद्युपदे. । धेनुरादी पर बोधावाप्तिरेव, अपरं तु प्रकर-
वार्त्तवन्तः । अभिशेष धर्मोपदेशः । सम्बन्धस्तु वाच्य-वाचक-उत्थानः । अ च प्रकरणा-
न्तर्गत इति इत्या न उच्यते । अथ च चनरुपायन प्रकरण वाचकम्, येष्वन तु प्रकरणायाः ॥

सङ्घत्तु जिनादीनां श्रुतिः । उत धम्मज्जात्तंवा अकरणकारो तिष्ठिस्संनवसुत्तपर्यं सुत्त-
 देववा विज्जपपत्तिं च । द्वितीयायाश्च तु जिनादीनामद्येपविज्जोचसन्त्तयेऽभिलषिज्जपरिच्छये
 श्रुतिनाहेति बहुराध्यर्थः । अनुनाऽनववाच्योऽभिप्राये—सिंभवत्ता विष्णवत्ता नमामि, तथा
 प्राक्कनकवीनामित्तमित्तवत्त्वर्थः । हे सुत्तदेसि ! हे पादेसि ! एव सरणत्तु विष्णवत्ता,
 सुत्तवत्ताऽऽत्तन्नप्रधानं, इति ति अत्तु, अनेववात्ता उपदेश धर्मोपदेशाः, तेच मात्तं पट्टति,
 विष्णवत्ता निर्माज्जा वाच्यदिगुणा चत्ता सा चत्ता । जयत्तज्जोचोवत्ता । तत्ता सुत्तात्त-उत्तः,
 वत्ताः । धम्मज्जात्तंवाऽनववाच्यं ६ । एतादिज्जेतापो जिनाः, सिद्धा निधिनाथाः, सुत्त
 आचार्याः, उपाध्यायाः सुत्तवत्ता, साधवो सुत्तवत्ता, सुत्तदेवत्ता प्रवचनापिच्छाजो, सुत्त. धम्म-
 पादिच्छुत्तवत्ता, एतास्मि मत्तादीनि । विष्णवत्ता सिद्धाश्चेति इत्तः । एतास्मि सुत्तवा धर्मोप-
 देशमाला भवामि त्वीनि सुत्तविधिनाऽऽगमात्तुत्तारेण मत्तात्तन्वत्तेदिज्जमित्ति भावः ।
 द्वितीयायाऽनववाच्यं ॥ २ ॥

मात्तं धर्मोपदेशां प्रोच्यन्ते । नववत्तिं चतुर्विंशदधर्ममत्तमित्तं प्रथमं दानधर्ममत्तमित्ति-
 सुत्तत्त—

कालोवयोगि संतं पत्ते पत्तंमि धम्म-सत्ताए ।

सत्त्वोचहि-विमुत्त धणो इ देव्वाहि सुत्ति-उत्त ॥ ३ ॥

[काश्र्येपयोपि सन् रात्रे प्रागे धर्मश्चद्वय ।

सर्वोपाधि-विमुत्त धन इव दत्तात्तु सुत्तिरावत् ॥ ३]

काश्र्यः सत्तायावत्तिना-सुत्तवत्ति-उत्तवत्ता, तत्त्वोचोवोऽत्ता दानवत्ता उचत्ता । सत्त विष्णवत्ता,
 रात्रे सुत्तो, प्रागे आगते, धर्म-उत्तवत्ता, न पत्तामित्तोपादिना, सर्वोपाधि-विमुत्त सर्वमित्तोत्त-
 विमुत्त द्विपत्तावित्तादोपरहितमित्तवत्ताः । उपाधेर्वित्तोपवत्ता । धन इव दत्तात्तु सुत्ति-वो दान
 वत्तादिना सर्वोपाधि-विमुत्त सुत्तिरावत्ति । साधार्यं. कथानकमत्तमित्तवत्ताः । उचिदम्—

— [१. दाने धन-कथा] —

दीपोदहि-सुत्तपत्त-मत्त-विष्णवत्ता सामय-सत्त्वो ।

अन्धि सुत्तेल-सत्तिसो जंजुदीपो जिम्बिदो इ ॥

तत्त्वं वि अवनविदेदं सत्ता मत्तं, अत्तं तात्रो अम्मत्तिपं तिम्वत्त-वाच-पंक्त-
 विभूत्तिपं च सत्तात्तवत्ता मत्तं ।

तत्त्वं च सुत्तिभत्त-सत्तात्त-सुत्तपं-गोत्त-देत्त-धम्मत्तरात्त-सत्ता-विद्दत्त-विष्णवत्तद्विष्णवत्त
 नाम नैपर । जंज, सत्ता-वत्तं त्ति ब्रह्मत्ताद्विष्णवत्तं, पत्तवत्त-सुत्तात्तवत्तं च । रामात्तवत्तं
 त्ति रामात्तवत्तं, सुत्तवत्त-वत्तवत्तं च । सुत्तात्त वत्तं त्ति धम्मत्तित्ति-सुत्तात्तं,
 विष्णवत्तद्विष्णवत्तं च । जिम्बिद-वत्तं त्ति सत्तत्तुत्ति-चरिवात्तुत्तवत्तं, सुत्तवत्तं च ।

१. द. क. ज. अत्तं. २. द. क. अत्तं. ३. द. क. अत्तं. ४. द. क. अत्तं. ५. द. क. अत्तं.
 ६. द. क. अत्तं. ७. द. क. अत्तं. ८. द. क. अत्तं. ९. द. क. अत्तं. १०. द. क. अत्तं. ११. द. क.
 अत्तं. १२. द. क. अत्तं. १३. द. क. अत्तं. १४. द. क. अत्तं. १५. द. क. अत्तं.

जस्य च लीषामं दापामि चक्षुः, जस्यमि लोरो, मत्प्रथममेमु 'केला, संत-मुष-
'केतवमि सुहरया, मुक्त-जगपि-जगप-कञ्जमि वासवत्तम नि । अवि च -

हरि-मरिचा रायानो भयिषो वेगमप-विभ्रमा कथं ।
रमणीओ रत्न-मरिचा ललिय सुखुमर-सहास ॥
तरथ च राया विप-जस-ववाह-धरतिव-दियंताभोयो ।
पञ्चपञ्च-पुंन्यामो विपनच् कल्पकरो ॥
अह कथ येप निगमइ दीयायादाय वण्ठलो इन्धो ।
आषादिच-विपलोओ वेनकव-नयो पयो धामं ॥

जो य, सत्यवागो व मुष-वपरद्वेषं, पाठयो व मज्ज-वरहीय, रिषाममो जग-
कुंदरुपायं, निष्ठिमि मिड-कमल-महाप, वसत-ममओ मयगसिरीए, पिहाहकालो पाठिन-
नल-अलामयापं ति । अवि [य]-

कामो व कर्मिषीथ पवईव कल्पयावयो चरो ।
बहु-बुधुयाभराग, टिकमंपरो पाव-तिमिरस्य ॥

अक्षया रक्ष्य सुच-चिउडेव 'चेतिपमयोय-अधो ! किन्धेप अधिप्यदिय-पुनि-
पारेण पुन्नपुरिमजिएण विहव-वित्थरेण ! ता मत्त देसतर, ममजिज्व अप्प, पूरेमि "
पच्छमो, वेलेमि बंधुयो, सुदुहरामि दरिद-महापक-नुते दीयाकभइयो ति ।

नो विप जपमि आओ परन्ध-सपाठमं सु ओ सुयइ ।
अरइ-वटी-मरिसे संवारे को किं न जाओ ? ॥

एवं च मासेतस्म पभया रयणी, कथ मोम-किमं । आनुचिहया बंधुयो, निरुयाविप
पक्काव-वामक-वामर । गदियाणि परदेम-वामक-जोग्गाणि विचिव-बंधाणि । गोसाविप
च मन्तरे-ओ धयोय मह पचइ, तस्स अतिवकंजय-पाठमेमं धपो उदेवं ताव कइइ, जाव
वमतपुर पयो हविस्सइ ति । तं च तोउम पयइइ अवेवे समन-बंधय-किविप-उपीमगा-
रयो साहुणो य ति । अवि च -

न्दाओ कव-वलिकमो सिप-वन्थाभराग-कुमुम-सोहिहो ।
पमराओ 'मीइ-धयो सत्यापुपओ सुरगुरु व ॥

तथो वन-महागहो व विवरतो दापं, सिपपक्क-मयसंछयो व बहुओ जव-मव-
पयवापंदं, कल्पयापयो व पूरवो मपोरहे, कमेय पयो तमाहाभिहाणए अट-
वीर ति । जा य, भारइ-कइ व अज्जुवालकिया, हरि-या । उल-संचया च । कथायमि
व पयलिय-सम्म-भीसया, मचचदणालकिया य । पओम-संज्ञ व पमचिय-पीलकंटा,
पजलिय-वीविपा च । पाठसतिगि च करि-मयाउला, हरि-सइ-संगया य । जपप-कवप
व गिसिपरहिट्टिया, मयणागुगया च । संकापुगि व सुवन्न-सातासंकिया, पल्लयापुगय
ति । जा च, अपरिमिय-कण-संचया वि मचकयासंकिया । पुष्पवई वि 'पयवा ।
ह-सन्ताहिट्टिया वि बुधियाग-सेविपा । मयणागुगया वि पचइ-धम्मकइ ति ॥
अवि च -

१ अ विहा । २ अ किमं । ३ अ न । ४ अ पुष । ५ अ क च 'अय' । ६ अ विहो ।
७ अ अविपकला । ८ अ 'दुपरे' । ९ अ सुइ, व सइ । १० अ विरता वि ।

सल्लस्य-वप-संचाता वषट्ठिय-मयणा तुषण्य-ग्येच्छा ।
 मन्दद्वयभाषा काशिकी व जहपी व गेहति ॥
 को पुष जहया कालो ? संताविय-वगमि-मंडलो गेम्हो ।
 कुनरिदेण संरेच्छो बोलीये तमि वष-समओ ॥
 सपचो अहवीए तदिच्छडादोय-मासुरो दूर ।
 संताविय-विरहि-वयो सुदुम्हो मयन-बाणो व ॥
 हरि-कोदंड-विषेम्माय-वत्तवायेहि विरहि-हियथाई ।
 मेण्णामेण्णाई वयो विलोओएण ओएण ॥
 सामल-ज्ययो वंय वेओओएण ओयए किम्ह ।
 संताविय-वगमित्तं खलो व थणु-समओ जलओ ॥
 दूष्णय-वत्तप-वओदरेणु रेह वलाव-रे-छोली ।
 काउवसिरीए हारावलि व कतोदु-वपणाण ॥
 गेम्ह-वरेट-व्यमणे जलहर-एदेहि साम-ववणाओ ।
 लंभिय-वओहराओ दूर रोवंति व दिगाओ ॥
 सुसुसुरिय-गिम्ह-महापारद-कव-भोर-वहुरं-जव-सरो ।
 वहित्त-वलाव-वदाओ इसह वयो कश्चुट्ठ(य-कुसुमेहि ॥
 पाउमल्लच्छि-वओहर-वणोछिपा काशिको व अंचाई ।
 धारेति नय-सगंधुर-रोमंथोवाह वगणिरा ॥
 करिणो मय्यो निरिणो सिहिणो जलपा व पच वि संहति ।
 इंदीवर-संकासा पाउमल्लच्छीइ वयो व ॥
 इय एरिम-वय-समए सत्थादो सइ अउर-मज्झवि ।
 पीसेम-मत्त-महिओ कल्लदायुगओ गइंदो व ॥
 सव-द्विय-लोएहि असणं "जं भासि तं निद्विय सवं ।
 तादे पुष्प-फलेहि तावस-सुमिणो व ते लग्गा ॥
 कइया वि वगमि-विरामे चित्तेइ थयो इमंमि सन्धम्मि ।
 के सुदि-सुहिणो पुरिणा ! हुं ! नैयं सारुणो दुहिपा ॥
 वग्हा जिमंइ-सुमिणो कदं सुलं फलं च मच्चिणं ।
 न च्छिदंति करक्केण वि तग्हा ते दोचिरापा एके ॥
 सो पण्णुल-विउदो वंतूणं भग्हा वम-भरीए ।
 सुमिणो थयो महप्पा एलिय-वत्तं वमलेव ॥
 जं मे व कया त(म)पी इह परलोए य जविअ-सुह-भवा ।
 वं वंचिउ मिह सुमिणो ! इचिय-वत्तं सुवम्माओ ॥
 अहुमा वि ममाहिणो गेम्ह वण्णावि जाधि बोण्णाणि ।
 सुमिवर-दामाओ जओ लहेति विताण-सुक्खं वि ॥

१ क 'वोछा' । २ क 'मि'ओ । ३ क 'वप इण' । ४ क 'मण' । ५ क 'वा' । ६ क 'सुसुर' ।
 ७ क 'व व हुवा' । * व पुष्पमल्लोवणां जतो सुवीरवत्तविय ववहम्म जलज्जते ।

वा मम शिबुद्-हेटं सुषिषो वेलेसु जंनिओ मरी ।
 भिक्खुद्धा पडुविवा धमेण मद् सुरिणा माह ॥
 संपत्ता से मेई हरिसुम्भेत्तव-पुत्तदर्यमेव ।
 भत्ति-बहुमाग-तुई वएण पडिठाभिया सुषिषो ॥
 ताडे चित्तेइ धणो धत्तो इं जेष मत्तु नेहम्मि ।
 सवोवार्हि-विसोद्धा पडिपा भिक्खा सुमाहुहिं ॥
 पुत्त-कलियाण सुषिषो उवेति मेहेसु सीय-मय-मोहा ।
 ए कवाट रवण-वरितं निरउइ पायाण मेहेसु ॥
 परतुल्लिय-कामपापव चित्तमपि-कामधेसु-माहएवं ।
 संमत्त-महारपणं पचं धण-सत्त्ववाहेणं ॥
 पत्तो व पसंतउर मरुधेण ममं महानरिंदो इ ।
 आणंदिप-विपल्लोगो मगहारी पाउम-धणो इ ॥
 दहूण नरेदं सिद्धिषो व जं जस्स जोइ कायवं ।
 न सर्वं चित्त(प) काउं पच्छा मंडामि डायइ ॥
 कोवीमर-पणिएहिं धमाउ पडिपाणि सव-भडामि ।
 वेहिंते वि धमेणं पडिउंठं महनिहमसंठं ॥
 संपत्त-महालाभा ज्ञाया मत्थे वि मत्थ ववाणामो ।
 संपत्तो धियय-पुइ कमेण मद् सत्त-सत्थेय ॥
 तस्माचमेण तुट्ठो महमवं कारवेठ नरनाहो ।
 अह्वा को व न तुम्ह संपत्त-धणो जए पुरिसो ? ॥
 एवं त्रिवग्ग-सार वरए-संपाडणेइ-तल्लेच्छं ।
 बहु-धन-वसंमधेउं विमप-सुई अणुहरंतस्स ॥
 बोलीया पुंसीया पच्छा वोडवणम्मि संपत्ते ।
 संपत्त-धमोत्ततो मरिउणं विहु-वाओ जाओ ॥
 इय ताव नाणिववं पवस्त चरियं सुयाणुसारेणं ।
 जा उममनाम नाहो सित्थपरो सो तेम-धत्तो ॥
 अतो एम धम्मोपण्णो जहा पणेय धानं देवं, तहा दापवं ।
 सुपदेवि-वनाएणं धनास चरियं सुयाणुसारेण ।
 वरिहं जो सुमइ तरो सो लहइ समीदिय-सुहाइं ॥
 ॥ धण-कहाणपर्यं संमत्तं ॥

सांप्रत हीलात्मक धर्ममधिकृत्याऽऽह वरकरणाकारः—

लहूद्व-सेसाहरण तियसाण वि दोल्लह महाइसयं ।
 राईमइ इ निचं सीलाहरण खु रक्खेज्जा ॥ ४

[लघ्वीकृतश्लेषोक्तस्य विरञ्जानानसि दुर्लभं महाविषयम् ।
राजीमतीनं नित्यं शीलमप्य तु खेत् ॥ ४]

लघ्वीकृतानि विरञ्जानानि श्लेषोक्तानि कृतश्रीनि केन चन् तथा । विरञ्जाना विरलेर-
भावात् । अवलोक्या दुर्लभं महाम्बोधशिक्षया वञ्च चन् तथा । शीलमामरुत्तमिष शीलमरुत्त
। श्लेषोक्तमण्डनम् । श्लेष मण्डन् । गाथाऽम्बराधी । भावार्थस्तु कथानकमन्वयस्त्वेषेणम्—

— [२. शीले राजीमतीकथा] —

अरिष इहेन संतुष्टीये दीने बाग्दे पामे वमरुष-विनपाहरपाय चूडामणि-विष्ममो
सुरहृदिशानो देयो । जो पं, द्रवद्विषयउ व मानस-धन-वञ्च-संनधो । विज्ञलो व विव-
निय-जाह-संपालो । केय-निदेमो व वमाणीकय-शोडुल्लोमो । जपकेमणि व महामपाहि-
१० द्विशो । कञ्जलापरो व कय-लण्डि निवामो चि । अवि य—

आहरमापं चूडामणि व देमाय मरुद नो देमो ।
तमि पुरी पोराया पानवई दम-दिशि-पपाम्ना ॥

जा व, पदिभन्म-वृ-वसम वि वरादिद्विज । पयदु-मया वि विलमि-महागया ।
कुव-द्विपा वि अयता । सावायीया वि पयदु-उल नि । जा प, ममो-वेठ व बहुवि-
१० रपचुञ्जला, य उग वडपायलाशुमया । मिचक-लेट व वडिपाचंडा, य उग सफरंका ।
सुरेन्द-कालवदुल्लि व विचिच-रपपोञ्जला, य उग विमप-भुण चि । अवि य—

सुर-केति-विचिप-ससि-संठलमि मणि-शोडुममि सकेते ।
अथ इवड तहेलं पतरा अहिसारिका-सत्यो ॥
अमनहर-सार-समुच्छलंत-वर्गमणि-नेउर-रवेण ।

१० कल्लमाष कल-रतो य सु(सु)गिजद मेह-वासीसु ॥
पौसेस-विचस-नरवर-पडइथे सपल-तिदुपपाभोवे ।
तं गरिष अ न दीमाइ अथेअ दीए पयरीए ॥

आ सार-वडल-पम्हल-पयदुञ्जल-दीद-नयण-जुपलेहिं ।
अववरणं तिपसेहि वि पुलइइइ कुलपमेहि ॥

१० हरि-वाच-मिमेच सुरवेहिं गपेहिं आ विगिम्मविषा ।
महि-महिंलाए चूडामणि व को वधिउं तरु ? ॥

अइ एको विष दोसो पञ्चोत्त-ममपमि संमलपईवा ।
आयति विमक-नेया पविपविष-रपक-किरवेहिं ॥

१० वीओ वि तरुष दोमो तिपया पगर्माए अकय-नरुवा वि ।
पयमंति वेमि-हरिषो महिवदु-पयविदु-सिदि-मउटा ॥

तशो वि दीए दोमो पयाप-ममपमि मसुं(ग)ल्लवीथं ।
य सु(सु)गिजद सार-समुच्छलंत-मणि-नेउर-रवेण ॥

१ अ पं । २ क वयो । ३ क व वचनवदुमि, अ अत्रवचनं । ४ अ पाम्, अ पारं ।
५ इ ल पविद । ६ अ केरि । ७ अ म गी ।

इय एवंपिड-दीमायराण विवर्तन्ति प्राक्व-वर्तिन् ।
 इव वि दम्भा वपटा समोद्विजयादगो पुष्पा ॥

उक्त च श्रीमद्वचन्द्रिकाचार्येण -

“समुद्रविजयादगो-व्य विद्विम्बु [] गगनात्तथा । हिमवान्चक्रजेन धाम पूज्यतया ॥
 अतिच्छद्रश्च नम्ये वसुदेवश्च कर्मणम् । वायुदेवस्तुते नम्ये कुन्ती मही च विश्वे ॥”

जे च, टांयं विद्वं, गुरुभो गुणात्, अस्मिन् समवाचरणं, निरिणो किञ्चि-महानर्हण,
 निम्बल-वर्धवा कुल-मदिस्व नि । जे च, सेम फयि-पाठमूहा विव र्दीपरण-वचला, जल-
 विरिणो विव नय-र-हिका वसुदेव-पेरत नि । तस्म य समुद्रविजय-राज्यो किञ्चो(कैली)-
 विव भासुषो तिदुषण-मयराहभेल-सुभ ववातंकिपा सिवादेवी कारिवा । ताव च चउद-
 सुभियप-सिमुषिओ सुओ भेनिगामो तिदुषण-नडावपी वापीन्तमो निरुषयो । वसुदे-
 उन्व वि मयलंतेठ-वरावाओ ओषि भान्गिओ देहं रोहिणी य । देवदं लत-
 महासुभियप-वज्रिओ कण्ठो तान वयम-वासुदेवो । रोहिणीय वि चउदं नहासुभियेहि
 पूओ वल्लदेवो नि । तसो नथ ताव तिष्ट नि उमात्-नदेवमहिर्पदेजभापात्वं, सुसुंदरीहं
 ति अरिल्लेजभापात्वं, महा तमन्ध-तिदुषयेष वि प्रमथेजभापात्वं, जम्भेतर-वि-
 भिनय-विच्छेद-सुभाषु-आ-जगिषं दीपलोप-सुहमपुद्गलंताय संपचो वर्तते । जम्भ य,
 विगर्पति रनाओ(नो)मन्त्रयो, भंजंरजति मयारा, फुल्लति परत्ता, विमर्ति
 कुजया, महमदति पाटनाओ, वषट्ठन्वि चचरीओ, बहु मथेजति द्दपामना, अमुषे-
 जन्ति दुईओ, वैजति नारुणोड ति । अति च -

उपमद-सुं वु म-रुवला-वज्राविल-रासिग-नयल-सुयगाण,
 झोटल-कल-नय-कमिर-मह-सिदारिप-संक्षिप-नमसि-रि-वपण ।
 वउतामोम(गो)-नीष-पविपपिच-दीक्षिप-पंचपाण,
 कुमुमाओय-ममिर-ममरावलि-विचमिच-संदुवारण ॥
 इव परिसे कर्मि हल्लर-मोने(वि)र्-वेकिमो पना ।
 नागत-आशय-सतिपा नममहा रेव-उजामे ॥

अं च, संकेय-टाव विव वसंतलच्छीए, वामहर विव मकरकेज्यो, रमवट्ठायं विव =
 रंए, कटखलो विव सरस्वदं नि । अति च -

पुष्पाग-पाना-चंपय-द्विंशत-समाल-वाल-सोहिहं ।
 मंड्यदय-संकाहं संपचा ते तमोलाय ॥

तसो भमिउय विविच-कीडाहि अयपर(वि)या सन्धि-विहा(दि)स्यामिहायं सस्वं ।
 अं च, वपयं विव वेरिध्वं, पडमपराह-समोदान्य-परमिंसदं विव अस्तउष्णं ति । अं च, =
 मच्छपाण महापुसि-मथेहि विव विमिधं, पीयसुवद्वि विव विगर्वं, कुरति-स्येयव-वहाहि
 विव वद्विरे ति । अं च, कर्हि पि विज्जात-कामिणी-शय-कलम-विशुलिय-जतुपीठं ।
 कर्हि पि विमद-कंदोड-कुमुम-कन्हाण-गुण-फल-मयवत-महस्पपतोवमोदिपं । कर्हि पि

१ क च टाव, किरण । २ अ च मय-उपम(पा)त्वं । ३ व 'मिर, अ चकरव । ४ क च' ।
 ५ इ 'वेण', व मयम । ६ इ क प मोरस । ७ अ 'मिरलया ।

विचलितपारवैद-भरतदांगवैदु-गिषद्-चंद्रवाहिरामं जलाउलं । कर्हि पि वकुल-चंपय-महु-
 पाय-भरत-हंसकामिणी-रुप-महाकोटाहले । कर्हि पि नगदेवता-केलपास-निचंडंत-कुसुम-
 रप-रेणु-रविचं । कर्हि पि अभिरोप-निक्षेचागन-सुरपद्-बंध-कलक(ग)-चंद्रय-पुलि-
 शबलिय-नगर-मालाउलं । कर्हि पि वेरल-जाय-केपई-रपपट-पवलिय-बीर-कल्लोलाउलं ।
 १ कर्हि पि संपत्-दिमानपंद-जळरिषं-जल-दुष्पाळ-वड-खंडोपरेलि । कर्हि पि हर-वि(प)-
 सम-विशाष-कोटि-संडिच-निविड-तड-प्यहाय-कलुसिय-जलाउलं । कर्हि पि एगनच-दंत-
 हृषल-संडिच-दुष्पाळ-गिषह-सगवं । कर्हि पि महु-नच-भयिर-भयरोलि-बंध-विमुलिया-
 रवेद-केसर-कम्भोर ति । अवि य -

पकुल-कुमुप-तारे परेद-भरत-चंद्र-सोहिळे ।

२ जल-जोष्ठा-वडेहत्वे समत-भपपामि अरपरिवा ॥

दशपाष-परिवागे सरस-मज्जामि महु चोविंदो ।

सुरकामिणीहि सहियो सीरोप-जलमि उरो व ॥

विलसंतमि नरेदे नर-मलितं पुलिय-राग-सोहिळं ।

जावं सुपुसित-जोगो अचुरावं कम्म व जयो ? ॥

३ दृश्याप-गरुप-पञ्चोदगए एकाए गोळ्ळिओ कटो ।

निवटड वकुलुळ्ळगे मोचाहारो व अचाए ॥

अनुपेद जाव एवं कुवलप-दल-दीहराण दिट्टीए ।

रोम-कुसिपाहराए दुमिजद ताव अचाए ॥

कीलद जेते वुई एक छिउ जाव कट्टए रापा ।

४ नीहुपलेष परओ अचाए जाव पुईए ॥

ल-सिहर-हुंन-देहा विपदद महत्तपयस वच्छमिद ।

मयसो चि का वि भयिणी तं चिय आलिगए वाला ॥

जल-केलीह पोवुडो भियमण जाव हन् एकाए ।

अचाए ताव देणो बान-सया-पामओ तस ॥

ज्जयसो इव मारि जलपर-मज्जाउ कट्टए जाव ।

इव ता दुरपाए च्छेभद् अत्याह-नीरमि ॥

रोह पियाहिं समपं रवंत-सरग-सलिल-मज्जामि ।

रिसखापलि-परिवागे पदिमा-पदिओ "मिरेओ व ॥

पिय-परिहाम-दिपंतुंन-सजोणमिय-सुहीए काए वि ।

५ आग्निभोज मो चिय दोमो वि कुडे गुणो जाओ ॥

मोनुप केक्याई मयरदोहाम-सुरहि-संघाई ।

वेरिमल-राभासदुप-अपळा सेवेति रुपघाई ॥

इय पिय-पग्गिय-सहिपा इलहा-भोवेद-वेमिओ अपर ।

समिठवं संघया सुर व सीरोप-जळमिहियो ॥

१ क 'दुम', क 'मररोको' । २ क 'पण' । ३ क 'तोर' । ४ क 'अज्जित्तज्जिय' । ५ क 'क' '९ ति ।
 ६ क 'मारे' । ७ क 'परवट' । ८ क 'ओ' । ९ क 'पी' । १० क 'ओवे कुड, व क 'अज्जुड
 ११ क 'क' 'कुळ, वेरी' । १२ क 'क' । १३ क 'कुळ्ळवेमिण' । १४ क 'वेरि' ।

एवं च जन्मन्तर-विद्युच्चिय-पुष्प-फलान-अभियं तिरुत्तय-पर्मन्वयेत्तं पश्य-संपाडय-
मयम् त्रिवन्ग-सार विद्यतोम-सुहृदपुद्गलौष समद्वन्द्वे को वि कातो । अथवा त्रिय-
र्यो-नेपापान-राज्यमय-परिवृद्धो रम्यो कमेय सरयो नेमी इतिओ आउहमात्तर ।
तिहुत्ति य अयोग-देवपाहि-द्विपाणि नागाविहायि आउतायि । क्तो देव रातवेतु मेष्टतो
वारसु निवड्डित्तम भयिओ आउहमात्तावालेय-‘दुसाग’ किमयोग मयंसुस्मय-अल्लि-अल-
गहा-रम्य-विष्मनेषामक-पोद्गाणेयं ? ए एतु महमहाहिनी मदेव-मसुम-सुरे वि तेलीके
अतिथ मत्तो, जो इमं यत्तुमारोपेय । तजो हमनेयं तमन्विड्यारोविषं लीलार । कि
एव से जीयान्नेय ज्ञायं ? ति । अवि य—

उन्मल्लिपा जलनिमित्तो र्वात-तमय-कण्ठ-पडहन्था ।

अन्तर-विष-मजाया मयना यपय-ममन्मि ॥

पमरक-टाग-परिचल-नेपाद-द्विप-मयंत-ममर-उत्ता ।

मय-पेत्तिर तलन्छा किनाचइटा वि ते नहु ।

परिमिटिल-संधि-बयय-जर्मय-सेपाहि-वत्तिय-ममि-मउटा ।

निपयग-नेडव तलोदिय एव मचल्लिपा अर्णी ।

मोत्तुं मागय-टाग अन्नं किं पतिथ तिरुपयाभोने’ ।

अन्न चत्तियं सुदूर जिष्मन्म गदीत-मदेय ॥

तजो अथत-विस्मिपायागकिपय-नराण मोक्क कालरुत्तुं पुष्प(रु)च वारनाग वि
पदिओ पचायन्नाकिरायो मयो ति । आप्मिओ सुपग-मुष्पय । इह च से मदी
गयो ? ति । अवि य—

मय-नार-नमल-लोपय-चलत फय-नितड-वागगाएग ।

आयभिज्ज नदी आत्तरिय-मयल-नवासी ॥

अगपय-टाग-यमरिय-उष्पय-वरेदि मुत्तुमिदि व ।

आहूओ विर दूर हिन्धेदि दिमागधेदहि ॥

अपूव विर मोडे मदे म(म)म्मायि मोह-मआयं ।

वासेज्ज दूपर निपनात्ति-करिउरेयं पि ॥

मोत्तुं अमय-सुपिओ सुदिप मयलं वि तिरुपयं इति ।

मदेय देव धणियं विष्मन्तो वगानि-अन्न-विमयो ॥

तजो वृषिय-कुमार-मायत्वेण मयिओ चलदेयो इरिया—‘अस्सेरित पालम्न वि
नामर्थ पेलियो सो वहुं(हु)तो ग्ज इरेस्पद. ता पुयो वि चळे परिकिण्डणय ग्ज-
ग्जपुपोवायं चित्तो’ । चलदेय मयियं—‘अलमेपात् संकए ।

अह-वेत्तिय-देव-कलो एमो पवाईय कम्पयन्तो इ ।

सो इह मदे ! मत्तं [इरेइ] कुम्पो कुमाहितो ? ॥

अथि य-

“कुम्भिकुल-विभ्रु हाहा-कुम्भ विपथि कुम्भिक
 निरुपनरसरीयया सारन न्नाथिभ निरुपिणम् ।
 सुपतेनरि-वा पा-वंत्य सत्त्वा-पुकिउमोवते

न हि मयापति सुरो वीक पतिउह-कल्मुहान् ॥”

येषु पुत्रं केवल-निदिष्टो उष्णो धार्मीन्द्रो योषी शिखरपरो, तुमं पुत्र भरदह-साया
 नयम-पासुदेवो; ता एव भयार्थं अकृप-रजो परिचय-सयत-नायक-जोयो पत्रार्थं काहि सि ।
 अम-दीर्घमि रज-इय-संकाए चारेकतेवावि इलिया, उजायहुचमाजो भविओ योषी
 हरिया-‘कुमार! निप-निप-यल-परिवस्यार्थं बाहु-शोञ्जेण शुज्जामो’ । नेमिया
 भविओ-‘किमणेण बहु-उच-निदमितेण इपर-उच-बहु-मएण बाहु-शोञ्जाञ्जवताएण ?
 विउम-अण-वसविलेण वाचा-शोञ्जेण शोञ्जामो । अन्ने च, मए उहरएण तुञ्जावि-
 भूयस्स मईतो अपमो । हरिया पत्रय-‘केलीए शोञ्जंताण केरिसो अयसो ?’ सजो
 पत्तारिया वासा बाहु-लइया नेमिया । एयाए वामियाए वि जिओ म्दि सि । अथि य-

उक्तासं सलु तम्हा जोज्झ गोविंद् ! तेण वाहाए ।

वामिय-मिवाद् विप विजिओ म्दि व इत्य संदेहो ॥

अदोलिया वि दूर अइमामत्येण चिण्डुया वादा ।

येवं वि न ता वलिया मर्वा व ते मपय-वापोहि ॥

एवं च विपियच-रज-दाय-संकस्य द्सार-यक-परिवुदस्य हरिणो समरंतेतो कोइ
 कातो । अमना संपय-जोष्यं विसय-सुइ-मियच-विच मेमि मिएउम भविओ
 ससुइविजयाइय(ता) दमार-चकेम कमतो-‘तहा उचपरसु कुमार, अहा इति पपहुए
 विसयसु’ तेव वि य भवियाओ रोपिणि-सबधामा-पहुहाओ मियच-मारियाओ । काहि
 वि महा-अवसर चक्ययं सविभमं सदासं सविषयं भविओ एतो-‘कुमार! संसार-
 विस-वाचयस्स अमयकलभुयं खेनाइ-विमिहु मागुमचन्, तथ वि नरेद-कुतुपची, तथ य
 हरिंस-सिलय-सइवितनपराएणो नेहेअपरथं । असरिस-इवाइ-गुण-संपया, रापसिरी,
 पीसेस-कला-कोमहु अदियव-जोखं अयारिस-वाय-संपया अयासुराओ सोहमासोमं
 पदोचं दभसेणं इययायुवधि-वेच-संयसा सताहमिज-गुरु-सहि-सपय-संयमो केवीध-
 याओ महागुमावचयं विराओ चाओ सदा उह-चितिय-कज-मिप्पचि सि । अथि य-

एते सधे वि गुणा सादीण-मियाण विवुइं देति ।

विच-विहिियाण जिणवर! सुमियय-अलपाव-सारेच्छा ॥

ता हाऊव विच्छिं दार-संगह, मोचूय भोगे, वेमिऊव पुचे, कल्लीकरेसु एते सधे वि
 गुणे, एरेडु गुरु-सपय-भेवाएण मगोरदे, कल्ल प्रच्छम-वपमि विमियच-विपयाहित्तो
 करेअतु धम्मं ति ।”

अह इमरेणं भविणं-‘‘दाराइ-परिमाहेव गुण-विरहो ।

सफलो व होइ इइय वि मोचूयं चरण-पडिचि ॥

जेव, जाओ विसप-विषमनाओ इत्थिपाओ, ताओ महावाहीओ विव सोसिबोइहाओ, अरुवावहीओ विव कय-संगमाओ, कियामकल-मदिहीओ विव [वि]त्तामा[वा]ओ, मांइनालिप चिहाओ विव सुइअन-भोइ-कारिवाओ, विवपाओ विव वीअरु-वसिबीओ, मरुभूमीओ विर अणिय-तण्हाओ, पमाय-ईर-रुहीओ विव पण्हु-नेहाओ, संकलाओ विव लोहायुवगिबीओ, हुंविबीओ विव परव-नामिपीओ, अरुव-सारीओ विव पर-पर-संचारिबीओ, संक-नालिवाओ विव अंती-कुडिताओ, पंड(हु)या-अवसि-जुबीओ विव जहाअुमपाउ चि । अवि य-

इय केविप च ममउ ? समल-दोमल विसप-सुपाओ ।
इभीओ जेव लण्डा परिहरिका पपनेव ॥

किं च-

“अरुवकल एव वेरिठ केन निर्मिठ ” ।
अरुवपाउ-अुमसव समा सोपलसुव ॥”

अर्थ च-

देवच वि व विरा विपवा । सुइ पुव मारीर-मालायेप-दोकाव-अारव कइ वि किलेमापाउ-वर्त वि अरि-कळ-चंचल अधिर विशाच-दार्थं विरमावसां वि ।

अवि य-

“ईमा-विमान-भय-कोह-लोह-पवमाइ-दुक्ख-वडइत्वा ।
देवा वि कामरुवा अकिरा पचम-वीर व ॥
वल-रुहिर-माअ-नेव-द्वि-मल-सुकाइ-असुर-पुण्या ।
मारीर-नायमायेप-दुक्ख-तदिवाम पुरिताव ॥
असुइममारचयेवं अधिर जुह-वेदिये पित्तिसामं ।
एवविठं तु सोकरं दुसिसाव इवेळ च्छं कइ वि ॥”

करो माहिओ कुमाराभिष्ठाओ ताहि हरियो, तेव वि दत्तार-अकला । पुवी वि जहा-अनसर मवहुमार्थं भविओ दत्तार-चयेव हरी-वहा सर्वे विव भवसु कुमार, वहा पूरेइ मे मयोरे ।’ तओ भविओ तेव येमी - ‘कुमार ! उमभाइयो वि तिचपरा काउव दार-संगई, भोअुव भोवे, अमित्तव तमर, पुरिउव पण्हुयो(यो), पाळेउव पुहई, मळा विविम-काम-भोगा पच्छिम-अपमि पाहया; तहा वि संवचा निअवं । ता एव कळयो, काउवं दार-संगई, पूरेसु समल-दोम-सहिचल दत्तार-अकल मयोरे, विलेसेव अमवि-अणपव । अओ ! अइवेम्वओ एवाव । हुंविप-वमाविप-वरिमाये(पावे)व व पडिवक ति पचव चि । अवि य-

“उवरोइ-सौलवाए कडिवका वलवा इमा येव ।
पर-कळ-साहव-सा पुरिता कुवे वि निवइति ॥”

इहिओ व जिवाभियाओ दत्तार-अकल । करो संवाप-वहरिसाइएव भविओ येवओ दत्तारचयेव-‘कुमारासुखं वरेसु वारिसे’ मवेसेव माहि-संगई देहा उम्वसेव-इहिपा राचवई कथना । वा य, पर-वराइ-कल-विम्वेवं विरु-सुअणवचं, पंचमि-

विषय-सङ्घान्तर्णं भातुल्लक्षणं, मयङ्कव-कोटंठ-मस्तिष्कण्यं भ्रमया-शुभ(य)सुल्लक्षणं, विच-
 विष-कङ्क-विचममेहिं मयसुल्लक्षणं, मङ्क-महा-मसुल्लक्षणं नामा-वैतुल्लक्षणं, संकुच-
 विषय-सङ्घान्तर्णं फोत-वतुल्लक्षणं, विषय-संनिवेशमहसुल्लक्षणं, कुं-कुमुम-वैतरेहिं
 इनसुल्लक्षणं, इतली-मस्तिष्कण्यं कंठ-मस्तिष्कण्यं नीकुल्लक्षणं, विषय-मयवच-वह्मिष्कण्यं
 वचसुल्लक्षणं, ईमि-वर्त-विरेहिं कपोल्लक्षणं, कोमल-गुना-मस्तिष्कण्यं बाहा-सुषुल्लक्षणं,
 मंगलकलपीवमेहिं श्वसुल्लक्षणं, विषय-वच-सङ्घान्तर्णं मङ्क-सुल्लक्षणं, विषय-
 सुल्लक्षण-वैतरेहिं महसुल्लक्षणं, फयली-वन्दोवमेमङ्क-सुषुल्लक्षणं, विषय-वच-मस्तिष्कण्यं
 वैतरेहिं-सुषुल्लक्षणं, कुमुल्लक्षणं चतुसुल्लक्षणं विदुष-पभाय-विरेह-सुषुल्लक्षणं ।
 अवि य -

- ॥ ताम-सुल्ल-मङ्क-दीह-मन्तं-कस्तिष्कण्यं-धयमेहिं ।
 विष-वचमेहिं विषय-धयवच-मस्तिष्कण्यं लम्बि ॥
 वेतुल्लक्षणं स्रं फ वि सुल्लक्षणं जीर देवो वि ।
 मयणाउरो विषंभर को किं त त्थिउं सरा ? ॥

ततो संतुष्ट भविओ भौशय-पंम-विलओ उगमेव-नरेदो जनिना - 'पावेउ राश्रमं
 ॥ पेमिओ वरिष्म-त्त ।' लेव भविं-^१मयोराश्रितो परमाशुमहो एव अम्हान, जेव
 मातुल्लेचए वि वन्दार पाविओ ममत्थ-वेला-व-वुरामपी वरो ।'

^१पमाश्रितोऽन्वित्थमस्तिष्कण्यं कर्मलोत्थयपरि ।

लम्बेवाऽश्रमिणे विरेह इति विरेहिं सुषुमेव ॥

- ॥ मयविषं दोमु वि कुलेमु महावडावगयं । अश्र-दिषहिंमि विरुजाविओ वारेजय-
 ॥ महत्वो । ततो पेशविपसु मयसुल्लेवेषु मङ्क-वेय-वरावातं-मराउणसु कायवेषु, कमेव
 मयोउहमओ विच, अमच-रस-विभिम्ओ विच, परमावन्द-कओ विच पचो वारेज-वामरो ।
 जहा-विहिणा न पमस्तिष्कण्यं रायमह वि । अवि य -

दहि-अकलवा(य)-कुंभ-वराउ-हायाहिं व-सुषुहाहिं ।

विहिणा पमचिचवा सा रंभेमुप-भुम्भ-वरीहिं ॥

कुम्फ-कलोदय-भरिणहिं विष-धयेहिं न कयप-कलमेहिं ।

सुनईहिं प्वाविणा लतु पउमिष्कण्यं-कुम्भ-पचेणं ॥

सवोतहिं-वमन्थि-सुराहि-मंथ-वदुकस्तिष्कण्यं-विदुष-सीताम्भि ।

वदुकुम्भाय-कुठरहिं गुराहिं से अकलवा देवा ॥

आचंवि-मकसेसुं पडिओ दश ३ जावप-रओ से ।

॥ दोह विष संजोगो रचे रसस कि चोज ? ॥

विष-कंति-विचममेणं जंपाओ कपाओ पुस्तिष्कण्यं-रामेण ।

चकाय-सरेन्डाओ श्वेषु तह वचलेहाओ ॥

विज-जन-भवलेणं चंद्रमेव पदयं वि से कवं पदर ।
 मयण-पगाहो अरुणे कमे इ कयो-पुराणेहो ॥
 एव-पर्यायव-धोम्मन-विमह-कदोह-उत-सुनोविहं ।
 लोपण-सुपलं वि रूप कज्जल-रय-रजिप तिम्ते ॥
 मन्माम-सिरी विज से सुहम्मि तिलजो मयोन्मओ उहइ ।
 उज्जंति तीण अलमा सुह-भवापडिय-अमल व ॥
 मगइह-महापडिय-समसव-जिय-लोप-लोपम-सुहइ ।
 मणि-नेउराइ तिप्सा चलेसेसु कपाइ हतो व ॥
 विप-कपडि विज वेदियः चलयसुलीओ पडिचन्था ।
 कापि-दियव व वडु मसणा-दाम विचंमि ॥
 कटाचमव-बहुसुव-पओरुल्लंग-वडिपामंते ।
 कम्मि इ जयिव-भोक्खो सुमा-शयो वि से ररुओ ॥
 विव-वयवाइ विव कुंडलाइ मयमो(मा) सुली वेहंति ।
 सीरंमि महइ चहामयी वि आम इ अय-गुरुओ ॥
 उप जाव वमाडिउट रायमं विउम-मडि-सचूरेण ।
 नाव कुमारो वि वडं वनाडिओ देव-रमयीइ ॥

उल्लो समासुतो एवमज-सकलं मन्मथारण, समासया कपारा मत् बलदय-वासुदेवैहि ।
 एतंलरम्मि मवाहवाइ वंन-सुगाई, उडिप सिप[य]जन, आवुनिवा जमल-संसा,
 एवउपयई मंगलउ, उप-जपाविप विपम-नामोहि । चोइओ मपंइओ नपचे वंतुं ।
 मसु-उल्लिओ कलपयो । वओ पुवंतो अमलिय-सुग-सवधेणं, अहितकिजंतो सु-सुप-
 सुंदरीइ, पमंलिअमाओ तिहपमेवं, एवलिजंतो मुग्गुंदरी-वयम-थपल-वहाइ, महा
 विमहइयं सपचो विवाह-एवलहरामम । तओ फलुपकड मोउम जयलेषावि जिषेणं
 पुचिओ नारही - 'ओ! कज पुण वय-भीरुपणमेम कतुव-पओ?' सारहिवा
 मयिं - 'दिव! एने हसिप-स्यराओ नुज्ज वारेजप-परमाउड वजाइलन आमिण-
 थोपधेण लोपा इअविमंति।' तओ वषामिउण ने आसणावि, मयिपा लोपा
 जिषेव - 'ओ ओ! केरिओ परमाओ! उम्मि एवाम गिरावराहण दीप-वयमाण
 अतरपाव सुहा-विनासा-वादि-नेपपा-पीडियण कलुण-सगण वओ कीरइ! हा किमधेव
 इह परतोणे व सात-नायन-दीपक-रेउणा स-पणेवप-जमिण-सवावेण वारेजएव?'
 मतेण चोअविओ हयो उज्जंतामिहुइ । अवलरु नि काऊण संपचा सारस्ता(स्त)-
 पाइलो लोपंतिपा अमरा । एवं जयिं व वेहि - 'मयवं! केरं पववेहि ।'
 अवि व -

“सारसयमाहवा अथी वरुण व गततोमा व ।

सुमिया अन्वयवहा अमिषा केव रिहु व ॥

एते देव-विप्राया मय्य वेदिति विमयसिरे(५) तु ।

सख-अणओव-हिव मय । केव ववेहि ॥”

तस्यै द्वावित्तो आशोमवा-पुष्पं महादामं, अथो-देव-दागव-सिद्ध-भयह-वेजाद्दरा-
परिवृद्धो सविन्नाय-वापन-पुरलोपैहि व अशुगम्ममाशो संपत्तो सुदं पिय वगरा-
न्यदर विनाल-वच्छं च, तियस्यार्हं पिय सवयं जय-वापड च, महुमई पिय तमाल-दल-
सामलं सिदि-सवदासियं च, जलहिं पिय रवग-भारं विवुर-सेवियं च, जिगिदागव
पिय पय-वान-फलियं महाइतर्पं च उज्जैत-पडपं । जो य, कथं य मत्त-भाषंग-क-
पियर-कज्जंत-सरत-पंदपयणावम्महत सुरहि-परिमत्तामोव-वासिय-दिसा-मंडलो, कथं य
मासुर-बुह-विपर-वपलिय-दादा-कराल-केसरि-स्वर-व्यहर-कोटि-निहसिजंत-मत्त-भाषंग-
कुंमंतपत्तापित-बुचाहल-मियर-वपलिय-महिचलो, कथं य प(थ)क-महावराह-दादा-
कोटि-नियकम्पूलेजमान-महिषेदुच्छलिय-भदमुत्का-महापञ्चभारालंकिओ, कहिं वि मत्त
करिणाह-गंडयलासच-कथ-चवेदुद्गाविय-भमिर-भमर-संकार-दलबोलिजंत-दियंतो, कहिं
वि किलिकेलेत-बुहाहिवाहिदिय-नागर-मियर-वितुपंत-सिनिफलोवरदिरो, कथं य
जहिच्छ-भारत-कथचरेहिं बहत-केकारकवुरेजमान-गुहा-विपरतो, कथं य रहसो-
कपंत-तियत-कामिणि-धम्मोत्तुवेल्ल-मिवटंत-मंदार-कुमुव-मियर-भूमिजमान-गिचंन-रथलो,
कथं य किष्क-विहृष्य-सवारह-भेय-सदावपण-वेसल-दिय-दरिग-उलो, कथं य
कमल-बुवल्ल-वीत्तुपल-सयवच-सइस्सपत्तोपत्तोहिय-महाभरवर-मंडिओ । जो य,
भाषदंतो पिय गचवंनवास, बूठामणी पिय महि-सीमंतिपीए, कथापयतो पिय
दाहिय-विमानरूपाए, केस-कलाओ पिय जवलच्छीए, रक्का-नमणा-बंधो पिय रईए,
रमसुज्जावं पिय उउ-सिरीए ति । अवि य -

पुष्पाय-ध्याय-चंवय-हिताल-तनाल-वाल-सोहिलो ।

पंदपावण-संकासो उज्जैतो सइ मेरु व ॥

तथं च तनासुद्धो चउविह-देव-पिकाय-परिवुड-चचीत्तसुराहिव-परितारो जिणो ।
कस्यो समाहयाई आभिवोणियाई देकसुराहि(ई), आवूरिया असंल-संखा, तनाहपाओ
देवसुंदरीओ । पमभियाओ देवसुंदरीओ । जय-जयावियं तियसेहिं ति । अवि य -

अरपड-सुमिर-वण-तप-चउविहाउज-वज-सरेहिं ।

कम्म-पठियं व तुषड वपयं रोरस्स व पहाहिं ॥

तस्यै विमुञ्जामि तित्थपरेणाहरण-वत्पार्सिणि, पडिच्छिप्यामि हरिणा । सत्तुवणीयं
तित्थपर-सियं देवसुगुहं उचरातंवीरुवं जिणेवं ति ।

“सस्ये वि एणदूसेव पेणगया विजयया चउज्जैत ।

अ य वाम उउ-सिने नो निहिलिओ कुलितो ज ॥”

कस्यो सपवेव पंच-बुद्धिओ लेओ । एरांतारमि सफ-वयणाओ समुवसंतो कज्जलो ।
कयं साम्भार्यं ति । अवि य -

काउल नमोकारं सिद्धाण अविग्गाई तु सो लेह ।

सवं मि अकरि(र)थेजं पावं ति चरिचकारुओ ॥

पवड्जो गरुड-महत्स-वरिवामे अर्धतरु व जापं मगोपाणं ति । अवि य -

“तिष्ठि पावेरि लमन्ता दिरुवका जव देरि निह-वते ।
पडिपलमि चरिसे नउमण्णि जव उउमत्ता ॥”

ततो काउज निक्कलमग-महिंमं गया शिवस-वरदेदुदो गिषय-गुणेषु ति ।

काउज य से महिमं पत्ता देवा जता व सडुणो ।
एण्हि अं राइमई कुण्ड तवं भो ! विपायेद ॥

ततो पडिषियण चि जिपेद-सुणिय-बोचंता भगिवा सा सडियेणं ति । अवि य -

सुर-मशुय-सुंदरी-सुद-विरण-बेणो महासुणी एणो ।
सिद्धि-बहु-राग-वचो वेण्हइ पीणाहिउं महितं ॥
वज्ज-वउवाइरिणं वषणं मौउज सडि-ववाहिणो ।
सुण्ड-विणीलियण्णी पडिया वरणीए सा कम्मा ॥

ततो कह कह वि उउ-बेवता भगिउमाउता-“अवो ! उउजो वि उउदुंजो मए अण्णा,
तिहुयमस्स वि अचंत-दोह्णदे’ महापुणावे जमे अपुराणं करिणीए । जेव कत्थ
विमिञ्जियासेस-नरामर-विउअर-कुउ-रुप-जोडण-कत्ता-कत्तापाइमजो समरय-तिहुअण-
कवय-पाय-वंकजो उह-चितिय-संपअंतजसेस-महाकतो पोमी !, कत्थ वा अम्हारिसीजो
अडुणिय-वरमत्ताजो पायय-रमणीजो ! वि । सउह अचत-उण्णापुणाजो वि व रमए
एणणो अचंत-सुंदरे वि गाम-तत्ताममि । अवि य -

“जो अण्णो परस्स य गुण-दोते सव्वहा व जायेइ ।
सो अण्णावं चिउंनह अइं व वेमिमि उव रता ॥”

ततो इमं नि सार्पती अमाहारण-दोक्क-सडियंणी आलिहिया चिच, उडिण्णा चिच,
वंभिया चिच, निचत्ता चिच, उउ(व)रपा चिच, बेहिरिया चिच, सुद-मण्णा चिच,
वरिया चिच, वरिया चिच, महापाहि-विषयाउरा चिच राइमई जाइ ति । अवि य -

कि बोणेणं पडिया कि वा रुयेण वेमिनाहस्स ? ।
अहवा वि जोक्कणेणं रोणेव व किं व होआहि ? ॥
अन्मं विव दीपंता पुजो से वंति दीह-सुंद-ववणा ।
दोक्कलानउ-मीजो विव पंपणो तीए कंयो वि ॥

ततो कमलिणी चिच दिणपरं, अउहि-बेला चिच गुण्ण-मयलंउणं, कयेरु चिच
मममहागणं, सडिणी चिच जंतउर, कउवंसिया चिच रोचवंसं, महुवराही चिच पंकरुं,
सई चिच पुदर, लच्छी चिच महुमई, सरस्सई चिच सुउकुं, दया चिच महाडुमि, स
वेव दिणय-सल्लभुं सार्पती चिलविउवाउता -

“काउं दण-पत्तंणं गुणा वि रे देव ! अवडिजो कीण ? ।
काउज गिद्धि उण्णाडियाणि अहवा वि” (किं) अच्छीणि ? ॥

१ अ सार्पणियण्णि । २ इ “हो । ३ य “वि” । ४ क व केव । ५ अ उवेण । ६ य ववण,
७ “व” । ८ अ “सुउण” । ९ अ पुण” । १० अ इय । ११ अ “विउवणि” ।

ताञ्चो जयन्ति धञ्जा ताञ्चो जीयति जीय-सोयन्मि ।
 जाहिं विप-संप्रज्ञोमो मयथा वि य जाहञ्चो कइ वि ॥
 बरवाणन-संकास दुकन्त निरुदति बहुरं कउं ।
 पावनि निरुपम-मुद विणिपचा बाहुराहिणो ॥”

ततो य महद् मयलंछणं मलउन्मयं च, य यथेऽ महिषा-व(व)वणं हिओवन्त
 च, निंदय कम्मइं विपय-कम्म च । ततो विपयइं से कम्मइो संवाओ, बहुइं मुंइ-बाहुरो
 एवणञ्चो य, निरुद अमु-पवाओ मुकयण्णो वा, वायइ लञ्जा वेवणा य, अणुमच्छइ
 पुलओ परिणयो वि । अवि य -

वीममइ तीण मुंइ-बाहुरो वि, दोक्य वि दुक्कियं होइ ।
 मेवइ वाह-उल वि य पुलइउं नोइ पुलओ वि ॥

तओ भगिणा महिषा-वधेष - ‘रिपमहि ! जम्मंतारोविचयम पाव-महातरुओ
 कइमिणयो, ता धीरकयनवसंवेसु, अलं विमाइण, धीर-धवाओ वेर राव-धुवाओ
 होति । भगिणं च -

“अमलमि न उरिण्ण विरुमि उरुविण्ण म्” हेण ।
 होति अमेल-महात्त मरुमि विण्णमि य मयत्त ॥”

एवं य परिणाम-मुंदरेहिं कइ कइ वि महिषा-वण-वधेहिं ममानासिषा भगिउं
 पवत्ता रायमई - “आणामि अउं विप बहुम-मनए सुमिगयन्मि मंयओ दुवार-देसे
 वरितुसिण-सिद्धयण-कडाह-मुण-समुदओ अचंत-विलकण्णो अबोण-देव-दावण-पित्ताह-
 राधुगम्ममाओ एरावथाकूटो कोइ देवपुरियो । सो तक्कउं चिप नतो विवचीउण
 ममाकूटो मुरुसेलं, निमओ सीहामणे । ममामचीहवा अणेगे अनुणे । महिषा-पण-वध-
 योइवा पचा अइं वि तत्थेय । ततो दाउमारनो म(वा)ण चउरो चउरो कण्णायव-
 कलाणि । मए वि भगिणं - ‘वयं ! ममावि वाणणाणि कलाणि देसु, वेण य मारीर-
 मावण-दोक्कं लहाणि ।’ “एतेहिं किंणि मुद-कहुएहिं परिणाम-नहुरेहिं तपसुवट्ठेहिं य
 कपाइ दोक्कं पाविहिंति, निरुपम-मुद-भाणिणी य परणे होहिंति ।” मयंनए देव्वाणि
 मज्ज वि कलाणि । कक्कयं च मज्ज-ए-रवेण विपोहिंय मि ।” एतेहिं भगिणं-
 विपसहिं ! मुद-कहुओ वि एस सुम(मि)णओ जावि परिणाम-मुंदरो हविस्सइ । तओ
 भगवओ याथा रइयेणी रायमई(इ) उवपरिउमाउरो । भगिणं च वेण -

“यव सव-संजम-ओमे परिंति दोइवि(मि)णी महिलाओ ।
 ईं पुव सोइण-निही अम्हा तिपन्ता वि परिंथन्ति ॥
 ता उज्झउण एते मज्जु मंनं पण्ठिउंमि य वणंमि ।
 संपण-विण(स)व-सोक्कणा जिणेद-मगं भगिस्सामो ॥”
 “बाइं सोइण-कए करेमि धम्मं पुणो वि पच्छ वि ।
 उइ सो विण कायओ ता किं पुव वि विपसहिं !”

केवल कालेय पुणो वि भणिया ना तेव विमय-कण्यं । ततो हे पञ्चमं पाठ्य
 'इ-पेयं' मय्यफल-अस्ययेण वसिष्ठस्य सौवश्रिय-कथोत्ते मनुवशिया(ष) रद्दोमियो -
 'विशु' । तेव भणियं - 'कइं वंत्तं विचामि ?' । तीए भणियं - 'एयं पि जण्यति ?' तेव
 भणिय - 'बालो वि एव विवाणइ' । तीए भणियं - 'वइ एव, ता कौम अइं तित्तवरेण
 मिया तुमं पाठमिच्छसि ? । अवि य -

“अस्यदे जलिन जेव, ३) पूनकेट दुरासय ।
 केवलति वरय मेणु कुले जाय अण्येण ॥”

एवं विनिच[त]वोविदावोहिं अण्यार्ण सोसंतीए केवल कालेय अणवओ वि तिष्ठ-तरा-
 वले बोद(हु)-कम्म-महाकायणस्त वितुञ्जमाण-परितस्त अचंत-विसुद्धलेता-परिणामस्त
 समारोषिय-अपम-सौदीयो आण्हे दोषि सुकज्जाण-भेए पशु(पुइ)नविदकं सविचार
 एवंतविमकं च अनिपार वोलीणे तस्य तस्यं सुदुमकिरियमप्यदिवाइं अण्यचस्त
 मनुपचं केवलं ति । अवि य -

वोलीणाणानय-वहुमान-वीसेम-आव-व(व)हिएयं ।
 तं परिध अं व पेच्छइ केवलमाणेण जिय-इदो ॥

अतिवासाया य समावया मपरिपया वचीयं पि सुतासुरवश्ये । ततो आदिओविच-
 तुवेहिं समंता समं कथं विण्णुप्ययं रयव-चेत्तं मदीयत्तं, अवहरितं मय-वेणु-तण्णइयं,
 मज्जियं वसुमतीए, वेम्महीहृयाओ दियाओ, पण्डा वेरासुबंधा सर सवोरवदेहिं ।
 विवदियं गंधोदयं, परिस्सियं दसइ-वचं कुसुम-वरिसं । इरिसिया तवे पाणियो । वेम्मवियं
 साल-सियं, विठकवियापि चचारि महादाराणि, मिदिया तरस-वामरस-विहाया सीरोचज-
 कावुधा मयिमय-कलता, वेध्वचियं स-पायपीठं सिहासयं, कयो केलोच-सुत्तयो वारस-
 कुत्ते इ(दि)ओ कंकेलि-पावयो । मित्तइकरयत्तं विनाय-नाताहिं, उम्भिया सीह-व(च)-
 कञ्जया, मियइं धम्मचकं, पवजिया तियस-दुंदुदीओ, मनुच्छसियो देवपोयो, अनप-
 रिया सियलादयो सइहा । किं बहुना ? विद्वतिय सर्वं ति विठतामरेहिं । ततो परिप-
 थवहायवचो तियस-विजिजाविप-दिबपंकप-गिहन-बलय-सुखयो वासट्टिय-सक्कीसाण-
 पुबमाण-सिय-नामराययो धामंडल-किरण-सणुओइय-नयणंनयो अयेग-वरासर-कोटि
 परिपुओ देवसू-नवाररेजनाय-दिना-मंडलो पयाहिणीकाड्य सीहासयं मित्तओ तव
 जियो । अवि य -

परिय-धवलस्यवचो पुत्र-दुवारेण पविस्सिठ पोमी ।
 सीहासये विनचो मय-सिरयो होइ चउवपयो ॥

समारद्धा य जोवणा-सिहारणीए तिरिय-वरासर-विप-विच-धाता-वस्त्रिास-परियापि
 पीए अर्चत-मपोहराए देवद भासाए धम्मइह ति । अवि य -

धम्मो ऊवओ कामो मेज्जओ चचारि होति पुरिसत्था ।
 तस्य वि धम्माट विप सेता जइ हुंति तइ भणियो ॥

१ म विप । २ म "य" । ३ म, विठसिप" ।
 प-२

पुत्रवीर क्तिन् कृमो बंतु-विहीनो य जह पडो वरिव ।
 दुष्टेण विना दहियं दहि-रहियं जह य धनवीर्यं ॥
 दश-विहीना य गुणा सुह-दोक्तं जह य जंतुणा रहियं ।
 तह धम्मेण विरहिवा तिमि वि जत्वाहणो कतो ॥
 सम्रा सयल-सुहायं अत्वाहंनं च कारयं धम्मो ।
 सो द-विषयो भयिओ सुणि-नात्तप-धम्म-भेपाओ ॥
 संकाह-मल-विमुक्के समत्त जाय सत्तव(च)के ति ।
 अहिमम-विमग्गमेठ' पमकाह-गुणैहि विचरयं ॥
 द्विगा-अस्सि-चोरत्तम-भेदुय-परिग्गहाओ सहु विरई ।
 उत्तमपुण-विचरओ सुणि-धम्मो मोक्ख-सुह-देऊ ॥
 पंच य अजुहपाइं गुणवपाइं च होति तिष्ठेव ।
 सिक्खत्तावपाइं चउरो नावध धम्मो वि सुह-देऊ ॥
 इय एवमाह बहुविह-गुण-सय-कस्सियम्मि ताहिइ धम्मे ।
 चउरुव-समम-सओ जाओ पढे समोत्तरये ॥

५५ इमिवा य पढम-नायवसरण-कमेण विरहोऽप्येण-समप-गय-वरिणओ पासेतो मेच्छ-
 चंपपार सभोत्तरिओ पुणो वि चारवईए काहिकजाये रेववाभिलामे जिण्णे । पुत्र-
 मयिवापुसारेण कयं तिपसेहिं समवसरणं । मिउत्त-पुरिसेहिं य चहाविओ पासु-
 देवो सह जायव-चवेण । तित्थपरागमयेण 'अभावेकत्तपीपमार्गद-सुद्धमसुहवंतेण च
 देवं से पारिओस्सियं दायं ति । अवि य-

५६ विचीओ' सुवत्तस चारस अइं च सपसहस्ताइं ।
 तावरं चिय कोवी पीती-दायं तु चक्खिस्स ॥
 एइं वेव वमारं ववरं एयं तु केसवा दिंति ।
 मेक्खिपाव सहस्ता पीती-दायं तप-सहस्ता ॥
 अत्ति-विभवत्तु(ण्)कयं अणे वि य देति इत्थमईंया ।
 ५७ सोऽह्य जिपायममं मिउत्त-पुरिसेवरेणुं वा ॥

तथो महाविभूईए दिव-संदपाकृता जिन्नावा चउरेव-केसवा सहुव-विजपाइयो य
 सह सिवादेवी-देवई-रोहिणीहिं पुरजोगो य । अभाविक्खिणि(क्खपी)पमार्गद-सुद्धमसु-
 हवंतेहिं पणमिओ तित्थपरो सह मयःराईहिं । मिससा जहाइहिं । सुणिव-जिष्णावमया
 य वत्ता राइमईं वि, पणमिओ तित्थपरो, मिससा जहाइहिं । भववत्ता वि वेदिओ जाइ-
 ५८ जहा मय-विज-विष्णुओम-सोगाइ-गामाविह-दुक्खापुवओ नारव-तिरिच-मरामराजुभूर-
 लक्खवो संसारो, वक्खिमिवाणि य मिच्छयाविरह-वमाय-कत्ताय जोगाईमि । उहा पर-
 विओ अपत्तायंत-मिक्खन-मिरावाह-सात्तप-सोक्खत्तापुवओ मोक्खो, लक्खरवाणि पापेण-
 विजप्पाणि संमईंत्तव-भाव-वरपाणि । तथो इधं संसारात्तरनयं सोऽह्य येक्खंता
 अमेमे जायव-कुमारो रहमेवी पात्तरया । रायमईं वि' हियव-मिहिय-चारित्त-वरिणात्ता

कर्मिजनं तित्थंकरं पवित्रा पगर । ततो पुच्छित्तम जवलि-जववाहो, दाऊन
महादापं, काऊन सब-जिवाचचमेसु अहुवहिपा-पहिमं, जवोच-वरद सेनावाह-मति-
कत्वाह-सेहि-वालिपा-सहिवा महाविच्छेपेण पद्यानिवा राईमई तिरवपरेण । इत्यंतरम्मि
व सको संवेग-त्तर पुमिर्व(उ) पपचो नि । अवि व-

जय सुरसेल-विभूतन !	जय जय इंद्रक-रक्षिपावर्द ! ।
जय विवचिय मज्जन !	जय जय सुर-सुदरी-पगण ! ॥
जय हरिचन्दन चक्षिय !	जय जय मणि-मउठ-भुसिय-सरीर ! ।
जय शेषवर-धारण !	जय जय सिक्कुमुन कण-सीह ! ॥
जय इंद्रावलि-संपुष !	जय जय जयगीण(ए)नक्षिपावर्द ! ।
जय बाल ! अवाल-विसिद्ध-चेहु !	जय जोकणं पव ! ॥
जय रायसच्छि-भुसिय !	जयसि' दमारोह-बाहपल मिपंक ! ।
जय सिचदेवी पंदन !	जय दाविय कण-मिय-वीरिय ! ॥
जय अकण-दार-सुपह !	जय जय उज्जेल-बाहिय-सामण ! ।
जय देवदूत-धारण !	जय जय सुर-मज्जुव-वाय-चलण ! ॥
जय चलयामि-सुपील !	जय जय उपसणव-दलण-सुमिचंद ! ।
जय केवललच्छी-वरिय-वरण !	जय देव-वाय-चलण ! ॥
जय इह-वाल-मिच्छुअ !	जय जय सुर-सिद्ध-वणव-कम-कमल ! ।
जय राय-गमण ! सुराधिय !	जय जोह-सहुह-वाय-वार ! ॥
जय मयपानल-अलहर !	जय जय वेर-सिय-गहन इह-माण ! ।
जय सिद्ध ! सिद्ध-सालभ !	जय जय ह्रव-वम्मि सुपसिद्ध ! ॥
जय इंरीवर विम्मम !	जय जय गुण-ववय-सामर ! सुविद ! ।
जय पाउल-जलय-सुमाण सह !	जय पउम-कण-चलण ! ॥
जय मोविद वरसिप !	जय जय नीसेल-वंपण-पिच्छु ! ।
जय नाह ! वाय-सावा !	जय पगवासेस वर-चलय ! ॥
जय सव-सच्छि-सुसंगव !	इंतह व राहलच्छि-परिच्छु ! ।
जय सिद्धत्व-वरावर !	जय जय कोवाहि-वर-संत ! ॥
जय सिद्ध ! बुद्ध ! गुण-मिहि !	पलत्व-कल्लण-संगलापयण ! ।
जय सिद्धपाहु-महापुण !	पुरिसोचम-पुरित्त-कय-पू ! ॥

एवं च सह अहुरासहि' समण-उहस्सेहि' भगवतं अरेहुमेमि शोऊम राईमई च
अगलिय-गुण-संपणेण पवित्रा सह जाचव-चक्र-पुर-सोमणं वारवई वलदेव-वासुदेवाहो ।
राईमईए नि पवहु(हु)माव-सवेवाह(स)पाए नाणाविह-रवो-पिसेल-उज्जुव-उवूए
वेरण-वम्मवावहिपाए जहुव-संजमाहुहुव-पराए वनेण व अहिजिपाधि इमारत
अंवाधि । कालंतरेण व बुक्कवि समोत्तरिजो भगवतं वारवईए । समाहवा धम्म-कहा ।
संबुहा पावियो । उड्डित्त(ओ) तित्थ(ए)रो विव(स)ओ देवच्छंदए । दुइय-पोरिसीए
समाहवा धम्म-कहा रागाहरेणं ति ।

राभोवकि(वी)प-सीहास्यमि विद्धो वि पायपीदे वा ।
 विद्धो अण्यपरो वा वषहारी कहेइ बीयाए ॥
 संसाए उ मये साइइ जं या पुरोओ पुच्छेळा ।
 व व नं अयाइसेसी विमायई एस छउमस्थो ॥

- पवित्रुभं-दुह-पोरितीए वि उद्धिओ वयहरो । देवाइयो वि वया सहायैसु, साहुपो वि पविट्टा वयरीए विक्खा-निमित्तं । रहणेमी वि कार्त्तरेण एगामी वासाहिहओ वयसि-उच्छापंत-गिरि-गुहाए विद्धुओ, धेन-वेळाए वात्तामिहया पविट्टा तत्थेव राइमई वि । तेनापि वत्थाइमि विसाजतीए इडुण सरीर-सोई संजाय-वपणेण अचविमिसाळण इह-परतोम-भयं भयिया रहणेमिया - 'भदे ! इहि, भूँजाओ ताव भोगे, पुचो वि
- पच्छिम-वयंमि वयलं काइमो । सुमिय-रहनेमि-सदाए ससन्धमाए उवेळा अण्णायं भयियं राइमई । अवि य-

“तुच्छ-इ-सोक्ख-वखे मा सुंचसु मेह-विम्ममं सीलं ।

इह परलोए जन्हा दुहाइं वावति हय-सीला ॥

इह तोममि अकिची कुळ-मालिणं वपाव-परिहाणी ।

- अवरित्त-जयं-हीलयाया अपवजो चिच-संतानो ॥

नरवणो गरुण-वयं जयाणी-जयपाव होइ संजानो ।

एव जावति वरवो दोला इह सील-रहिषस ॥

धम्माइसु सीमंताइसु वारसु तिष-दुक्खाइं ।

वावति विमय-सीला वेचीसं सावरा वाव ॥

- वय-वायव-भोगेण-वाहय-वय-तिरेप्प-व्खमल्ल-तिरिपसु ।

एव्हा-सुहाइ-दुक्खं लहंति वारओवमं चिचं ॥

तपो धम्माइ-विचखिअसु तिरिओवमेसु पुरिसेसु ।

इ(इ)पसेसु य कुतुरित्त-विन्धमेसु दुक्खाइं चिचाइं ॥

इय वारव-तिरिय-वरावरेसु दुक्खाइं जय-जयमि ।

- वावति पट्ट-सीला पाणा-कपाणि पिच्छाणि ॥

वाह-भूय-भोग-वक्कर-कुसु(स)उय-दुसुमिय-वारवइ-वपहिं ।

जलवाहि-सनु-करिवर-सईइ-वीराइ-वमिपहिं ॥

सुमियंमि वि 'पोत्तपय्य पसत्य-सीलो किमेव अण्णेरं ? ।

व कपाइ वि सुसेले चालिअइ पलय-वपयेहिं ॥

- आमोसहि-विणोसहि-सेलोसहि-जल्ल-वपय-वमवाओ ।

जंका-विज्जा-वारण-आसीवित्त-विम-सोआई ॥

वक्खीण-वहावति-कोइ-वीय-वेउवि-वपसु-बुद्धीओ ।

वीरावव-बहुआवव-अदीओ विच-कवाओ ॥

जाहति इषमिभ भवे कखोए सुखयो व मोक्खो प(वा) ।
 शील-परिपालमाओ' वन्दा नं वैच रमित्तजा ॥
 इव सीतासीलानं गुण-दोसे तीए सो विवावेउं ।
 पडिपाअय-सुवेणो जाओ मेह व विर-चिनो ॥”

अविषं च सेखं भवेण -

“अहं च भोगिच्छन्त त च सि अवरगन्दिणो ।
 मा कुले मयमा हेमो सज्ज गिहो च ॥
 ज्ज त वडिहिं भव जा ज्ज दिच्छति पणीओ' ।
 कम्मइह्ज्ज न्ज इहो अदिह्ज्जया भविममि ॥

सिंसे सो कम्म सोष्ठा सज्जमा सुभसिण । अकुमिअ ज्जा माणे पन्ने सगिहवाहो ॥

एव वरेति समुद्धा पडिया पवि(च)कलक । विपित्थुहिं भेनेह्ज्ज ज्जा से पुसित्थेहिंमे । सि ॥”

कमेण व दो वि केवलियो जाया तिहा व ।
 अओ जहा राधमईए शीलं रमित्तचं, तहा रमित्तचं ।
सुखयवि-कसाएणं गुणधुसारेण साहिषं चरिषं ।
राधमईए सुवेतो इच्छिय-सुक्खाई पावेइ ॥
 ॥ राधमई-कहाणणं संमत्तं ॥

वदनाहुरेषाणि न शीलं सुखनीयं रथनेमिनेवेलाह च -

मयमा-परावचा वि ह्ज्ज सुणिणो न सुअंति नियय-मज्जावं ।
 रहनेमि व महप्पा राधमई-वंसप्पाहिंतो ॥ ५

[वदन-वरावता वणि कुन्पो न सुअन्ति निवमर्गाराह ।
 रथनेमिवत् महत्त्वा राधीमती-वईनात् ॥ ५]

सहायं कथानकमन्तरोलमेव ।

सांख्य तपोअधिकृत धम्मोन्देकमाह -

एतिय असखं किंचि वि तवस्त चिच्छस्त माणुसे लोह ।
 तं कुगसु जहा-साति वडपहादि व्व सुणि-सीहो ॥ ६
 [नात्ति वसाव्य निष्पिदति तस- चोवेस वतुपे ठेके ।
 तत् कुसव्य ववाशक्ति एव्यहासिन्सुनिविह । ॥ ६]

सहायो । साधार्यसु कथानकगम्यराधेवम् -

— [३. तपसि हृदयहारि-कथा] —

अस्थि इहेव जंघुदीये दीवे भारदे वासे अपरिमिय-गुणादिरामं वसंतपुरं पपरं, *

जिवस्य च तया । तत्र च विष-कम्प्या उद्वाप-परो पद्मान-दिवसो । तस्मा च समार-
दोसेक-भेदिरे सुउ वि । अवि च -

व्यादृष्टि च दहं पद्विवन्तो सो असेस-दोसेहि ।

'सुरभि'भूमि वि परिहरिओ गुण-लेसेवावि दूरपरं ॥

'अमालिओ' अकुर्वाणो पीपिओ गुरुहि, भनंतो य अदिच्छं संनचो पल्लीए,
तमल्लीओ पल्लिनाहस । तेव वि पद्विवन्तो स-भहुमान पुचचाए वि । अवि च -

"गुण दूमे स्रसुज्जलित गावस गीमसुमेसुजा ।

भूसेअ गूसे मुपिअ सुवेनि समान-ओल-व्यसनेसु उरुवन् ॥"

अओ दहं पहरि वि पुषणामननहतिथउम कपे से दृष्यहरि वि भावं । कारंतरेव
॥ य मओ पल्लिवाहो । विषय-भोडीरवाए सो विष पल्लिबई आओ । उद्विवा विदेस-वरा
सहे वि पल्लिवासिओ । अवि च -

"अभिकेओ न पसहर निदस्य कियेते सुने । निह-भक्ति-सन्त्य स्वमेव कुनेन्दुता ॥"

तओ तत्र पापियो धावंतस्स, अलिपं भवंतस्स, पर-वहावहरणं करंतस्स,
परदारवि सेवंतस्स, परिग्गहारभेसु वहुमानस्स, महु-वज-हुषिमाहाराए परिहुवंतस्स,
॥ मामामर-सत्थे धावंतस्स समप(इ)कंतो को वि काओ वि । अवि च -

"कुलतागुणे कम्मोदएण पामतव-काम-सरोएण ।

वेद्वि वासा सुपुरिसाम पानाए सिरीया ॥"

अथवा सज्जिया धाही विपटिया नामे वित्तुपंती च परिवाडीए पचा रोर-बंधव मेहं ।
वा केचि लई, ववर लक्ष्मण-संसिद्ध-वापस-पडिपुत्र-वादि गहेऊण गया भिह्वा धान-
॥ मन्ने । ततो पनहुतावि सुहा-परदावि रोवमाथावि विम्मप्यावि टिभावि निउओ
तवीव । भणियं च पेहिं - ताव ! सो मओ पापसोवाए विष-एमावीए विविदुअ पदापिया
भिह्वा गाम-मन्ने । ततो रोम-वन-तंकिरुअले बहिय-उउओअपुपयं मओ वंनपो । देह्वा
भिह्वा, समानच भेदणं । अओ ! एस च(ए)कपरो मय मेहे अविभवइ वि मयमापिय वा-
वाओ वदप्यहरिया । एमं च सोऊण एम-अ-पीमहंवी आगया वनणी । मथिओ पाए
॥ भिह्वादिओ - "आ पाव ! विरकुंए ! मरणावय-वावय ! परदासत ! अक्षिय-वयण !
चोर ! अमअ ! विडाए(उया)-भो-बंधव-मारण ! अचताहम ! चंदास ! विविण !
कयण ! सल ! पितुम ! अदहइ ! पीसअ ! असंहुइ ! महापाव ! किमेयं तए वससियं ?"
पुणंएवमुकोसंती समुप्यस-ओवेम वावाह्या ता वि । तओ कुरकुरावमार्णं मम्मं
विएऊण संवेग-मार चित्तिपमणेकं-धिरपु मम पावस्स, असहेरितं चिहियं । ता कि जलणं
॥ वडिस्सामि ? , अचतणं करोमि ? , सरवपारे पुच्छामि ? , भयरवाउ पदावि ? , महापहं
पचावि ? , तिथेसु प्यामि ? , मुपियो संवेमि ? , तिमावगमाताहेमि ? , बहियं
धुपामि ? , दिवकवर ज्ञाएमि ? । अवि च -

इय एवंविह-चित्तापरेण दिहो महाजुणी वेणं ।

पाएसु विविदिऊणं सिद्ध विष-चिहियं सर्वं ॥

ततो ते अर्षहर-विक्रियं सोऽयं भणिय सुमिणा-भर ! य एते पावसल-वस्तालय-
 लंघनं ब्रह्मचार - परोक्ष अचान-हिंसा-शुभ्यन-तप्तुओ मोक्ष्य सम्मर्दस्य-वाप्य-वरणादि,
 । तेषु वैव आचर कुण्ठु' वि । अवि य-

अनर्पे पितृ पदिवक्षो सुमि-धम्मो तेव साहु-मुलम्भि ।

परिमिच्छिउयं सिवसं धोराचार तवं कुण्ठ ।।

एवं च सुहा-पिनामद्-पाकीत-परीसोहे सहेनस्य, दिव-भापुन-नेतिच्छा व संवेयवीप-
 हो-वेमापोपसग्गे अहिंसासिनस्स, अविनाड-दुवालस-भापवाड भावंतस्स, अहुविह-
 ञ्म-विशारं सिद्धवेतस्स, तिविह-सामा-पारिकम्मसंतस्स, उगविह-वेपातर्षं करोतस्स,
 ङ्गीर-मिक्काए रक्खतस्स, पंच महाववाई पावंतस्स, दुवालमविहं तवमापरत्तस्स,
 ततोअणाइपमणेगविह पावन्च्छिउं चरतस्स, संसारासारचरं पेंतेतस्स, पुह-पिहविषं
 ।। य तिविहं लिधिरेव विदंतस्स, पत्तत्प-लेसायु वहुमाणस्स, महुच्छलिय-जीव-वीरियत्त
 समारोचिप-त्तवन्मोडिणो महुच्छलिय-सुह-अज्ञायान्त-निदुह-क्ख-पाइक्कम्म-पडविष-
 स्स महुप्पसं केवलं नार्थं । कया देवेहिं केवलि-महिमा । ततो बोहिउय
 ग-कमलाचरे, परिपालिउय केवलि-परियायं, लविउय मरोग्गाहि-कंम-वउक्कयं संवचो
 क्षारं ।

अतो मचइ-वडा दइप्पहारि महारिसिया तथेनइओ धम्मो कओ, तहा सेसेहिं पि
 लपयो; एत धम्मोपएओ । एवं गहस्सत्तापेसु उगणओ कायओ । अओ पर वित्थर-
 न्णय य सर्वं मचइ ।

सुवदेवि-वसएणं सुवापुवारेण दइप्पहारिस्स ।

मिसुपंतो लइ नरो विसिद्ध-वरिषं सया लोवसं ।।

॥ इति दइप्पहारि-कहाणयं संमत्तं ॥

भावात्मकधर्ममधिकृत्याऽऽह -

भावमइएण पावइ केवलि(ल)तारणं इलाह-तणउ च ।

नसहाहिउ च मरहो मरुदेवी-साभिणी अइवा ॥ ७

[सात्त्विकेन ज्ञानेति केवलज्ञान इत्यत्राश्रय इव ।

भस्त्राभिपदयत्वा (मरतो) मरुदेवित्वादिनी मया वा ॥ ७]

भाषार्थः कथानकेभ्योऽवसेकस्तानि चाभूति -

— [४. भावे इत्यापुत्र-कथा] —

इहेव अंपुदीये दीये भारहे वामे विउत-अय-पंससणेळं सुण-निहावं इत्तापइणं ताम
 नवर । उं च, परिगपं पर-परिपाठंयं संवीराए, कुलवहु-संखानाए परिहाए । चकल्लिपं
 सुविपभिरि-संकासेवं सुहा-पवलेवं दृग्भाव-पामारेवं । विभूमियं जुअन्नि मर्वन-पविसेहि
 मिरि-वगादेहिं पवसहारेहिं । वंदिपं सुगसेल-वरिसेहिं तियस-विचापुगाएहिं देउल-विहा-
 रेहिं, सि(टि)विदिक्किय सुविमच-तिय-वउक्क-वचर-वउक्क-महापइ-योहिं ति । अवि य-

दुर्गुं पुरस्तः सोऽहं तिपसाण वि विन्दोऽहो नये जाओ ।
 किं तिपन-पुर इगनो विपिन्निव्यं विस्सकम्मोणं ? ॥
 तत्पत्तिथ इत्थदेवी तत्त्व वसनेष इत्थम-मिहुणेण ।
 पुक्कथं विनविद्या 'ओवाइय-संपवाण्य ॥
 चरुत्तम देवलोवा देवो वध्ममि तीए उववन्तो ।
 सीहं उच्छंन-गवं सुमिणे दडुग पडिडुडा ॥

महापुरिसानुक्क-डोहत्तय-संपाटणेण य वड्डिओ गग्गो । उच्चिच-त्तमए य पण्णा
 एसा देवडुवरोपमं वार्यं । पड्डापिओ य इग्गो । कयं महावड्डात्तयणं । दिव
 इत्थाद् देवीए 'ओवाइयं । कयं दारयत्त वाम उत्ताया(इ)पुचो वि । कमेण य वड्डिओ
 = देहोवचण्यं, कळा कळावेण य । संपचो सयस-जण सत्ताइमिअं जोडयं ति । अवि य -
 "जीए जहिं विय परमं कुमार-अंगमि विवहिवा दिट्ठी ।

तीए वहिं पेव ठिवा सपुण्यो कीए वि व दिट्ठो ॥"

एवं वा(च)बुद्-जण-पसंत्तयेअं जीपलोपमपुहवेत्तस्य संपचो तरवाणमो । अत्थ य,
 सरपमिदि-समड्डासिया रेहइ महि-महिता । महि-महित्त-रजिपाइं रेहति कागगाइं ।
 "कागप-विहसिपाइं उअंति सरपगाइं । सरजर-दिपिदिडिडिपाइं सइति पंकपगाइं । पंकप-
 विहसिपाइं सोअंति भन्न-कुताइं । भन्न-उल-विपुत्तिपाइ अण्णंति गय-उताइं । यप-उल-
 चसाहिवाइं रेहति महानरेद-वयत्तजरगाइ । अवि य -

नव-वीडु-पल-देहो आरा-वयवड्डि(इ)-परिगओ सइ ।

अड्डिणव-सत्ति-कलहंओ वित्थय-वाह-मागसत्तरम्मि ॥

"इय अं जं विच वीसइ सारय-सण्डीइ भूसिप भवणे ।
 आयस-कड्डिप-त्तरो वहिं वहिं पसरइ अण्णंओ ॥
 एयारिसंमि सरए इत्थाइ-पुणेण पुत्तया पेदी ।
 उत्तागाइत्तमाएणं लेखय-मज्जेमि यण्णंती ॥

ततो तीए उव-सावन्न-जोडय-नोइग-कळा-कळावावड्डिय-डिपयत्त महावाही विव
 = अविच-संगलो पयडीहो वम्महो । सत्तिओ गइ-पमरो, सपुण्यओ रोमंचो, कयड्डी
 इत्थाहिमानो, 'वन्वारीहूया उअ ति । अवि य -

सुमहा-अपु-पसरिय-दिडि-नाम-मिचदेहि सत्तिओ' तीए ।

लेप(प्य)कओ' विच जाओ' मत्थाइ-सुओ सुवीरो वि ॥

ततो तं तहाविहं गियप(ए)उअ अविधं वात्त-डिप-नेल-अणेण - 'वयंसु ! किमेयं
 = सयस-जण-इत्थयेअं, सोइ-जणेहिं पि विवत्तिपं, इह-त्त-लोण-विकइ तए समारइं ? अओ !
 'विवापिओइमरहिं' । मचिंतेण मधिपमयेअं - "ओ नो ! अइ ति अत्तामि जहा कुल-
 कलंकड्डुपमिणओ, ना किं करोमि ! अइदुद्धा मे मयणावत्थ वि । अवि य -

चत्तपायिल-सुडो जत्त-मिदी वि कल्लोत्त-भिण-कुलसेओ ।

तीए सारे वरिअं य उग विप विचनपुरत्तं ॥"

तेहिं भवियं - अलमित्वाण(पु)भगोष । न खलु अथत-उष्ठा-शुभजो वि क्षिरिं नि मापं-
ग-उत्तं चोदत्तवेजाटाण-पारयो पहाण-रंभयो अहिलसद् । अण्यं च राधा काहीति, अतराहं
काही । बंधुषो जागिसंति, इतेय परिहरिसंति । अंया जागिससह, अथत-शुभिसया
हविससह । ताजो शुभेहिचि, इस्सुउ वि संभावेससह । नगर-सेट्टिभो जागिसंति,
अपराजो बाहिं करिसंति । गुरुषो विद्यागिसंति, ललिसया हविसंति । अ किमणेन ।
स-परोभव-संताव-नेउया दोह-अनसाएष । निपत्तु एयाजो तायाउ चि । अवि य -

“काम ! जयाभि ते नूठ सकल्यात् फिल जामो ।

तलस न करिप्यामि त्तो मे न भविष्यति ॥”

इत्यादपुणेण भविय - ‘अ एव संसत, अहं पि जायामि, किं सु मम जीवं एवाए
आयचं; अखादि पुसकत-भवियहिं ।’ विद्यागिओ एस वृत्तंते उववाइएहिं । भविया “
अंसिया इतासुएष - ‘सुवच-मवं देहि मम शरिप ।’ तेहिं भवियं - ‘असकप-भिही एसा
अम्हानं, मवर जह एषाए कज, ता अम्हेहिं तम भवत्तु, सिप्य न तिससु ।’ त्तो वारिअंती
वि पुसकतं पुठ-मिनाइएहिं अगमिअमोभवलोगाववाप पविट्टो ताव सज्जम्मि ।
चट्टिसिचता विमय-दोम्मया उववाइयो । इषो वि तेहिं सह विहरमावो सिप्यअम्मसंतो
एतो विभावडं । वीवाह-दस-निमित्तं य उ(ओ)लगिओ राधा, दिखो पेच्छा-बरो, समाइवं
पेच्छणं । विनेट्टो राधा मह महादेवीए । संपना लामप्या । नयाविह-विभावोहिं
भावजिवापि इतावपुणेण लोगाव चिवापि । नरेदे य अरेते न देह लोगो । राधा पुष
शरिवाए निपट्ट-नामो तस्य वहुमन्थं तं अण्ड - ‘लंख ! वडवं करेसु ।’ तं च वंम-सिहरो अहं
कहं कीस, कय खीलिया कीलति, सो य मूले वेट्टाउ पाऊवाउ परिहेर; ततो अस्सि-
सेट्टय-दी(ह)स्य-नामो जामासे उप्पइअम त्तो खीलियाओ पाउया-वाहियादि वनेसेपम्भा, “
मच अग्निमाइहे तन वच्छिअमाइहे काऊम । अइ कइ वि पुसक; धर्तीए पठिओ
मचखंडी(डो) होइ । तं कयं । तीएण साह(हु)काओ क(क)ओ । अरेते नरे(दि) य देह
अमो । राधा भवियं - ‘य नए दिहं, तुमो करेसु ।’ इरव-वार पि कयं, अहसएण तुहो
लोगो । राधा भवियं - ‘य सम दिहं, सर्ववार नि करेसु ।’ त्तो विरचो गरंदाओ
लोगो । कयं लख-वार पि । मारणत्थं य से तुमो वि भवियमललेण राधा - ‘अव-
सा(सं) वडत्थं वार करेसु, जेण करेमि अदरिं ।’ त्तो विरच-चिखो विपचो लोगो
विच्छिपम्भाओ । वंस-सिहर-खिओ इताइत्तुचो चिनेउं पचो - वे(चि)रत्तु काम-ओमार्थं ।
जेण वत्त राधा एए रगोववीविवाए निमित्तं य मम मरणमभिलसद् । कहं च एवाए
पविट्टु भविससह ! जस्य महंतेवापि अंतेउरेण तिचो न जाय चि । अवि य -

“अरिवाहि व अलनिशिषो क्य-कहुआहिं जलिय-जलवसस ।

यइ वाइ य संतोतो नरस नारी-सहस्सेहिं ।”

ता कित्तु मे उम्मसस, जेण य लखिवं गुरुओ, य चित्तिवं लहुपचवं, न
विद्वियं जगमि-अवप-दुकखं, परिचया बंधु-भेष-नामरया, गावतोइवं संसार-अपं,
सम्भदा विरहुस-अरेदेय व उम्मम-वाभिया, वित्तरत-विस-पावसेजेण संतावकरिया,
परत्तुजेव वर-वर-संचारिया, यइ-ववाइजेव वी-याहुवतिया, अलमेजेवापविहरिय-मकका-

भक्त्येव, स्वयमेव स्वयत्त-विभक्तिर्भवति । इयं सगल-सग-निर्दिष्टं संसृज-सृष्टमनुसृतिय
मल्लिकार्जुनो ब्रुव-वचनो ताप-वन्तो । ता संसृज कथं वचामि ? किं करोमि ? कस्य
करोमि ? कस्य सुभिक्षवामि ? वि । अवि य-

इय स्वविद-चित्तउरेण दृष्टव ईतर-कामि ।

पुत्रलो हृदिषो ब्रुहि रद-सरित-रुवाहि ॥

ता धन्या कथ-पुत्र्या इने कुल-वपन-वापड-विपेका ।

जे विष्मरिषय-वपया जिनिद-वम्भं समल्लोषा ॥

एचिय-कालं वसु वंचित भि जं सेविओ व मे धनो ।

इहि नि समत-वम्भं करोमि एताम आवाए ॥

- ७० एवं च केरम-मन्नावद्विपस्त, समारोविप-वस्त-वावस्त, सङ्घट्टलिव-जीव-वीरि-
पस्त, सुकञ्जाचाम वपस्त, विमुञ्जमावे-लेमस्त, समालाइव-स्वगसेविओ सङ्घट्ट
केमलं नाम । संनवा देव्या । ममितं च नाए - 'वदियत्र दृष्टलियं, जेव वंदामो ।' परिबंने
य रम्भलो वेदिओ देवनाए । पत्ता तियत्ता, अवहरियं नवाइयं, कुट्ट वंधोरपवं च
सह इत्युमेहि । निष्पचिनं तीरासवं । निमनो कथ इतारवुच-केवली पचदिओ वाव-तार
७१ मुरासुर-वारैदाइयहि । परुविओ सम्मच-मूलो नवितथरो दन्दिओ वि धम्मो । पुच्छिष
मन्नेहि नि विप-विप-संनया, वामरिया केवलिया । तओ विविदय-मन्नाए पुच्छियं
परिसार - 'कसं वुच एताए उवति ते एरिमो रामो जाओ ? ।' तओ विपय-वृषतं कडि-
उमादओ - 'इओ य तद्व-ज्जे वसंतपुरे नथरे अदं दिववर-कुओ अहेमि, एसा वुच
मे भारिया । निविष-वाम-वोगायि य तदारुवावं वेरावं तनीवे पड्ढयामि । अक्कपुं
७२ च इच्छिय-वव-सहावाय वि वाववओ वेदो । ततो देवापुणिया ! अद्दुम्मां कं
कड्डव आलोइय-विदिय-पडिबंत-वावउम्पो नमोकार-ओ मरिउओव[व]ओ सुताए ।
एसा वुच वाइ-मयत्तलिवा एताड टाणाओ अन्नाडोरव-पडिबंता मरिउव गया देवतो-
वमि । अद्दुपुं देव-सुदं । आउ-क्कए य जुओ ममाओ उण्णओ इं इइ इम्म-कुओ,
एसा वुच वाइ-मयदोसेवं अहम-कुओ वाया । तओ पुण-वव-ममासेव जाओ मे एवाए
७३ उवति महजपुरागो ।' एवं गिलामिउम इहिय भावेदीए जाईसरण-वुइयं सङ्घट्टवं
हीए वि केवळं । एवं चिय राइयो, महादेवीए य । चचारि नि केवलियो वाव वि ।
अवि य-

जम्भंतर-कय-पुमा विमित-विषेव केइ वुज्जंति ।

अइ एते चचारि नि संवुद्धा साहु-धम्ममि ॥

- ७४ उपमओ कापओ ।

सुपदेवि-पसाएवं सुयासुसारेण सहियं एवं ।

संपन-सिवग-सुरो निरुंभेओ केवली हीए ॥

॥ इत्ताइपुत्त-कहाणवं ॥

— [५. भाषे भरतचक्रि-कथा] —

तेलोक-वापड-वसो वतीस-सुरासुरोहिं वप-वलयो ।

पंचसु वल्लापेसुं उतसो भरहमि कितवयो ॥

मस्त व अत्रप्यिषीर पदम-पतिवपस्त भरहाहिरण्यो वकरही मुड ति । अवि व -

उंनसंड-वरा-वप-विहि-वतीस-सदस-पुड-वाहायं ।

तदुगुवाय व र-दिम्भनाम रमणीय जो तामीं ॥

चोरस-रय्याहिपती नयपायंदो सति व भरपमि ।

पंमेव आति भारो सुर-पमिओं तियस-वाहो व ॥

जो व, वलविहि व वंतीरवाए, व उव दुहु-वाहवाए । मवतंछयो व कला-कलावेव,

व उव कलंकवाए । दिवचरो व मिहुविप-दीसवाए, व उव कर-वंदवाए । महुमसो

विने मुड-संमचवाए, व उव कवडवाए ति । कुवचिरी विव जय-सुवच-वसवाए, व

उव केषडवाए ति । अवि व -

सेवेत-अंसित-वाहनरेड-भणि-मउड-वलिप-हुसुमेहिं ।

अधिअड चलय-सुपं हरिओं विव तियस-वंदेहिं ॥

चैउतहि-सदस्तेहि व रमणीयं वरियओं महारावा ।

रेह वारासुगजो सरए संपुच-वंदो व ॥

तयो हुम्भम-सुरूप-समक्षिपं तिवमा-वाए पररच-संपाडय-सवाहं विवहुडय-वसं-

पेजं अमन्म-वाग-वतर विसिं विवस-सुहमसुहवंतसु समहंका अयोषे सुवैसयसहस्रा ।

पुहस उ परिषामं तचरे सडु होह कोडि-उमसज्यो ।

छप्यं व महस्मा बोहस वल-कोडीयं ॥

अधवा आपंस-वरहुवचओ मितयो सिंहासये मह इची-रययेव । संपचाओं तवाओ

वि सदाभरवाओं से तलय-रमणीओं । तामं व काओ वि इहंति, काओं वि जय-

ववापिहि, काओं वि विवंवति, अधाओं रवंति । अवि व -

इची-रययेव सुवं रेह सिंहासयमि वरनाहो ।

उदवाचले व चरो संकाए राम-रंवाए ॥

वावंति वर-वदुर ववं काओ वि किमरीड व ॥

सुंल्लिय-पय-संचारं वहुं कवं व दावंति ॥

महुडा-वयु-वसरिय-दिहि-वाए-वायाहिं तय काओ वि ।

वावंति तहा अवरा सिंदिपुव्वे(कंपे)में बोहेंति ॥

एत-विवंदि-पवंतं कयावराहं व चिदुर-पमवार ।

बोसुं अमिति पुगरवि जम्हा नरनाहं-बहिताओ ॥

१. हु. वरं । २. व. वं । ३. व. वा । ४. व. वा । ५. व. वं । ६. व. वा । ७. व. वा । ८. व. वं । ९. व. वं । १०. व. वं । ११. व. वं । १२. व. वं । १३. व. वं । १४. व. वं । १५. व. वं । १६. व. वं । १७. व. वं । १८. व. वं । १९. व. वं । २०. व. वं । २१. व. वं । २२. व. वं । २३. व. वं । २४. व. वं । २५. व. वं । २६. व. वं । २७. व. वं । २८. व. वं । २९. व. वं । ३०. व. वं । ३१. व. वं । ३२. व. वं । ३३. व. वं । ३४. व. वं । ३५. व. वं । ३६. व. वं । ३७. व. वं । ३८. व. वं । ३९. व. वं । ४०. व. वं । ४१. व. वं । ४२. व. वं । ४३. व. वं । ४४. व. वं । ४५. व. वं । ४६. व. वं । ४७. व. वं । ४८. व. वं । ४९. व. वं । ५०. व. वं । ५१. व. वं । ५२. व. वं । ५३. व. वं । ५४. व. वं । ५५. व. वं । ५६. व. वं । ५७. व. वं । ५८. व. वं । ५९. व. वं । ६०. व. वं । ६१. व. वं । ६२. व. वं । ६३. व. वं । ६४. व. वं । ६५. व. वं । ६६. व. वं । ६७. व. वं । ६८. व. वं । ६९. व. वं । ७०. व. वं । ७१. व. वं । ७२. व. वं । ७३. व. वं । ७४. व. वं । ७५. व. वं । ७६. व. वं । ७७. व. वं । ७८. व. वं । ७९. व. वं । ८०. व. वं । ८१. व. वं । ८२. व. वं । ८३. व. वं । ८४. व. वं । ८५. व. वं । ८६. व. वं । ८७. व. वं । ८८. व. वं । ८९. व. वं । ९०. व. वं । ९१. व. वं । ९२. व. वं । ९३. व. वं । ९४. व. वं । ९५. व. वं । ९६. व. वं । ९७. व. वं । ९८. व. वं । ९९. व. वं । १००. व. वं ।

पशुपत-पेशीवत्-चिदुभय-वर्के-वमिष-कृतपरिह ।
 कल्पं पशेहि मयं हरति त्रिप-सोमपेहिं च(५) ॥
 आर्यत-सप्त चासिन्-भेगामा भरत-कुमुद-इत्याजो ।
 वैम्पह-परवताजो पुरजो चिदुंति महाजो ॥
 शायन-उत्तेज संसं काजो वि ह्य(धु)वंति वेप-उडिहं वि ।
 मन्वत-परायचार्यं केरिच-मिचं तु जुवईये ? ॥
 दावेति चित्त-कम्मं चित्तं त्रिप-चित्त-विन्ममं अन्ना ।
 पन्वंति ह्यव-भावे स-वम्महं तिपस-राम व ॥
 अकपद्-सुसि-पण-वप-चउविहाउउ-वज-चदेहिं ।
 पशुगो हरति चित्त वीषा-सरेण काजो वि ॥
 इय विविह-कला-सोउप-विष्वाण-विताण-हात-भावेहिं ।
 वरिचारिजो विरापद् राया इदो व रमणीहिं ॥
 इत्यंतरम्मि मलिये सुदारवणं करसुर्लीहिंनो ।
 तं विरापालंकार सङ्कथ-सारिसं विण्डमं ॥
 पन्था कमेण सुंपद जेह जह देशाउ मवमाभस्यं ।
 तं तं महा व सोहर उंजिहय-कमलं सरवरं व^१ ॥
 वेतेर सजो राया वरपालंकार-संन-महेहिं ।
 विहा-सुंन-सरिण्ठो भुलित्तर एत सहु वेहो ॥
 अपुवे कले दुरते असासए वाहि-वेवणा-वउरे ।
 वस-सदिर-संन-वेप-डि-मंज-सुहाय कुल-भवये ॥
 सुच-पुरीसासिले-वेच-^२सिभ-केलनल-विहाय-सूचम्मि ।
 कल्प-^३मंसुरम्मि देहे रजित्तर मोह-चलियेहि ॥
 मंसिरिम्मि देहे ^४विजुलया-चंचलेहिं वज्जेहि ।
 वि-माह-उवाक-रपयाएहिं किं सेव-जोगेहिं ? ॥
 वेदासुव-वेवासव-जाह-अरा-मरव-असुह-भूरसु ।
 करि-कव-चंचलेसुं य विजएतु वि केरिसी तेहा ? ॥
 हा ते अ सुह-अम्मा ते चिय जीवंति माणुसे लोए ।
 ते चिय जयंमि जरा ते चिय कुल-वहवत-मयेका ॥
 ते चिय तिरुवे पदाया ते चिय त्रिप-जस-वचलिय-दिपंता ।
 ते चिय सुसुह-सरिसा ते चिय ह्वयंमि विकखाया ॥

१ क पन्थोः । २ क विहुः । ३ क कलं, क वचं । ४ क 'प्राहू, क 'ल' । ५ क
 वे । ६ क वेः । ७ क विः । ८ क विहुः । ९ क विज पौर्वा काठ । १० क 'व ।
 ११ क वरवेः । १२ क उमिणः । १३ क च विः । १४ क मयः । १५ क सिमः । १६ क
 'सिभ' । १७ क कलनलः । १८ क सुहः । १९ क जायः । २० क विव' । २१ क सु क
 विजु व विः । २२ क तिष्ठा ।

ते क्षिप कथयामहे। तेषु य दिव्याणि मन्त्र-दायाणि ।
 ते क्षिप जयंमि सुदयो ते क्षिप सुर-बाह-जय-चञ्चला ॥
 ते क्षिप गुणियो गुरुयो सुदियो तेवस्मियो य ते वेद्य ।
 ते क्षिपय-विषय-नन्दा क्षिपिन्द-भग्नां लम्बुङ्गीणा ॥
 यन्ना यं माययो मे त्रयस्य-सानज-ज्योष-परिहार ।
 काञ्चन विषय-संघा जाया संख्या लक्ष्मि-काया ॥
 एक्षिपयित्तं कालमि(लेः) विषयास्तथेयं तं कथं पार्थ ।
 तं क्षिपिर्दं क्षिपिहेयं जायज्जीवाय टंज्जामि ॥
 तो से विमुद्-दत्तय-नाय-परिवेहिं वज्रमालस्य ।
 सास्यमउलम्बयंतं उष्यर्षं केवलं नार्थं ॥
 बोलीयायानय-वज्रमाण-पीसेल-भान-वटिर्णं ।
 तं पत्न्यं तं य पासद् भरद्वाज्यो दिव्य-नाथेण ॥
 काम्मि इन्वि-रपणं करि-दरि-रह-बोह-संगणं रत्नं ।
 भोगा सुरैर्द-तरिष्ठा रमणीयो सुर-समो वेत्तो ॥
 सीहासथे गिलभो संरथो वह वि केवलं भरहो ।
 जम्हा य कञ्ज-वर्तुं विमुद्-भावस्त पहिर्बंभो ॥
 आसुण-वेपाभंत्तर संपथो तं भग्द् हरी इयमो ।
 नेन्दु य दैवर्तियं भगव । रंदायि तं तं सि ॥
 राय-सहस्त-समेभो क्षिभं पितुं पिहृष्ट पीहरिओ ।
 आह्वयसो पुषो हरिणा रजंमि संदविओ ॥
 संभोहिऊय मरे सेलेलि पाविऊय खविऊय ।
 कम्म-वउमं सिद्धो भरद्वाज्यो उलभमाहो व ॥
 सुयदेवि-ससार्णं सुपासुसारेण भरद्वाज्यो-वरियं ।
 सिद्धं जो सुयद् नरो तो पावद् केवलं नार्थं ॥

॥ भरद्वाज्यो-समस्तं ॥

— [६. भावे महदेवी-कथा] —

महदेवी-कथायायं नन्द - महिष-पञ्चजे उसमे त्रिदशपरे असाधारण-पुत्र-विशेषा-
 यत्-संतका महदेवी भरद्वाज्यो दि दृष्ट्य भगिषा इया (१) भरद्वा - 'वच्छ'। तुह सखि
 क्षिपिर्दं उच्छिऊय एहि तुज्ज जयजो सुदा-नन्दा-सीउलिपाइ-संतका-सरीरो कथाहरण-
 विलेखन-दृष्टम-वंबोलाइ-रहिओ एसागी मसालाइतु वि विहरद् । भरद्वाज्यो महिषे-
 'अम्मो ! मा एवं भगवतु, कथयो ताजो, जो संसार-निबंधयं रत्नं वृषिऊय पद्मजो ।
 यथं च जारिणी तापस्त रिद्धी, ता कथो कोटावेदि-भागेण विपसेदार्णं वि । कथो पुत्र

१ क. 'वच्छ' । २ क. 'नरो वेत्तो' । ३ क. 'वदय' । ४ क. 'दृष्ट' । ५ क. 'उच्छि' । ६ क.
 'वच्छ' । ७ क. 'वेत्तो' । ८ क. 'वच्छ' ।

अन्वहारितान् । एवमनल्लिप-वचनं भविषा वि अवधिपंती तदा रोषिषे(उं) वपचा, जहा नीलीए अंतरिमं वपच-वृषलं । उष्मे च तित्त्वपरमस केच्ये एवहो भरहो मरुदेति पुत्रो इत्थि-संधे काऊन महामुद्रएण मयवओ वंदयार्थे । भविषा व सा तेज - 'अम्मो ! वेच्छसु तापसस रिद्धि ।' ततो तिरश्चप-सहायकन-संज्ञाप-हरिनाए वपई तिमिर । अदिह-
 • बुडं विद्धं समोमरणं । एरंतरमिम संज्ञाप-मुह-परिवासाए मनुच्छलिप-जीन-वीरियाए समसाइप-सुनमसेट्टीए उष्मं केवलं नामं । अयंतर च समासाए सेट्टेत्तीकरपाए विहृषिय-धेवोवगाहि-नाम-भोचाऊव-वेपविषाए एव-समएण समत्कार्यं परमपर्यं । जोसपिणीए वरवत्तिहो चि काऊन कया से देहस देवेहि मदिवा । पच्छा पविच्छो वेदो सीरोव-सहृदमि चि ।

• अथो तदा मरुदेवीए भावमदथो धम्मो कथो, तदा कापयं ।
 सुचदेवि-क्साएणं तुषापुसाएष साहिपं चरिय ।
 मरुदेचि-सामिणीए तिसुपंतो तद्द कल्लमं ॥
 ॥ मरुदेवि-कहाणयं संमत्तं ॥

अपं चतुर्निघोऽपि धम्मो यथावस्थित-जिनवचन-प्ररूपकल्ल सफलो भवतीत्याह -
 • मरणभवमि वि मुणिणो जिण-वयणं यण्णहा परुवंति ।
 दिअ-दैत्त-पुच्छिओ कालउ न्व जण्णाण फलमसुहं ॥ ८

[माणभयेऽपि धुनयो जिनवचनमनया न प्ररूपयन्ति ।
 द्विरत्तल्ल-कालकत्त् वज्ञान फलमसुमम् ॥ ८]

आचार्यो कथानककल्पसमेदन् -

• — [७. यथास्थित-प्ररूपणे कालक-कथा] —

अरिष ह्येव भरहृवसो सुगपुरि-सरिन्का तुक्कमिणी ववरी । रायलच्छि-संकेपङ्गामं जिपसन् राया । तस्य च व(नोद्धमिण?) भवपीए सुओ दत्तो उ(ओ)सम्यओ । सो व वृपस्तंगी मज्ज-मसंभी जीन-वापण-हई अल्लिय-वाई परदार-सेपी पर-दवावहारी मायावी तिसुवो चेतो साहसिओ पीसंसो सबहा । कि बहुया ? जोगो चि काऊन पदिवओ
 • समत्पदोसेहि । वेण च जिपससु-ओल्लभंतेणं वत्तीकया तरे चि सेवया, उज्जासिओ राया । समद्विदुषं अण्णहा एत्तं । रज्जा-निमिषं च संमाउचा नाकदिह-ओमा । वक्कया विह-
 • कम्मो दक्खि-क्खावापी-मिओ अयेण-सीस-वक्खि(व) परिपारी समोसरिओ से कम्मो कात्थिपक्काविहायो नाव करिती । समाहणं वक्कत्तव । धम्म-सद्द-ओद्धारदि च संपचा मैमसया । ओण-वरंसाए यं काउणो आयमयं तोऊव भविओ द्धो अहए -
 • 'अम्म ! तुह मयवो सवत्त-अय-सत्ताहणितो पदिवच-सादुत्तियो विउत्ताए एवमथो ववो । अद्दण्यं च कया विउत्त-नागतया, सुमं चि वंद्या एवमसु' चि । अवि य -

इकं नो तुह नामो वीर्यं विउलेहिं तुभ्यो पुण्ये ।
 त्वयं संवदित्यन्वयो का पुत्रयः । गमन्तु तं साहू ॥

उपासी-उपरोक्षेण य पयड्यो दत्तो पत्नी गहुरेसं । पुच्छिओ कालियओ - 'जन्माय फलं किं ?' भगवत्या भगिष्यं - 'पंचेदिय-वहेण परम वचंति ।' पुण्यो वि जन्माय फलं तुह-वसाय पुच्छियं । भगवत्या वि साहिओ अहिना-लकनयो धम्मो । तेह-वारात्तु पुण्ये । सादियं पाव-कम्माय वारया फलं । चउरय-वार लहेण भगिष्यं दत्तेय - 'ओ ! कियेवय-मन्तरेसं फलवति ? । अइ विविधि सुमि(ण)सि, ता जन्माय फलं सारेलु ।' भगवत्या भगिष्यं - 'अइ एव, ता नरय-पत्त्या जंना, जेम महामभवत्त महापरिमहत्थाय सुमिया-हाणेणं पंचेदिय-वहेणं जीया नरपाउयं कय वंचंति । एयाणि य जन्म-करणे संति वि । उक्तं य -

“अत्तं कलानि कुण्ठन्ते पग्गुणा मन्थमे हति ।

अन्धमेधम्म वचनान् न्यूनानि पटुमि अमि ॥”

संज्ञाय-रीसेण भगिष्यं दत्तेय - 'अइ वियापेसि, जहा नरय-कहा जन्मा ?' । भगवत्या भगिष्यं - 'गाम्पाहमपाओ' । दत्तेय भगिष्यं - 'ओ पत्तओ !' सुमिया भगिष्यं - 'जन्म-दियहे कुंसी-पागेण पभिसि' । तेय भगिष्यं - 'इय को पत्तओ ?' साहुणा भगिष्यं - 'तंमि जेव सत्तम-दिये परमं असुइया विउल्लिअिहिं' । मत्तुप्यम-कोवानलेयं य पुण्यो वि भगिष्यं दत्तेय - 'कयो तुह मय ?' सुमिया भगिष्यं - 'निलवत्तमाउयेयं पय्य-कालं काउता पत्तं पंचनयोकार-वतो नियय-मत्तुया मरिअण देवतोयं गमिस्सामि ।' उओ आचया पुरिसा 'एयं पत्तयाहममत्तय-वययं सुखिसयं करेअइ, जेम सत्तम-वासरे एयं निय(य) कुंसीण क्यामि' गियमिअण आरकिसय-वारे पविड्यो धवलइर दत्तो । दहाविओ पत्तओ - 'य सच वात्तरामि जाय अवरि(ए) पुरिसी उल्लिययो' । सत्तम-दियेण अत्तहिण्डुणा मात्तपारेण राव-सम्मो उल्लिअण पुरिसं उयं पुण्य(ण)करवययं । सोलीयाणि सच वात्तरामि सम्मवपाणेतो सचये विव वासरे जायवड(र)वरेण पयड्यो साहू-वहाय, तुरियं तुरि(र)य-नेत्तुर-वत्तएण य असुइया विउल्लिओ हसंओ पहे, 'अओ ! आचइओ पय-समवयस्स आपसो' मत्तमापो भय-मीओ पयड्यो निय-विहाविहइ । 'अय पविड्यो इत्तमो' भविसइइ वि मत्तमापेहिं पिरच-पियेहिं सेस-अपेहिं वंचेअण पुआपीय-वियमत्तुयो मत्तममीओ दत्तो । तेय वि य तेत्तापुम-मंडल-सत्तयाय कमळीय छोत्तय ए(य)ओ दोवत्त-मंतुया य मयो सपामो मयो 'परगमिति । काउमो' वि चोदिसय मत्त-कमतावरे विहरिअण पिलवत्तमा' काउममकलंक-सामयं काउ-वात्ते पदियय-सपत्ताहारे नयोकार-वतो उल्लिअण पू-कडेकर मयो सुखेयं ।

अओ जहा काउलोय अविताई भगिष्यं, तहा भगिष्यं ।

१ क. वेर । २ इ क इमि । ३ क तेन व । ४ क 'जयो' । ५ क. 'यो' । ६ क. 'वि' । ७ क. 'वत्त' । ८ क. 'इ' । ९ क. 'वत्त' । १० क 'यो यो' अउत्तु । ११ क. 'य काउ' ।

सुखदेवि-वसाएणं सुपापुसावेण कालय-कहाणं ।
 केशिणं वो हुण्णं नरो सो पावह निरुत्तमं उणं ॥
 ॥ कालय-कहाणय संमत्तं ॥

सम्भवाद्दस हि विरागता फलम् । यत् उक्तम् - "जनस फलं निति" इति ।

* तथा अन्यैरप्युक्तम् -

"उत्तमानेन न भवति यस्मिन्नुदिते विमति रत-नय ।

उतत कुतोऽस्ति शक्तिर्दिनकर-विरण्यजतं न्वात्तुम्" ॥"

यस्तु रागचारं स कार्यमकार्यं वा न प्रेक्षते इत्याह -

रामानल-संततो कज्जमकज्जं ष पित्थए पुरिसो ।

राय-महिंलाद(इ) रत्तो महुराए वणिय-तण्ण उव ॥ ९

[रामानलसततः कार्यमकार्यं वा न प्रेक्षते पुरुष ।

रायमहिंलाया रत्तो मशुताया वणिकू-तनयन्त् ॥ ९]

भावार्थः कथानकराम्यतवेदम् -

— [८. रामो वणिकू-तनय-कथा] —

- ॥ इहेव जंबुदीपे दीपे भारते नामे वण-तलारुह-पापार-मंडल-परिनिष्ठाचारं रवि-रह-
 तुरंग-मग्न-नाम-यवतहर-मित्तगए सुचिभाक्कि(च)-तिच-चउव-चवर-चउम्मह-विहार-
 वेउलारामाए सुसोलासुगारि-तिथयर-पदिमा-अंकिव-दिग्ब-महाधू-अ-विभूत्तियाए
 विण-नागहर-नरादि(प)-कलदेव-वात्तुदेव-महापुरिम-सेवियाए नियम-विणिम्मिय-वा-
 गाभिह-ओह्णपुनपाए महुराए नवरीए त्रियमत्तु राया । मपलंवेउर-पहागा धारिणी से
 ॥ देवी । तस वीए सह विसय-तुहमपुहवंतस अउकंते कोइ कालो । अजया भंडीर-वण-
 पैइय-महुरावे विगओ राया सह धान्णिए, सेमलोमो य । पण्हे य महुरावे जवणिया-
 विवरेण सवालंवार-विभूत्तियं कलचयं चलमंतुहुयं पित्थउय वित्थियं इकेय वणिय-
 एवर(न)-अओ ! जीसे एपारिसो अकं-नय्यामंउपारी चरुणंतुहुओ, तीसे इयाए-
 गुणोइ सु-सुंदरी-परिसोइ होय । क पुण एसा ?' गवेसंतेव पायं 'परच्छयो
 ॥ महादेवी' । वित्थियं लेव - 'कि च जीविएण ?, उद द्याए सह विसय-सुदं य सेवेअ' ।
 मयम-सीर(स)-उत्थियंओ य गओ विपय-नोइ । तीए सह संगमोपायं चित्तंओ विन्निमाउ-
 इओ । अण-दिपामि राय-धवत्तराससे उग्गाटियं गंविवायमं, समाउत्तो नवहरिउं ।
 हायसंमाणादि य आवजिवाउ राय-महिंलाय वेटीओ, विसेसेण धारिणी-संतिपा चिं-
 करियाअभिहाणा । तीए य धारिणी-पुरओ पत्तंतिओ वणिय-सुओ । अण-दिपामि
 = पुच्छिया पैवी वदि(वि)एणं - 'ओ पदमं पुउउ केओडे ?' । तीए वणियं-धारिणी ।

ततो वच-मञ्ज-द्विप-लेह-मगाहो ममपिओ पुदओ । वगिषा य चेडी - 'एष [न]हत्वेण
गरिणाए अम्येषओ' । तह विप कए उच्छ्रोदिओ महादेवीए पुदओ । देहो लेहो ।
किं तत्र लिहियं ? ति । अवि य -

“काले ममुमथ जनदेनम्य, मेकन्यकथामुं च वरीहियु ।

मिच्छ म मारणि विगलनेने । ते द्रव्यक ये एवमाक्षेपु ॥”

‘कामेमि ते’ एतादि पादप्रथमाधराणि । ततो द्विपिप-लेह-ध्याए चित्तिपमगाए -
धिरस्तु काम-मोवाणः प्राण कए पाषिषो कृषति पावाध्याय, अर्पति अलिप, हरति
ए-दत्त, वचति ए-कएच, वचति मिच-वकुषो, करति महाअ-परिगर्भा, नरति म्गार,
पविमति महाइवि, करेति वीप-कम्माणि, पविमंति महासंधामे, न गणंति मुक-द्वार,
न निरुपति कजाकजं, न पेच्छति सुदरासुंदर, न एषति समान-अर्पे, तदत्र पर्यमो ॥
विन रुवालोपण-वटिपा न्यपुगान्छति - वि । अवि य -

राज-तिमिरव-नयगो कजाकजं न पेच्छए पुमिओ ।

इह-अलोप-विकडाह वेण सो कुषः कजाः ॥

ते अन्ना ताप नमो ताप मुनई च वायुसं अम्भं ।

जे परदा-निषया विप-मकार्यं च संवेति ॥

या एमो वगिष-सुओ विषयामा-मोदिओ मयं डाड ।

विप-लेहव ममेपा चेडीए अपिषा बुडिपा ॥

वीए वि अपिषा वगिष-सुवस्य । नेण वि तदरिसेव उच्छ्रोदिपं बुडियं कडओ
[लेहो] । किपि लिहियं ? ति । अवि य -

“नेह लोके मुक्क [मिचिच्छादिनम्याहल भुजम्” ।

मित [च] अमित नृण मेन असे मति कुकु ॥”

पादप्रथमाधरश्रवणस्वरपम् - ‘मिच्छामि ते’ । ततो वगिष-लेह-धो विषय-दुग्मव-
पगहामो चित्तिउं पपचो - ममाक-सटनया वेच्छट या वर-पुरिमो । ता च ‘एव वीप
विन्दे एष वि चेदियं तसामि वि । अवि य -

“नमा-वदरिच्छा वि पुरी पिच विरहे परय-भरिषिषा होइ ।

इह-अप-अवशोभे रथं ति मुवालयं विगह ॥

ता किमेत्थ द्विएण ? जाव मा य पाविप वि भावेतो चोचामि फाडिउम निमाओ
मो मेहाओ । अमेव पचो मयं-ई)अर । डिओ एषन्थ मदे । दिहो मिद्वपुचो वीनि-
कथं चहाण वकथावेतो । अणियं च वेण -

“अथो कामो धम्मो सत्तु-विषामो अ वुरनाणम्म ।

जिणदस-भारगम्म न अदिपिउओ होइ पुरिमम्म ॥”

चडेहिं भणियं - ‘को सो जिणदत्तो ?’ / ‘सिद्धपुनेण’ भणियं निमावेह - अन्वि

१ ह क ल 'अस्तु' । २ ह क ल 'वेण' । ३ ह क ल 'ए' । ४ ह क 'एव' ।
५ क 'म' । ६ ह 'विच' । ७ क ह 'म' । ८ ह अ 'मिच वी' । ९ क 'मिच' । १० क ह
'वी' । ११ क 'क' । १२ क 'मि' ।

इहेर अरुवामे 'अपारिमिय-सुख-विहाणं वसंउर वपर । तस्य य विप-विहव-रु-
गिजिय-वेमवण-अवणे जिणदत्तो नाम दुष्म-सुओ अरिण-जीवाजीवो' समुवउह
वृष-पाओ(तो) सग-वव-विज्जरा-कुमलो । सो अन्नवा वाभेज-उडिपाए गओ अपाए ।
तीए व परव-मवहेवणे पणो नाम मवववो । तन्न य दोषि अन्धेरप-विम्भवाणि
। चउमवृद-पारा वृचावली, ओहामी(मि)व-सुरमुंदरी-पुणा य हारप्पहाविहाणा पूया ।
अपेव व सइ जाओ सुववहाणे जिणदत्तस । मेहवुगएण य विहा उवरिम-उत्तरुदा
हारप्पहा । चित्तिवं य वेण-अहो ! से रूपं, अहो ! से सोमया, अहो ! से त्यापवं,
अहो ! से जीववं, अहो ! से कला-भोगहं, अहो ! से नीसेम-पुणाहाणप चि । अपि य-

“व जीए सुदेर” विहिणा तं विहिउम निम्मविपा ।

“सुरमुंदरीण एसा विपापवं तम्म विनेणं ॥”

कई एसा पाविपवं चि विहितेण मन्वादिओ पणो बहुप्पवार । व देसा, गओ
विपय-अथाय । तीए कएण कए-उत्त-वेसो पणो पुणो चि अपाए । अणिओ उवज्जाओ-
'सम वसुहाणं पुणसु ।' तेण भविप - 'भोवण-अहिंसे देमि ते व(मि)उ । मोयवं धर्यं वम्मसु,
जेव तणेहं दिवहं दिवहं पंच भोवण-सवामि कुं(ह)उंति ।' गओ एणो भोवण-निमित्तं,
। भमिओ पणो । तेण चि भविपा हारप्पहा - 'वच्छे ! इमंस्म जं वा तं वा देजसु' ।
तेण चित्तिव सुंदर जायं । जं विगतो वज्जेरं दाभियो, जं य गिपवाहाए रमवईए
सुहाइ वृदो, जं य वान(ग)ओ पुण-फल-भामिडे कापणे उदो, सुए वर्यं पवहं, जं य
पंतुलि-मत्थे संपचो विपव-सुवामओ । सो अ तुमतो पुण-कउअईहि तं उवपरिउमाइओ ।
ता य बोच्छइ । ततो य से उदमसुवचनेण, ईणियं संपाउतेण, विपय करंतेण
। अवतरे अंपंतेण, नियव-ओमहं दावेतेण, वके सुहासियं पइंतेण, विषव-पुट्टि विंधार
तेण, परिषव-वेचमाराहितेण, मउत्तधनवं पवासंतेण, देम-कालापमर दावं देतेण
। वम्मइ-कइ कइंतेण, सवहा कि वहुपा ! तमात्तव-वचिप्पत्ता अवरेण जापअियं से
विचं ति । अपि य-

‘आत्तमेव वृत्तिमेवो मनुम विद्या - विहीनमकुलीनममस्तुल का ।

“अपेण भूमिपत्तय उमदा कलाअ वरू पायेतो मवति कइ परिनेएवन्ति ॥”

“लोपा व ममानवं पेच्छिउम अमारिसेण जालीकरेति । अणवमरो चि काउं व तेमि
अवयारे पयहुइ । अन्न-अदिवहंमि अणियो जिणदत्तो हारप्पहाए - 'अणसु, किं ते
करेसो ?' । तेण भविप - 'कहिन्माओ, जया तुवं संपसाया भविरत्तसि' । तीए
भविपं - अहं पुवरा(ह)ओपचासेवं, जंणसु' ज ते ममीहिपं, सुअणु ! जेव संपाउच्छइ ।'
। तेण भविपं - 'अइ गवं संपाउतेसि, ता विगुणेषु चि । अपि य-

“सुह-किरहाना(ण)उ-वचियं मम देहं निपय-संगम-उत्तेवं ।

अहिंमिचतु तुरियवर उइ कुणसि समीहियं सुअणु ! ॥”

ततो भगिर्षं हारणमाए चि ।

पापाद्-भद्रिय-वर्षं सुलक्षिय-व्य-नामिषं मम मरिच्छं ।

सुषिञ्जम नाहमिष अं कायव तर्षं कृण्णु ॥

‘हसिषं तुह हह मर्षं, रमिष वि विसेपञ्चो न सदेहो ।

मयग्दुठ व निवदर, ‘मंतू वि तुमाञ्चो विन्धरिञ्चो ॥’

को पुष एपाए माहाए भावत्थो ? पापाए(ह)मन्पाथो जहा-‘हर मम’ । का कि
हामि ? । अहवा [च] सुवधेयं इह-परलोप-विरुद्धमम्हारिमां सुषिय-जिष-व्यपाणं ।

अवि य-‘ओ सोमाञ्च विरुद्धं करोठ वृहो फरुं पि लो लहः ।

ओ सुहृद विडे हत्वं गो खञ्ज द्वा काया वि ॥’

भानिञ्जम भगिषा ता तेव-‘ब्रह्मधेय इह-परलोप-विरुद्धेव हरण-अज्ञवनाएव ।
हसु अ(उ)म्पचा, जेष विञ्चो हवामि’ । ‘अञ्चो ! तुहरो मम भानिष्यो बुद्धि-विपयो’-
भाविञ्जमात्मभेत्तमाणि विडविटभाहना । तञ्चो अ-उलीहृञ्चो परिपयो सद् धयेण ।
सदि(ह)राविषा विञ्जा ‘भारुडवाह्यो । ममाउचा किरिषा, न जाञ्चो विसेत्तो । पुषो वि
सेलिषा भूज वंतिषो । कया भाप-रञ्जहा, विहविप संदळ, उविषा तन्व हारणमा ।
रउता सेता । सुषिय-भूय-भेत्तए च पापडिञ्चो कानिभ-भाहो, टाविषा भूज-मुहा,
काउलीहृषा नाउपर । अवि य-

‘अह अह कीरड कम्मं तह तह पापाडिप-भीरण तंरुवो ।

विन्धरु तीरं देहे मयग्दुप-विन्धमो भूञ्चो ॥’

तञ्चो भवि[ओ] धेयो भूय-तंगगाएदि-‘द्वि ! महाभूयादिद्विषा एसा । नं जेष
रा नेव ना अवणेज्ज भूयं । तञ्चो पहाववरा माहमिषा । तेदि वि कावमीञ्चो । तञ्चो
सुच्छिञ्चो जिणरुचो च्छो धयेण-‘किचि विपागति ?’ चि । अवि य-

‘सुच्छद न जविह धञ्चो तं तं पवडेठ सुषिय-परमरयो ।

भूय-विनिच्छा-कम्मं विसेत्तञ्चो टाविष तेव ॥’

धयेण भगिर्षं-‘सहात्मत ! अवधेसु हारण्यहाए मरुं’ । तेण भगिर्षं-‘विच्छासो
ताव से सरुवं’ । तेव भगिर्षं-‘विच्छसु । लरो वेह्वो अरुंररोग्हुञ्चो दिहु मदि-
नवाहा हारणमा । कुत्तिपाणि अग्गाणि । सुषिय-मयो-विषण्णए भगिर्षं विपद्धिवाभि-
रायाए सहिए चि । अवि य-

अवपेदि वेत्त ! हत्वं वन्नुच्छंभाउ मन्ज सहियाए ।

संकमा इति जेञ्चो अह दीमद् पुल्ल्यं अंणं ॥

अवधेस्मद् एम विष मम संकल पुषो मण्ण्लेव ।

पन्हुहो से देहो संकरो ताव से अरयो ॥

सिञ्जद सिञ्जद सिञ्जद जमाह य तह य वेपह स वहु ।

अं जरिषाए कम्मं तं तं वेञ्चो विष करेह ॥

तद् दीप्तं संकेतो ज्वलो^१ अंनमि विज-तपयस्म ।
तद् चिह्नं भविष्य-शुभा एवो विव जेमर्हं पिषड ॥

ज्यो केचि संपत्तं विप्लव-विप्लवण वेदिकुल गजो चहो सतिहं भवस्म - 'ताप ! मह-माहो नु दसो अमज्जो ममत्वं(रथ) संतिप(पा)णं, किं सु मम पुत्र-पुरिमागवा अस्ति विजा । सा य पत्रोअमापी भूय अघघेह, संतिवं वा बाण्ड । किं पुत्र 'दोयतो से उवाओ, नेप मंडल-विहाणंमि अवंत-विमुद्रेहि चहुदि वंभयापीहि पत्रोयवं' । नेप भविषं - 'अरिष भववंतो मत्तकमा' । ततो सपचाए 'किसिप-वउहसीए अद्वरच-समए पयहो(हो) धयाइ-सदिओ एवो मयापामिमुहं, पत्रो तत्र । दिहं(इं) पेइयवं । जं च, दर-इह-लिमिलिमापंत-मपुप-देह-बीमरत-भेष-मंम-दसा-पीमयं, कहि पि कितकिजंत-चौव-स्त(च्छ)-वेचाउ-हाहास्य-सह-गमिभवं, कहि पि वचन-तिगवर्भ-अहुइहासापुरिष-गयवं-यवयं, कहि पि बीर-पुरिम-स्तिप-मंस-रुहिर-देजंत-परितोस्तिप-भूव-संहुतं । अपि य -

दीमांत-पत्र-विरतर-सुवंतासेस-बीम-भय-महं ।

संपचो विपयय धयाइ-परिचारिओ चहो ॥

ततो लिहियं मंडलं, पजालिओ उदधो, उविषा करवाल-वारह-अमया अहुमु वि
१० टिमामु मंभरकसा । भविष्या चहुण - मम मंडलं पवेदुस्म ममकाळ सिवा-सदो तुम्हेहि
कयवो' । पुणो य ताण पुरओ उविषा अहु भयुदरा, भविष्या व वे - 'विह-सिवा-मह-पेहीहि
होचवं' । एवं विजविषयासेम कायवो पविदो मंडले । उविषा से पुरओ दारिया । 'हु
कुहि(दं) उवि वाहणिए महुच्छलिया सिवा-सदा । विजा भयुदरेहि सहापरमाउतीभूता
११ कपदा विमयाउहा समरकसा । पटिओ चहो । विहटियं सवं । संपंतरेण य उद्विष्य
भविषं चहुण - 'जाप ! मए पुत्रमेव संतिहियं न जहा दुतहा विमुह-चमवारियो' । विमया
य मया सहे वि मेहं । यणेन भविषं - 'को उवाओ !' चहुण भविषं - 'अज वि जह
मुहवंभयारियो सहसि, पुणो वि करेमि कम्म' । ततो संकूष भविषो निपय-गुरु - 'जे
अवल-वंभयारियो से पवुवेणु' । तह विव दुह्य-बाणए विहटियं । ततो चहुण निजाहिया
ततो समरकसा । पुणो वि भविषो यणेण चहो - 'कहं पुत्र वंभयारियो तयवा ?' ।
१२ चहुण भविषं -

'परदि-वह-ठिलेठिदिप-मुहुत-मुज्जवलिम-पवीर ।

अदनामऽऽहा-विमयाय न एव यम-मुत्तौओ ॥'

जे एव साहस्य कुचंति, अहुठुंति^१, ते वंभयारियो निस्संसर्प । ततो उविषा माहा
भोय-आन-रचंकराएवं । न नाओ^२ परमथो । जहाविह-वविषहपाए^३ व समोसरिओ
१३ अवेन-सीर चरिचरो वाहिरुजाणे भम्मचोवाधिसाओ आपरिओ । 'जो य, मंदिर द्याए,
संकेचह्याणं सच-वयमाय, आगरो समस्य-मुज-रपणावं, मंडणं पसुमईए । जाओ पचाओ

१ क 'हो' । २ क 'एव' । ३ क 'वि' । ४ क 'वह' । ५ क 'ज' । ६ क 'विप' । ७ क 'ज' । ८ क 'ज' । ९ क 'ज' । १० क 'ज' । ११ क 'ज' । १२ क 'ज' । १३ क 'ज' । १४ क 'ज' । १५ क 'ज' । १६ क 'ज' । १७ क 'ज' । १८ क 'ज' । १९ क 'ज' । २० क 'ज' । २१ क 'ज' । २२ क 'ज' । २३ क 'ज' । २४ क 'ज' । २५ क 'ज' । २६ क 'ज' । २७ क 'ज' । २८ क 'ज' । २९ क 'ज' । ३० क 'ज' । ३१ क 'ज' । ३२ क 'ज' । ३३ क 'ज' । ३४ क 'ज' । ३५ क 'ज' । ३६ क 'ज' । ३७ क 'ज' । ३८ क 'ज' । ३९ क 'ज' । ४० क 'ज' । ४१ क 'ज' । ४२ क 'ज' । ४३ क 'ज' । ४४ क 'ज' । ४५ क 'ज' । ४६ क 'ज' । ४७ क 'ज' । ४८ क 'ज' । ४९ क 'ज' । ५० क 'ज' । ५१ क 'ज' । ५२ क 'ज' । ५३ क 'ज' । ५४ क 'ज' । ५५ क 'ज' । ५६ क 'ज' । ५७ क 'ज' । ५८ क 'ज' । ५९ क 'ज' । ६० क 'ज' । ६१ क 'ज' । ६२ क 'ज' । ६३ क 'ज' । ६४ क 'ज' । ६५ क 'ज' । ६६ क 'ज' । ६७ क 'ज' । ६८ क 'ज' । ६९ क 'ज' । ७० क 'ज' । ७१ क 'ज' । ७२ क 'ज' । ७३ क 'ज' । ७४ क 'ज' । ७५ क 'ज' । ७६ क 'ज' । ७७ क 'ज' । ७८ क 'ज' । ७९ क 'ज' । ८० क 'ज' । ८१ क 'ज' । ८२ क 'ज' । ८३ क 'ज' । ८४ क 'ज' । ८५ क 'ज' । ८६ क 'ज' । ८७ क 'ज' । ८८ क 'ज' । ८९ क 'ज' । ९० क 'ज' । ९१ क 'ज' । ९२ क 'ज' । ९३ क 'ज' । ९४ क 'ज' । ९५ क 'ज' । ९६ क 'ज' । ९७ क 'ज' । ९८ क 'ज' । ९९ क 'ज' । १०० क 'ज' ।

एवास्ति तस्मिन् सुरी तमोवग्निः । तत्रो आगत्या पातरथा, संपथा तावथा, त्रिवाद्भो
 व नह घबेण । वसिष्ठो सर्वेहिं ति । सप्त-धम्महाथा य निरुंवा से पाव-सुलम्बि ।
 सुरेवा वि पैरुपुया धम्म-कहा ति । अवि य -

“अत्यो कामो मोक्सो धम्मेष इपति जेव त्थो वि ।

ता धम्मो विव पढमं सौउमं कुंणह सुपण्ण ॥

नो पुण कवित्त-कणमकल-अकलपाव-सुपण्ण-देह-धम्मार्थं मज्जे गणाण उ
 दत्तयो, १ तरुण व कणरापयो तिम-धम्मो शिव पहायो ति । अवि य -

सुमेत्त इ विरोमं मयधुरमथो इ उन्दि-मज्झमि ।

चंदो व ताग्याणं इंदो इ सुराण नह मासो ॥

अमन्तरु इ तरुणं जंबोटीयो २ व नहवीराणं ।

उह धम्मार्थं मज्जे तागे त्रिवादेस्सिओ धम्मो ॥

जेण एतो निदिदु(रदु)-राग दोम-कमाय-वरीमहोतसम्म-कम्मेधोहिं मसुपण्ण विव-
 विनिमिभ-नाणाइएहिं मसुवउह-उहद्वि-जीवाजीवाद्-वपराव-विधरोहिं त्रिपमत्त-
 संचादिव-दुपाइएहिं विचायेवाइ-धम्मार्थिव-वत्तु-भविरेहिं त्रिपवरेहिं म-देव-
 वसुपानुराए परिमाए पुषावराविरुद्धो पववसाइ-पनायावाहिओ निवाण-सुह निवपयो
 बहिउ ति । उक्तं च श्रीभिदूसेनदिवाकरेण -

“अस्मिन् सर्वेभ्य एतन् मन्त्रम् उच्यते ॥

एतेषां चैव नमः । एतेषां चैवैकतया ॥

विद्योतयन्ति वा जेह सर्वेभ्योऽपि निमाकर ।

महदमल समप्रोपि कि उवा उरउमम ॥

एतन्मन्त्रमृपायाना सर्वेभ्योऽन्तवदिनाम् ।

आह्वयिमानदम्याना त्रैलोक्ये ३ एतेन धर्मैः ४”

ता सक्खा देवानुचिन्वा । दुलहो एम भापुंस्माओ वर-उम-जोसो ति । अवि य -

“भापोस्स-ल्लेच-आई-कुल-रुगोम-आउपं पुही ।

सम(व)सुपण्ण-सद्धा सजसो ५ य लोपम्मि दुलहइ ॥

इदिव-सही नेवचथा य पज्जाति निरुम(य ?)सेम ।

धैवा(१)भोमां(मं) सद्धा संजम उपा(व)ओम अहो(हो) य ॥

चोह्म-धामम-धम्मे जूए रपणे च सुमिय-चके य ।

धम्म-जुमे वरमायु दस दिहुंता मसुव-येमे ॥

जह चोह्मपाइएहिं दुहइ मसुपण्णं समकत्रायं ।

एवं त्रिचाईए वि भासुस-धम्मेष सरिसाई ॥

ता किं बहुणा ? पटिवउह धम्मं, जेव धम्मापम्मकलं इह भवे विव दीण्ण ।

१ क पण्ण । २ इ क विहिं । ३ क ल । ४ क कण्ण म एण । ५ व ल क धाणे ।
 ६ क धी । ७ क धासण । ८ क वि । ९ इ धाण्ण, क वि । १० क वि ।
 ११ क धाण्ण । १२ क धा । १३ क धा, धा । १४ क उल ।

अवि य—बोद्धुं वम्मह-रुवा इके दीर्घति जय-मवाग्दा ।
 अमे विरुव-रुवा इसमेञ्च जीवतोमन्मि ॥
 वरदाय-पण-भोपय-संबोल विलेयवाद्-संतुवा ।
 अन्ने जार्दही संड-विवमथा भोग-परिहीया ॥
 कुंजुन-कण्ठामरु-रुदय-मयवाहि परिमल-वधविषा ।
 अन्ने मिय-वेह-विषेत-जल्ल-दुग्धंधिय-विमोहा ॥
 एके विमुक्क-वत्था लीलं दावेति पैग-जवणाण ।
 अमे मिय-वत्थ-परा मियवत्-रुच्छि विटवंति ॥
 कप्पु-भुलि-अर-विग्ग-वयरद-पंकय-समाहो(ई) ।
 दहपा-दुई च पार्म पिंवेति अन्ने उ जलतिहिमो ॥
 दहपाऽऽतिमण-मुद्धिया सुरय-रम-साय-वद्धिवावंडा ।
 एमे ममेति रवमि अन्ने उ पहम्मि थावता ॥
 पण्यय-दुरिवामा इके दीर्घति तिपसवाहो(इ) व ।
 अन्ने मिय-दुहु पि वि कड कड वि भरेति तिरिप ड ॥
 इय धम्माधम्मफलं पचवत्तं चैव दीगए जम्हा ।
 तो उज्झिउ(य) अहम्म जियधम्मं कुण्ह सुव(व)सत्थं ॥”
 इय गुरुयो वपयाउ संहुद्धा तत्थ पाणिनो बहवे ।
 जयइत्थिष-वेच्छतो सावय-सरियो धनो जाओ ॥

‘अञ्जो! महापुत्रायो एन सुती मइ सेसदुपपीहिं । क्वएत्था एते पाणिनो जे एयस्म
 वपयामपं नित्तुपति’ भावेनेय मणिमो चट्टो चमेण—‘आरित्त क्व तिहुा मुणियो
 वारिसा नृपमेए, ता वक्खावाणेषु नाई’ । वक्खाविवा मुक्खा । धणियं धमेण-
 ‘भववं! मडलकम्मे पट्टवेतु ताव मुणियो’ । सुरिया मणिवं—‘व एस सुणीवं कप्पो
 जनेचारित्तेषु कजेसु ववंति’ । चट्टेय मणियं—‘ताप! महापुत्रावा एते परिचव-
 विहवत्ता सन-उय-वविलेहु-कचया परजय-सपया परम-वंभवारियो पणहु-बोह-वाव-
 वाया-सोहाईफाउ-ईमहा पंच-समिवा तिसुवा वंभवारियो संता देता मुवा जिन-परी-
 सहोरसम्मा वा पावकम्मेसु वइति; केतु एपाय वामेय च,’ पाय-रएण वि, सुमरयेण
 वि, दंसमेण वि, करित्तेण वि पपसंति सञ्जउ आवपाउ, विपेसओ किंनर-किंपुरित्त-
 महोरय-वेयाल निजपाद्-वमिवाई भवाई । सपजंति सपल-समीहिपाई ति ।

तं पत्थि णूय कळं जं न सुसाहूय दाय-भणीहिं ।

सिज्जइ वराय सर्वं, भूपाइ-भय पुपो कपो ? ॥

तयो जल्ल-लिहिपाणि नामपाणि वेनुव वया पुनो मतापं, रमादर्न ऊम्मं पुहकमेय
 कंड(ओ) एयो वि विही । ‘जुक्क-कदा विवदिवा करणीए’ इत्यप्यहा । संवाहिपाणि
 अवाणि वासडिय-परिवेषेणं ति । अवि य—

सुख-बहाए दूर ललित-वयगाए^१ तह वि भीलसिपं ।
जह विज-सुखो वि फुई कइ थवि 'गह-नोकर पत्तो ॥
ततो सगिहंपं वि य भगिपमपाए ताम ! कियेवं ? [ति] ।
बाम-द्विप-रनिपयोग य साहिओ सधो(व) पुतलो ॥

संज्ञाप हरिनाथि य पचाथि य मेहं । थयो वि जाओ अयम-मदि(रि)पो सारयो । ।
वित्तिपं य जेय -

निप-कज सिद्धि-देउं कुगति लोगा परण कडाउं ।
एचिप मितं पि जग(वे) निहारण-बच्छलो चहुं ॥

ता जोऊइ मम दारियमेवसम दाउ ति मंक्रमयेव भविओ थवेण चहुं - 'ओ ॥
महामम ! जायमि कियि, जउ देलि' । सुमिप-मयो-विपणि(पे)ण भविप चहुं वि -
"पथेउ ममे ताओ अल्लहि संकाए क्यवं(व) करेमि' ।
देहसम वि न सार्मी कि पुप सेम[स्व] कलम्प ? ॥"

अहो ! से मयापुमानवा, अहो ! से विवओ, अहो ! से पचव-विचालो, अहो ! से
समय-गुणाहारण वि चेतवनेण भविपं थवेण - 'मंयमेण मेवस्तु तारणपाए कर
कणेन । य जउ(ओ) न्दाभईओ रचयागाराओ अमत्त पिपदति ॥'

तओ कियि सगंनर तुभिको होउम भमिउमाहयो जिगदयो वि ।

"हंसेण रावहंसी जो(इ)ऊअ ताम ! सुंदर मय ।

जे पुप विदुण समं जोऊअ तं जयो हत्त ।

निदल्लिप-मत्त-वार्यंन-रपव-विच्छुरिय-वाकस-हीरेण ।

सोहियं थिय सोही जोऊअ न ह जंयुएवं ति ॥

हय ताम ! तुंऊइ इहिया जोग्गा विउमाण कइ थु मेच्छामि ? ।

अहवा वि देपलोवं को साहइ तियम-पाहसम ? ॥"

ततो भविपं च(थ)वेण - 'सुंदर संठवं ।

विदुण रावहंसी ओपंतो तहइ नाम वचणिजं ।

जो पुप हंसेण सम सजोपर तो करं खर ? ॥"

तेण भविपं - 'जइ एवं, ता तुमं जायलि' । ततो पसरथ-वामरे महाविभुईए समुष्का
जिणवचेव दिव-दानं मइ सुचापलीए । आसीओ मओ वि नवरि-जपो । कवं
महावहावपयं । पचो पओमो, कयं काववं । यओ म-हर, पचा तारणवा । तओ तीए
तह सन्भाव-वार जीरलोण-सुहमसुहवंतसम सोसीयो वि कोइ खलो । अन्न-दिपहंमि
सह तीए मओ थियव-वधर । ता नो चहुं ! जहा तेण जिणरचसात्तेण अतरतेण
इच्छिय-मजा पाविया सह सुचावलीए; सदुषो य मसरकका बाधिया, थम्मे य थयो
ठविओ, ततो य विदयो, तहा अन्नमाषो अचो वि य कानई वि' । ततो हंम मीरमत्थं

१ क 'व' । २ क 'वहो' । ३ क 'य' । ४ क 'य', रेण । ५ क 'व' । ६ क 'व' ।
७ क 'व' । ८ क 'व' ।

सिद्धयुक्ताओ सोऊन चितिय माहुर-भणिएण - 'अहो ! अतरमाषेण [अ ?]मिडिय-विहिषा
 सा नेण पाविवा, तदा अहं ति नियय-पुगीए संतुण पैउज्जमि नोमाई-चउविट-पीह,
 वहुवेमि अन्न-अस्सिय-अमराउ परिहाइयाओ विपहु-दूइओ, करेमि राइया मह सच-वं, संवेमि
 वेडासिद्ध-पुरिसे, सिम्भसामि वंतीपरण(व-)वंत-नेताइयो' भावेओ वओ महराए । ममाहच
 उअरिहु । मवरमेअस्सिमाएहि विजासिद्ध-याणेहि भणियो सो - 'माहत्तु, कि करेमो ?' । तेव
 भणियं - 'सावचनि धारिणी बडेह' । 'एव' ति पट्टिरसिऊन ममाहत्ता डिभाव मागे ।
 पुण्डिया नरेडेण - 'ओ सो ! निरुवेह, न साहाचिच' डंसाव मरयं' । तेहि भणिय - 'एवं
 करेमो' । अन्न-दिपहंमि भणियो राया - 'दिव ! तुह अनेउरे इत्थी-रुव-धारिणी मारी
 परितनइ । स इमाणि मायइ' । निरुवेवेवाचि ता पेह वाचा, ताहे पुणो वि पुच्छिया ने ।
 ॥ तेहि भणियं - 'महादेवी' । अन्नदिपहमि पण्णे उट्टिपाए पापदिज्जाणि से मयवे डेभाव
 कर-अण-संझामि । विलिच-रुहिय-ववावा न भणिया राइया - 'अपावे ! किमेव ?' तीण
 भणियं - 'य वाचामो, मम शायधेवाणि पुच्छयु' । राइया पुण्डिया मारंयो - 'कि ज्ञायवं ?' ।
 तेहि भणिय - 'दिव ! अग्गे पियव-विहायेण वाराइयो' । तओ अणिरसिऊन ताव माया-
 विलसिवं, अणिया नेमि । तेहि वि अट्टरुच-मसए नीया वन्ताव । ममाहत्ता मेसेउं ।
 ॥ इत्यतरमि क्व-संकेओ वओ वणिय-अणओ । भणियमयेण - 'किमेव ?' । मापंनेहि भणियं -
 'मारो ! (रि) दोकक-समुत्था वावाइम्मामो' । वणिय-सुएण भणिय - 'ओ ! मा अणमवमंजस
 [अ]ण, न एवाए नोमयाए मारी इउ । अण च रुजापुकारिओ मुक्का' । तेहि भणियं -
 'मं वाधेसि तुम, तुहिओ इयसु' । पुणरवि भणियमयेण - 'ओ सो ! इह मेण्हेऊव सुयड' ।
 तेहि भणियं - 'कतो एपाए पाउकम्माए मोक्कतो ?' । तेण भणिय - 'ममं वावाउण सुयड
 ॥ एय । अह अन्नसं मारेयथा, ता वदम ममं मारइ' । तेहि भणियं - 'य तुमं वावाएसो,
 एमा दुग निरुउण्ण इंतवा' । 'उड एवं, ता अहवं एपाए किया न जीरामि' । 'अहो !
 अमराण न विण्यकारी उअरिओ ! उइ मे अन्नग्गइओ, ता दीनाराण कोडि दाऊन कथ
 वितण वचसु, उअथ न सुणामो' । उअ-भणिय चापुट्टियमयेण । चितियं च बाए -
 'अहो ! महापुमाओ निहारण-वच्छलो, न एयम्म एणुवपातो जीएण वि फाउं तीरं' ।
 ॥ आहण्णइहि व आवजियं से वेच, भिविहो इय-नरो ति । अवि य -

“अइतगाउ पीहं, पी[ई]ए रं, रंए सम्भाओ ।

मन्थावेण व नेहो, पय वि वाया अणरास ।”

एवं च तीण मह विमय-सुइमपुइरनत्त समइअनो कोइ कालो । अजया रणगीए
 वेच्छमय-इत्तमन्थ वचंते विग्ग-भएणं कथइते गहिइऊण धरिओ । महासं वेद भणिय-
 ॥ मयेण - 'के तय, कि वा एपं' । विग्गिवाए व निग्ग वेण पुच्छिएण मारिओ तओ इत्तमाईओ
 हरपाउसामो वुइ वुनेओ । तीण भणिय - 'कि मो तुमं ?' । तेव भणियं - 'आम' । तओ
 वेहण-अग्गावडिवाए भणियमयाए - 'अज-दिउताओ तिपिह तिपिय सुण्य-सुइमानत्त

१. उ. क. पत्ता । २. क. वओ । ३. क. इ. मो । ४. क. इ. वे । ५. क. 'दिव य' । ६. क. मयवेइ । ७. क. 'अणमो' 'माव' । ८. क. य. तुमं वावाएसो, एयं पुण विग्गएण इयथा । ९. क. उवा । १०. क. पु. वे । ११. इ. 'वेद' ।

वरिचक्षो मये वि मरु पुरिमा, तिसैसेण सं सि महापापो । नियम-सुद्धि-निमित्तं च पुच्छिवाओ' कावच्छित्त सादृशीओ । ताहि च जोमा चि काऊम परुचियो संकाय(इ)-रद्विय-संमत्त-भूओ पंच-महापंच-लक्ष्मणो गिठ-विसुद्धाई-उत्तरपुण-गवाळकियो समत्प-दुक्क-महापंच-वावानलो वित्थरेण माहु-वम्भो । संजाप-चारित्त-परिष्कारा पवइया एवा । महिया दुविहा सिक्खा । पालियमकल्ल-नामसं । काउमासे य आममापुक्क-विह्वचित्त-कापका मरिडम मया देवहीण । पमीप-त्तमओ य उदियममेव स्द-उमाणी-पक्खो किण्डलेत्ता-चरिचाम-परिष्कारो चओ नमाणो मओ नरगमिति ।

अथो भग्द - 'न राग-रुद्धिओ कल्लमकल्लं वा पेच्छइ' चि । तम्हा लस विववम्भो सेविचओ, एमुवएतो चि ।

सुपदेवि-पमाएणं सुवाणुमारेष माहियं चरियं ।

माहुर-वणिणो संसं न्निमुपंतो जइ वेरमा ॥

॥ माहुरवाचिय-जन्वाणपं संमत्त ॥

राग-व्रतिकाय गुरोर्विनयाज्ञापने, कलत्र पत्रो विधेय इत्याह -

धम्मोवपुमयाण गुरुण विणय करेज्ज भत्तीण ।

संपत्त-केवल्लए [वि थ] जहा कओ पुण्यचूलाण ॥ १० ॥

[पमोपेइयस्य[वा] गुरुण विनय कुर्वति भक्त्या ।

समाप्त-केवल्लवाइमि च यथा कृत पुच्छपचूलाया ॥ १०]

धर्मसुखविश्रान्ति ये ते तथा । गुणानि तत्रमिति गुम्भनेषां कित्तपं विदुप्पाच्छेपं एतस्य । भावार्थन्तु कथाञ्जकगम्यस्यथेइम् -

— [१. गुरु-विनये पुण्यचूला-कथा] —

अथि भग[इ]-उवायालंकारभूयाओ वोचि महुराओ दाहिण-महुरा उत्तरगधु- (इ)रा य । तीए य वणिप-मुओ सुववदाह-वटिकाए मओ दाहिण-महुर । कय मत्तवाह-पुत्तेण सह जावा विनी । मणिया प वेप अशियाभित्ता मणिणी - 'सुद्ध-वीर्यं क्लमसु-वेप मित्थेण सह संजाओ' । गिण्णथे य ओउने(पमे) वाहरिओ उत्तरमाहुरो मियो । तीए नयाउत्ता वोचि चि जोपुं । अशिया [अ]वट्टिया वेमि पुओ वीपण-इत्था । तं य = संविचं सुद्धइयम चित्तिपं उत्तर-माहुरेय - अओ ! कपरथो चिही जेयोना करेहिं पसिया, ता अलं मे जीवित्तप, जइ एना न निय-पयापिणी इवइ । चित्तीय-वापने पइयापिया तीए पवरता । आइया मणियं - 'अगुरुषो एस अशिया-चरो, किं गु जइ एवं ताव इहं विथ चिद्धइ पसुवम-कलं जाव' । वेप चि तह चि पट्टियसिडम उम्भरा महाविर्भूर । तीए मइ सम्भाव-सार जीवतोम-सुहमसुहवत्तस्य सन्दकतो कोइ काले । जाया आवअ-तथा । ॥ अन्-दियवम्मि सुहामणत्तस्य आगओ उत्तर-माहुराण तेह-वाहओ । मन्पिओ लेहो ।

बाधं गुह्यं-दुहितं नि काठं पाओ जहा सामि-लेहो । पणमिऊण य विहाडिओ । कि
व(च) वारभूयं सिद्धिं ! ति । अवि य -

“तुम्ह विभोपानत-वापिणहिं य किंनि दुस्सकम्मोहिं ।

पत्तं तं मा रिठयो मुमिणे नि खंतु ते वण्ड । ॥

ता ख्द ह्णलसि दहं अम्हे जीवणए उओ तुरियं ।

आपच्छिज्जतु गुणनिहि ! किमेत्थ चहुया पत्तयेण ॥”

ततो गदिय-लेहान्धं विमपं चिय[प]म पुस्सज्जण भणियमन्निपाए - ‘अज्जउत्त ! कि
कुमलं गुरुयं ?’ तेव भणियं - ‘चिय ! केवारित्त कुमलं ि, जाय अम्हारिसा कुल-कलं-
भूया ज्वया’ । ततो वेणुय लेहं वाडउत्ताउत्ता । मुमिण-लेहन्नाए य भणियो’ इदओ -
‘अज्ज-उत्त ! मा ज्जसु, नहा करेमि, जहा तुरियं पेच्छसि गुरुयो’ । लेहन्ध-कट्ठ-पुत्तं
य भणिये(ओ) माया सह सेम-चंवेहेहिं - ‘जहा पट्टवेसु अज्जउत्तं मए सह, जेण निच्छ
सिधेह-कापरे जणियि-जणए’ । ततो पत्त-वामरे महावेच्छयेय पट्टविभो अभिपाए सह ।
अट्टपदे य पट्टया देव-दुमाग-पट्टिय दासय । कयह्णचिय कमिज्जं । गुत्तयो पर गपस
दासय-नासं कदिसंतिं ति परिणयो अभिगमांतो ‘अक्षिय-पुत्तं वाहरह । कमेव य पचापि
मेहं । अक्खं कयं पि नासं य सिद्धिपुत्रय । वट्टओ य संपत्तो जीवण सह कला-कला-
वेव व । मुमिण-जिय-वययो य संसार’-दुपुट्टिणो अयामारय-विसय-सगो महाविभूईए’
निक्खंतो अंतिपा-पुत्तो नि ।

“वत्तो अक्षिय-पुत्तो जो विसय-सुहाए परप-सूत्तई ।

मोणूयं कज्जओ सांसप-सोस्सल्ल तप्पाए ॥”

परिणय-जाण-रंमक-चग्गो य काठंजरेण जाओ सूरी । विहरतो य वण्ड-परिवारो पत्तो
गुम्हद वाम नयर । तथ पुष्ककेड राया, पुष्कवई से चारिया । पत्त-गुमिणय-
सूय वट्टया एण जमल-सिद्धय । पट्टियं दासयल्ल पुष्कपत्तो नाम, कुमारिपाए
गुष्क-वत्त ति । वट्टिया देहोवचएयं जीवण कला-कलाया[र]णहिं । संपत्त-जीवणं
अप्पोन्नापुत्तं जाणिऊय चित्थिय पुष्ककेडया - इत्तं ! ख्द ‘परोप्परमि[मं] सिद्धयायं
विभोइज्ज, ता नूयं पाणे परिचयइ । अक्खं दिपईमि सेल्लिऊय भावरया भणियं
राह्या - ‘ओ भो ! जापि अंतरे रक्कयाणि उप्पत्तंति, नाय को पट्ट इवइ ?’ । ततो
अजाणिऊय से मायव भणियं भावरणहिं - ‘देव ! चिहुट अंतरे, जमेव विसय वि
उप्पज्ज, तस्म वेतो मामी’ । ‘ख्द एवं, ता उप्पभमिं पुग्गिमित्थि-रवण-उत्तलं रह-काम-
सिद्धययं’ पिव सिद्धय काहामो’ । ततो विट्ठकलीभूया नया निपय-उायेसु नीवरया ।
‘विवाहाविपं सिद्धययं पि अघोन्नापुत्त-रत्तं भोगे वुज्जितं वयय । अक्ख-दियहम्मिं
भणियं पुष्कपत्तए - ‘अज्जउत्त ! पसु किंचि’ कम्मोत्तर’ । तेव भणियं - ‘चिय !

१ क ‘वि व’ । २ क ‘पु’ । ३ क ‘य’ । ४ क ‘नीठ’ । ५ क ‘उ’ । ६ क ‘उत्तए’ ।
७ क ‘उत्तए’ । ८ क ‘परे’ । ९ क ‘य’ । १० क ‘वि’ । ११ क ‘वया’ । १२ क ‘माय’ ।
१३ क ‘सुवि’ । १४ क ‘वे’ ।

अधोम-पमारं पशोचरं सकृपं पापयं अथचभंसं पिसाहृयं मागहं मन्त्रोत्तर
वादिहचरं श्मालार्यं वाप-पञ्चामयं' ति । तीर भगियं - 'प्रकप पदमु' ति ।

"कथं सम्बोधयेते न्यायु ? किं वदन्त्ये कथं तदो अस्ति ? ।

सत्-कृतु-ध्वेनयो भवन्ति हि भवेत्' ॥"

तीर भगियं जहा - 'अथने' । पुषो वि भगियमपात्' ति ।

अवि य - सकृप-पापय-पश्याय अथ मम-सकृपेयं प्रतिवचनं ।

त एवं विच नास्तु अलाहि सेसेहिं भेषहिं ॥

"कथं पाति न्यायतो राजा ? विश्वना बोधयते कथम् ? ।

द्वयमे पंचमः को वा ? राजा केन विराजते ? ॥

धरपेदो कं धारेत् ? केन व गेनेन दोष्यता रोति ? ।

केन न राचत् रोषं ? पठित्यपं 'कुजरेण' निानि) ॥"

अजउच ! संपरं पदु-यच पदमु ति । अवि य -

"शुली मया निपुली दानं लोड्यत् दीपनामायु ।

न नेन दीपते किञ्चिद् तत्राऽऽत्ता मे न स्मिन्ता ॥"

यदि वैशिव ततो 'ननेन' - जलनेनेति । एवं चाभिरमंतापि(न) ममउकंतो कोर् कालो । ॥

राज्ञा अजीर्यं कर्त्तं ति श्मिना बोधेण्यं कथ-पञ्चज्ञा गथा पुष्पचूलां देवलोचं । ओशि-
वायोवज्जेमेष च दिहुं निहुषयं विगपासुत् । मेा दीर्घार् अकथ-यन्मं वचउ ति भोवे-

तेन जयनी-देवेन सुविपर दानिया छेवन-वेयन-मारण-कुंभीपागाईणि तिहाई
दुक्खाई पचलुहवमाणा मेरुया । तं ददुम मय-केनमाग-साङ्गात् पलाहिपं पश्यो पुष्प-

चूलात् । लो संति-मिमिचं काराकियाणि संगहोपचारियाणि । दुरप-दियडे तह किय ॥

दानियं । इत् ! देव-विललिपमियं ति मन्त्रमाणेष मेळित्तम सव-पलांठिषो पुन्ठिया

राज्ञा - 'केरिता नरणा, मेरुया च ?' । इकेन भगियं - 'देव ! मन्म-नायो गरयो,

मेरुया पुष धारेदम्-दुक्खाभिधुया पाणियो' । अर्धेन पत्तं - 'रथ-वानो वन्तो, मेरुया

पुष पर-वेसण-यय ति" । अर्धेन भगियं - 'नरिंद-चोची नरयो, नेरुया तन्निवासियो' ।

अर्धेन पत्तं - 'अधुहोहिं नह वायो नरयो, नेरुया पुष अपाणियो' ति । ॥

अधरोत्तर विलडे मारय-भरय भवंति पामंडा' ।

विगवयम-वादि(रि)क्षा असुमिय-सथत्य-वधरथा ॥

अथ-दियहंनि सवहुमानं वाहराचियो अनियपुत्ता आयरिया । कथा नरिंद-मेरुं,

मुहासथत्वा च सचियं पुन्ठिया - 'केरिता नरणा, मेरुया च केरितापि वा दुक्खाणि

केसुहवंति असाधारणानि ?' ति । आगमाधुनारेण भगियं सुनिग ति - ॥

१ इ क 'यो' । २ क 'य' । ३ इ क । ४ क यो । ५ क वीसनेन । ६ इ 'य' । ७ क
८ यो । ९ क 'य' । १० क 'य' । ११ क 'य' ।

॥ इ ति "अथमपत्तं पुनरेच्छेन कुर्वन्तं पुनस्तुषी च आर्यं ।
कथंमदुर्त्तं च दक्षिणं च पठं सर्वैर्विदो नरान् नरभिः ॥
शुली केन कथं बोधय तद् कथिह-केवत् । न बोधय न कथ इतीर कुनरिंद-केवत् ॥"

“धमा वंसा सेता अंजन-रिद्धा मया य माभवई ।

कुटवीयां नामाई रयमार्दं हेति शुचाई ॥”

कोरप-तत्ता पुण अवंताइया दुईशया अयमर्थयोगेवंया, दोनत्तापि' पुण अमादात्-
पापि वि ।

“अन्धि-निमीलित-भेषं वारिष सुहं, दुस्समेव पडिर्वषं ।

वार्से नेरठपायं अहोमिंसं पबमाणायं ॥”

तत्रो संजाय-विमिह्याए भवियं पुष्कन्डाए - ‘भवई ! किं तुम्हेहिं पि सुमियओ
दिट्ठो !’ । भगवत्ता भवियं - ‘अरे ! विष्वा वि सुमिययं तित्थपर-वचवाओ एय अन्नं
च सत्तं विवापिज्जइ । अपि च -

“वुत्तममस्तर्हं एवेह वे अत्तान-चल्लया । मन्वदु मनेव पडवन्ति भवान् देवेत्तान् मत्ता ॥”

तीए भवियं - ‘केहिं पुण कम्महेहिं पापियेओ वरएणु वंवंति ?’ । सुत्थिष्वा भवियं -
‘आर-वाईहिं’ ति ।

हिमा-अलिय-वदव्यावहरण-वेदुप-वंचिग्गहामत्ता ।

परवमप-इरिसिय-मया गुरु-पटवीया महात्ताया ॥

परलोप(ए) निरविक्कंता निरपुक्कंता च सत्त-वचेणु ।

अइरदज्ज-वमाया वन्धन्ति महानमं जाव ॥

अन्नदिनइंमि” अन्न-रमवित्त-सुर-सुंदरी-समहात्तिया भोगोपभोग-कलिया दाविया
देवलोमा । ते वेच्छिज्जा संजापावंसा विबुद्धा देवी । तह थिय पुच्छिवा पामंडियो -
‘केरिया देवलोमा हवंति ?’ । एवे वसवंति -

अपि प - ‘अइनेह-वम्मिपाइ अवरोप्प-वट्ट-वेह-तागाई ।

हियवाई जन्व दोमि वि मिलंति सो होइ सो (सो !) समो ॥”

अथेष भवियं - ‘रुज-रत्त-संध-वत्ता मदा वंश-हारियो य सुद्ध जन्व ।

संवजंति वरारं सो थिय समो किमथेष ? ॥”

[अथेष] भवियं - ‘विमुणो गुरु-पटवीओ पाओ गुरु-मच्छरी कयणो य ।

पर-वमप-इ(रि)सिय-मयो वप-उओ वंत्त-सम्भावो ॥

हिमा-अलिय-वदव्यावहरण-परदार-सेवामत्तो ।

अथेरिमो न दीणइ लोमो लो होइ भो ! मयो ॥”

अथेष भवियं - ‘सुज्जटं वं वा सं वा निवसेज्जट पट्टणे व रणे वा ।

इहेव जत्थ संमो “मो थिय समो किमथेष ? ॥”

इय एवंविहरुवं वरोप्प ने हि देवलोमत्ता । अदिज्जमसंवरुं तंपत्ता नियव-आपेसु ॥

विज्जिय-दिपडे तह थिय पुच्छिवा सुत्थियो - ‘भववं ! केरिया देवलोमा ?, कइ-भेवा
वा थियमा ?, केरिंसं को पि मोवसं ?’ ति । सुत्थिष्वा भवियं -

“दाया-विमाव-कलिया रयव-विचिन्ता पत्तव-वर-रुत्ता ।

देवावुभात-कलिया दिवलोमा एमिन्ना कडिया ॥

१ क 'विना । २ क इ लोमि । ३ क वट्ट । ४ क 'वत्त' । ५ क वसति । ६ क वज्ज ।

७ क 'ए' । ८ क वरी । ९ क वत्तवत् । १० इ क 'इरिसिय' व' । ११ क 'इमि अरसिया ।

१२ क 'इ' । १३ क इ मत्त' । १४ क थिय वसे । १५ क 'इ' ।

भक्त्यत्त-वाचमंत-जोडमवारी विभाववासी य ।
 दम-अह-पंच-दुविरा जह-कम्मं(कम) होति सुप्त-निवहा ॥
 वं कटिऊय न तीरु अंतलकालम्मि जीवभापेहि ।
 त अणुहवंति मोकरा तिपयो पुत्राणुभापेण ॥”

ततो सङ्घपक्ष-वर्द्धिनार भणियं सुप्कनकार-‘भयव ! किं तए वि सुभिये दिहा ।
 देवलोपो ?’ । तेण भणियं-‘भदे ! आगम-कलेण देह’ वि । अणि य-

अंचउ त दिव-ओपो सुप्त-पार्य-वहाउ वृषा देलोपो ।
 बीसेम-सुप्त-समेयं क-पिकसेयं व आमत्तयं ॥

ततो भणियं सुप्कनकार-‘भयव ! कइ पुण देवलोपो पावेउह ?’ । भक्त्या
 भणियं-‘जिणधम्मासुद्धापाओ पासयं निहवमाणमकलचरत्तयं महाविप वृत्त-सुप्त वि
 पाविउह ति ।

“जिणधम्मासुद्धापाओ मोकरासुहं होइ उचयो लओ ।

सुर-नर-सुहाई अणुसंगियाह, विम(ति)ओ पत्ताम वा ॥”

पुणो वि परिवत्थेव माहिए चत्थधम्मे भणियं सुप्कनकार-‘भयव ! ज्ञान राकाय
 पुच्छामि, ताव ते पाप-व्हेने वज्जासुद्धापेण सक्कली-करोमि करि-कम्म-चचउ मणुप-
 कम्मं । पुच्छिऊय य राहा भणिया एमा-‘उह पर मम गेहे विप मेकळं मेव्हेलि’ ।
 ‘एवं’ ति भणियं महाविभूईए पत्तया सुप्कनता । कम्मकलओवमनओ य
 गहिया दुविहा तिक्का । अजया भवेत्त-दुक्कालमविमक्किऊय पटुपिओ ततो वि
 पयो सुभिकलमिति ।

“सचच्छर-वारत्तएण होहिति अतिरं ति ते कतो थं(वं)ति ।

सुत्तयं क्वंता अत्तरमाईहि पाउमं ॥”

आपरिया पुण उंचापल-कालेखीणा द्विया तथेव । अंतैउराउ व जावेऊय देह
 तेमि सुप्कनता अंत-भावं । एवं च मार्जदं सुत्तयो वेपायवं केरतीए, संजारासारयपे
 आसंतीए, पत्तरथेसु अज्जकसाण-दुवोणु नइमाचीए, नमारोविप-सुववसेटीए, आउहं”
 सुक्कज्जाय-भेदहुने बोलीयाए, तईयं सुत्तमकिरियमपडिवाचमप्यत्तए एपेमि क्षार्गतरे
 मसुप्कनं “ते केमळं । केवली पुत्त-पन्वचं निषयं थं सुत्त, ताव वा वाउह । जं ज
 सुत्तयो थंवेति, सं त सपाडेइ । सुत्तहि भणिय-‘जं मए ‘चित्तिव(यं), तं तए
 संपाडियं, कइ सुत्तियं ?’ । ‘जायेण’ । सुत्तहि भणिय-‘कि पडिवाहाया ई, अप्पडि-
 वाहाया वा ?’ । तीए भणिय-‘अप्पडिवाहाया’ । अने क्वंति-‘उत्तमि पटंते
 विडालयक-चोइयाए भणियं-‘अचित्त-पएसेपावीओ’ । भणियं सुत्तहि-‘कइ ‘विवा-
 पासि ?’ । तीए भणियं-‘क्वलेण’ । ततो पत्तमंते सुत्त-‘मिच्छा मि दुक्कटं, केवली औत्ता-
 शओ’ ममिऊय जाओ चित्ताउरो ‘किमिह सेज्जिम्मानो न व वि ?’ । केवलिया भणियो-
 ‘वा अथिइं कुणसु, चरम-नरीगे, सुत्त वि संयसुत्तरत्तम होहिति(ति)ति केवमं’ । ततो

१ क 'कम' । २ क 'विरहा' । ३ क 'प' । ४ क 'व' । ५ क इ 'सु' । ६ क 'वि' ।
 ७ क 'व' । ८ क 'ग' । ९ क 'इ' । १० क 'व' । ११ क 'व' । १२ क 'अ' ।
 १३ क 'व' । १४ क 'व' । १५ क 'वि' । १६ क 'इ' । १७ क 'व' । १८ क 'व' ।

आहूतो लोभेण मह नासं । पत्राहिया गंगा-जले । जत्र जत्र आवसिञ्चो हायद, तत्र तत्र नावा जले कुतः । मन्त्र-द्विए वि सर्वं बोद्धुमार्थं । अप्य-अप्य न पक्क(मित्त)नो ह्यी लोभेण गंगा-जले । समुपपन्न-पत्राह-भावस्य ज्ञापं केतलं । जाञ्चो अंतगढो । कया देवेहिं महिमा । सुर-संशुय ति काञ्चन ज्ञाप तस्य पप्ले पत्रागामिहाप्यं विरथं । एवं पसंभेण सिद्धं ति ।

अथो अथद-जहा सुप्कचूलाए विणञ्चो कञ्चो, महा कायवं ॥

सुपदेवि-समाएणं सुवापुमारेण सुप्कचूलाए ।

कहिणं जो सुषद नरो चरिचं तो उदर निशचं ॥

॥ सुप्कचूलाए कदाणयं 'समर्थं ॥

४ विजयवला चैवम्भूतं योषितो विगमव्य ताञ्चो विरक्त-चेतसा मथिज्यविलाह -

चेट्टो(बैट्टो)चर-भाया-कूट-कवठ-दोसाण मंदिंरं महिळा ।

जह नैउरपंडि[इ]वा णिवेट्टो पुळ्लसुरीहिं ॥ ११

रञ्जामिति ण रञ्जंति लिंति हिययाइं ण उण अघ्मेति ।

जुवइञ्चो मिठ-चोर एव कया रौय-पत्तीए ॥ १२

५ [चेट्टो(बैट्टो)चर-भाया-कवठ-कूट-दोसाणा मन्दिंरं महिळा ।

कया नूपुरपण्डिता निर्दिश पुरंसुमिणि ॥ ११

रञ्जपण्णि, ण रञ्जन्ने, ज्ञानि इदधानि, ण पुनरुपेपण्णि ।

जुवततो भेण्ड-चौरी एव कृती राजपण्णया ॥ १२]

चेट्टो(बैट्टो)चरं कया -

६ "कया किं ? त्यस्मिन्नाह, पुनरिच्छा कस्मान् ? अस्मात्पुत्रा,

कया केणपि पादपेतिपठितारं ज्ञाना विनिमुत्तिमि ।

स्तेरदिं मुक्तभातेन विवित्तो मीके स्वदागमाद्

दुत्ति ! न्तान-सोरर-मुत्तिवत्त-चैल्लम्य किं वड्ढति ? ॥"

कया प्रतीति, कपटो दम्भा, कूटं कूटलेखादिकारणं; एतेषां दोषाणां मन्दिंरं चूटं

७ नूपुरेणोपलक्षितो पण्डितिकया । एवं कृतो भेण्ड-चौरी इति रञ्जितौ राज-पण्णया, न स्वयं तदारुणेति । कथमिदम् -

— [१० दोष-बाहुल्ये नूपुरपण्डिता-कथा] —

इहैव अथि जंशुरीये दीये भारदे रासे त्रिपन्न-वपार-विजयवं वसंतसुरं नवरं ।

जपसिचि-संकेपद्धानं त्रिपण्णयं राया, धारिणी से महावेणी । तंमि चैव वपारे पत्त-

८ पद्मावस्ता इव[स] त्रिप-कूट-सायन-चौव्वण-सौहृम-कला-सौत्रहोरादिभि-सवण-सवणी

वह तथा गईए प्यासतर्ष । तं च निवेद्य चित्तं एकेन वनत-तुल्यवपुः - अहो ! कय-
त्यो' कोइ पुरितो, जो एषाए सुंद-बंकर भसल-लील करेह । अबि य -

अछिपेलेबे इमीए रुबं विहिना । विमिभियमवपुः ।

जेन फरासिदार्ष व होइ द्यारिसी सोहा ॥

कइ पुन इमीए भावत्यो भावयो ? नभमायेन बडिबे तुषामएण -

“सुहापं ते पुच्छइ एण गई मत्तवारपकेरोल ! ।

एते गई न रुक्खा अहं न वाएणु ते पडिओ ॥”

तओ तं पुसइअण सनावातु(पु)शामए पडियवषाए -

“सुहमा होति(तु) गईओ चिर न जीवंतु ते गई-रुक्खा ।

सुहाव-कुच्छमाणं प(प)नीहामो पिबे काउं ॥”

तीए प नाम चुनं पर न अपावमायेव जाणि तीए सह डिभावि आचपाणि, तामं
रुक्खेहिणे फलाणि दाउं पुच्छियामि जहा - “का एया ?” तेहि पि सिहुं ते वामं
गेहं ति । अबि य -

“अल-पनेहेरेइ भावा धीमतरा विभूषया । वेदया सीसुपचरोल वृडा' ककेठलेवमा ॥”

मयम-सर-भाहियंमो तीए सह संनमोवापममित्तंमो मओ परिवाईवाए समीबं ।
वसीकया सा तेण दाण-विणवाईपडि । मयिओ अंणाए - “कि ते समीहिपे करेमि ?” जेन
मयिपे - ‘इम्म-वएण सह संगमं’ । ‘वीरो इयसु, आव से पनीबे मंदुषामण्ळाभि’ ।
मया सा दिहा वहु । पाटीए उलयं कुमंतीए पयान-पुववं प दिवमासम । नितथाए
परिवाईवा[ए] कथुया वम्मकहा । तयावसाये व पुच्छिया सा वहुए - ‘भववद ! विंवि
अच्छेए-पुववं दिहुं ?’ । तीए मयिपं - “पच्छे ! कि वहुया ? जं वए दिहुं तं इमि
फावेसु’ । वहुए मयिपे - “किं को वि तुकायो ?” तीए मयिपे - “आमं” । वहुए
मयिपे - “केरिसो ?” । परिवाईवाइ मयिपे - “को से रुवाइ-सुपे वपेउं समत्यो ?”
तहा वि सुवसु संखेवेपं -

निवसइ इमंमि मयरे सत्थाइ-सुओ सुदंसणो नाम ।

निव-रुव-विजिय-पुवयो मीसेत-कळाय हुल-अवणं ॥

जो व, वच्छे ! कुलीयो मच्छतयो मेधानी पटुओ दक्खो विनीओ वाई रत्तिओ रुवी
सुमणो देव-काळम् उज्जल-वेयो वहु-मिचो ईयरो [शिंगओ] गंभीरो सत्तामव-वच्छतो
विउयो पत्तवओ धम्म-परो द्वाडु सस-वपयो पडियव-वच्छतो पुताभासी महासचो
कळ-इसओ पसिदो मयन्तो मवहा समत्य-गुण-सत्थाकरो चि ।

अइ तस्म रुव-विजियो सकळको दोन-संगओ वंदे ।

पक्ख-वसुवण वच्छे ! कळावसेसो कुवं जाओ ॥

सामल-वेहो जाओ महु-महणो तस्म रुव-विजिय व ।

गडिय-कळामो अज नि ममइ विम “जिनमयो मिकसं ॥

१ क 'को' । २ इ महु, क सुहु । ३ क ज 'मिमि' । ४ क इ 'रील' । ५ क 'वपुः' । ६ क
'पनी' । ७ इ क 'वेदया' । ८ क इ 'उलय' । ९ क इ 'जा' । १० इ क 'वाप' । ११ क 'सले' ।
१२ इ क क 'सत्तायो' । १३ क 'ते' ।

तस्मिन् बृह-रुच-तुष्टिप्रो कल्पि-विप्रो उपह गौडलं पयो ।
 इल-तुमल-बावड-करो लज्जाए गौड-तुरिसो व ॥
 एष एवमह-बहुविह-गुणात् अंतं य तस्म वेच्छामि ।
 ता पुतिषा ! तेष मर्षं रू-मोक्त्वा इति पाषेसु ॥^१
 इत्य-वपुष पुरप्रो तह तीए तस्म वक्षिष्यं चरिषं ।
 नह वम्महस्स चावा हिवर्षं भित्तुष नीसरिषा ॥

‘एवं वि वंचेमि’ मञ्जुमाणीए मति-वितेच-करेणं पुट्टीए आहमिडल वच्छल्लिया
 मेहाड वपुष परिहाडया - आ ! पाषे ! कुलवह-विहंमकारिए ! मपाति पुत्रप्रो एपारिमाधि
 कुल-कलंक-भूयाणि क्करन्ति ! विमण-दीम्मया गया एया । नाहिया से वडती - ‘वच्छ !
 ॥ न वार्धं पि इच्छह, एवर मसीण खरटीऊगाहं नीमिया’ । अहो ! जहा मसी-मपाहाड
 चंव वि अंतगुटीड वट्टीए दीरंति, तदा ‘कल्पि-वक्क-वंचनीए मनापानं तितुषिषं’ एवर
 संकेप-द्वार्यं न कहिय, तज्जापक्कं पुणरवि ऋड उह वि पट्टविषा ‘मती से तवीं
 मनादत्ता वल्लवुरुच-वत्ता । ‘अहो ! किं पुष एपागवा ? हुं, संकेप-द्वार्यं न सुपिषं,
 तस्मित्तममर्षं पट्टविषा’ नाऊमण्णोवविषाए मज्जेण तह चिय नीमिया एवा मस्य
 ॥ तवीं वं । वक्षिषमवाए - ‘अ ते वच्छ ! नाम ‘पि इच्छह, अमोव-वपिय्याए नीमिष मिह’ ।
 वुमिष-संकेप-द्वार्येण य वमिषा ना तेष - ‘अहो ! अहं वा(ता)ए पि’ । अमेण य संवसे
 कल्पि-वक्क-वंचनी-पत्रोसे वओ सो तथ । एवा मा वि तत्त्वेप पि । अवि य -

गमिडय निवच-नाहं मक्कावे चाडिडय गौडय ।

एवा अज-तवीं वंमह मर-सल्लिय-मरीरा ॥

॥ अर्धलो नेहापुरजय-मवाहं दीहर-विपोषागत-वविष-देह-निवचम-ममन्थं मोहिष-हृ-
 हर-विपावह-द्वियम-तिहृषणं आवडिषं से मोर्यं । एवं च पुणरुत्वं रमित्ता(ऊम) य
 मीसहपाणि अंतस्त्रियाणि निहाए । चरिष अमे मरीर-चिहाए उडिडय चित्तिषं ससुरेण -
 ‘न एव मज्ज तुप्रो वपुष ममीवे सुतो, ता मा पचुते मर्षं अडिष-नामिषं क्कहि’ वि
 चित्तो वेत्तु वरणाओ नेउर वओ तसुणे । वुमिष-ससुर-वुत्तलाए य वमिषो अनाहो -
 ॥ ‘तुरिषं वचसु, एवा आवपत्तल्ले य वाडिअं कपिअसु’ पि । ना वि गंत्य पसुवा
 वह-मवीवे, येव-वेत्ताए पवमिषो भवारो - ‘गिण्ठो इत्थ, वा अत्तेवदविषाए वचावो’ ।
 वपाणि तथ । ससुरस्य च अतुणो बोडिडय विन्हाय-विन्हाओवहायापुण्य-मयाए वमिषं
 वतुणो - ‘किं एतो कुल-वंचापागो ?, किं वा उपएओ ?, किं वा ररम्म ?; वेप मनुणा
 तह रू-सोवसमएववतीए वहए चरपाड तसुणे नेउर वपति !’ । तेष वमिषं - ‘किं
 ॥ सवमेयं ?’ । तीए वमिषं - ‘न एदह-मिच-मिल्लिय तुम्हं चिष वमिठ चारेह’ । तत्रो-
 लज्जापुणएण वमिषा एवा - ‘विमन्था इत्थ, पक्से मणिमपाओ’ । तीए वमिषं - ‘न मे
 नेउरेण क्कअ, एपास्सेवे मे चिडिएण चिल्लिय मिह’ । पक्से एते वमिषं येरेण -
 ‘विषाहा पुच ! ने जाया’ । मरीर वमिषो सुत्त - ‘बोड्डीहोत्तस्स एवहा ने वुड्डी’ ।
 येरेण वमिषं - ‘निस्संतवं, अमेण तह विट्ठा पुमिसेण’ । सुएण वमिषं - ‘अह चिय

एव अथो वद' वि मुण्य भविष । इत्यतरमि मत्वा मदेव वरुव नृप - 'किमेव
 कथा पत्रवेप ! आव एवाथो कलदाथो न सुडा, वाव न विद्यामि अत्र-वत्' । एवं
 मोडय मिथिओ सोमो, आथो महाकलवतो । 'दिवस-विमार्हे विमोदि अथवर्ष'
 वद भविष । वृद्धनागाम्पदि भविष - 'किमपेहि अविमिडवत्पेहि ? इविपारव-
 उवसे परेवसा कीरउ । तथो प्हापा वय-वलिर्वसा विव-वत्वावत्त-इमुमानकिवा ।
 अह्यम्ममाया कोड्डहापुण्यि-वामोरेहि मह संववा । उथ मिथिया नरेदायो । इत्ये-
 कमि मुणिय-वुपंतो पापटिप-कारि-वधो अर देही संड-निस्सवो भुंइ-ववळयो पणो-
 ल्लो लोम आदिमिउ म्पपीउ वनो न उरेम सो हीए वाने । अविप्लवन्ती वि कल
 अविमिया मा वेप, मरुत्विथो लोनेव । तपो आनेनिडय लोमपळे विपम-महापुणियो
 इविओ उवयो - 'ओ अथवी-अपएहि दिवो नवागे, तं सोपुव, एतो पुव मह-
 महिओ विदो विप, वपे व अथो उइ मए वववा वि हाथो, वा थरेअमुः अइ
 न वविओ ना वविआमो' वि भविडय विववप-पुओ जाव उवयो विपपेओ
 विदुइ, नाव इवि उववम्म रेद्वेव वीइविवा । नमुदिओ लादवारी 'अहो ! महामई
 एवा' । निदिओ सवरोगेहि थगे ।

अवि व - 'विदेत जाव उवयो, ता से हेद्वेव विमया इति ।

इतिओ उइ वि अथो ! नन्वि मएव प्रववए ॥

'अहो ! नववाई वि मएव-वामप-नरेड-उवसाईहि संवाविओ उविपवाई'
 प्वाण विनाए पवडा वेरम्म निदा । 'एव मएउववम्म लोमोन्तो' मन्वेव
 उविओ अनेउरे मत्वा । वपतो पथोथो । वोलोथो रांए पटम-वामो । वमुवाउ
 वसाउ वि अनेउविवा, वारमेवा उविम्या व निह पवउए । इव ! उववेव दोपम-
 'अमेवा व वेद पवउए, वा कमेमि कपउ-मुप । नव कए वसिमि-वारि)ओ वृंउरिएव
 इरिया कमे ति । उ-अ विलमिडय वया वेउम्म मपीपे । विरम्म अमाव वि मजाप-
 नेवेव ताडिया संकल-प्यदारेहि । हीए भविषे - 'ना वपमु, इरियो अउ मदइओ
 वाओ, जो चिरेव पमुओ । वपसे उवपीपा करिया गेह । 'अहो ! उइ नाम उवप-
 कल-विमुडाउ' नरेड-वपीउ गमिउअरीउ' वि एअरियममवेउवमपमुहेमि; अमहाव पुव-
 नृउ अ गवा वि अमच्छंति, तं पि क्हु' इने वपेओ वपहु-विपे वेरो सोउमाउयो ।
 उवए वि " वरे व वुल्लउ, सिहुं राइयो । वेव भविष - 'वा योडेव' । मवव-दिपे वुदो
 व पुण्डिओ राइवा - 'किमेव ?' मनो नादिओ मप्यायो, वरर व वयावो नं नदिउ ।
 तथो भविष(पा)उ गइवा महिउउ - 'मम दुरिय-वामप-अं वेउमव-वन्वि उवपेह'
 विविपपं उलेपिओ' नवाहि वि । इव म्हावेवी - 'वीहेमि विउ-रन्विओ' । संजाय-
 सकेव वववा उवपल-वालेव, पुण्डिउव पडिया वरपीए । दिहाओ संकलप्यहागो ।

अवि व - 'मवकमि आइडा व वीहिया विम(मिड)-कमिउपेच्छ ।

सकल-इया वि यो पुण्डिया इहु मे उवपे पडिया ॥'

१ क इड' । २ क इ 'ओ । ३ क नृउ । ४ क 'ओ । ५ इ 'जा । ६ क प्वाणवपळे
 विव । ७ क उवपे वि' । ८ क एव वरन्विओ । ९ क वीहे । १० क इ 'ओ । ११ क इ 'वपे' ।
 १२ क 'वपप' । १३ क इ' । १४ इ 'वा ।

ततो विस्तृतं जायिष्यत् समाह्वयि बन्ध्याणि भेंटो देवी क्रीं व । आरोपिया द्वि-
 टंकं निरिषं । टिको' वरेण पाण्ड्यागामे इन्धी । होमेष व भणियो राधा—'किमेव
 वराओ शिरियो विपाण्डः ना मा एय वराणमु' । वन्ध्या टिको गल्याकदे(दे)हि
 दोहि वि वाण्डि । पुषो वि विन्ध्या विवनेय वि व सुको राह्या । पुषो गयण-वराहि
 टिको शिदि वि चलोहि । ततो लोमोहि कओ महपंदो—'अओ ! अजोचकारी राधा,
 ओ वेदोसवेवारिसं हत्वि-वपयं वावाण्ड' । ततो मयुवसंत-वोवेण भणियो भियो—
 'अरे ! तरसि मियनेडं ?' । तेष भणियं—'जह अम्हाण वि अमय देति' । दिने
 अमये' निपचावियो नानो अह्मसेव' । इत्य वि सुचे एम 'जगणओ दह्मो ।

"अंशुसेण अहा नामो घन्ने संपदिगाओ" रहनेमी । [उ. २२,४६]

१० कओ देवीए मह निव्रियओ भेंटो । भमंताणि देसावर टियाणि 'पजोसे देवउळे ।
 इत्यंतरे 'चोमो गामं मुसिडय टिको मो कन्वेव । चौराणुमगाण्डहि व जरोहि वेदियं
 तदुआयं । वन्ध्या वेदिस्मामी । हीण खोदुनीए लणो 'तयत-कायो । तम्मि वय-रावाए
 पुच्छिओ मो को तुम ? । तेष भणियं—'तको रिपं वेदिडय अहं पविडो । वेदिओ
 आरन्दिण्डहि' । 'भेटं सुह-वमुचं जायिडय भणियो चोमो—'जह भचारो वरसि, ता
 ११ इपावेमि वसवाओ' । तेष भणियं—'एवं करेमो' ति ।

अवि व—'रु-ओस्यं किनि जीवियं व रेण्यं व देह जा तुहा ।

नं मयमामच्छंती ओ मंचर कामधेषु व ? ॥'

वन्ध्या महियाणि तेषि वि । मेटेष भणियं—'जह चोरो, अणं वरेमह' । तीए
 भणियं—'एम मज्ज भवानो जगति—'जगणहि दिष्यो सुह-महावो, एमो पुष तवने' ।
 १२ श्लो महियो भेंटो ति ।

अवि प—'विदिमो वसेण कम्मं जयंमि नं कि नि माणियो पदह ।

जन्म कहिड न तदिडं व चेव 'वन्ध्याण्यं(उ) जह ॥'

ततो चितियं 'भेंटो—'अओ ! महिडा नाम अवाभिया वादी, अमोयणा विह्वरा,
 अहेडओ' मधु, निरन्धा वज्जामणी, अनिमेवा पाव-परिवर्द्ध, अवेदता वन्धि' ति ।

१३ अवि प—'मोलय महामार्थं महियो अहयं मयं पि मनुंमि ।

डोहं गदियो चोमो वन्धि विवेमो महित्वायं ॥'

उक्तं च—'दु सपाता वतथेव निमगोरेव योवित ।

कौ नामा उम गच्छेद्विवाधी मेस चेह व ॥

वयवन्ति व स्याज्ज नार्वाज्ज न मनु कुलीन वा ।

१४ कनक-द्वीपित-वृजा सचछन्दा उपरंमते ॥

आह-सम पुष-सम तित्त-सुख वान्धि चेह सजन्ति ।

कनक-द्वीपिता गान इपाञ्जलसुहवाम् ॥

१ कृ क अ ह्यौ । २ क 'वत्त' । ३ क 'वेव' । ४ क इ उण' । ५ क महा' । ६ क ल' ।
 ७ क वरि' । ८ क ल' । ९ क व व' । १० क मड ड' । ११ इ अह' । १२ क वरि' ।
 १३ क वेने' । १४ क अरेवो मधु ।

खनन्ति मर्त्युपकारकान् विरक्त-विद्या अपि यानवन्ति ।

कलेऽपि रजयन्त इह सत्तमा मुनयः-फल-वशाद्य तुल्या ॥

राजमेकपद् एव हि मन्त्रा यान्ति शीघ्रमधिकार्यं विरक्तम् ।

कावकलमिदमात्मन्यर्थं वेदिता च तद्विना च ममानम् ॥

आचारो(ती) मानसाना कष्ट-वस्तुषु पवन सहस्राना

सुप्ताऽमेवैवमभिमिर्दत्त-जलनिधे कोष-कामनास्वार ।

मर्त्यान्-मेवद्वेषु सुक-मलिनकरी निवन्दुर्माकषेणा

मीनानाऽनीव(शेष)दुर्गं सृष्टकर्मव्य वेदिना केव सृष्टम् ॥

पथमेव हरन्ति वस्तुना निविलेन परन्ति नेतया ।

ननु तीव्रती क्वचि कोशिय इदं टुल्यत्वं कदा विरम् ॥

अत एव दुःख निर्मेषते वनिताना इदं तु वा(शेष)व्यते ।

पुष्पे सुकलेय-वसिनेर्गदुर्गद्रे कम्पे कव्यऽस्तिमि ॥"

समानेष्विधौ 'मद्ये सुल्लिखत् । धेनवेत्यात् य निम्नजो मानयो नेष परत्वेन । कोशेष भविष - 'महामत्त ! कृपसु इयं नीन- 'दायेग' । मानयेन य धम्म-देवता-पुष्पं क्वचिजो लयो - 'मद ! निहल्लिख-नकथ-कायं कथ-नमत्थ-सोकनं नमोकार पदसु, जेव देमि ते मत्तं' । 'एव' ति पठितके गजो मानयो । शान्तलं दृष्ट्वा महिप-जसं संजायामेदो नमोकारं परंती जीविलय सुको । नमोकार-व्यभाषेण उ'पप्यो वागमंतर-देवेसु' चि ।

अधि य - "नातजाना 'मद्य-वधमइतिपठल्यवार्तापठसलना

वे मार्गेनानुपाता एवमपि इतिषा सुदवन्कलदेहा ।

तेऽवश्य भूतक्यैनाहवत्तमक्याकर्षयन्ति वृत्तिः,

यावन्मुद्धान(नु)भाना न गती विचले वीम्बिनार्वाऽम्बिलय ॥"

पठचानहिमा य सुदिशो कुवमन-नुचंतो । मानस पि चोर-चटिपच्छ क्कटं वजसद्वायं निजल दृष्ट्वा अकथ-तीवन-कल्पयो कर-मद्विष-महासेलो लोभे भेत्तिउं पयचो । अद्वय-पाठस्यो महिष-पु[व]कदच्छयो' लोभेय मह राधा विनविउमाहचो । देवेण भविषं - 'जरे मनेदाहन ! असुषिल-कजाकजं वयं मरायुभावं पवेसु वि अवारं, वचमाव(च)रेसु वि मत्तं, निहएसु चि मएदं, वेवत्तं क लियमायं' वि पूपयोत्तं लियधम्मासुद्दाम्" क वावपं नाराविति, वा पन्थि ते जीविय सविषयमल' । गह्या भविषं ।

अधि य - अथायोवहएवं" उं चान करिय मद देव ! ।

त सम वा पुषो कर्त्तं सति-वरा होति वृषि-देवा ॥

ततो संक्षिप्तम सवित्पर त्रियक-शेषं भविशो राया - 'पासु पठित्क मद्रविभूर्त्तं पवेसेसु सायमं' अयुद्विषं देव-वपयं 'गह्या । देवो वि सवभा-नार' वचमिजल सायमं उपाजो मयन-मग्येर्षे ति ।

१ क 'वेदिना' कद्वः । २ क 'दाये' । ३ क 'विष' । ४ क 'ति मा' । ५ क 'कथा' । ६ क 'वृत्त' । ७ क 'मत्तं' । ८ क 'करी' । ९ क 'म' क दृ' चि' । १० क 'पुष्पं कवि' । ११ क 'च' । १२ क 'व' । १३ क 'व' ।

अवि य — 'कथयामो वि मयूगो वारणे संपन्न-जिव-नमोकारो ।
इच्छित्तव-सिद्धिं पावह पत्ता जहा मेठ-देवेणं ॥'

इओ य मा नकरस्म निषय-विष्टिय माहंती पंमि वंतु पवहृ ति ।

अवि य — 'जह जह तीण चरियं इक-मयो तवने विगामेठ ।

वह वह नपमहओ विर वेविर-देहो इमो ज्ञाओ ॥'

'अओ ! डिगाम-कल-भवत्तयं विव व सुंठग एमा' — अविऊयं संपन्न-नई-तीरेण गदिय-वत्ताभरयेण भविषा सा तेय — 'उचारेओ तावोभवत्तय, कुओ वि त्पुचारेन्नाओ' ममिऊय उचिओ नई पवहो वंतु । ममिऊयननाए — 'मं मोतय कन्व पवसि ?' । तेय भविषं — 'अलं तुव्ज संमणीए, इ-द्विया वि जीरियं देजतु' ति । ततो मन्-त्वेर-
११ निलोका कल-संछाईप-गुव्ज-देवा इया 'कण-त्तयाए दिट्ठा मेठ-सुरेण । तीण संबोद्धत्तयं गदिय-मंस-वेसी आनाओ उवुओ, दिहो अयेण नई-नठ-तडिओ कीयो । तओ मंसवेधि मोत्तय पहाविओ 'मच्छ-वाइयन्थ । इत्थत्तमि उन्निवत्तं मं पभिरुणा, मीयो व पविट्ठो जलंमि । तओ विमयं वंतुयं विरुऊयं भविषममाण ति ।

अवि य — 'साहीणं 'मंस उरिऊऊय कन्वेसि मूठ ! कि 'कीणं ?' ।

एधि वृष्ट ति कुओ अप्पाणं दाइसु सिधाता ! ॥'

वंडुएण भविषं । अवि य —

'कर-तंछाटप-गुव्जे ! मालिप-मन्धुरिम-कुलदरे ! वावे ! ।

वरणाह-मेठ-चौराण तुकिए ! हेयतु अप्पाणं ॥'

अओ ! जइ नपमेण उवुओ, ता कीण माणुम-जानाए मम कुणो 'दुवगिवाणि जेवद ? ताव
१२ विमला(या) भावेनी चेइह, नाव दाविष मेठ-रुयं । कडिऊया वमोक्कल-कलं देउरुं छाऊय धम्मकहा भविषा निपसेय — 'अदे ! तवयं वि पमा(नम)रुव-पाव-वय-वउय अचिन-विता-
नगि-विन्धमं कुवतु 'सुणि-धम्म' । तीण भविष — 'कुमसु' कलंके वेण करेओ' । तओ तजिऊय 'परताहं पवेसिवा वरुत्तपुरे महाविच्छेण' वेणत्तता एमा गदिय-सिक्खा पूपपाया व नया देपलोवमि ।

१३ अओ मच्छ — 'वेपेवंदिहाउ' वग्हा ताव विरत्त-विनेण धम्मो वायवो ति ।

सुपदेवि-वत्तएणं सुयात्तुनारेण वादिय चरियं ।

वोपहं ति इ महिलार्यं सोऊयं कुवह वेरुणं ॥

॥ नेउरपंदिप-वेरंमहिलाण कहाणयं संमसं ॥

होम्बो विरक्तस्त्राणि यदि उर्ध्वपरतन्त्रतया विपरोक्ष्य ज्ञापये, तत्र अतत्या
दान्तान्य इत्याह—

सदाइतु रणेण नि दमिदन्वो साहुणां णिओ देहे ।

सैज्जगिरि-सिद्धाण्य वि(व) सन्नोद्धिव-मयस्योण्य ॥ १३

[इन्द्रादिषु रतेनापि दान्तान्य. साहुना निजो देह ।

सज्जगिरि-सिद्धाकेन सम्मोचिन राकोकेन ॥ १३]

भावार्थः क.वानकथम्बनचोत्तम्—

— [१३. आत्म-दमने सिद्धा-कथा] —

सज्जगिरिणिमि कौक्यव-नवरं समारोचिप-गुरुमारे आह्वति अवसमो य इहुणा-
शुकंपाए राह्या नेमि ओ दिओ 'मण वि ण्याण समो दापओ, न उम ण्णहि' नि । "

इओ य द्दो सेवपण(मि-नरओ) पुण्णो सज्जव-सपेसो निनिउमादओ नि ।

"मण वि आणा दओ सज्जेण तवेष य । सा ह परेहि उमयो उंपणेहि वरेहि य ॥

आणा पेउ उमेपओ आणा ह मालु द्दओ । अप्पा दंनो मुत्ती नेउ उमिण नेमे पण्ण य ॥"

ना तथा दमामि आपाणं जहा मुत्ती होउ । ओओ सज्जगिरिणिमि । गच्छिया कदिपाण
मज्जे सामन्तया । गुरुमर-वादि नि काउं जाओ नेमि ओ विव मयहणे । अत्रया सेम-

माह्वतेण आम-ल्लव माह इहुण देओ मिउण्य से मणो । ओओ ! मणो राव-

विदिओ अम्हाय वगे इच्छिण तमपण्ण मणं देवण । गहा गव-कुमे भावराहिणो ।

वाहरिओ छिओ, जाओ वरहाणे । मिउण्य अणिय—'महागण' मणारेणिय-गह्व-

य नि काउण अम्हाय नण दिओ वगे, ना उउ मण दि ओओ वेत्तण मुत्ता, मरेवेण

यो उउ तेण मणपणेष उच्छिणो, ना इि न दापओ ने मणो ?' । गह्या अणिय—

'सुहु दापओ' । नेहि अणिय—'वेउ ! न नेण तण-मेओ वि भागे मकुन्दिणयो' । गतो

चारिचदम्भ-देमया-पुत्थं परुनिओ अहुमव-सील्य-महादम्पिओ वारो नि ।

वेज्जति नाव भाव ने चिय वेज्जति वीमपनिनेहं ।

सील-मणं वेज्जो उअउओउ अविममो ॥

मुणि-वुटो सील-मणो विमप-पमया तरुणि गो येउ ।

कि करिणो पच्छाण उओहु रामहो तण्ट ? ॥

तओ संवाव संवेणा के दि नेव चिय मट निमण्ण, अणे मायया मणेना मट
वरेवेण ति ।

अओ अह्व—विमप-उपवस-रणेण वि आण दच्चिपओ नि ।

मुपवेदि-पमाएणं मुवायुमारंण मादिपं वणिय ।

कदिपं ओ मुवद वगे गो मन्डर मानप हाव ॥

॥ सज्जगिरि-सिद्धाकथायाव समाप्त ॥

एकस्यामपि क्रियाया भावानुरूपं फलं प्राप्नुवन्ति प्रापित इत्याह -

भाव-समिच्छं तु फलं इच्छाद् वि होइ जन्तु-किरियाए ।

जह् संव-पालयाणं वदप-किरियाए नेमिरस ॥ १४

[भाव-सच्छं तु फलमेकस्यामपि भवति जन्तु-क्रियायाम् ।

यथा संव-पालकधोवेन्द्रकिरियाया नेमिनः ॥ १४]

भावानुरूपं फलमेकस्यामपि भवति उपोर्षहना वा जन्तूना क्रिया चेष्टा तस्या जन्तुक्रियायामेकस्यापि पक्षा कृष्य-सुगयोः संव-पालकधोरिति । भावार्थस्तु कथानकाम्यसंबन्धम् -

— [१३ भावानुरूप-फले सम्ब-पालक-कथा] —

- ॥ परितुल्य-सन्ध-नगरीए चारवईए भयेश-अमनाह-पयप-पव-पंकजो जायव'सहस्रा-
शुगम्भवागो विगापवात्यो पदाविजो चासुदेवो निउत्त-सुरितेहि - देव ! एमोएव
बद्धी, तपोतरिओ विमुप-भुयगो वि उदलोफ-भुयगो, पणहु-संसारबम्मो वि संता-
राशुयओ अदात्म-वहनिस्सि-महम्म-वस्वामो भयार्थे अरिद्धनेमी रेपव-उच्छाणे । तयो
तकाल-पयहु-पहरिस-विसेसेण दाउण नेसि जह-चेत्तिय-अगहियं इत्यं 'पभाए सव-
'रिद्धीए वंदिस्सामो' आचवेउज नोमं पुगो वि अविधं कण्ठेण - 'जो पदमं सुए तित्थपर
वंदइ, तस्स अहिच्छिय वरं देमि' । विदा-सणंमि] विबुद्धेण य नियय-वयउहरे चिय संतुव
कय(ह)वय-वयामि धरविचल-गमिय-जाणु-कमपत्तेम परहु(हु)माय-सदेवाहसएण क-
मिओ सवेण तित्थपरो । संकिच्छिद्ध-परिणामेण व पालएण संतुव राहिए वंदिओ
रज-लोमेण । चासुदेवो वि महाविच्छंहुव वयहुो भयवओ वंदणवदियाए । पत्तो
॥ संबोत्तरवं । भावसात पवमिओ तित्थपरो मह गण्डगइहि वि । अदि य -
वं कि पि अणव-समं लोकए तस्यासि पेमि-वामणमि ।
वं कहिउज्जं न तीण संजमं निरुवम-सुदेण ॥

निष्ठाभिउज्जं य धम्मं जहा-अवतर भवियं कण्ठेण - 'किं अज तुम्हे पदमं
वंदिया ?' । अत्रयथा भवियं - 'दवओ पालएण, भावओ संबेण । 'कहमेहि से'पं ?'
॥ भगवथा भवियं - 'एण वमविओ य पालओ, इयरो भवसिद्धिओ' । तयो दिग्घो
संबसु वरो । तज्जं स्तुतिद्वारेणोक्कं कृष्येण -

'विदकवपउउमि केमपिअयोव इति मेउहुत्तम् ।

अमोमरीचय अणु नोमं नलोच्छेउज्जं ' ॥

न चा'जउ'हुत्तकृत्तं मय्यं अहुत्तवउउरि'हि'उ'वेणस ।

स्वप्णा'उउ' अदि उमस्सि'त्ते'न चापत्ते मसुत्तं कर ॥'

अत्रो मय - एकाए वि वंत्तु-किरियाए भावाधुरूपं फलं ति ।

सुवदेनि-पसाएण० ।

॥ संव-पालक-कथानार्थं 'समत्तं ॥

प्रसन्न-भावपला च कुशविन् प्रम(मा)दादिभ्यः प्रावचनिके उद्गाहे जाते, तन्नाच्छाद्य यथा प्रवचन-प्रभाषना भवति, तथा कार्यमित्याह -

प्रावचणिय-उद्गाह गोवेडे पवयणुत्तह् कुञ्जा ।

जह चंपा-नयरीण कया सुभद्राय सचराह ॥ १५

[प्रावचनिकउद्गाह चोपनिषत् प्रावचनोद्यनि कुर्वन् ।

यथा इमान्तर्वा ऋत्वा सुभद्रया उक्ति ॥ १५]

भावार्थः कथानकमप्यल्लयेदम् -

— [१५. प्रवचनकलद्वापहारे सुभद्रा-कथा] —

अथि ह्येव जंहुदीवे दीवे भासने नासे अंग-उपलक्ष्य काममन्-रूपमिजा चंपा-
नयरी वि । अवि य -

अथि पुरी योग्या चंपानादेव दम-दिशि-गामा ।

केवि च सुरम-सुख्यो आगदिव-मयम-जिष-लीषा ॥

तथ य राधा दरिपारि-मत्त-मायंग कुंम-निहल्यो ।

उपलक्षि-परिगृहीतो जिषमन् विगमि-महान्यो ॥

तन्वेव वि(व)म[ह] इन्मो जिषदयो वास सुषिय-जिष-उपयो ।

संनवाह-गुण-दुखो नारिण्यो अक्षयकुमरम् ॥

रम्भ सुभद्र अथ तक्ष(?) च/विष-न्त(उ)यो निगुज्य ।

चितेह विही धस्यो जेवोत्ता प्रेमिया धणिय ॥

अह्ना चित्र तङ्ग-रनो य उप विही केव निम्मिड ग्या ।

उपणीया अथेभि अमुषिय-र-सोन्स-तारेण ॥

ता जह एयाए कर करेण मेथेह [म]जीविषो होत्र ।

इय एदे चिहंनो अर्धना-सर-भोषर पयो ॥

तयो पदुविषा जिषदच-समीवे हुजाह्यो उग्या ।

अथाधम्मिड वि काउ(उ) य दिषा दीमे य ताहृथं ॥

गञ्जो साहु-समीचंमि निगमिषो धम्मो जाथो करउ-यातयो । फल्लंउरेण य सम्भं
नितामिदि(व)स्त परिगयो मन्नादेण । तयो फहिल्ल सुणीय परमन्धं जाथो अक्षय-
कुमार-सतिगो सातयो । जिषदयेण वि नाहम्मिड वि काउण दिषा से सुभद्र वि ।

अवि य - काय-मणिसो निमिचं महिमो चित्तमणी वि करहेमं ।

सुषिय-गुणे भावेणं पाटिए इयरो वि सपणो ॥

निरुविषं वारेज्जय-नीसर । सभाटणमि दोसु वि इन्म-कुलेसु उक्तासासुस्वामि काय-
वाणि । कमेण आगदिए गामरय-उपे पने सीवाह-दिवसे महा-विभूर्ण समोभूटा ना तेणं ।

एवं च तीर्णं महं सम्भाष-सार्धं जीय-लोग-सुहृत्सुहृत्सम् वीलीयो कोहं कासी । अक्ष-
द्विपहंमि भणितो जियन्तवो नियन्ते नी(ने)मि सुभद्र । जियन्तवेषु भणितं— 'उवाचम-
मथो मथो वि ते मथयो अथशुभ्रुतीर्णं वा कलकं कादि' ति । तेषु भणितं— 'अक्षमि
नेहे काशमो' । तथा फलं तीर्णं महं जिय-नाहु-साहमिष-संघ-दाग-वेदेष-पूवा-नाम
१ धम्म-अ-कास-नवाहं बुहज्ज-परमथेज्ज जियलोग-सुहृत्सुहृत्सम् सम्पदकंती कोहं
कासी वि । जियधम्म-मच्छरेण पर-मह(व)म्भो तीर्णं छेदुमल्लङ्घे रोमानल-पञ्चसिधे
सर्वेण कट्ट(ट) क्खं वि अण्णार्थं । पुणरुत्तं च मययेण अण्णमाण्णं वि ष से वृत्तौ चलिंते
चिर्त्तं । अक्ष-दियहमि पत्तो सपम-सुणी वेक्खहा । अक्षिप-भेक्खस्स पवेदुमन्धिमि
कमोत्तं । वं चावणीयं सुभदाण्णि जीजीहाण्णि लिहियत्तं य । संकलो य से वीम-वेदु-
२ तिल्लो गुणियो भावमि । अवसने वि काउव भणितो से चचारो मययेण— 'सपप
कि भणितिसि ?' ति ।

अथि य— 'निच्छं दोत्ते वि गुणे वो रवो होहं वमि चत्तुमि ।

दुद्धो गुणे पि दोसे मन्वन्तो दो वि पिरुवेज्ज ॥'

वित्तिवं से पचये(उपा)- 'अहं नाम विमुद्धोभय-पक्खा सुमित्त-विण-पक्खा धम्मत्त-
३ रणा एमा वि एवाग्निदुक्क-लोग-विरुद्धं बुवाह, ता किमेत्थं भणत्तं ?' । य त्हा
उवपरहं । ततो पित्तिप सुभदाण्णि— 'किमेत्थं चोत्तं ? जं निदिषो कलकं काविति,
एव(यं) सु महादुत्तं, जं माह कजे पचपण-चिउंग्गा । वा त्हा करेमि, क्खं पचपणस
उपाहं इह' । चिउंग्गा ए[मा] क-ओपचान्णा सिप-उपाण्ण-कुत्तुम-तीहिवा ठिवा
सम्म[रि]द्धियो देवस्स काउत्तन्नेयं ति । अथि य—

४ 'जाव न पचपण-वेदा अवणी(वे)यं, ताव देव ! मत्ताह ।
उपाओ न चलामि' भणित्तां मा ठिवा उक्ख ॥

'उप-नारिस्सं ति ष सिज्जहं कज्जं पुरिसस्स मच्च-रहियस्स ।
आरुह-समयस्स उ देवा वि वममि पवुत्ति ॥'

तीर्णं तव-नेय-चलिओ पत्तो नं अण्णं सुभरी— 'किं ते ।

५ करेमो ?' तीर्णं वि भणितो 'पचपण-वेदं पचासेसु' ॥

'मचरीणं चचारि ति उक्खत्तं पुणो वि भणित्तमो ।

उपाहेउ आ न्हं चालमि-नीरेष दागमि ॥

तामि तुम चिय मोत्तुं उपाहेस्सति पेय सेनाओ ।

रमणीओ' परिक्खिउं जियमो पत्तो सय उक्खं ॥

६ पत्तमि विमुद्धो उपाहेउमनीरमाओ उ ।

दागमि भयं तोणो वो देवो होउ नो पचदो ॥

ताहे अण्णं देवो 'महं उक्खोदियामि मययन्तो ।

उपदिस्सति दहं चावमि-पमिस्सिय-असेय' ॥

विमुत्ताओ अणेगाओ धरेद-वति-सेवाप-सिद्धि-दिय-मन्वसाहाह-वृत्ताओ । ततो
७ पुच्छिओ सपयो सुभदाण्णि । सदहमायेण य न विनाजिया, चालमि-द्विन-अल-ईयुत्ताओ

व पशुविषया संज्ञायां दे[ण] । ततो यथाया कप-वदिकम्मा अयेम-सप-दुग्जवासुकम्मा-
 ज्ञाया संवया पुष-वशोलीए । इत्थंअनि ममाहवाइ मंगल-दुग्ग, आऊरिया अत्तंअम-संज्ञा ।
 संवया किंनर-किंपुरिस-जफ्फ-विआइगएयो । अ(उ)मयोमियं सित्तकपर-नामं, पत्तंदि-
 (सि)या मदरिसिगो, विअविओ सिरिमवय-सयो । उग्गाटिओ वल्लिगसुम्, देओ वली ।
 उओ वटिउय तिनि वाराओ पंचनमोकार-वहामंसे, उ(आ)ण्णोदिसाणि चात्थिपी-अयेम
 गुंवारयं कुणमाणायि उग्गाटिनाणि दोधि वि कयाडायि । उओ समुच्छतिओ ताहुफतो,
 सुकं मपण-द्विय-देवेहि कुसुम-वरिणं । नमाहवाइ देवत्ताइं । आण्णदिया 'ममत्त-लोमा ।
 उओ महा-विच्छट्ठेणं एयं चिय दारिय-पच्छिम-वओति-कयाडायि वि उग्गाडिसाणि ।
 उत्तर-पओति कुष नीरेम अण्णोदिसय भणियमणाए- 'जा मए जारिसी सीलवई होआ,
 वा किहादेआ' । या तह चिय संवपेमि(पि) उधिया चिट्ठ । ततो अण्णलिय-गुण-संयवेम
 तुभं(सुह)ता थम्मिय-जयेण, पत्तंसिज्जमाणा विम्वियावइ-नामणएहिं, जजुगम्ममाणा
 आण्णदिय-वेवेहिं नरिं-वामर-मपणाउएहिं, मए मए कप-मण्णेरणाग, महाविच्छट्ठेणं
 संवया जिय-वंदिर । पपमिउ जियं वंदिया माहुओ । ततो कियि सपतर सोउण
 जिय-वयणं तह चिय पत्ता जियव-वर । ततो हरिसिओ सपयो, विसिओ पडिबस्सी,
 आण्णदियो समय-संयो ।

अओ भय - तह सुमदाए कवं तहा कयवं ति । एसुवरमो ।
 सुवदेवि-यमाएणं चरिचमिणं साहिय सुमदाए ।
 सुप-विदिवा निगुवंतो तहइ पुवं तीइ सारिच्छं ॥
 ॥ सुभदा-कथाणयं संमत्तं ॥

अवचनोच्छतिकारिया च इत्थे वादः कार्य इत्याह -

पावेण किलेसेण य समखिओ तह वि आबवा-हेउ ।

अत्थो सत्ताव-करो निदरिसणं भाउणो दुधि ॥ १६

[ज्ञेन हेसेन य समाचित्तवयणि कएवेत्तु ।
 अर्थे- सत्तावकरो निदर्शन आती ही ॥ १६]

कदमियमतो भय -

— [१५. अर्थे आत्तुद्रय-कथा] —

एथंमि संनिसेसे दोधि भाउणो अषत-दोक्खिय-दारिद्रमहापसण-भिदिओ दोहाण-
 फलंकेकिय नि । अवि य -

अंमतर-कप-पाओ रिद्धो इ भरति कइ वि ने पेइ ।
 कुसुनावरप-विलेवण-संभोउ-कहा वि नवि रिद्धा ॥

अथवा तत्रो दारिद्र्य-महादोषसमसृष्टयन्ता यथा स्रुष्ट्या-विसृष्ट । तस्य च निदिप्य
यन्मास्रुष्ट्याणेषु महाकिमेषेण च दीदृशलेण विदधो रुचय-भाहस्मिन्त्रो नउल्लो ।
तस्योपस-पहरिसेहि चिनिपमयोहि -

“किं ताए सिरीए पीगराए जा होइ अथदेमम्मि ? ।

ता य न मिचेहि ममं जं च अमेचा ण पेच्छति ॥”

कं(क)मेण पन्थिया न-देनाभिपुर् । परिगाटीए 'मठलणं' वईताए कम्पर ससृष्ट्यो
वह-परिचामो, न वहे पयइति । क्रमेण च यथा नियम-विधौवस्मान्न तदार्थं । पइइओ
महहय-भावा । पुच्छिओ इहएण । इयरेण अणिवं - 'चाओ(यो) इं जेण महिय-नउल्लेण
मए तुञ्ज वि कडो चैतिओ' । उहरएण अमित(ओ) - 'मए वि एवे चिय पिसुणियं, ता
अलभिमिया आवय-हेउणा उल-उल्लय-चोर-दाउय-गारेदाउ-साहाराणेषाम्पत्य-निबंधणेण
अन्धेण' । पइसेतो तडावे नउल्लओ, तफराण चिय महिओ मच्छएणं । ते वि यथा
मियय-मंदिर । मीमो वि महिओ बीचरेण ओआयतिओ विवपीए । बेरीए वि
पइविचा भूचा पुचाण काहणय-निमित्तं मच्छाय । तीए वि नो चिय महिओ नईतो
मच्छो । यथा गिहं । च्यांतीए जाओ रुचयकारो, दिहो दहाउओ नउल्लओ, लोहेण
कओ उच्छेणे । संजाय-सकाए पुच्छिपं बेरीए, च महियमयाए, जार्थं मंडणं । मम्म-
देयाइया च मुक्का जीविएण बेरी । मज्जन्तलिओ कनयलो । यथा भाउमो, सेमतोमो
च । देहो मठलमो । बेरी च मुक-निवा । मुणियो एम बोवंतो अहो ! उच्छिओ वि
समत्वाएपाया हेउ अन्धो पुणो वि दुक्ख-कारणं जाउ ति ।

अपि च - “अर्थात्तमं न दु उच्छेतिताया च उच्छे ।

अथे दु ण उच्छे दु ण विरुद्धं दु उच्छेत्तम् ॥”

रोवंता च निवारिया पाम-द्विय-जयेण । ततो काउण से उइदेहिणं, दाउम
मुत्तपुषयस्य मणिणिं सोऊण मम्मन-मूर्त्तं एव-महहय-तंक्खणं साहु-यम्भं वेत्ता-
मन्मारदिपाए पइया दोणि वि भाउमो चि । उणमो काचओ चि ।

मुपदेवि-पन्नाएणं नुचापुसारेण दीन्ह भाउमं ।

सु(सि)हमिणं निमुणंती लहइ नरो मत्तय सोक्खं ॥

॥ दोभाह-कहाणयं 'समसं' ॥

एवंभूतोऽप्यर्थसंधाऽपि न पापस्य शूरे तिष्ठत्याह च -

सत वि घरे दण्ड पापस्य ण टाइ, पुत्त-र(स)हियम्म ।

टाइ किलेसेण विणा निदरिमण माहुग वणिणो ॥ १७

[सरपि शूरे दण्ड पापस्य न तिष्ठति, पुत्त र(स)हियस्य ।

तिष्ठति क्लेशेन विना निदर्शनं माधुरी वणिनी ॥ १७]

विद्यमानमपि शूरे दण्ड पापस्य पुंसो न तिष्ठति । यन्तु पुण्यभाक् तस्य क्लेशं
विनेव देवताऽनुभावादन्यत आगत्य तिष्ठति । मधुरार्थं भवो माधुरी ।

— [१६. सपुण्य-पाप-द्रव्ये माधुरवणिक-कथा] —

अथि दाहिण-दिमालंकार-भूया निचमपुरि-भंझ दाहिण-मदुरा उत्तरमदुरा व ।
 उत्तरमदुरी(ने)व वाणियो मओ दकिरउमनदुर । जाओ 'दाहिण-वाणिवण्ण सइ
 संरहाओ परम-पिणी व । कीए व नेप्पहण्णं कओ मकेओ भूमा-पुणेहि वाण्हि
 हापओ 'संभओ । कालंतरेण जाओ दाहिणस्स पुणो, इपरस्स भूवा । कवं विवादिअं ।
 मरण-पञ्चवत्ताणाए व जीरलीयस्स संवचीभूओ दाहिण-मारुणे वणियो । कपमुइ-
 दहिअं । ममदिइओ पुणेण पर-चारो । ताअनमव-उम्भोदण्ण व मेष्णामि देसंतहा व
 एवाणि वाहि(इ)आणि । नेह-मवं पि वहुं जतयेण दइ, उअओ वाणियो । यलदेयामनअं
 इव विलुअं तवणेहि, विइडिपाणि करित्ताणि, कपट्टाणि पिहापाणि, विरत्ता मय्ण-
 वधु-मित्त-परियण-आणारवाअणो । मवहा अपुदिअं जेअउमहाओ दइ-कपावाइहि ।
 अअ-दिअंमि निरुवियो(ओ) अरुअ-विही । निमओ ष्णण-पीडे, चाउहेमि उविया वचारे
 कणव-कळ्णवा, तावां पुअओ कपिआ, ताए पइह तवया, ताए वि पुअओ मिम्मया
 मवहा । कि वट्टा ? तट्टवणीओ मओ व अरुअ-विही । अहिमिओ पुव-डिय-कलहोव-
 कन्णेहि । इअमेवा व उअरहा मअवयमे(ने) । एवं पणइं एवं पि । उडियस्स
 व अरुअ-पीडं पि मवं । तओ मओ व भोग्गवत्ताण-मउवं । विरउपाणि पुअओ सोवअ-
 रूपम-पाणि विपिआमि आल-कपोटाईमि । वरिविट्ठो विनिवाहाओ । विमिवाहारस्स
 व एकेअं वाणित्तमउवं । जाव मल-उल पत्तयंन पदिय कण्णो नं निव भोअण
 पइं वाउं पि ।

अथि य—“अल-उलजिदिणो वुड्ढि को वि लो कण्ण पुण्णिय-मसि व ।

जाअओ विअ दइ आगदिय-महिपलाओओ ॥”

वंम-अलेअं व अए पायेण विपाणिओ निओ रओ ।

रेट्ठी व ताए जमिया वण्णे(अि) कि मअण मेहेण ? ॥

एवं न वेरम-मअणअडिओ तहाविहाअं माहूव ममीव अम्म मोउअ कोडेण
 गहिअ-आल-सुओ पवओ एओ । पडिअं किअि मुअं । निमामिअओ एवापी विअमओ
 वओ जिआपत्तअ-मडिवाए उत्तर-मअण्ण । मिअमट्टा ममओ कमेण वओ इअ-मेहं ।
 दट्टो पेव तअणम निव-अणुअनअण-अओ महिय-आलि-ने(वि)टाए अवंत-अनवरीए
 पूवाए पीअअंओ कपोल-मुअि-कओउपाए-ममअहे खंडआने अंअओ इअओ । लइ-मिअं
 पि उवअण-विअ-देहिं माहं दइव अमिअं इअेण — ‘कि मअं ! आलिअं पलोएमि ?’
 सुणिया अमिअं—

“रुअेसु मइ ! मअव-वाअणसु दिइविअणसुवराएसु ।

रुअेअ व रुअेअ व ममजेण सया व होअवं ॥”

ता माहं आलिअमअणमेण पुणेएमि । ‘कि सु एवं भंडोअमअं । ‘कओ व एवं
 तउअ ?’ इअेण अमिअं—‘अअव-वअव-पिनि-वअणपाअं नअवेअसुअणअं, अओ व
 कोहि-संओ, एपाणि व विविह-अवाणि । माहूव अमिअं—‘किने(ए)अ अवंअइ-

पलायने ? नाहङ्गवचन[म्] आसी, किं तु महत्तुल्ये कौडहलेण पुच्छामि । तेष
एवामि श्वाण-शोचयामि पुं वचं आमि । सीमं पुच्छं च मम सुतुं उद्देह्यं तुलोप-
तप्तं' व अक्षय्य गवाणि ज्ञान इव बाल-स्वर्गं टिपं' । कङ्कित्तु उपद्वियाए कर्म बाल-
सनीये इह चि ह्यग । तयो पवट्ट-सङ्गे इन्वो कहिउमाउचो - 'श्यापमावस्त मे आगशो
• आमातेर्यं सवो वि एम उचवरण वेन्दहो' । नेहउचवणएणेया देहाओ ज्ञयाविहाओ
निहीओ ।

अवि ष - जा सुविणे वि न सुविणा कुवेर-वच-तण्डि-विभवया रिही ।

अचुङ्ग-दिह-ओया ना जाया मन्त्र कपो वि ॥

कार दुरिए वाओ ?, को व तुमं ? कस्य भवसे उणओ ? ।

• इन्धेण पुच्छिण्यं कहिय सव वि से सुविणा ॥

इह ! एवो सो मे ज्ञामाउओ । कंठे वेत्तुं सम्भाव-सार्ं क्वो इन्वो । भवियं च
वेव - 'तुमं मन्त्र ज्ञामाउ, एता वि ते बाल-वान-वेचा भारिया । एवो वि सवो वि
हु तुह संतिओ पर-भासे । एवामि घन[ल]इगमि, एवो व आया-वेदेम-कणे परिवणो,
एतामि य अन्धेयाणि अन्धेयाणि महारययाणि । महद्व-निचण्ण ता सुंजतु अहति-
• (इच्छि)ए भोगे । इच-भोगो अ पच्छिमे वय(पं)ति करेजतु सुवि-धम्मं' । विरत्त-
विसण्ण भवियं सुविणा -

"महं कामा विमं कामा कामा आसी-विसोपचा ।

एवमे पद्वेयाया अज्ञामा अंति दुग्गवं के वि ॥"

महात्तच ! कयाइ सुविणो काम-भोगे उज्जद, काम-भोगेहि वा दुरिसो उज्जिउद ।
• ता काम-भोगे परिवचेष अक्खि-वितामधि-संक्रान्तो ववो साहु-धम्मो । एव-वि-
पालयेण य विजुत्तवा-चंचल सारीर-मामस-दुक्ख-निवधयं मक्कलीकरेमे मचुवचमं ति ।

अवि ष - "तह सुविणा से सिहो सवारो तं-निचंधणं सव ।

ओक्खो य मोक्ख-हेठ उह विस्संतो महात्तओ ॥"

उचणओ कामओ चि ।

• तुचदेवि-पनाण्यं सुवापुमारेषा ताहिवं चरियं ।

'माहुर-वणिपाव दोह वि नितुगंतो सहर निदानं ॥

॥ माहुरवाणिव-वेस्साणयं संमत्तं ॥

तेन च पुण्य-पाप-फलहेन विरवादि-निमित्त-परित्यक्त-मन्माचैव धुतमाकर्ण्य
सन्मार्गे स्वातन्त्र्यमित्याह -

अपसत्य-निमित्ताओ उच्छ्रिय-मग्ना वि ठति मुह-मग्ने ।
राजसुत-सुहृत्ता विव अचम-पटियं सुणेऊणं ॥ १८

[अपसत्य-निमित्तान् उच्छ्रित मार्गा भलि तिष्ठन्ति शुभ-मार्गे ।
राजसुता-सुहृत्ता इव अचम-पटियं शुभम् ॥ १८]

अपसत्य-निमित्तं विपदादिभ्यः । राजसुता च सुहृत्तौ च राजसुता-सुहृत्तः । शेषं स्पष्टम् । विशेषस्तु क-वानके-योऽयत्नेवन्तानि चाशुनि -

— [१७. शुभमार्गादरे राजसुता-कथा] —

वसंतउर नपर । जिवमत् नया, धारिणी से मारिया । ताम य मयंउ-उरकृष्णपु-
गवा र्द-संकासा कथना । तीए, च कुविद्-दूषण् मह जाथा परम-मिची ।

“सुखद्विप-वच-संधारा सुवच-न्यपु-च्छन्त-स्वै-तुहपा ।

छंदमसुवचमार्णा कदाप्यरूपा गरी होइ ॥”

कुविदनाताए च टिया 'पुन-कोटिया । ताम ऐकेव नापनेष आयजियं कोलिय-
दूषण् द्वियवं । निविहो परिपी-सरो । ममकाव कागिम विमनियं चित्तिऊण अमिया मा
पुनेष - 'अन्नन्य वचामो' । तीए मणियं - 'मम वचमिया राय-पूया, उं मि चित्तुम
वचामो' । 'एवं' ति पुनेष पटियजे परदुविया तीए राय-कथना । कय-संधेवाणि
पपट्टाणि पचूसे निधि वि । वसंतीए सुआ एना गीलिया राय-कथणए भाइजंती ।

अवि य - "अहं पुह्य अमियायय चूम । जटिमाययमि तुहमि ।

तुह म लम पुह्येउ जट पयता येमि उमराउ ॥”

एवं निमित्ताडयं चित्तिवं रायकथणए - 'अहो ! वननषा चूजो उगालहो ! अहं नाम
अर्थताहमा एए कलियाताउपो अटिमायाणं योलियंमि पुणत्तु नाम; तुभं पुण मवोचमो,
अतो य जोष तुह पुण्केउं । एवं अहं एना अर्थताहमा कुवेउ-दारिया पर-पुरिसेव मह
वचइ, वचउ पाण । अहं पुण तुविसुहोमव-परुआ मवोधना य; ना कदमेपारिस्तं
उमव-लोम-विहइं उण-गाहियं कृत्त-उत्तं-क-वृपं करेमि ?' नि चित्तिऊणं 'मए
आअरपणमि निस्मानियाणि' एनेष उउएसेव मया निवय-मटिय राय-कथना । तद्विचरं
च वचो अरदाईएहि वाडिओ कर-कथओ । सोमो नि साऊण दिआ य चिय पिउणा
बहा-विच्छइमं, पचो वारेउय-महममे । तीए मह मयभाउ-मार विमय-सुहमपुदवंतस्व
पोलीओ कोइ कातो । अण-दियहमि टिय राहया से वरं । चओ निपव-देते, विजिय
वत्तुमो अहिकियं वरं । कओ तीए महादेवीए पट्ट-वंथो पि । उरवओ कापओ ।

सुपदेवि-वसाएणं सुवापुणारेण राय-कथणए ।

अदियं जो चणियमिणं सुवच मो तहइ निताणं ॥

॥ रायदूषा-कथाणायं अमत्त ॥

[१८] द्वितीयं शुद्धकोदाहरणम् । तच्छेदम् —

एषमि सन्निवेशे चञ्छे एव गहन-धारण-ममत्वं बहुविद्-मुपावासं चैक्यं वत्सा-
हारदंष्ट्रिं चरियो बहु(द्व)र्षेति । काञ्चक्षरेण य नैवच-जोषवासा बोधपीय-कम्पौदवाजो
समुपपन्नो विसयाहितम्यो । पपटीहृवा अर्धं, पण्डो कृत्वाहिमाणो, विवलीहृजो गुरु-
एषो । उभिस्यमामि पि संपदाहित्य महिय-इवलिनेो विप पदापिजो एकाए दिमाए ।
सउगात्मउप-निरुचणं करेतेणं सुपा छा-तेपमित-दुवावएहिं पटिञ्जंती गीह्य पि —

“लीकञ्जा य परकिञ्जा अरियज्ज य मन्ने समत्तरण्य ।

अरामि-अवलोपेत्तया वा तु सटिपत्ता कृते प्पाएण ॥”

एषं शोडश चित्तियं सुदुएषं इत्तं ! अनामच-कायमभि-तप्पहाए विनामविमित्त
उभिसए नीयजणेहिंलो महियथा ‘पुराय-पषट्-धम्मं ! अधने(धम्मि)य ! महापाव !
“कु(ल)कंठय ! अट्टह ! अणमणाकूड !” एउमाहो अपकल्प-सदा । मग्ग-वया य
गियथा परमेस्सवञ्जंति । अवि य —

“न प्रविशु जयतिह तुराग्न न चापि मज्ज पित्त-संघित प्रतम् ।

वा हि मृषु सुविशुद्ध-कम्मंजो न प्पनि सोल-अवलिताय जंविताम् ॥”

इत्तं य त्रितयपर-वपणं संजाय-संवेमो भाविउं वपचो । अवि य —

“इहं सत्तु मे ! पक्कहण्य टपक्क-दुक्खेण मज्जे अट-समाज्ज विनेण ओहातुपेदिप्या
अलोहावयण वेण इत्थमि-नायकुत्तं-वेण-वडाण-सूयाद एता उट्टवस उवाह एम्म सपि-
ठिदिपज्जत्त एवति । उ उटा —

“इ मे ! दुम्मभाए तुपतीती महुम्मय इति(उ)पिथ ।

तिहंण मग्ग-मेग्ग सुज्जे अमाज्ज-उट्टा मग्गा ॥

“ए मे मं तुज्जे ण पित्ततोषदुद्ध भसिग्गह” ति ।

इ एवमाह-उरुविह अञ्जपपत्तयेण जणिय-सन्नेो ।

विदंणो विप-चरियं संपचो गुरु-मशीवमि ॥

आलोह्य-निदिव-पटिकंन-कय-इहाह-वापच्छेतो य सामने काउं वपञ्जो पि ।

उपमाओ कावचो ।

“सुवदेवि-वमाएणं सुपाधुमारेण शोडक-कहाणं ।

कहिय जो सुणइ नरो सामने निचत्तो होइ ॥

॥ प्पोदुघ-कहाणय ‘समत्तं ॥

[१९.] अन्वदपि शुद्धकाक्यामकमभिधीपने —

इरु(अतिव) देह भरहद्ववासे विउमज्ज-मत्ताहभिलं गुण-निहाणं साकेवं महावपरं ।

“दरिय-वटिबकय-नचसापेण-उवकेपमी अचमिनि-संकेपट्ठणं पीडपीओ गुणा । कंठरीओ से
कु(ल)वराया, रइ-संकासा जस-महा से भासिया । सीमे य हव-साण्य-जोषण-कटा-

१ ह क ज ‘रेव । २ ह क ज ‘तिरे’ । ३ ह क ज ‘उट्ट’ । ४ ह क ज ‘कुल’ ।

५ ह क ज ‘सु’ । ६ ह ‘मं’ ।

कृत्वा-वह्नि-चित्रेण चित्रितं पुंडरीकम्-‘अलं मे जीवित्थं, अहं मयाए तद् विस्मय-
 नुहं व सेवेअहं । अण-दिपहंमि अणवेविसअणेह-परलेण-मये भविषा राधा - ‘सुद्धि !
 मम पटिवजसु’ । तीए भविष - ‘महाराय ! मम मनुया तं पटिवजो, सो मए
 पुत्र-पटिवजो चेष । तेण भविषमय पत्तिसेव, पुत्रिवभावेण पटिवजसु । तीए भविषं -
 ‘महाराय ! वा एवमाणवेसु’ । तेण भविषं - ‘किमित्थं वहुया ? मयम-अरण-अत्तलली-
 इज्जंतं मे सरीरं सायम-अलेव निवसेसु’ । तीए भविषं -

“प्रवाम्मि प्रमात्तये रक्षणीयनि म्मत्त । सीदन्ति रे प्रमात्तानि प्रमात्तकैरिपसुके ॥”

ता अलमिमिया दुल्ल-कलंक-भूएणं दोणाह-निबंधणेणं दुल्लवमनाएण । परिद्धिओ व
 एस मम्मो खोदसुचेहि ति” । अणुदियहं फण्णवण अणुदियहमि भविषमनाए -
 ‘किमेपम्म पि माटयो व लत्तिदिसि ?’ । ‘अहो ! एसा फटरीय-नकाए व मम
 पटिवजस, ता वावाइज्ज एणं विग्गामि देहिं’ । तद् चिय काऊल भविषा एसा -
 ‘तुंयं किं भविदिसि ? वामाओ भाया’ । ‘इहो ! इमित्थं किं(चिं)त्ताएण मम त्रिपिचं
 सुपनिही अज्जओ वसाइओ; वा जाव न लीलम्म संदणं करेइ, वाव अण्णव ववादिं
 वि - चित्तिउमावज-मचा साकन्धी-गामिणा मग्गेव तद् मंतुं पवहा । चित्तिं व नाए

‘विनवाम्मओ पुत्रिनो कल्लकळं न पेण्णए कइ पि ।

इंहुय निवव-भाये पण्णं ममं जओ राधा ॥”

कमेव व पचा मारु-वीए । तज्ज व अदियसेओ आपरियो, किमित्थं चि(चं)-
 चिणी । सा वि पचा तीए मयीं । वदिया मविमए । अहो ! ललु म्पारिनाए पि
 आगितीए, मरेदपची-सरिच्छेहि ति लक्कणेहि, तदा वि एस्सि अरत्थं वि चित्तिउव
 भविषं मपइरी(रिं)याए -

‘का सि तुंयं ?, इतो वा केव व कत्तेव आगया इत्थं ?’ ।

इय पुच्छिया[च] तीए गुरु वि काऊल परिसइयिं ॥

मपइरिया[च] भविषं - ‘धम्म व सुपसु ! जेव परिपचो ।

सयण-अण-विस्स-जेणे लीलम्म विद्यामण-मयाओ ॥

ता इत्थं पेव वच्छे ! जियं चिय आगरो वा बोचवो ।

जेव व लीलवईणं अमज्जमिह अरियं हूपणे वि ॥

उतो वसुविओ वित्थरेण अट्टारय-लीलेय-नाहस्मिओ महाभारो । संजाप-संवेगाए
 पटिवजो तीए वि पि । अवि य -

सारीर-वाणसाणेव-दोक्क-तविषाए तीए पटिवज ।

साम्भससाहलं निववणं सयम-मोक्कत्थं ॥

अह अह वहुइ एसा चारिच-पुणेहिं, तद् य पोइं वि ।

आयासकाए पचि(चं)चिणीए अह पुच्छिया एसा ॥

‘पुत्र चियं’ निय-पइ-समयेण जाये, इमं व ने कइयि ।

‘मा चज्जा-विन्धं काहिह’ भविषं इमाए वि ॥

उतो सायव-पर-वच्छेणे हिवा व पसुया एसा दारव । कमेव वहुंती दाम्मो जाओ ॥

अद्वयारिणो, गार्हो नृपि-किरिपं । पमत्य-वामरे पद्मविभो रतिषा । गदित्वा
दुविदा वि निक्त्वा । मगदकतो कोर कालो । सपतो जोहयं ति । अपि च -

“अथय योयन्सकन विरुतेनापि जन्तुना ।

विश्वं यदु कर्तव्यं तद्विद्वत्स योयन्म् ॥”

- १ चारिचारवीथ-कम्मोदया मद्-वच-विमयाभिलासेष चित्तिरं खोद्वय-महादुषा - ‘व
तरामि पवज कालं, ता लेवेमि विमए, वय्जा पइजं काहामो ।’ विवेकविमिनं जगणीए ।
तीए भणियं - ‘वण्ड ! मा एवं पवजसु । ज्ञापयिषो वाहि वि, अणुल-पुणउ वि
मणिमसइ । पवि(व)तिषी मुयिम्भट, अविपीउ वि सुभाविम[इ]वि । सेसलीयो ज्ञापिहि
वि, पवथव-निदं काहि वि । मयया वाहिति, लज्जया भविस्संति । अन्न च वण्ड !
२ विवागदाल्यां विसय-सुइ ति ।

अपि च - “अथाप्य-सुदधा न च पुत्रान-हामक-दीप्त-मया ।

निपये विमया योभस्ता यत्, कोप-पज्जा-मयाया ॥

अपि निरेक्यन्तान्(ए) नमन पन्तुष्टिफलया विमया ।

दिपाक्यतायन्मद् भर्त्सित पञ्चादतिदुरन्ता ॥”

“अन्नं च भय-वपय्या उदरं पार विच्छं सह कलंकेष ।

वर्धनि महानरयं ता पुत्रप । कुण्ठसु पवज ॥”

‘वाचामि नभमियमो अहं किं करेमि ? वापो हं ।

न तरामि अच ! काउं नावयं’ जैपियं नेण ॥

‘तह वि ष मज्ज कएणं वासव वणिनामि इणसु पवजं’ ।

तीए उपरोहेणं सो विद्वइ तत्तिव काउं ॥

पुण्डड पुणो वि ज्ञापि तीए भणियो वि जा न संटाइ ।

ताइ पुणो वि भणियो ‘इण्डि मम मामिमी पुण्ड’ ॥

पुत्रा एवो भणियो मयहरिचाए ‘अपानए जीए ।

किं काहिसि विमएहि ?’, दूषेण वि तण्णमिजेण ? ॥’

इय धरियो वि न विद्वइ धम्म-विमुक्को जयंमि वापो व ।

तेहणपुणो पुणययि ज्ञाप्य उरिनापि जा धरियो ॥

पुचेसु तेसु पन्तिपुण्डिणाए उज्जाय-वाप-सूतम्मि ।

तीए तो पइविषो नेण वि से साहिय सीलं ॥

जाइ ष ठाइ दिवए अमयं पिय राहणो पुणो धरियो ।

तत्तिव-काउं नेण वि पुचे अह पुण्डिओ सो वि ॥

नेण वि सोइओ भणियो गहणमहाण मामियो वृत्ति ।

से व ददु वचसु अह वनो से ममीवमि ॥

‘वण्ड ! दूतओ एण तर-तम-ओमो ।

अपि य - “भूयसु अंगमत्तं तेषु वि पंचिदिवचसुओष ।

तेसु वि ष मायुवत्त मयुवत्तं आरियो वेसो ॥

देसे कुलं पहासं कुले पहासे इ आहृष्टोन्मा ।
 तीर्णं स्व-समिद्धीं रूपे वि न बलं पहागवर ॥
 होइ बले वि न जीवं जीए वि पहागर्पं तु विद्यायं ।
 विद्यायो संमर्चं संमचे सील-संपत्ती ॥
 सीले सादपभावो सादपभावेष केवलं 'नाथ' ।
 केवलियं पदियुजे पथे परमस्वारे सुको(स्वो) ॥

माधुस्माद्देशो सीत्यानमागो दूतलो एव तत्र-तमत्रोगो चोद्धपाद्-दिग्देहि । पथो एवो तए, ता मा असुप्याय' असु-देहृष्यनार्थं करि-कन-बंधलाय अमार-देहोवमार्थं तिमनाय कए उच्चसु, किंचि पदसु सुत्तं, मितामेसु परमत्वं, भावेषु अवेद्याद्वाड द्वालय भावगात्रो, निरूपेसु ससागानारथं, पथडेसु निय-विरियं, पासेसु बंध-गुणीशो, ससु परीमदोषतमो । किं च -

"आन । आनमि दे मून सवत्पत्त किंन जायमे ।
 उन्नत न करिप्यमि त्तो मे न भविषीति ॥"

अन्वय - "वैश्वानरिगुणान्मानं श्रुत्वा योग्यतः च कुतश्च ।
 शयन-योगैरुत्तम विरन्त न्यून-पुत्र नर्ये च ।
 देवतोयोगेन सील्यं तु वा च नरयोगेनम् ।
 प्रत्यक्षया तु विज्ञेयं तत्रम विरन्तय वा (च) ॥"

ता संव(अ)ले नई काठम उवठसु सीन-भार । एवं वि भगिजो जादे व इ पदियज्ज
 कामर्चं । तत्ते धरिजो छरिगा वि द्वालय नमामि । पुसेसु व तेसु गन्धार्थं बुधित्तो
 शी । पुषो कथा धम्मकदा, व से परिगथे वि । अवि च -

एव नगहर-नहर-सुपेकलं वि कथं न टाड से दिवए ।
 वमिजो व कामर्चं सं हुजो सुह्या वि सो तादे ॥

'अहो ! से कम्म-भरुवचर्चं, जेष अइपालीताए वि पासेहिं नाववपा
 विपय-वग्हा; ता मा जल्प वा लप्य वा कमवरो व किस्सित्त' भावेवीए
 बहिज्ज पुवाणुत्थं, भविजो जपणीए - 'वच्छ ! एवं पुवाणीय बुदाए तद केवल-
 रथं पित्तु पथसु सारकेए सुंदरीय-ससीवंमि' । 'एवं' नि बहिवज्जिज्ज बहिप-
 दक्षसिगो कमेथ व पथो तत्र पथोम-समए । 'पथेसे परनाहं चेन्दिग्नामो' डिजो
 उलावालाए च । तनाहर्चं पिच्छणं । निनन्ना नरिदाहो । समाहो पुवरुो ।
 पणचिय विट्ठि(बहि)वा । कोउल्लेथ वथो सीदुओ । सवराहर्चं च नचनार्णीए आवजिथा
 परैदाहो, विट्ठो ताहु-सरो, पाविपं दहं । अचत-सिन्ना व पथेसे पपत्तइउमारता ।
 सरो चित्तिपं से जपणीए 'अहो ! वा(वी)सिमो रंरो, विट्ठो जसो, वा मा पपत्तापवी
 लोमाओ सिद्दं कवउ' वि । तीए बोहवत्थं बहिवा एता गीतिवा -

१ इ. क. वा. २ इ. पं. ३ इ. क. 'अहो' । अ. क. 'उ' । ५ इ. क. ज. 'पथ' व ६ इ. प. क. 'प' ।

“सुहृ गण्य सुहृ वाइव सुहृ नखियं सानसुपरि । ।

अनुपदिश्य दीक्षारूप उ मुनिवन्द्य मा पनामय ॥”

इम नितामिदम पठितुद्वा पठित्वा, इमे य खोद्गादणा(यो) । ततो तुद्गाएव सुद्गाएव सप्त-
सहस्र-सुहृं खेचं कंसतरपयं, जसभदेम भावद्-सुहृयं कुंडला, सिरिकंटाए इम्ब-वरिणीए
• हारो, जपसंविद्या सचिवेण कड्यं, कम्बपालेण भेटेण अकुलो वि ।

“खोद्गादणदि पंचदिं अवनत-पठिएण तुद्ग-चिचेदिं ।

सपसाहस्मानि इं देव्याणि विमिद्-दाणामि ॥”

अनुभि(चि)य-दाणाओ य पुच्छिणामि राण्या पच्यसे सवामि सि(मे)लेक्य । ततो
सुद्गाएव पुत्र-संपदं सवं नादित्तम जाव विसयाभिलसती तुज्ज समीचे पटुविओ । इम
• य सोऊय पठितुद्गेण दिव्य कंसतरपयं । ततो बहु सन्नित्तम सम्भाव-हार भणित्तो
राण्या - ‘निष्कसु रजं, करेसु अंतेउर, उवहुंजसु राचनिति, पच्छिम-वर्षमि करेसु पवजं’ ।
खोद्गाएव भणियं - ‘कड दीक्षपाल-विदलं सीलं खय-सुवस-करणं परिहुंवाभि’ वि ।

“दीक्षकालं सीलं कारुणं कड सुपामि ? एवाहे ।

को योपचंमि सुद्गइ जलहिं वरिऊण मन्दो वि ॥”

• राइसुओ सो भणइ - ‘अलं कलं वा तुमं वाचाइऊण रजं मेविहस्ताओ[चि]
कय-संकम्यओ वि सुद्गो वीतिपाए’ । राण्या भणियं - ‘अलं विपण्येयं, देमि ते
रजं’ । सो वि वेचइइ । सिरिकंता भणइ - ‘धारम वरिसामि पडत्थस्म पणो अलं
कलं वा पुरिसं ववेसेमि जाव वीतिपाए बोहिपा’ । राण्या भणियं - ‘इच्छा तुज्ज ।’
तीए भणियं - ‘अलमेवाए इच्छाए’ । अमओ भणइ - ‘अवेहि परंदिहिं तह मिलामि,
• जाव पठितुद्गो’ । भेटो भणइ - ‘पवत-वरंदिहिं भिण्यो हं । जहा हतिव देसु, मासेसु
वा’ । राण्या भणियं - ‘करेसु वं ते पठिदा[इ]’ । तेण भणियं - ‘अलमवेणं वेव-
कालाणुवणिवा अनुंदगासुद्गाभेण’ । पव(च्छ) मवेसि कया खोद[ए]ण भम्मकडा ।
संजाप-विसेद्ग-वारिच-वरियाणामि य खोदएण पवाविद्याणि पचारी वि । अवे
सावपा कया ।

• अओ भणइ - जहा खोदएण कयं, तहा कापव वि ।

सुवदेवि-वसाणं सुवाणुमारेण खोदय-कहाणं ।

कहिंयं भावेह(इ) पणो जाह वरो नूय वैरमं ॥

॥ खोदय-कहाणं सैमसं ॥

• मत्पुत्र-सज्जात् पापेभ्यो निवर्तते जन्तुरित्वाह -

सप्त(सुप्त)रिस-संगाड णरो इह परलोप् व लहइ कल्लणं ।

जह सप्तु-णिसेवाए पत्त सत्तवइय-नरेण ॥ १९

[मत्पुत्रसज्जात् नर इह परलोके य लभते कल्याणम् ।

यथा सप्तु-निषेवया प्राप्त सप्तवदिकनरेण ॥ १९]

— [२०. सत्पुरुष-सङ्गे ब्रह्मचूलाकथा] —

वसन्तपुर-वासियो इयसत्पुत्रो सुतो शा(त्रा)प-विक्रदन्तारो जगत्स्य विद्वादिभ्यो परि-
 श्रमोऽस्यो पश्येत् । कमेण य जातो पहास-जोरो सज्जन-संभवार्थं न अस्तिपद - 'मा
 भ्रम-सवचात् पापाद्भवार्थं विपश्चिन्नाभो' । ततो से तिविद्वि तिविद्वेयं एवेदिय-पापं
 करितस्त, असर्षं भासितस्त, परदवं इगतस्त, पर-कलनापि सेवेनस्त, इवाह-कम्मापि ।
 करेतस्त, अर्षल-रोदन्नामे वरुणस्त, समावर्तेतो को वि कातो । विहाले जगत्पा
 विहरमाणा पचा तथ नाहुयो । जोत्परिओ वरम-पाउतो । भगिया गाम-गोहा 'को
 अग्दानं वसाहिं दासिहि ?' । अजेमो एणहि कवीकीण्ड वि विभेहिं भगिय -
 'असि मे परमसाधमो कंकुचो नाम मो दाहीद वि निरुपे' सदाहारनार्थेहि । एषा
 काहुयो से मेह । अयादाय-मथे य तंमि भगियो गुरु - 'न वापियो किमेन साधमो न
 वि चि' । नेन भगिय - 'किं निमिचमिहासाया ?' । वेहि मन्नाये इहिए पेलिपं कंक-
 चुटिया - 'अहो ! दाय अहसत्तणं, अयेने मडापुसाया निपगारिया' चित्तेतेण भगियं
 कंकुचिया - 'नार्हं तावयो, अस्त मे य किचि अकापवसत्ति । किं तु एसाए वत्थाए
 देमि वसाहिं, य मे वम्भो करेपयो' । 'एवं' ति पडिवाजित्तम टिपा बुभियो । तओ
 एण्ड-पद-सुतो विपश्चिओ सिमि-वप-वचयो, अंधारियं नभवत्तं, किंधारियो वच-रयो, ॥
 एवरीहया सोयामणी, एडुल्लिया कर्षवा, उचमेष्वा वप-तण्णुजा, पण्डा सल्लिहूपीला,
 उम्मादीपाठ पठत्थवईपाओ, टावट्टिया पहिया, भग्ना पना-वंदवा, एषा रापईला,
 हरिलिया कासया, जोका वंक्का, हरिलिया साहीण-पीपइ(निय)मा मवाउता योरा,
 तंति इदुरा, विपंमंति मवां(हे)दा । अथि य -

"मेहाय एवो कहीय कसपलो विज्जुताय संताओ ।

इहिको इहिसहो कर्षव-उदो व किरीण ॥

इय ज अं चिय दीपइ पाउम-उन्नीइ भूमियं धुवणे ।

अइच-कट्टिय-नरो तहिं तहिं वचइ अजयो ॥"

तओ एवंविदो वप-समओ । एषविदमत्तंजम परिहरताण, गाम-तोसे विज्जुताणं,
 इंदग-सी-गारव-सह(ल्ले) परिहरताणं, विकहा-सन्नाओ सुसुभूरताण, किमिया-अजमपुणे ॥
 उचंत्ताणं, महवपाणि पारवंताण, जीव-निकाए रक्खताणं, भव-पुणाणि परिहरताण,
 मप-पुणाणि पालेताणं, वंश-सुचीओ रक्खताणं, सुमि-वम्मं पाठेताण, तावप-पडिमाओ
 नरंताणं, सुमि-पडिमाओ सेवंताणं, फिरिवाठामाणि भावंताणं, भूप-ग्गामे पकूवेताणं,
 पमार्थमिए करंताणं, वाहा-भोतमपाणि पदंताणं, संजमं सेवंताणं, अवंच परिहरताणं,
 नापज्जपये य पकूवेताणं, अजमार्थिदाणाणि परिहरताणं, सत्ते पिमुपंताणं, वरीमहे ॥
 संहंताणं, तेवील-सुपयज्जपमाणि तुणित्ताणं, चउवीत्तं त्तिवपरे भावंताण, भावणाओ
 भावेताणं, दस-कप्प-वज्जइतेतपक्खले अजसंताणं, अणसार-चरितं सेवंताणं, आया-
 रकप्प कप्पवेताणं, पावसुप-पसुंगं निरहरताणं, मोहविय-पुणाणि मलविचिताणं,
 विहाइ-सुणे नरंताणं, जोव तंमहे वक्खावंताणं, आसायणाओ परिहरताणं वोस्वीयो
 वासारयो वि । अथि य -

“इकोचर-वोदुए तेचीसं होति जाव टायाणि ।

मानेनाम वृषीयं वीलीयो वाउसारयो ॥

अथवा । अच(उच्छृ) कोलेति नई तुचीओ' जाव-पुत्र-बंधाओ' ।

नपुत्रा जाव-त्थामा नामा पन्ना(चा ?) यचिन्सहा ॥

अप्योदगा व मग्धा वसुहा विप पच-भट्टिया जाया ।

अभोर्भता पंथा साहृपं विहरितं कालो ॥”

एवं गार्हा-पुत्रकं पदंताय-“अहो ! भूमिस्तंति एए संपवं महासुपियो' । भूमिपं
बंकरुलिया-“भयवं ! कीस व सवकालं विदुह ? । गुरुहि भयिपं-

“समपायं सउपायं भमर-कृत्तायं व गौडुलायं व ।

अग्निवाओ' वमहीओ' नादयानं व मेहायं ॥”

अथवा पसत्य-वासरे पुनित्कळम बंकरुलि पचद्वा गुरुयो । नपरिवचो मिनाओ
बंकरुली गुरुय वोलाविड'(उं ?) । ‘संपवं पुण्या पप(इ)प्य' नि भयेंतिहि भूमिपं गुरुहिं-
‘अह ! एहि विधि वपयामिनं विमुयेतु जेव निरुवचारियो वि उपपाओ कायओ
उवचारियो पुत्र विसेसेय । उवगामी तुममग्धायं, ना करेमो मे उरवार । सो पुत्र
उवपागे दुविहो दडोनवारो भापोवयामे व । दडोववारो व नाम जो कथाताप-मपणा-
हार-तंबोल-सुपच-दिरनाईहि कीरह । एओ पुत्र अरुंदरो-अपेपंतिओ' अण्वंतिओ'
काळय । भावोवगारो पुत्र संमंदलय-नाम-चरण-रुओ सप्युचयो-एवंतिओ' अर्चंतिउ
नि काळय । ता मेप्यसु भावोवचारमंवीकाळय पंथासुवयामि, तिथि सुवदपामि, चत्तारि
सिक्कसावयामि, सम्मच-सूतामि' । तेप भयिपं-“वपव ! पावो हं व कसवि वेचि वि
नेचिउं' । गुरुया भयिपं-‘तहा वि किंचि निप्यसु' । तेप भयिपं-‘व करामि विचि
वि निचिउं, जेव अर्चंत-हिंसो हं अलिचनई चोरो परदारियो महारम-परिमहासचो
कुमिमादरो गिकेओ(किरो) महास्मिओ पर-प्येहापलोई पर-वसवकारी पचद्वा-
धम्ममओ सहा । किं वदुया नीसेस-दोसताओ वि । अवि व-

“पावाय वि पावो हं जेप तुमं पाविऊय परसामि ।

व करामि निचिउंयं निवम वेवं वि अिवाधम्मो ॥”

“अहो ! जोगो एओ तुन्निस्समह' नि उपओव-पुत्रयं भयिओ गुरुहिं-“जाय कळाल
नामं तुमं अचो व व जाण्ण, तापि व सावहापि । कम-पडियं व जीजं पाचंतेव
जावइएवं कातेवं सय पया गिण्वमंति, सो कालो विमालेयहो । पुइया(इ)नाह-
परादेवी व न भोवहा । काव-भंस व सायव' । ‘एवं' ति पट्टिवजिय पपमिऊय व
गुरुओ पडिनियचो बंकरुली । अथवा देसंतर-पाकवद्वाए वचंता संपता महादधी ।
पट्टिया चिरियो समान्णे । अर्चंत-सुंदर-सुदहि-सुह(मह)यामि पुनितेहिं आयिपामि
किंवा(रा)म-कलायि । तेव पुच्छिया 'माहमेवाय(मि) विपय्यामि' । तेहिं भयिपं-
‘वचं पि व पावामो' । बंकरुलिया भयिपं-‘वइ एवं, ता अठमेवहिं । पचक्कसावामि
वए एवंविदामि फळामि गुरु-नवीवे' । तेहिं भयिपं-‘अल्लयेचारितेहि गुरुहिं, जे
पचक्कसोवड्ड-सुहकारणाउ विपचेति' । तेप भयिपं-‘ए ! एवं पतवंताय तुम्हाय
वयये जीहा अतिव नत्वि ति ? । अवि व-

“पावाय वि ते पावा महापुत्रावाय लेते ते दोषे ।

अहवा अहं वि पावो वं भे वषमं निनामेमि ॥”

अथो दुः(द)क्विण-सुहा उमनिया से दिङ्गिपहाड । पवा किंवागफल-रुण-मार्ग्ये । भविष्यामि किवाग-फलामि, पसुता वीहर-निहाए । पावाय-समए वाहरिया वि जाहे व हेति पविष्यमं, ताहे तपे देहा जाव मया । ‘अहो! देहो वि महामिरी, म मए : पावकमेपोवसुतो’ मानेते धेन-जोहो नि काउ’(उं ?) पदिनिपचो निवप-निवासाभि-हुं । सज्जमाओ पवेहो अहरचंमि निय-वावहरे । दिहा वीतुजोएण पुत्तिसेण सह पसुता भारिया । समुपवभ-महाओवानसेण आवहियं’ मिउ-करि-कुंम-सुसुसुण-पवकं कराल-कराल टाय दोन्ट वि पावायवत्थं । ततो गुमरिप-वप-विसेणो तत्र पवा मिसेवकाल-वेदिउमाइतो । इन्धंतरंमि पीडिअंन-वाकुलयाए पल्ल से नयपीए-‘एले ! मा मे वई = पीटेमि ?’ ‘अहो ! मम भविषीए एव मरो’ नि संजाल-संकेण उट्टविय पुच्छिया सा तेव । ‘धो एव वीचंतो ?’ हीए भविष-‘तुह वीहरियेतेतस्म गामंतराउ अहमावा । तस्सत्थं च समुवहियं तुह जाया-नमीवे पेन्लवयं । भविय च गाए-‘वंकवृत्तिया विवा या पेच्छामो’ । नए भवियं-‘अहं वंकवृत्ति-वेवत्थ काठण ने दृवयाए वेच्छि-स्वामो’ । ततो समादनं पेच्छवयं । इदंम मिदाभिव्याओ तह वि प पसुताओ दोमि ” वि । वंकवृत्तिया भवियं-

“महानुमान एवमे अहम नोत्तलिषारक ।

पवपवनेयत परि ओ सुतापल्लियम् ॥” इत्यादि ।

अथवा पचो विगावधवत-महावसेंदादिदियं निरिपूर । अमेण य मिय-इजावुमर-स्येमा सुमिनामि नायाचिह-रेत्था-पुरियामि अपेगामि मदिगामि । चिन्तिय तेव - ‘कि = देवदचवगिणो गेहाओ अवहरामि इहं ? अहना न जोचनिय । जेव महाविलेसेण समजिथं ति ।

अपि य-“करिमपये लहनाओ’ जं तेण समजिथं धमं वणिया ।

तं जइ गिण्हामि अहं मा नूय विमज्जिअए वणियो ॥”

ता वृक्षामि देवमम्म-दियाराओ गेहं ? । एवं पि न जोच ।

अपि य-“सद्व-विचिपो भिक्तुणो इ जइ वचनम गेहाओ ।

गेण्हामि अहं वि दहं ता नूय न होइ एनो वि ॥”

ता किं पविमामि विस्सुनदिणो सोसागसु गेहे ? एव पि न सुवर ति ।

अपि य-“जो वंविउय दिङ्गि क(त)वमेत्तं इह अहं वि वे(मि)कवस्म ।

तमहं सुवधचोर हसमाओ नूय लज्ज(जे)मि ॥”

ता किं पविमामि मव(इ)राफालय-कल्लवातस्य गेहे ? एवं न जोच ति ।

अपि य-“जं मज्ज-संक्काओ गुरु-पावाओ’ ममजिथं तेव ।

इहं त पावकंमं सो गेण्हा पाव(व)-परिमो वि ? ॥”

ता किं मयमपदायाद् भविष्याए गेहं पविमामि ? । एवं पि न सुंर ति ।

अवि व - "अह्निप-परमत्वायं वा देहं देह पाण-परित्यागं ।

चाह-सर्हि समायं अलाहि ताए वि हुसिपाए ॥"

न किं तारेह-सेवपाय वेहे पविस्तामि ? । एव वि न तुंदर ति ।

"गु.तु.द्वेष कइ वि दिव्मं दयं एवाय राइया होइ ।

ता एणहिं पि अलं हुनामि नरनाह-मेठारं ॥"

तत्रो दिव्मं धरत्तहरे राय । पविहो कथ । तुरवपाल-कञ्जोअमणुसरंतीए य इदुय
चित्तिवं महादेवीए - 'ओ एयो वम्महापुकारी ?' । तत्रो भणियमपाए - 'ओ सि तुमं ?' ।
तेव भणियं - 'ओ एवाय वाराय परि(र)-मिहेसु पविमइ' । इणियपरमत्वाए भणिव-
कपाए - 'होसु जीविय-वाहो, लेय करेवि अहरेह' । तेव भणियं - 'का तुमं ?' ।
"तीए भणियं - 'पुतरइयो महादेवी' । तेव भणियं - 'अइ एवं ता वेदमिआ तुमं
सकत्थ-गुणाणुगवायं वि विसेमओ' अम्हात्तिनायं । ता विरमसु एपाओ' इह-कलोम-
दुहावडाओ' निम्मत्त-इत्त-कल्ल-भूपाओ' महापापकम्म-निबंधपाओ' दोववसिपाओ', य
सुत्त जयकेतरियं मोत्तुणं उंत्तुववणुत्तइ सीदिमि पि' । तत्रोत्तं च भणियमपाए -
'इवात्त ! किमेवाए तुह पिताए ?, मा तयंवरमाययं लच्छिमपवत्तु' । तेव भणियं -
'अंभ ! न होमि तुमं लच्छी, आवया तुमं, वा एवं फलमि' । तीए भणियं -
'इदुयं पि अलोन्तो नरव-महितं कइ वि(हं वि) जइ लइमि ।

ते उवहुंजसु चालप ! ओ दिहुं हुंचए अमयं ? ॥"

तेव भणियं - "अंभ ! य एरिमममयं तालउदविसं इमं न संदेहो ।

ता ओ जीविय-कामो एवं मणया वि चित्तेह ? ॥"

"मिहिमि न मं अपाणुय ! पवणुन्मव-वहु-पेह-मंवेधो ।

वाइस्सइ तमं नग्ग-रावणओ' नय विगोते ॥"

अइ तेवं सा भणिया' अ(अ)म्हा अम्भ वि ते मए भणिया ।

ता कइ इण्हि न चिय जायं भणिय्या सेवेमि ? ॥"

तत्रो जाणिय्या से निच्छय कओ महादेवीए कलपतो 'चोरो चोरो' चि । पच्छव-
"द्विय-सङ्खल्लद-वील्लो महिय-करवाओ 'धीरा पिए ! इस्सु' चि मणओ पचो मदिंओ
कइ वाचइल्लद-चरेहि । राइया भणियं - 'सुरे अविपासति मिच्छिज्जइ' । तेहिं भणियं -
'मइ ! अमयं ते, 'सुत्तसु वाउ' । तेव भणियं - 'न जीवन्तो सुपामि' । तो जाणिय्या
से नेच्छय कइ वि पुरिसयंइ-परिजुओ नीओ विविच-वेहे । पमाया जाणिया, कय
योम-कायं । एण्णे जण्णविओ' राइया । कुल्लज्ज य 'कमाइ-गुणे चित्तिवं नरवइया -
'अहो ! पिदिमो विज्जिपाणि विचिच्चाणि, केणोवविहा वि पुरिता उमय-लोम-विकडेसु
जीविय-संमय' निबंधमेसु महापुरिम-निदिएसु चोराइ-कजेसु वइंति' । तत्रो सवहुत्तायं
पुत्तिओ राइया - 'ओ तुमं ?' । तेव भणियं - 'इव ! कम्मओ चेवावणओ, कि
कुच्छाए ?' । राइया भणियं - 'अहो चेव कुच्छमि, लेय विविचं ते कम्म' । वंक्-

वृत्तिगा नितिषं - 'नृण सुभो महादेवीए ममुझानो, तेथेवं वाहरइ' भाषिऊण ठिओ तुम्हिले । राह्या नितिषं - महापुभावो सु एणो, न पर-पीडा-विरंधण भासेइ । ता मरु-बकेय बुळामि । 'मद ! किमेयं ?' । तेण भणियं - 'देव ! देसु महादेवीए ब्रह्मयं' । राह्या भणियं - 'महापुभावो तुमं, कहं ते पढम-पत्यण विव विकलीकरेमि ?; इचरहा नावायेथी ते इरापार' ति । चंकवृत्तिगा भणियं -

"अर्थनाश भक्तलय ग्रे पुष्पितति च । यद्यन ययसाज च मतिमान् न अकारयेत् ॥"

एंचवइ (एंच-वच)री-समाया हन्वीओ' जेण सब-भोजाओ' ।

ना कुण्यसु, मा रत्तसु, रमसु जदिच्छ महागाव ! ॥"

सविरचरे वटिए निप-वुनते महाजीवन-दाण-पुई ठविओ' सोवसु वि राज-निबंधयेसु 'झापयेसु । जिणवतेण सावएण सह जाया परम-मिची । तुहपमाहुणो मर्माहे भाष-सार गिस्राविओ' मम्मच-बूडो साहधम्मो साववधम्मो व । काउ-कमेण व जाओ अनपकुमारोवमो । ततो ति-वप-मंडिगामि जिणवटिमाहिट्टिवामि कारावैतस्म, बुमिणो पण्डित्तमितस्म, सिद्धंन-वचणाणि निगामैतस्म, जवमि-जवाव-वंसु-गुरुणो जम्मावितस्म, संसासासारचण भवेतस्म, सिदियमणसंयं पुंत्तस्म, टीण्यणाह-किमि(व)-वाइयो सज्जदरेतस्म, नवहा, किं बहुवा ? पवपणुनपो(इ) करेतस्म, वइ(वुह)अण-कांत-मिजं धम्मतर-काम-नगाई जीणलोच-सुहसपुइवंतस्म सवइंतो अणेओ कातो । अजपा विचारवपत्तापत्तेण गओ कामरुव-वात्तियो उपरि जताए । पणो तपुइंतं । जायमा-ओहणं । विनिओ कामरुवण-राया । चंकवली वि जाओ इहण्हातो । कपा वच-विमिच्छा । एता विषय-धामं । आवाइओ विचारधवमो । मेण्ठारटि वि विदसिया से वपा, चारइ वेजेहि कम्मं, न जाओ' विसेमो । क्रमेण व अट्टि-वम्मावि(व)सेतो जाओ । राह्या वि पुच्छिया विजा । 'देव ! वउत्ता तवे ओमह-वणा, किं करेओ ? एवर काक-पंसमेकं वेइइ' भणियो वेजेहि । तेण भणियं - 'अतमेवेणं' । राह्या भणियं - 'काऊणोयइं चापच्छेयं करेजसु' । तेण भणियं - 'पग्गुं ऊ)यं ति । 'कपाइ परमेवस्स जिणदचस्म वचणाओ' वटियजइ' भाषिऊण गामंतराओ' सदाविओ जिण-दत्तो । वहे आप-च्छेण निगामिओ' कनुण-नरो । 'अणे ! किमेयं ?' संजाण-संकेय उळाणत्तमाइविलपा-महाये मवालंकार-भूसिचं देइ देवेरेवया-उपलपं भुवीए उवरि वइंतं । ततो लिणेहिणो जाषिऊण देववाओ', भणियमण्येव - 'कीम रोवह ?' । ताहि भणियं - 'वाणमंत-र-वमपीओ' वचं, पुओ अम्हाए तातो । एणो व अठ-वाय-वाओ काम-संसं असायनो अम्हाए नामी इणइ । तुइ वचणाओ' व अठ इइ वि न्वाइइ, ततो अ(अ)ग्ग-गुरुदपणो संसारवपुवइइ । ता इमिया काण्येव रोषाओ' । तेण भणियं - 'महापुभावो न खोइ-अण-ममो, जो गुरु-वचणं व पण्डिइतेइ । व य अहं ति से अमिहिणं वप-विरुइं अगामि' । वणो जिणदतो, देहो चंकवृत्तिगा । जाया परम-तुट्टी । रापोवरोहओ' भणियमण्येव - 'कीम वेळाण वचणं व करेसि ?' । तेण भणियं - 'महापु-भावो तुमं गुरु अ, ता एणमि वडपरे पाहं एए किंचि वचओ' । जिणदत्तेण भणिया नरेदाहणो - 'महापुभावो एतो न वचं लोवेइ । ता खीरउ से पर-ओवहिणं' । 'एवं' ति

पट्टिपथे राद्या कथा से भम्मकथा । गहिपाणि सन्निसेसाणि अशुभपाणि । काराविश
 त्तत्र निचायपणेसु कदापरिया । पूरओ त्तिरि-मन्न-संयो । लो काऊय अणमत्तं
 पण्डनाय-सुह-परियाओ पथ-उमोकार-परो मरिउमोववओ सहस्तारे कथे महावे-
 माणियो तिपसवरो । पउणा अवहिवा सुणिय-पुव-भव वुत्तवो किंकर-सुर-दाविप-
 विवत्तिय-तिवम-दावओ देवे मणोरमे दचविहे भोगे कुंजिउमाउओ । पट्टिमियचंतेण
 उह वि(वि)व देवुओ' ताओ' पुणो वि जिणदणेय देवत्थिपाओ' रोपणीओ' । तेण
 भणियं- 'कीय रोवह ? न मए से काम-वंतं दिसे' । ताहि मणियं- 'अहिम-वप-
 न्दणाओ' उववओ सो वेमाणिएसु' ति ।

सुचदेवि-वसाएणं सुवाणुनारेण वंक्कलियत्त ।

" तिग्गा व(वि)सिह-चि(वि)वा णिसु(सु)मंतेो लहह त्तिव-नोक्कसं ॥
 ॥ वंक्कूल-कहाणयं' समत्तं ॥

मार्गस्त्रोत्रि श्रवहं पद् कर्त्तव्यं तदकुर्वन्मभिलक्षितार्थं न प्राप्नोति, इत्याह -
 उक्तिव-निय-कायओ सोस्सकथी तं सुह न पावेइ ।

" पासाय-वक्खिसयाए निदरिसणं वणिय-जायाए ॥ २०

[उच्चित-निय-कर्त्तव्य. सुखार्थो वत् सुख न प्राप्नोति ।
 प्रसाद-वक्खिसया निदर्शय वणिक् जायाया. ॥ २०]

कथमिदम् ? -

— [२१. कर्त्तव्य-करणे वणिक्-जाया-कथा] —

" वसन्तापुर-निवासिणा नत्तववाहेय सन-भूमिवा-विभूतिषं पायावं कारिउण भणिया
 जाया- 'एस अखंड-कुडिओ' वनेय पालेयओ' । गओ दित्ता-जनाए । तीए अशुदिर्ण
 प्हाण-विलेवणात्तंकार-मडण-भोयप-संवेतापरिय-पलोयव-वेण्डमप-ईसणाइ-सवहाए
 असारवेज्जेतो कालंतरेण निरदिओ पात्ताओ । विहदिओ सुयण-परियणो । पण्हो घर-
 सारो । सवहा पण्ह-संपया जाया कठणा-मंदिर । कालंतरेण च पत्तो सत्तववाहो । दिहं
 मसाय-सरितं वेहं । पुच्छिवा महिला टिपा तुण्हिका' । नादियं प्ती(रि)परेय जहा-
 'एपाए सुहाभिलासिणीए हाणियं माहं' । तओ' तं उक्खिउअथ पीवाहिवा अक्का इम्म-
 पूवा । तह विव अहं पासायं काऊय भणिया द्या- 'परणेण पालेयओ' । गओ
 विनायपाए । ततो तिसंसें पत्तायं दरियलं च पालेइ । प्हाण-भोयणाइ-वणियं
 अणया सुहमसुहयए । कालंतरेणाणय-वणिएणं परत्तच्छि निएउण कथा सवस्त
 " तामिणी ।

अतो नमर-जहा सुहाभिलासिणी निगव-क्खपवमकरेवी पणिय-महिला सुहाय
 युक्ता । एवं साह वि निपव-कायवं पनायंते इह-व-लोग-सुहाय युक्क । वो पुण
 साह(ह) कायवं युक्क, सो सुहाय-महिल इ सुहं पायइ ।

सुबदेवि-पसाप्य सुवाशु'कारेण सादिव चरिष्यं ।

इमन्-चहिल्लण फुड मोऊणं तंजमं कुणद ॥

॥ इन्ममहिल्ला-कहाणय 'समत्त ॥

गुरोर्वचसि शिस्तान्ता गुणोऽन्यथा दोष इत्याह -

अकुर्णता य कुर्णता गुरुणो वयगाणि दुस्सिक्खा सुहिया ।

जायति मरा लोए निदरिसण राय-पुरिसेहि ॥ २१

[अकुर्णताय कुर्णन्ते गुरोर्वचनानि दुःशिक्षा सुशिक्षा ।

जायते मरा लोके निदर्शनं राजपुरुषं (य) ॥ २१]

अकुर्णन्तो गुरोर्वचनानि दुःशिक्षो भवन्ति, कुर्णन्तः सुशिक्षितो जायन्ते । अतो गुरु-
वचनं कर्षण्यम् । कथमिदम् ?-

— [२२. गुरुवचन-कर्तव्ये राजपुरुष-कथा] —

धर्मवद्गुणे नपरे सुमेतालो महानरेंदो । मो य चउल्लाहिवरुषो सुसेगस्त उषरिं
पपट्टो । महापल-ममुदएणं वनान्पल्लं सोऊण अचहुण्णं पपट्टो सुसेषो महासरर-
उडाम-हुव-यावि-निह(उड)उ-उल्लामि सुविमामि करेणो खउ-हुउ-व-तेह-गुड-
सकराईमि य । कमेय य पचो उमुहेल मगतनरेंदो । पय मंध-उस-फामाईहि काणिऊण
विम-भाविपामि उल्लामि पोगाविणं उंउउचरे 'एणंविउ-उिमाणि नीराईमि परिह-
पडामि' चि ।

राय-वचनं करेता विम-अय-यापामि उल्लिपं(उ) सुहिये ।

जायत पिसेवमाणा अकरेता दुस्सिक्खा सुमिया ॥

एवं गुरुणो वचनं कुर्ममाणा होति चाणियो सुशिया ।

न करेता पुण दुहियो नमहा अरेल्ल गुरु-उयण ॥

सुपदुवि-पसाएणं सुवाशुकारेण राय-पुरिसाण ।

सिहुं विसिह-चरिणं सोऊणं कुणद गुरु-वपणं ॥

॥ रायपुरिस-कहाणयं 'समत्तं ॥

तस्माद् गुरु-वरिणो न कार्य इत्याह च-

गाहिञ्जता नार्णं जे गुरुणो परिहवन्ति दह-मुहा ।

ते इद-सुय-सरिञ्छा हउणेषेजा हुति लौगाणं ॥ २२

[श्रापमाना ज्ञान वे गुरुन् प्राश्नन्ति दह-मूहाः ।

ते इन्द्रमुत-सपका इमनीया वचन्ति लौकानात् ॥ २२]

कथमिदम् ?-

— [२३. गुरु-परिभवे इन्द्रदत्त-सुत-कथा] —

अथि भरहृदवासे वि(सि)न्वय-विष्णवं इन्द्रं नाम नमर । जि(त्र)य-सच्छि-कृत-
निकेयम् इन्द्रतो गवा । चञ्चिह-बुद्धि-समद्रामिभो अञ्जकृन्मारापुगारी से मती ।
राष्ट्रो य इष्टुयं कंठम् चावीमए देवीगं चावीसं पुत्रा । अमे मयंति-इषाए शिव
सुय चि । अञ्जया मतिषो भूपं पुष्कजयं(रु) निष्कज पुच्छिभो रहस्त्रिय-नरो राह्या-
'कस्मैसा ?' । तेष भगिषं- 'देव ! एसा मंतिषो इहिया, तथा तुमए बीमच्छिऊलो-
न्निवा' । संज्ञायापुराणेण य देवो से रामभो । मञ्जुप्यमो मञ्जो । पुच्छिपयए य सिद्ध
मंतिषो राम-निष्ठिणं । स्थिषिं पचए । पच्छिभो मञ्जो । संपुत्र-समए सवीमहि-विस्तुह-
दियहए पञ्चा एसा । जाओ से दारभो । अटिषं सो जाओ, अटिषं च जायामि
पचारे दान-रूपाणि । पच्छि(इष्टि)यं दारयस्म नामं सुरेन्द्रतो, दासरूपाणं अभिषयओ,
पचइओ, पचुली, सञ्जयओ च । जायामि कला-गहण-ओम्याणि । मंतिषा य पञ्ज-
परए सोहण कुचार भगिषो' लेशपरिओ' - 'तदा कुञ्जसु जहा अणय-सरिषं विद्यामं
कलाओ य मेवह कुमारो' । तत्र इष्टय य मह दासरूपेदेहि मदिपाओ' कलाओ' ।

मषहर-कलाभिरामो मंतिहो जगिय-अण-मषामंभे ।
इहय-दिष्टि-चारो संपुत्र-नति व सो जाओ' ॥

तदा से वि चावीसं सुत्रा सङ्घचयिषा लेखपरि(प)त्स । तस्म चि ममं माहंतिस्म चि
अओम चि य मेवंति, अंवाहिया य उपञ्जाएय ति । उक्तं च -

'कालनाद् अहो देवसञ्जानाद् अहो मुञ्च ।
तस्माद् एव च मर्या च तद्व्येक च तत्त्ववेद ॥'

ततो से लसीकाऊण अणपीयं माहंति- 'उपञ्जाओ अमो अंवादे' । ताओ मयंति -
'चि सुलहाणि पुत्राणि अम्याणि ?, देव कुमारे अवादेते' चि ।

'उपदेते ति नृणां प्रणेणव न शान्तेय ।
मय एव मुञ्जाना केवल रिप-वर्द्धनम् ॥'

ततो जगयि-जगयाइएहि 'उवेनिस्त्रवा, लेशपरिएण अक्षिष्यविषा पचइ-विष्णवा
समरय-अण-इसगिता जाया । इओ य, मदि-रमपी-पूहामणि-भूयए महाराजुरीए
जियससु राया, रह-संज्ञाया निष्कुरे नाम भूया । ता य संपच-ओकय-सवालंकार-भूषिषा
गवा चिउपो संदयत्सं । विमय-मुमापत्रिएण य भगिषा जगएण - 'पञ्जे ! मेवहसु
वहासहं च' । तीए भगिषं -

'कृत-रुव-वभि(वि)प-ओकय-कला-कलावेहिं जो ममं विषाह ।
परिमलया च पचइ से नाहो नाच ! से होउ ॥'

तेष भगिषं - 'एयं करेसु । को पुत्र मयतिमो होजा ?' । अहया मंति इन्द्र-
वासिषो इन्द्रदत्तस्म चावीसं सुत्रा । ताम इकं वरेमि चि चैरितीए भगिषं(ओ) अणओ
'पचवेसु इन्द्रुरे' । तेष चि महाविच्छिष्टेय पैसिया तत्र । सुवं इन्द्रयेण महान्दे-भूया
मम कुचाण संपचरा आगच्छइ, ता पचयो ई सेच-राहंयं । कमेय य पचा एसा,
काराविषयुसिच-पदाय-चमर । बहु मभिषा राह्या । कपे अहारिई कापयं । वितिय-
दिकसे उम्भिया राहा । जो एयं विषइ, सो ममं परिषेइ । तओ महारिदि-समुदयं
विमयो राया सह चावीमए लयएहि, सेमल्लोगो य । भगिषो' पदमसुओ' सिरि-

१ क. '७ । २ इ 'मिषं', क 'पचवे' ।

शक्तिशायो - 'बन्ध ! इयं गार्हं वैधेय्यं वेष्टसु महाविश्वेभ्यः सह निन्वुर्ष मम संतिषं
रत्नं तादृकारं च । तयो तमत्त तदुष्ट(श)/वस्तु मज्जे संसोद्रेष्य क्व क्व वि बहिर्ते
कालवर्द्धं अरोविशो सरो । वचत जल्प वल्लय चि कुव-दिगाए पनिल्लनो, वन्तिव्याए
वशो' । वित्तिएष धनुवर चिष जारोविषं । उदपस्म य मत्संके कर्तुंउत्सा सुद्विओ
सुयो । जन्मस्म पुष्पकस्त-नारण वनो पदम-वडक(चक्र)ध्वंतेरे बावो वि ।

अवि य - इय एवं विमुना मजे वे वरपस्म निप-तमया ।

रावा नि सोप-वित्तुरो वेहि कओ पाव-तमपहि ॥

इत्यंतरमिन् अवसर जाषिउज्य भविष्य मरिष्या - 'देव ! उल्ल भोगेण, अविष अशो
वि मे तमयो, नो वि वरिक्किउउ' । तदथा भविष्यं - 'कनो अशो ?' । तयो
संवन्धत-अपय-विउ-माय-वकप-वायम-वृहुत-रमित-हसियाइवहि विमुषिओ सुयो ।
तदथा भविष्यं - 'अचि आयेसु' । महुउपीओ संतिगा, निवट्टिओ विउपी वाएसु । केव
वि सुअ-सिमेहेण वहु मन्निउज्य भविओ - 'बन्ध ! विधेउज्य राद अरयेसु कलकं,
वेष्टेसु निन्वुइ सह रजेण, उजोरसु कुल-वेदिर, आत्मासेसु वंशुवये', पूरेसु मज्ज
मयोरदे' । 'जं महुअओ अज्जेदे' मन्तेण नशेवाहि-विमुइ मट्टिए सरास्य सह
मावयेण । रयं उअयं, आगेविषं कलवर्द्धं, संधिओ मरो, आयड्विओ कर्तं । उअय-
पासेसु डिवा दोमि कववाल-वावड-काग पुमिमा । सहवट्टि(ड्वि)वापि चचारि वि वेडय-
रुवापि अमिदम(दव)ले । ते य चारिण कुमारा मोउउठ-अपयेहि विदंति । उअज्जाओ
पस-ट्टिओ मयं हाए - 'उउ चोकिदिमि, वा एने कववालेन(य) सीलं लेदिस्संति' ।
तयो सवसु(व)हनमयाउज्य, निवड-वे(दे)ट्टिया उमिउज्य-उमसेण अट्टुई रह-वचार्ण
परओ डिवा विदा नामअन्दिमि पीउड्विया विवट्टिया परपीए चि ।

वंसुअभव-गुण-समय-धनुषो वायेण वाट्टिया राहा ।

कुमराओ विव वम्मह-वायेण निन्वुई चैव ॥

उच्छलिय-कलपले विपमिओ सादुकारो । अय-नवाविष बावहेहि । ममादपाणि
आन्वे-सुराणि, अउरिया असंल-संका । इरिसिओ मया । परिउट्टो नेवरि-अयो ।
उरीभूवा मनुषो । दिमा वरमाळा, पडिच्छिया वेणं । तदहा पाविष्यं सवं वि
समीहिषं सह निन्वुइए चि । अवि य -

'विश्राम-गुण-विहीणा वट्टया वि न देति निन्वुई पिउपी ।

विश्राम-गुण-मण्णो सुस्सिद्वो व नं देउ ॥'

इ(अ)ओ मग्गह - जहा सुह-वडिक्का ते कुमारा इरमिउज्य आथा, एवमण्णे वि ।
तदा सुक्य पसायाविमुहेण होवर्ष सुस्सिद्वेणं व ।

'सिद्धंतेमि पसिद्धं दुदओ' वयणं वि इत्य दापंति ।

नेन्वुइ-मरिसा सिद्धी सुस्सिद-कण्णे कुपी भमिओ ॥

दास-रुवाणि कन्ताया नरनाह-सुया परीमहा सवे ।

ऊवाल-वावड-करा राम-दीना ममवस्त्राया ॥

उज्जाओ आयणिओ रादा-वेहो वि संवमो सुदुमो ।

इय एवं ओद्वज्जु सुवापुमारैण सवं वि ॥

मुपदेवि-स्नाप्यं मुपापुमार्येण साहियं चरियं
इददचस्त मुपापं विमुपंतो निचुरं चर ॥

॥ इददच[=मुप-]कस्नाप्यं 'समस्तं' ॥

गुरु-श्रुत-बन्धेन च कोपो मरवेऽपि न कर्तव्य इत्याह—

मारिज्जंता वि द्दं कोवं न कुपंति मुणिय-जिज्जवयणा ।

मेयज्जो य महुरिसी अहवा दमदंत-साह व्व ॥ २३

[गार्ग्याया अपि रज कोप न कुर्वन्ति मुनि(ज्ञान)-जिज्जवचनाः ।

मेतार्थ इव नद'परियना वमदन्तसा-पुरव् ॥ २३]

मात्तार्थस्तु कथानकमप्यः ।

— [२४ कोप-निषेधे मेतार्थ-कथा] —

साफेते चंदवहेणवस्म मज्जा सुदंमणा तीए ।

साभरचंदो पुत्तो विडओ मुनिचद-नायो पि ॥

पियदंमणा वि विईया पुषा से बालचंद-मुमचंदा ।

पदम-मुओ पु(ज्ज)नराओ उज्जेणी-नामिओ इइओ ॥

इयेण-आमिणीए काउससग्गंमि संठिओ राया ।

चित्तेइ 'जाइ दीवो जलइ मए वाव टायव' ॥

'अभारे' इक्खेणं मा नामी टाउ' चित्तिर्येतीए ।

पज्जालिओ पदंयो वेडीए मज्ज-राव(इ) पि ॥

ऊइसुकुमालो राया पण्णे दिवय-सट्टिय-जिज्जिदो ।

मरिज्जये तंपचो सुरमुदरि-सकुळं 'सग्गं' ॥

-साभरचंदेण ददं भविषा पियदमणा पिय-मुपापं ।

मिण्हादि' अच ! रजं पज्जं जेण हं करिमो ॥

'अममत्था मे तवया त चिय पालेसु' तीए भविषंमि ।

पडिदम त रज इदुयं तस्स जवलांमि ॥

चित्तेइ 'एण सण्ठी आचच्छंती मुपापं' पडिमिद्दा ।

एण्ठि कत्तो एणा साभरचंदंमि जीवंते ! ॥

उजाय-ट्टिय' छाव्हात्ताव कज्जमि वेडि-इत्वंमि ।

पट्टिविवं वएणं ददुपं मोदयं मणइ ॥

को एणं साहरसाइ ! वेडी तं भणइ साभरमिचंको ।

पिस-भाविच-इत्थेहि ताहे मो लोत्तिओ तीए ॥

वेडीए उवणीओ राया वे देइ लइव-आऊ-

ते वि थ मुचे पडिपा धरणीए पिस-विपारेण ॥

जो सुन्दर-चिचामं पावं चिह्नैः पदद्वयं तस्मैव ।
 उह तीर्णं क्षिप्यं पुना पदिया न यं सागरमिच्छन्तौ ॥
 संतोषहेहि तस्मैव जीवामेक्यं पुच्छित्वा वेदी ।
 'पिय-दंश्यापु लुच्छितौ' वेदीणं साहिपं एषो ॥
 नरनाहेणं भविषा देवंतमभिच्छिद्यन् रक्षमिषं ।
 अक्षय-तवो पवित्रतो संसारे अयं ! क्व इच्छिं ? ॥
 ताहे क्व-कायवो तीर्णं पुचात्प विच्छिद्यं रक्षं ।
 निरुत्सवो नरनाहो जाओ कालेन गीयन्तो ॥
 उज्ज्वलीए पचो सुमिषो यो भण्ड 'निरुत्सविवि' चि ।
 वेदि वि भविष नवर गय-सुओ मंति-तयओ' य ॥
 पाहेनि यो वि तस्मैव-तपयो तत्त्वं साकथो भण्ड ।
 उवण-कुलापि उ साहह विनयं हिंतामि तयमेव ॥
 'एषं नरिन्द-मेहं सुत्तुषं भण्डसु' जंविषं सुमिषा ।
 यो वि य तत्त्वं पवित्रो महया तदेण उल्लसद ॥
 नुरिषं वचसु एचो भविषो' पडिमयह गय-महिच्छओ' ।
 किं भण्ड साविषाओ' ? अहय य सुमेमि कण्ठेहिं ॥
 मोऊय य से सई अवपरिया दो वि तं सुवि पेहु ।
 उवरिम-भूमि पचा पचसु भविषो' सुवी भण्ड ।
 'भापह सुत्तुषे' एषं पडिमये पवित्रं तयावचो ।
 एषारिष-मेएष पसुत्राल-सुवाप नरिसेव ॥
 किं नचावेह ममं ? लुका उहु(डा)रपा हुमाग से ।
 तेण वि य चाडिऊवं विओरपा सप्त-संधीसु ॥
 ताहे माहू पचो उजाये ते वि पुच्छपा रचा ।
 पंचोत्तमुर-सरिसा नवर अचछीणि चालंनि ॥
 को पुष निरुद्धकुनतो सागरचंडाउ ? जेव एव तु ।
 एते कया उ सिद्धे गया माहु मवेसंतो ॥
 संवचो आपरिषं तेण वि सिद्धे 'न अहं वे मेहं ।
 नचामो, अहं नवर पाहुण-साहु वओ' होआ ॥
 दिहो रचा माहु लज्जि-वचमेव वंदिपं(टं) भविषं ।
 'सुत्तुषु पचापं इच्छिं कुमराणं जीव-दामेव' ॥
 जोष चिय चंडवदंसयस्य पुचाग माहु-उवसम्मं ।
 कागवेउ ! सुमिषा सरदिओ परि(ह)म-भिराहिं ॥
 जह पचपति तेमि मोक्खो अहं तय सेपण कचि ।
 पचावेसु पल्लव नरपत्त्या साहुणा दो वि ॥
 पचाविऊम सिक्कण अंतण साहिवा तओ' एचो ।
 विण्णइ सम्मं दुदओ' दुग्गंउए मंति-वचओ' चि ॥

मरिऊयं संपचा दिव-लोगं ते करेति संकेपं ।
 जो उववत्तद् पदमं तियसेणं चोहि(ह)णिओ सो ॥
 रायगिहे मेईणं यन्मे जाओ' दुगंल-कंमेण ।
 मंति-सुप-देवजीवो गहिओ' सत्वाह-परिणीए ॥
 निद्द दाऊयं निय-धुयं मेयणीए वायण्यं ।
 पुवं चिय संपीई आसि तओ एरित्तं विहियं ॥
 पाएसु मेइणीए सत्थाही पाडिऊय तं बालं ।
 तुज्ज पमाएण इमो जीवउ मेयज्ज-नामो वि ॥
 देहेण बड्डिओ' गो कला-कल्लवेण पुभिम-ससे(सि) व ।
 सु-भणिओ' वि न बुज्जइ चीणहि-जुओ जुवाणो व ॥
 इक्क-दियहंमि तेणं इब्भाय अद्द कम्मणा वरिआ ।
 सि(सि)विया-रुडो हिंडइ ताहि तमं नयर-मज्जंमि ॥
 एत्थंत्तरमि तियमो मेयं अणुपविसिऊय निय-महिळं ।
 रुडो अंपह — 'मज्ज वि वीवाहो एरिसो होतो ॥
 ता किं कीरउ ? अं मे धूया देवेण मारिया तइया' ।
 सो मेइणीए भणिओ' — 'मा इरसु, एत ते पुत्तो' ॥
 सिवियाए तं वेचं किह असज्जाईउ परिणसे ? पाव ! ।
 भणिऊय पुणो इडो सइए दुइपुगिसु व ॥
 देवेण पुणो भणिओ' — 'संबुज्जसु संपयं वि' सो भणइ ।
 अवणेसु कलंकमिमं सेणिव धूया विवाहेव ॥
 रयणाणि वोत्तिरतो दिओ छगलो सुरेण मेओ' वि ।
 वेणुण रयण-थालं नरवाहं भणइ- 'निय — धुयं ॥
 मम पुत्तयस्स देहि' सि पुत्तिय मेयं ति जपिर-वरेहि ।
 'मेततो(ओ) अविणीओ' अणुदियहं कुणइ एमेव ॥
 'नरवद्-धूया-परिवत्थणम्मि कओ इमस्स साम्पत्वं ? ।
 रयणाणि नत्थि न्णं ता दिव-विपंभियं एयं' ॥
 चित्तितेयं पुट्टो 'कओ रयणाणि तुज्ज ?' अमएणं ।
 तेण वि कहियं 'छगलो घर-ड्डिओ वोत्तिरेइ' चि ॥
 जइ देसि त्वं दिसे राय-वरे असुइयं तु सो सुपइ ।
 णीओ' मेयस्स वरे पुणरवि रयणाणि वोत्तिरइ ॥
 'तित्थयर-वंदणत्वं वैमारगिरिस्स विपयइ-रह-मण्णं ।
 सोवंणिय-वागारं पुरस्स तुरियं क्खावेसु' ॥
 तेसु कएत्तुं पुणरवि 'समुद-वेळं इहापिउं ततो ।
 ण्हाओ' विमुद-पाओ' वरेइ-धुयं विवाहेउ' ॥
 एयं ति कइ ताहे उन्वुदा रायकम्मणा तेण ।
 तादि य अद्दहि सहिओ' भमिओ' नपरे विभूईए ॥

भूमिजो' व सुरो तेषं वारस वासाणि भूमिभो जीने ।

तेहि मरहिं वृद्धि वि एवईत मन्मिजो' कातो ॥

निजिम-काम-भोभो काहिं ममे सो महारिभूईए ।

निजसंतो भेषजो जाओ' कालेय मीमरवो ॥

सो वपवुद्धी भयवं पढिम पडिवज्जिज्ज विहरजे ।

राजमिहे संपचो निजसद्धा झरप-पेईमि ॥

सो अहुसवं सोवम्भियाम तवपामं कुणहु(इ) सिमंसे ।

सेणिय-जिणपूपा-कारणेव विदमइएए तंमि ॥

कोचेण ते विमिल्लिया नीदरिजो' पुच्छइ सुमिं एतो ।

कोचप-दपाए साह व साहए तेष ते मिल्लिए ॥

तह भूमिजो झरणं सीलं पदेय वेदिप जह व ।

अच्छीमि भिवदिपाइं समवं नीसेन कम्मेष ॥

कहु-मएणं गिलिए कोचेणं ते अवे पीएअण ।

निंदतो अप्पाणं सोभातो सेणिय-भपाओ' ॥

सकुहुंभो पच्छजो नरनाहो भयइ सुमिपखो ।

तवो शम्भेषं ते अहुसु भूमिजो' सो राज(इ)या एवं ॥

सुपरिण्णारियं काहिसि इहा ने नत्थि जीविचं नियमा ।

भेषजो वि महरिसी संपचो मासयं टापं ॥

सुपदेवि-पसाएणं सुपासुसारेण माहियं एवं ।

संखेवेणं पुण वित्थरेण उवएममाहाए ॥

॥ भेषज-कस्त्राणयं' ससत्तं ॥

— [२५. कोप-निषेधे दमदन्त-कथा] —

अत्रिह इहेव भरहइवासे निरुणम-सुपविह(मपि)-निहाणं हत्थिसीमयं नवरं । रायसच्छि-
रकिय-टाणं दमदंतो राया । तस्स प रायमिहे निय-सामिमो जरासंघस्स त्थीवहु-
गवस्स त्थो गपपुराओ' जासंत्थ पंचदि वि पंतवेहिं विपासिओ' से विसओ' । एवा ॥
गपपुरं । कालकमामप-दमदंतराया वि सुमिय-सुवंतो सपल-वाहयो एतो गपपुरं,
तेहिं सवंता । मय-वीया य व वेत्ति पंतवा । भवाविवा दमदंतो' ति । अदि य -

“केसरि-सुखं च [त्थं] गवो थिय अहिदवेह किं चोत्तं ? ।

केसरिया सुव सुवं न कइ दहुं वि मरओ' वि ॥”

स संपयं पि नियहुत्ताविच्छिन्न-महावटस्स मत्ति-कोथा ।

वा होइअत्थिअ-जीविअ-विहवाइ-अएण भो ! सुवये ॥

इय एवंविह-नयवेहिं मयमाया वि जा य ते वेत्ति ।

काहे सो निय-पुरं संपचो कपि दमदंतो ॥

अस्यया य पृथिव्य-वर्चसि परिपालित-सावक-धम्मो अनुभूय-तिवन्मा-सुतो परिपालित-
 वेदस्यो पद्य-यय-पुरिषामो सुमित-जहृद्वि-विमिद-वयसो पृथ-विष-संघ-साहृगो
 विम-महादागो सवहा तकाहापुम्ब-निव(वा)चिपासेम-कल्पयो महाविभृष्टे चहास्वायं
 वेरायं समीचे पद्यओ' दमदंतो । गहिया दविश स्रेफ्हा । जाओ' नीपत्यो । कमेण य
 पठिवज्जिऊग एगल्ल-विहार-पडिमं विहरचायो पचो मयपुर, ठिओ गहिं काउम्भ-
 न्नेण । नगराओ य नीहरतेहिं वंदिओ' भाव-मार जुहिद्विजाईहिं पंचहिं वि पंडवेहे ।
 नीहरमणस्य जुओदयसस सिद्ध पुपियेहिं णम मो दपदंतयाया सुणी संतुवो ।
 रोसाऊरिय-मायसेयं पद्यो' माउल्लेयं, सेम-दायकेहिं कओ' पत्तव राखी । पठित्ति-
 यसेयं वं साहृमपेच्छंतेण भयिं जौहिद्वित्तेय 'कथ मो महिसी' । सुमित-वुसंतेहिं य
 "पठित्तिं पुमितेहिं - 'देव । एव कत्तव-गामी जुओदयेय कओ' । तओ संवाह(व)-कल्ल्या-
 सणं अवणेऊव पत्तवे अवभंगिओ' तेहेण, अवणेऊव वेदयं धामिओ' भाव-मार ।
 पच्छा हवीकओ दोओहणो - 'आ ! पावकम्म ! कपय ! कुल-कलक-भूय ! एपा-
 रिमाणि इह-पर-सोग-विरुडामि करेसि !' ।

अतो भद्र - जह मेचज-दमदंतेहिं कोवो न कओ, तथा कापयं ति ।

" सुयदेनि-य्माएणं सुयत्तुनारेण माहितं एयं ।
 दमदंत-महारिसिणो भावतो जहृ सिप-सोषय ।
 ॥ दमदंत-कम्पाणयं' समत्तं ॥

कोवरहितश्च हुनीनामनुकम्पा-किपया देवत्व प्राप्नोतीत्याह च -

अणुकंपा-किरिषीए जइणो वचन्ति देवल्लोसेसु ।

" जहृ विज्जाईण सुया वेयरणी वानरो जहृ य ॥ २४

[अनुकम्पाकिपया यतीनां भवन्ति देवल्लोसेसु ।

यथा वैशादीनां सुता वैतरणी वानरो यथा च ॥ २४]

कथमिदम् ?

— [२६. यत्पुनःकम्पायां वेद्यादिसुत-कथा] —

" वासे महाविदेहे धरणीयल-मंठियंमि नगरमि ।
 पयवीयो विज्ज-सुयो' जाओ' अणे य चचारि ॥
 नात्ताह-सिद्ध(हि)-मंती-सत्त्वाह-सुया य एक-दिवसंमि ।
 जाया पंच मि इतो(एने) वहुंता जुह्वं यत्ता ॥
 संपय-तिवन्मा-सुहा अवकम्प-गहय-वेह-पठिवज्जा ।
 निवसंति लोम-हिणए अस्खलिया मयय-वायो(ण) ॥ ॥
 वेज-पामइमणहिं किमि-कडोवहुयं गुणि वहुं ।
 जंयंति विज्ज-तययं 'द्वयस करेसु वं किरिषे' ॥

कंबलरथं गोसीम-चंद्रं मय-सहस्र-पानं च ।
 एतेहि तत्र कलं तोहं मम अरिष सेनागि ॥
 मोह्येन मिथ्यामो दोलक्ये मिथिलय ते पत्ता ।
 बुद्ध-वर्षिणो समीपं सो जल - 'भगव, कि करिणो ?' ॥
 कंबलरथं गोसीम-चंद्रं देसु दोहि कम्पेहि ।
 सो पुण्ड - 'कि काहिह ?' भगिबधिं तेहि - 'सुणि-किरिपं ॥'
 'अहो ! कथा एते जाय समन्थाग जोवणत्याय ।
 धम्मि थिय मलय-मई, मम पुण मये वि या न्हा ॥'
 इय भाविऊय तेयं ते भगिया - 'कुण्ड माहुणो किरिपं
 पेचुम ओमहाचं धम्मो थिय होउ मे मोह ॥'
 दाऊय ओमह सो सामर्थं पाळिऊय संपचो ।
 निहाणं वे वि मया मओमहा माह-सुत्तंमि ॥
 अम्मंगिऊय पदमं कयनरपणैय पाठओ' पन्हा ।
 'चंद्र-ससेय सिणो' एकेकं तिथि वाराओ' ॥
 संतोहिमि-सूरीए कय-मिने तं सुणि कोऊय ।
 संपच-सिदण-सुहा सचथा अण्णुर कम्पे ॥
 इय संखेवेय हमं विऊय-सुवाय साहिपं चरिअं ।
 विश्वरओ भगियमिय उण-ममाल-कळाये ॥
 ॥ वेळाइसुय-जणाणपं 'समत्तं ॥

— [२७. पञ्चतुकम्पायां बैतरणिवैद्य-कथा] —

चारवईए जगरीए कळदेव-वामुदेव-रायाणो । तत्र च महाम-परिणारा दोधि
 शाल-विजा चक्रंतरी बेयरणी । चक्रंतरी माहुई पुण्डिओ साहु-वाओ म्हावि मज-
 वंसाईए(वि) उववइ । साहुई भगिओ - अम्मकसमेयं उईय । तेण भगिपं - 'कि मर
 समणगामं कए वेऊपमहीपं ?' । बेयरणी पुण साहु-पाओमगामि काहुवामि कहे,
 निपदहं च देइ वि । अक्या ममोमरिओ तिलोक-वृद्धानणी अरिहुनेसी । पुण्डिओ'
 कपेदेय - 'अपवं ! एते महाम-परिणारा अणेगाव पसु-वक्कीयं मारव-हेउणो कपो
 उववअस्सन्ति ?' । मगरच भगिपं - एण चक्रंतरी असओ मओ सपणो सच-पुइसीए
 सपमि । बेयरणी पुण काळिउर-वणिणी[ए] गंगए महानईए वंज(विह)स्य च
 वंजले वानरी भविस्सइ । संपच-वपसो य सपदेव जुई वदिमअिऊय साहु-सत्थेय
 वद कइकइ-विहारे सुणिय-जिन-वपण सल्लिय-वग्गं कससासच वंदिह-वपे वेवप-
 नि(पि)पुंय साहु दहुण सुमरिय-आइसरणो कससण-ववयाणिय-सल्लेइएवि-संरो-
 णि-सूरीई तं पचवेऊय कय-भन-परिवाओ पंच-जयोवण-परो सहस्तारे उववओहि
 वि । काळंतरेय एवं कए उववओ सो तत्र वानरो वि ।

१ इ क वि । २ इ क वि । ३ इ क ज पम्प ।
 पं ११

अजो' मन्त्र-जहा तेन सुधीयमशुक्रंया-किरियाए देवलोमो वचो, एवमजो वि पाय ॥

सुपदेवि-पसाएयं सुपाचुनारेण साहिवं चरिपं ।

संशेनेण महत्वं वित्तरओ' सुपसु सिद्धंते ॥

॥ वेयरणि-कलाणयं 'समस्तं ॥

२

'दुपमायां च परमार्थवेदिनो मिथ्यात्वं गच्छन्तीत्याह च-

भाखिय-जिग-वयणा वि व दुसमकालंमि जंति मेच्छत्ते ।

जह अज्जसादसुरी विबोहिओ' चेह-सुरेण ॥ २५

[भावित-जिन्यपना अवि च 'दु पमाकाले पान्ति मिथ्यात्वम् ।

वयाऽऽर्थापाहसुरिविबोपितश्चिह्नक-सुरेण ॥ २५]

— [२८. दुःपमा-प्रभावे आषाढसूरि-कथा] —

कथमिदम् ?

इत्यत्र सन्निवेशे सुचरुच-तदुभय-विदम्बुयो संवविहायार-स्या इमविह सामायाती-
परायणा अयेम-मन-सीन-रविवासा अज्जासाशचिहाया इरियो । ते व जो जो साह
कालं करोहे, तं तं आलोपणायमन-संन नमोकार-समाहि-अयण-पुबवं मर्षति - 'अवस्त
व्य तियसेण होयव, जेयेवं जिग-वयणे पदिवज्जह -

"अविदहिम-सामजस्त जतुणे साजकस्त य ।

जतुणे सोदमे उक्कामो मवितो'ओ' देलोक-वसीति ॥"

ता तय आमेतूय व निय-रुवं दरिसियण्वं । इयं पदिवये अयेमे निजामिया ।
इमेहि व कारणेहि व न कोद आमओ ।

"सकल-दिव्य-येण विसय-एतत्ता समस्त-करलया ।

अमरीण-मणुज-कज्जा वरमयमनुह व इति सुट ॥"

अथवा अर्चन-बल्लहो द्विओ' चिह्नओ' अवनये । पुगरुवं च भवियो' एतो-'तय नूनं
आर्गकवं' । पदिवज्जिज्ज विदिना मजो समायो मजो देवलोमं । तो वि जह चि[अ] न
आमओ' । तओ वितियं इरिया - 'इलं ! सुंदर नाहिय-वाइया संरुवं जहा-'न देहाइ-
रियो पचमहाइया पनायेन जीयो चिण्व' । जह दुम पेयेज्जहो जे एने साहुयो बोलीया,
याव मज्जाउ अर्पंज-बल्लहेगावि पुवरुचमप्याहिएण चिह्नएण वि व दिवं दरितवं;
ता मूयं नरिय परलोम-सामी जीयो । तंमि व अर्पंने दूरोबाओ' परलोयो, निरत्वचा
बाण-दया-चन-भाषयाइयो । वंचिओ' य एचियं कालं जं योगा व सुचा । अहुवा वि
इजामि, अहाहि एरोण-विरुदेहिं सवेहिं वि दरिसवेहिं । साधु पेदहुच्यते -

‘श्रिया-दर्शनमेवमु जिमन्तैरेवेनान्तैः ।

प्राप्ते तेन निर्वाणं सरणेणमि वेदना ॥

सीमुद्रा ह्य-वेदनाय महती सर्वाय-सम्पत्काम्,

ये मुदा प्रविशन्ति यन्ति कुपियो मि-अन्तरायेण ।

ते तेनैव निवृत्त निर्भयत सर्वकृता मुण्डिता,

केचिद् पञ्चनिर्वाणकृताश्च जटिनं नापलिशस्त्राणे ॥”

संपहारिण्य नद्विष-दन्वलिगो पदाविभो’ एहाए दिवाए । तहाविह-भविष्यन्वयाए ष
ओहिषान्णोवञ्चोम-द्विषय-चोचंती अयपिञ्चो’ वेह्वन-युगे । पंयमि विउवी(वि)ओ’ नानो,
हपं पिच्छमयं । तं च पलोपंतस्स यमिओ दिव्वाशुभावेण तन्हा-दुहाइ-जयिपं दुक्कल-
वेपंतस्स पोलीणा उम्मात्ता । तओ’ उपसंतंहरिण्य ष पेच्छणयं विउद्विया सव्वालंकार- ॥
विभूत्तिया पुदविकायाहो । दिट्ठो मन्वालंकार-भूमिओ’ पुदविकाय-दास्यो’ । ‘अओ ।
इमस्स आभरथेहि जीविस्सामो’ थिंसेओ मिथिउत्तमत्तओ । तओ’ जयिपं इएण-
‘मयवं । सुवेत्तु काव अक्खणयं, पुणो अहा’-इएणं करेअसु’ । एओ कुत्ताओ नद्विषाए
सोत्तात्तएणि कात्तए अण्णायं जीवापेइ । अण्णया पुदविं चणंओ तदीए अकंओ मणइ -

‘जेण भिक्खु मत्ति हेमि जेण पोत्थेमि नामए ।

सं न मही अहमइ जाय एएणओ मइ ॥”

एवं लहनाइ-मयाए भवतं मरणमागओ जाव तुमं थिय चो-काइं करेसि ! ।
‘अय(रु)पंडिओ मि वात्तए !’ मणंतेण वेणुभाइरण्णयाणि उट्ठामि पडिग्गहम्मि ।
पुदविकाओ चि मओ ।

‘आउत्ताय-दारओ’ वि आउचो । तइ थिय अक्खणयं कइइं पनओ तहा पाउत्ता- ॥
शिराणं त(ता)त्तापर मंचसुचरतो उवरि कोट्ठोइएण हीरतं पेच्छिउत्तए जणो मणइ -

‘अहुत्सुय भिच्छइहं गंणं वट्ठं पाउत्ता ।

कोत्तममम ! इइ ते वयं मत्ति सुन्दरिण ॥”

तेण मणियं ति - ‘जेण वेहसि वीयामि जेण वीयंति कामयं ।

तं च मज्जे विउज्जमि जाय एएणओ मइ ॥”

सो वि तइ थिय मुमिओ ।

नेउत्ताय-दारओ’ तइ थिय तमाइचो । अक्खणयं कइइ - एणस्स तापनस्स अत्त-
कओत्तयस्स अमिक्खा उउओ दओ । एच्छा सो मणइ -

‘अमहं दिमा य मओ’ य त्थेपेमि महु-सत्थिमा ।

तेण मे उउओ दओ जय मरणओ मइ ॥

अहवा - ‘वापरस्स मए भीएण कयओ लएण मओ ।

तेण जणं महुं दओ जाय मरणओ मइ ॥”

‘अधियक्कणो मि वात्तए !’ मणंतेण सो वि वुत्तिओ ।

वाउत्ताय-दारओ आउचो । तइ थिय अक्खणयं कइइ - एणो जुवाणओ संय-
पवण-समत्तओ अकं-ईत्तयेओ । अण्णया वाउ-वाहिगा मदिओ । अक्केण मणइ - ॥

“कृपाण-द्वय-समाधौ पुत्र्य होतुमा नयन कील ।
दृष्टव्य अमा-दृष्टो वयस । कि-गाम्यो वाही ॥”

“वेदसाधोषु मारोषु जो सुतो नह मरुतो ।
तेग मे मज्ज अग जाय सारण्यो मय ॥”

अहवा - “जेण तीज्जति सन्नासि सिरोहमिण अज्जस्य ।
तेग मे मज्ज अग जाय सारण्यो मय ॥”

सो वि तह पि[च] वृत्तियो ।

पुनो चवस्तदकाओ दाग्यो तह थिय कदापपं कहिउवाइतो -

“इमिण न्हाणस्यो नउण्य लीकित्तया ।
ससति वेदियो’ सस्यो मूलुण्य-वेदिए ॥”

सस्यो वेदियो-मग्येय प आलहिअय रुवसं सइपाणि अहिणा । सइय-सैता प
सुवाइओ’ भणितमाइया -

“अग पुच्छ तह यणु पाम्ये निरुण्ये ।
मूलाओ’ उदियो विही जाय मरुओ मय ॥”

“ तं तह थिय वृत्त ।

तसकाप-दारयो वि तह थिय कदापपं कहेइ - यसंतउर नयरे थियसच राया । तं
प च-चकेय रोहिप । अथ काहिर-ग्निगालियो मायंया मे नगर-मज्जाओ’ नामरएहि
निगुमंति, वाही पर-चकेय वेप्यति । तयो अकेय भयइ -

“अभिमउया सुदिस पेहती कइया जण्य ।
दिस ‘अमह मायया । जाय सारण्यो मय ॥”

अहवा - एयस नयरे पुरोदिएय कंठियं दिवसओ’ राईय राया सुतं । कैय प
कालेय सुमिय-सुपंता कल्पर भणितमाइया -

“अथ तसक मय चेतो भवेओ अ पुणेदियो’ ।
या पच्छ मायया । जाय [सारण्यो मय] ॥”

अहवा - एयमि नयरे चउदन-विजाठाण-वारओ लकम्म-निरओ सोमदेओ दिवसो ।
सोनसिरी से मारिया । तण्य प पवितुसिय-रइ-रुव-ओइय-अपक-कस-कठाव-रुवा
सौम्यमा कसया । संपक-सुववा य पतोइया वषण्य । आयायुगओ अ । तीए विरहे
सिउंतं दूष ‘निर्मयेय मारियाए पुणेण सादियो’ नियकायिप्याओ । ‘अओ ! या वप-
सर-‘भोचरावडियो’ रूपं वचओ’ पि मापंतीए मचियो’ मया तीए - ‘वीरो इचसु, तहा
कहेमि नहा अमाउ थिय सुंजलि’ । अम-दिपहंमि मणिया पूया - ‘चण्ये ! एण अम्यम
कल-कओ-‘पदमं अकसेय सुया पच्छा भचारमसुवच्छइ, ता कळं कसिय-वउइतिए
तमयवादे कइ-इरे अयाअपंती पमावेअसु अकसं । उकालावुरुव-निइथिय-कायया वया

सूत्रे । अर्थायै-अर्थायै 'दुःपं अद्विष्टमनुभाविप-रदुष्टं शेष-किलंतो सवदासिद्धो
 न्नी निर्दार । 'किरिती अस्मो ?' संज्ञाय-कोडपाए पुत्रापीय-सगत-संतुल्य-पीड-
 कोएव देहो अस्मो । 'अंतं मे संकाए'ति ।

'भेदेति निमित्तका इति जगत् कि कि रिज्येता ।

संमि नीयवाए अस्तदि ज्जुद्धि-अस्मेत् ॥'

आवेतीए ममावचं निमित्तं सफल-अण-भोहं । अंत-रह-किलंतामि उमिषे वि
 दिवसवरे वा नुज्जंमि । ततो बोद्धवन्थ पटिया भट्टिगीए वा वादुद्धिया -

'अह उमाए वि कुं रिह-पुण्येत्त्वा मी पुज्जसि अहमा ।

एव मह को दोमा ? दुद्ध विम तोह क्यांत्त ॥'

अद्विष्ट-पटिसंज्ञाया पुनो पटिया 'ए[ना] मानाद्विच चि -

'अद्विष्टुमाए वि सुत्तिए चेत्तु कुम-अए वि वामे ।

मिली-अए व आस्से मदि ? सुत्तिए जणे वा पुज्जसि ॥'

ततो इमं निमामित्तं पटियं मे भूवाए -

'कुममेव व अम । अस्तये वा तु निमात्तं जन्समात्त ।

जन्समात्तं तावत् अंतं इमि म्मेव लउत्त ॥'

इमं सोडण मयियं मे' अमपीए -

'अव मात्ता पुज्जसि पटिया पात्तये पुत्तिये व नीए ।

भूमाए मे मिहिए ट्ठे सत्तए अस्तए मि जग्गए ॥'

पच्छा राव-संज्ञो भूवाए मह बोने सुत्तितं पपयो ।

अहवा-तिविक्रमाभिरामेणं महेव सप्ताविडण महावडामं आपोविवा पाठिए
 सप्ताविहा सक्खा । अण नहुमन्स-आगे क्कमविषं देवउत्तं । अपुरसिं च पपट्टिओ
 उमात्त-आगो । तिविक्रयो अहुन्नापोपगओ मरिडण जाओ एत्तओ । संव-जोवओ प
 गहिओ' पुणेहिं आम-रदण-निमित्तं । पर-दुण-वरियण-दंन्याओ' सहुप्प-अईसरओ
 पुण-पेत्तिय-देवउत्त-आगे मात्तवत्तं नीयेत्तंते निय-मात्तए बोधुंते पुणे मव-
 'मा मत्तं निय-अवत्तं मारेह' । पित्तेह प - 'अहो ! एवारिं सवापुत्तं' मए कम्म
 पवत्तियं ! अथ अहं विव मात्तयेओ संवोओ !' । इमं च पुत्तं निरुत्तं मयियं
 अस्त(प)-नामिया -

'अस्तमेव व सुत्तं तेत्तिए अणमित्तं व निवत्तं अहं अणमित्त ।

'उत्तएव-अस्तए व ते कि केत्त । वे वे ति मात्तसि । ॥'

इमं निमामित्तं इमो सुत्तियो । 'अहो ! इमि-पपत्तयो' प ट्टिओ' सुत्तियो, "
 वा कारयेण होचं' भावेतिं पुत्तियो इमी पुणेहि । तेव वि व सेहं - 'अहो मे

१-४ 'अ' ५-६ 'अ' । ७-८ 'अ' । ९-१० 'अ' । ११-१२ 'अ' । १३-१४ 'अ' । १५-१६ 'अ' । १७-१८ 'अ' । १९-२० 'अ' । २१-२२ 'अ' । २३-२४ 'अ' । २५-२६ 'अ' । २७-२८ 'अ' । २९-३० 'अ' । ३१-३२ 'अ' । ३३-३४ 'अ' । ३५-३६ 'अ' । ३७-३८ 'अ' । ३९-४० 'अ' । ४१-४२ 'अ' । ४३-४४ 'अ' । ४५-४६ 'अ' । ४७-४८ 'अ' । ४९-५० 'अ' । ५१-५२ 'अ' । ५३-५४ 'अ' । ५५-५६ 'अ' । ५७-५८ 'अ' । ५९-६० 'अ' । ६१-६२ 'अ' । ६३-६४ 'अ' । ६५-६६ 'अ' । ६७-६८ 'अ' । ६९-७० 'अ' । ७१-७२ 'अ' । ७३-७४ 'अ' । ७५-७६ 'अ' । ७७-७८ 'अ' । ७९-८० 'अ' । ८१-८२ 'अ' । ८३-८४ 'अ' । ८५-८६ 'अ' । ८७-८८ 'अ' । ८९-९० 'अ' । ९१-९२ 'अ' । ९३-९४ 'अ' । ९५-९६ 'अ' । ९७-९८ 'अ' । ९९-१०० 'अ' ।

अपंत-अम्म-अपओ' । तेहि भवियं - 'ओ पपओ' । बुधिया भवियं - 'पु-
निभिय-विहावायि दावेहि' ति नीओ गेह । दावियायि चरणेण निहावायि । विभिय-
विवाय य दावियं अपववा संसारमारुतणं, पपवियो' संमच-भूतो दुविहो वि धम्मो ।
जाया सावया । लल्लयो वि कळुय अपननं पंचननोक्कत-परो देवडोरम्मि गओ ।
'अ जहा तीणं भत्तिणीणं भट्टसस य सस्यसससस्यं जावं; पपमग्गहानं वि तुमं सस्य
चेंदियो', जस तुमं चिय सुससि ।' । 'अप(इ)विपकससयो ति' भयंतेय सुहो
नसकाय-दारओ ।

पुणो बंधेण दिहाच्छंकार-विभूतिया संबई । तेण सा भविया -

'कळना य ते कुळता य ते अजिय अजिय 'रिळय ते ।

कळे अहमुत्तम-भारिया तेण य ते 'सामग्गसस कि' ॥

वि वि उक्कत-कारिणं पपवसस ।

कतो तुम पत्ते एहिं रोत्तेण चमपमनो' य चि' वि'य जावयि चनेजा ॥

पच्छा साए भावद वि -

'समणे सि सजजं' ति जमरदि नम-तेह-कचणे ।

वेहास-वाक्ये' अरे जिह्वा । के ते पडिमग्गे' ॥

सई-सिसय-मिनयि प-च्छिदायि वेच्छे ।

अप्येस जिह-मिलानि विच्छते वि य रिच्छई । ॥

एवं च साए उव(वा)ल्लहो पुणो वि वंतुं पयडो पेच्छइ संधावात्-सघाई नरनाहमा-
वाच्छंतं । कपमिळण राहवा भवियं अपेच्छंओ वि संविभागं बसा मोडीए पेचय
पडिमग्गं जाव देह ताव निवडियं सुवसपं । तवो विज्जलीभूओ' । दूर पुणो दावियं
वेहसस्य निपय-रुवं, भवियो' य तो 'कियेवं ज्ञं समसस' । सुत्थिा भवियं - 'किं
करेयो ? य केण य 'दिवसं सादिपं' । केण भवियं - 'न संपयं वाहुल्लेय निपसावतारो' ।

अओ मग्ग - तम्मचे इह-वेचेण होयवं ॥

सुपदेवि-यसादयं सुवालुसारेण सादिपं चरियं ।

सिद्ध विमिद्ध-चरियं नितुमंती उरइ निवावं ॥

॥ अज्जासाह-वस्त्राणयं 'समससं ॥

पुनरपि दानमधिकुल्य धम्मोपदेशमाह -

सिखंस-बंधणजा-कयउत्तय-सालिभइ-नामाणो ।

महरिसि-दाणाहरणा निदिट्ठा पुज्ज-सूरीहि ॥ २६

[श्रेयांस-बन्धनार्थ-कृतपुण्यक-दातित्तरनामानः ।

महकिराजाभरणा निर्दिष्टाः पूर्वसूरिसि ॥ २६]

भावावस्तु चतुर्भ्यः कथानकेभ्योऽवशेषलानि चासूनि -

— [२९. दाने श्रेयांसकथा] —

अन्धि गणपुरे नगरे बाहुवति-पुत्री सोमप्यमो राधा । तस्स च राध-सुख-सकिय-
द्वर्ग सिञ्जंती कु(ञ्ज)वराधा । तेष च सुनिर्धमि कुण्ठेतो मामार्पणोऽजय-कल्लोदिवहिसिचो
अदिकपरं दिप्पिउमाइवो । तदा नपर-वेड्डिणा सुपुड्डिणा विट्टु तहस्सरस्सीदेतो दिगमर-
निवं सुहुंते सिञ्जंसेव संपट्ठिवं अवंते दिप्पिउं चपवं । राधा नि सुमिणे दग्गस्स ।
आपुरिमस्स सत्तु-सेधेय तद्द जीञ्जंतेस्स तावसेत्तीकय-वड्ढि-चक्र(वन्ध)स्स सिञ्जंसेव
सादिरं देवं । तेष तवं (सिचं) पि निहुविणं ति ।

“कुमारेण कण्ठगीमो रवि-विज मेदिष्ण नोदेव ।

देहो च महावृत्तितो समज मण्ठि कुञ्जतो ॥

पञ्चमे मयिञ्जिष्ण सुमिणाय पत्तव ते अस्सत्त ॥

नम उपति इम सुत्तम वेड्डिणि कुमारे ॥”

ततो गथा तद्वे निपच-द्वामेह । सिञ्जंती वि तमारुटो मयम-तलं पामायं । अवलो-
रा(व)ण-द्विएण च विट्टो तेत्तोहालंकारो उममनाची पुड-दुवारेण चवित्तमाचो । तं च
दह्व ईहापोह-वग्गय-भावेसावं करंतस्स मद्दुप्यन्नं जाईतरणं । सुत्तित्तो च वेणो चंदग-
स्साईदि उद्ध-वेपमो च अजपरिचो' पात्तापाउ द्विओ उंगम-वन्धे । इधंतरम्मि ॥
वोपर-चरिपाए ममेतो संपचो निहुवण-सुह । इधंतरम्मि जलगावा चडिप-उत्पुत्तरसा-
पुण्ण-कलमा पुमिणा । कतो 'एवाई ताई चि-चिठिपाई सिचि वि कम्मेष च्चाई तायस्स
आममणं संते च मय-प्यसाओ' य' धित्तिदेव भवि-सुत्तार्यं पम्मि(उ)ण चडिओ
उत्पुत्तरन-पटो । विमत्त संघंसेव - 'मयच' तद्द कण्ठ, ता ममापुणवह-सुद्धीए
मेवसु' । दव्वह-कओ 'वओ मेव च पसारिया कर जियेण । फलरिचओ वेसु रसो, ॥
पविट्ठो मव्वेसु । तमामत्तपीभूओ' जयसुह चि ।

आहारंतो चपवं वीहारतो च मत्त-चचस्सहि ।

न च वीणह मेप पट्टह तस्स वर-संठिरं दवं ॥

ततो' गणना-कडेहि हरिण-मर-निम्भरवेहि विट्टुवं विपसेहि विट्टुवण-दवह-वच-
इत्तुम-वरिसं तद्द संघोदएण । कओ वेत्तुवन्धेओ । समारयाओ हुंदुडीओ । निवडिणा =
अइतेरम-कोडी-पत्ताया रपण-सुद्धी । 'अहो । दार्यं सुदिचं' च सत्तुपुहुं विपस-
नाहाहेहि । अजपरिया विपसा । संपचो विम्वर्य-वन्धो चओ वि लोचो चि । अवि प-

हरिण-मर-निम्भरवेहि पुत्तित्तओ नर-वाणेहि सिञ्जंती ।

कद्द मयासु तए वार्यं तद्द दिअह चपवओ मेवसा ॥

जाई-सरणेव अहं एवं जायामि तद्द य ममिओ निह ।

अह मवे जिण-सहिओ सुमिवाच कलं च जिण-दार्यं ॥

एतेसि वं दिवं वं चिप दवं परे वि विमवम्मि ।

वे विधहं ते माव दस-इत्थस्सावि कुणस्स ॥

कय-दुष्ठाव मिहेत्तुं एते अवंति तिहु(वि)णव्वेदा ।

न कएपा नि कएव्वदमा उविति पावाव मित्तएसु ॥

को कम्मि भव-म्बहणे आसि तुमं जिणवरस्स पे साह ।
 पुट्ठो कहेइ तायां सिज्जंमो अट्ट-भव-चरियं ॥
 तावं वि इमं भणियं सभित्थर कण्ह-जणाय-हिंटीए ।
 नामाभिज्ञान-मिच्चं मणिमो एत्थं नित्तमोह ॥
 ईमानो जिणजीवो ललियंण सुतो अहं पि से जाया ।
 पुव-भवे भिज्जामा सयंपभा पटम-जम्ममि ॥
 पुवपिदेहे लोहम्मलम्मि नयरमि वयरजंघो ति ।
 उप्पन्नो जिणजीवो अहयं से भारिया विलिण ॥
 लय-भवे जिणजीवो मिहूगग-पुरित्तो अहं पि से जाया ।
 उप्पन्ना तेण ममा सुरसुंदरि-रुव-भोगेह्हा ॥
 भोत्थ तत्थ भोगे तयो आउ-रुज्जयंमि संपचे ।
 उप्पन्ना दो वि सुग चउत्थ-जम्ममि सोहमे ॥
 वेअ-सुजो जिणजीवो अहयं पुण तस्स छट्ठो मेघो ।
 पत्तुत्त-सेट्ठि-त्तपओ केमव-नामो ति पचमए ॥
 अवरविदेहाहिंनो मरिउत्तं दो वि अत्तुए जाया ।
 छट्ठम्मि भव-म्बहणे देया तियसेंद-संकासा ॥
 पुंदरीणिणीए भयव नानेण आसि वयरनामो ति ।
 अहयं पि सारही से पड्ढया दो वि सत्तमए ॥
 अकलंकं सामन्नं काऊयं दो वि मरण-त्तमणमि ।
 अट्टमवम्मि जाया देवा सब्बसिद्धमि ॥
 सत्तुत्तओ' भयवं उप्पन्नो भारहंमि तित्थयणे ।
 अहयं पि से वपुत्तो सिज्जंम-कुमारनामो ति ॥
 निसुवं च मए पुत्थित्ति(पुत्तिं) तित्थयराओ जहेम भरहम्मि ।
 जायाहि-तित्थयरो दिट्ठं पुवं च से त्थिं ॥
 या तं सबं वुत्थित्तं दड्ढं जिण च जाणियं सवं ।
 अह एवं से दिच्चं भिवसाई बहु-कलं होह ॥
 जंमि पएसे महिया भिवसा मा तत्थ कोइ चत्थोहि ।
 टाहि ति रि(र)पपोहिं कओ पुओ कुमरेण भवीए ॥
 धूमस्स एणपर कुमरं पुत्थंति सो वि नि कइइ ।
 आटपर-संउत्तमिणं त्योयो वि तह थिय करेइ ॥
 आइव-संउत्तमिणं जायं कालेण गच्छमायेण ।
 सिज्जंमो चिन तम्हा सुणीण देआहि वुत्ति-दार्थं ॥
 सुपदेवि-वृत्ताएयं सुपासुसारेण साहियं चरियं ।
 सेज्जंम-जिजाय कुवं निसुमतो लहइ निजायं ॥
 ॥ सिज्जंम-कहाणयं ॥

— [३०. दाने चन्द्रनार्यो-कथा] —

जहा सयाणीएवं पिङ्गिवस्त्र चंपाए दृढिदाहय-संधामारस्त्र पा(पं)श्रावमहास्त्र
 शरिया धारिणी-नामा बसुमराए नृपाए तह इकेन पुस्त्रिण गहिषा । पश्चिमि धारिणीए
 नपाए दिना मोल्लेण बसुमर्दं वणिषो । अद्विगिय पि दिन्न से नामं चन्दा । उह य
 वमिय-नायाण ईमाए केने पृथाविऊण निवलिऊण परे उटा; विलवतस्त्र य वणिषो ।
 जहा कम्मपरिए माहिषा, कुंसासे दाऊण लोहार-मेह पणिषो वधो; जहा य छम्पामो-
 ववाली तिरुवयो परम-मचीए पाराविओ, तिपना अवपरिया, रवण-कुट्टी जाया, तह
 सवमिणं सवित्तर उपरसनाला-विशरणाओ नेयवं ति ॥

॥ चंद्रनारा-कथापर्यं समाप्तं ॥

— [३१. दाने कृतपुण्य-कथा] —

रत्नमपातीए सुओ उलय-दिपहंमि पायसं बहूप ।
 छळते दहृमं पिय-अवमिं पायन-करमं ॥
 चिनेह मा पुरुष्ठा तीए करुणाए सेण-महिल्लाहिं ।
 दिन्न सीगार्धेण तीए वि य माहिषा जीरी ॥
 यय-सुल-संबुत्ताए भायं पुत्तस्स सा भवेत्तमं ।
 पर-मज्झमि वविट्ठा अह पु(पं)सं सुगिवर दहं ॥
 चिनेह दारओ सो वओ ह जेण परिसे काले ।
 संपनो एम सुणी चित्तिव-फलओ सुद-दमो व ॥
 मणि-बहुमाज्य-पुंवं सीरि-विचारामि दिन्नरं संने ।
 केवमिय पुण दिन्ने वणिय-विने वि चिनेह ॥
 उह पडह एत्थ निच लवणं वा सो पियस्सए एमा ।
 सा देमि सेमये वि य जेण धणी होइ मयेण ॥
 सवोलाहि-विपुट्ठा दिन्ना सदा वि तेण दायेण ।
 मत्तुव-अवमि निवट्ठा भोया सुत्ताड-सकाना ॥
 मरिउ विट्ठइयाए रथणीए पट्टणम्मि रायणिहे ।
 घणपात्त-महिस्त्रियाए भराए पहाए-सुदिनेण ॥
 वज्जरीओ उपवओ सोमो तं जयइ वृत्त कयपुण्यो ।
 वधओ सो इत्थ परे आही बहु-स्यव-नारमि ॥

कथेन य चित्तिव-सुवर्जंत-दोइला पत्तया भदा । समरक-सकत्तयापुण्यओ जाओ
 दारओ । पट्टाविओ इम्मो । कय महावट्ठाववाय । लोय-अधियनपुपत्तयेहि य पत्तक-
 वातरे कर्म से नामं कयपुण्यओ । वट्ठओ देहोवत्तएणं फल-फलयेण य । विवाहाविओ
 नियम-रुवापुण्यं सुखहिं इत्थ-आलिपं महाविच्छेयं ।

१ ह क ज व । २ क ल म । ३ क ट्ठ । ४ क पुणो ।

सुखस्य-विषायेणं कला-कलायेव सिद्ध-विषयस्य ॥

इत्थीसु सुंदरासु वि द्विगो व सु(ण) रत्नर चैतं ।

ततो भविष्यो भद्राय भवामो— 'तदा कुमन्तु यदा कुमन्तो भवि विषय सेवे' । तेन भविष्यं ति—

आहार-भय-परिग्रह-भेदुष-सन्ना अशुहृषद् ताओ ।
निर्दंति सत्त-सत्ता अओ ! कि तदुचरसेणं ? ॥

पुषरुषं च भवमायेय मेसिओ जगण्ण दुल्लुल्लिय-चोद्विय-बवेसिओ भविष्या-भेहे ।
विषया चयंसवा । समादतो वसलसेषाय सह भुंजित बोमे । रत्त-सत्तावमादसस ६
पम्हुदु-जगणि-जगवाह काववसस समरुफतो कोद् कालो । अरुणा भविष्यो वसंतसेवार
"पम्होचर किंपि पदन्तु वि ।

"को पदिसोहे' वओ ? परोसल-रमणीओ भक्षर कद् सु ? ।

को व विमार्थमि टियो ? को वा परणीए कल्ल नामी ? ॥

दोक्सेयं का वि(टि)सह ? का वा अत्तंण वल्लहा तीए ? ।

भयमंमि को व रेह ? निवत्त अंतुण का हिवए ? ॥

"चहायं के द्दया ? दाये भव को उ भविष्यो चाऊ ? ।

के वा वरिसंमि टिया ? विभूषणा के वि सिदिणाये ? ॥

भवंतु वद् व बोह्ला ? मा सा हा रा हु उत्तर तिभि वासओ ।

अशुतोमं पदिसीमं कण्णु-समत्थं सह समत्थं च ॥"

वसंतसेवार परिषं—

"किमिहेच्छन्नुदंन्यार्थः ? कि वा सहेव वेष्पते ? ।

लोक्य दिमार्दंताः क च प्रार्थयन्तीह क वत्तम् ॥"

तेन भविष्यं तिए ! उत्तर परिषं । पुषरवि परिषं कप[डु]केयं ति—

"को पुहंए सामी ? को वा स्पणीए ? कथं कम्माना ? ।

दाणंमि को व चाऊ ? को वा वओ मिसेहंमि ? ॥

"बोहेमि केयनं कद् ? को वा चाऊ गर्हए निदिट्ठो ? ।

अम्हप-बहुवपणंमि व कं रुवं क्यत्तु उट्ठीए ? ॥

तरुणाय कथं निवट्ठ देट्ठी ? वामाओ दोमि अणुलोमं ।

तद्दयाए कुव समत्थं उत्तरमेपसस जावाहि ॥"

ते च हवं रा मा य ये ।

एवं च हीए सह भोगासवसस द्वाल्लसेहि वरिसेहिं निद्वणीकयं कुल्ल, लोमंसीपूवा
जगणि-जगया, वल्लहा सहा वि फर-लन्ती । वरिस-दिवसे व पेसियामि से भारियाए
निपयामि आवसया(वा)मि । अओ ! निद्वणीकयं कयपुषयसस वेहं चचंतीए इवप-
सहस्सेय सह पेसियामि वाहयाए आहरयामि । अह-दिवहंमि भविष्या वसंतसेवा-

शेन-कुमुदभवा-भारिणी एव कवचपुत्राञ्च, ता अस्मिन्निवसिष्येण । तीर्ण भगिण्यं - 'अम्भो ! मा एवं भवस्तु, मण्योऽप्यदरेण विचक्षणयेण इह' । तीर्ण भगिण्यं -

'अं दिक्षे त महिषं, इष्टिं मे कथिष्ये तेष शीघ्रेण ।

अम्भोऽप्य एव धम्मो, मा धम्मात्कमं कुणमु ॥'

'शोडाम एव धम्मो पहाण-नपिपाना सज्जमं एयं ।

अमं च पुत्रो दाहिंस्स एमी विप इच्छिय इह ॥'

ता अम्भो ! असमयेण अयस-निरंधयेण दुग्ज्जवसाएण । अयं च -

'मेव जोडयामि सुद्धा अहय न्यचेहि विविद-रुवेहि ।

सुण-सुद्धा ते प सुवा एज्जा इत्थं' पुरिसमि ॥'

कलुत्तिय-विता टिता तुण्डिका वाद्या । दा(पा)ऊण च मजे एवणीए मंचवाकडो ॥ हुक्को देवउत्तियाए । निदा-सय-विजुटो य चित्तिठ पयत्तो - इंत ! किमेस सुमिचओ ? किं वा मोटो ? किमिदवाले वा ? पयइ-विचज्जाओ कि ? कि वा सेत्तर ? । सुमिय-मण्ये-नियवाए च भगिओ पाम-वचिणीए वेदीए - 'अले सेम नियप्येहि, निवय-धम्ममपुसर-दीए निष्कूटो वसंकेया-नइए जोल-इष्टिणीए, ता वचतु विचय-मंदिरं' । निवय-रोम्मणो पयडुओ(डो) येहामिमुहं । मडारच पिव गट्ट-वाचलं, कुक्क-कथं निव यय-तुवण्ण-उंकारं, सुक्क-नटापं पिव पयट्ट-सोहं दिहुं मंदिर । अन्वडुओ चारियाए, नाहिओ सओ वि अयमि-ज्जाय-मत्त-पज्जवमाणो येह-पुत्तओ । अवि य -

तं किं वि अवच-ममे दुक्कं मे आत्ति संमि ममयमि ।

वं कहिऊण च तीरु सारि-उ नौरय-दूहेय ॥

पुच्छिया य मा किं चि अंत-मोहमात्थि ? । तीण ति दावियामि आहरवमात्थि, ॥ इवच-सहस्सं य । 'कइ येत्ताईय अयम-कलेकियमप्यारं दाएत्थि ?' मत्तमायेव भगिया भारिया - 'वचानो देत्तर' । तदिपलं च रिउ-नाचाए सह वसिओ । धम्मो य लम्भो पयडुउं । अरु-दिवसंमि पयडुओ मत्तओ, तेव गइ वडिओ देवउत्तियाए मचवाकडो । एत्थंत्तरमि महाविठ-अचियवयाए एयाए ईसरीए व(व)उण-अंग-विचरं पुत्तं नाऊण 'मा कयय-रहिपं मंदिर राया विहुंनिम्मट, ता मण्येमेमि-किचि पुरिसं' ति मत्तवाणीए ॥ सत्थ-मज्जाओ उट्टाविऊण कयपुत्तओ तीओ नियव-येहे । पपूण पुत्तओ कंठे पिपूण वेविपे(उं) वचन ति ।

यावाए मज्ज पुत्तय ! चान्थो विप अवहिओ तुमं उट्टया ।

महि-वंठले मविट्टो य च उट्टा तुज्ज वचा वि ॥

आ अज दिसे सुमिणा कहिओ ते आगमो तथा सुमिये ।

दिट्टो य कप्पककसो नओ तुमं पाविओ इहय ॥

ता कइय य वडुओ तं कथं य भमिओ ति एविपं काठं ? ।

किं वा ति सुहं दुक्कमपुत्तुयं वण्ड ! मे साह ॥

पावा य अहं पुत्तय ! आ तुह विरहंमि जीविषा जाया ।

ओकारणं म्हि कया पुत्तसाए ! तुज्ज वेहस्य ॥

दिवस्य जाहं तूह चेलिपाद् पावाद् ताणि मा वच्छ ! ।
 निरदंतु वेरियाय वि तूह पुमनिहि ! विरह-वद्वाए ॥
 विदुरेसु य देवयाए ष्णिय-कालं च गभिस्रओ जाय ! ।
 मह जीविण्य सुपुरिम ! कृपाड होसु तं तत्य ॥
 अणुभाषेणं नियसाडयाण नेएण तद् सईणं तु ।
 कालेणु निपप-वंतं पा-विच्छट्टं च अणुदवसु ॥
 देसंतरे विवओ भाऊजायाण तुज्ज भचारो ॥
 होसु पडग्द वि नामी इष्णि ष्याण तं वच्छ ! ॥
 इय तीए तद् पडचं विपड्ड-वधिणोद् जोति-वट्टगाहि ।
 अह संमवाड-रहिव पडिपचं तदि से वपणं ॥

एवं च जम्बंतर-देव-मदरिप्ति-दाग-पुष्पाशुभाव-अभिरं विसय-सुहमशुहर्षवत्स
 समरंकाणि दुवाडम करिणाणि । जाया वडग्दं वि पुचा । इत्थंतरम्मि कहिओ
 सम्भावो साएए वहुय । पर-संसकण्ठमत्थमेस अणुगिय-परमत्थो मए कयपुवओ हूहो ।
 उच्चन्ना ने पुचा, विरीभूओ पर-मारो, ता अलमियाणिमेतेण । ताहि मगिणं -

ससुओ व होउ अह निगुणो अहव होउ पर-पुरिमो ।
 तद् वि य जो परिगुओ सो अम्मो ! अग्द भचारो ॥

अंकाठेऊय तयो धेरी परिभणद् - 'इस्तु-छोईय-संकासो ते दइओ, ता एणं इणि
 बीवेहि ।' जापिऊय य से नेच्छय रयण-गम्भिय-मोदगाय क्वा ऊनसि(मीस)पंमि कोत्थ-
 लिपा । मज्जामय-मित्तमरो मचवाहओ सुओ तीए चेव देवउलिपाए । निदा-खप-विपुद्वेष
 य सुविओ एस पुचंतो । तदाविह-भविष्यपाए तंमि चेव दिवदंमि आपासिओ' कश्च
 सो मरओ । पहाय-समए य पड्डिमिओ' भचार-अेतमत्थं तीए पुरितो । दिड्डो अणोण
 कयपुवओ' गओ' गेहं अणुद्विओ' महिआए, चहिवा संबल-पुड्डुलिपा, अम्भेविओ'
 कयपुओ । तईया' नमुप्पय-वड्ढाए जाओ' दारओ' सेहमासओ' आगओ' मोयणं
 जापंतो दिओ पुड्डुलिपाए मोपयो । तं च सापमणो निग्गओ' चाहि । अग्भिट्ठियं रयणं
 दिड्डं से सली(मी)वेहि मया कंदुवीवणं, देवं पुहस 'अणुदियं प्पलियाओ' दापयाओ'
 भवंतेहि । परचीए य मोदए भिंदंतीए देव्वाणि रयणाणि । तीए भविण्यं - 'किं कारणं
 मोदस्तु रयणाणि हूहाणि ?' । हुमियाभिन्याएण य भविपमणेणं 'सुंरु-भएणं' । रयण-
 नामत्थओ दाग-अगिय-पुष्पाशुभाषेण य जाओ' वेतमय-संकासो । आगा-विदेस-वरा
 जाया सत्ते वि यवय-बंधु-परिपाशयो । एवं च तिवग्ग-त्तार, जियओण-सुहमशुहर्षवत्स
 समरंकांती कोद् कालो । अज्जया सेमित्तराओ नईए 'पियंतो महिओ तंतुएणं सेवणय-
 करिवरो । ताहिणं अमयकुमारस्स । गवेवाविओ रयणाण मन्ने वलकंत-भणी । जाव
 सुमंतरेण य उग्गद् । ता मा करिणो अचाहिणं भविस्सद् वि मचमाषेण द्वाविओ'
 राइया 'पड्डओ' - 'जो जलकत-भविहवणेद्, तस्स रावा एह पूयाए अइं गज्जन देह' ।
 इमं सोऊय समण्णिओ' पुहएण जलकंतो, 'पभिस्रओ जल-मग्गे । तदुज्जेएणं थनं मचमाषो

पक्वो संतुष्टो, आशुभो' करी । पुच्छित्तो' पूष्टो, कतो ते जसवंतो ? कुर्वं साहेजसु । ततो साहिभो' समस्तो जहा कयपुत्रय-पुत्रेषु दिशो । 'निहत्वं चैव मयतंजसो कंतिषो, सोमपाईवं' मन्मथोपेय सबहुमत्तु दिशा ध्या रात्वा कयपुत्रस्य सह अद्वरत्रेवं । महा-विच्छेदुम य वतो वारिजय-महुमयो । जाया अमरण सह मन्मथ-सारा विधी । अक्ष-दिशंमि सिद्धं अमयस्य - 'मनुवाओ' अन्धि मम अज्ञाओ' वि एत्थ चयारि । वारिवाओ, नवर मंदिर न पाचामो' । ततो' वाराकिजस्य दोहिं दुवारेहिं आनयवं कय(इ)द्विवा कयपुत्रय-संज्ञाना जकल-पट्टिमा । सोमपट्टिया जकल-मट्टिमा । कयपुत्रो' सवाओ' नि इत्थिवाओ' सदिभाओ' पुष्टेन जकलं पूष्टजस्य चच्छिम-द्वारमि सीहरति । तस्य टिया वेच्छंति अमय-कयपुत्रया । ताओ' य से भारियाओ' कयपुत्राकुर्वं जकलं निष्टजस्य रोचिं पयवाओ' ।

“काउं द्वाव-पसंनं ह्यात । रे देव ! अहिओ कीम ? ।

दाजस्य निहिं उप्पाटियाणि अम्हाज्य अच्छंमि ॥”

तथया य 'चप्पो चप्पो' ति 'वर्णना जकलं समाज्जा । तओ' भयियं कयपुत्रस्य - 'एयाउ वडिभयाउ ममं भारियाउ' । वाहि(ड)रिया अमरण । देहो मचामो, शर्मटिया चित्तेवं । अंशाटिया धेरी । मिह्वाविओ' पर-सारा । चसंतसेयाए ति जकलं पूष्टजस्य भविष्या महिवाओ' - 'जहा संकेमि संवपं पि य जहा सुमियांमि वससे पिययमाचुवाराणा केगावि दिवपुरिसेम य आशिमिया, जहा वेदाओ' आमच्छंतीए वमत्य-सउवा विमेदाणि जायानि, जहा पामच्छि-द्वयाओ कुरति, जहा य अकस-दत्तयाओ हरिमाइमओ वाओ, उहा संकेमि सपवं निष्टं सह समागमं' । सीहरतीए य दिहो अमरण सह संतपंतो कयपुत्र-ओ । अवि य -

“तं किं पि अक्ख-समं वए दिहुमि डोउ मय-सोवसं ।

अं कइठय न सीए संकासं निरुवम-सुठेय ॥”

संज्ञापानंशाए संपल-हरिमो अगिओ कयपुत्रओ वसतसेयाए - 'कय-वेणी-बंधगाए पुष्ट-मंडलमभेतावंतीए दुवाजस्य-वरिनस्त अज दिहो सि' । सीविपाओ' सवाओ' नियय-मदिरे । अपि य -

“द्वीपादन्वच्छदमि तज्यादमि अरनिषेदिंसोउप्यात्तसु ।

अनीय जट्टेति वटमति विच्छिन्निवत्तमिगामुसी-कृत् ॥”

सपाइवं महाबद्धापयं ति ।

दिशं(त)शय-सोपय-वरवत्थाहरण-रचय-सोहिहं ।

आमंदिश-पुर-सोचं जायं वद्धारवं कथं ॥

एवं च तस्य रई-संकासाहि सचहि वहुई सह जंमंत-महि(इ)रिसिषो दापेय निज्जापिय-पुष्पापुत्र-विषा(वधि)वं तिकग-सारा-विमिहु-जस्य-पमपयेज्ज अमय-माय-पसर परमरव संचाउय-सचयंद् वीपत्तेग[सुह]चमुहवंतस्य समरंकोलो कोर कातो ।

अक्षया नीसेल-सुख-वचालकिञ्चो' अलंक्रिय-सुख-मनुष्य-वगण-वाच-वन्द्यो' वैकुण्ठ-मिह(हि)-
 चचरभारविदो 'आविद्-वस्म-संकास-वन्न-पण्डित्य-दिमा-मंडलो' समोत्तरिओ तेत्तो-
 मंगल-वर्षो 'चउदस-समयसदस्तापुगम्भनापो भगवं' सिरिचउत्तमाप्यतामी तिरुवचरो
 सुवसिल्लए उञ्जाये । मिहन्तिर्यं तिपसेरिं नमोमरणं । अक्षपरिया तिपसा, निरुद्धं अक्षरतलं
 विमाय-मालादि । वडाविओ' सेमिओ' तिरुवचरागमयेण निठन-पुरिसेरिं । दिव्य से
 वारिओत्तिर्यं । पञ्चो महाविच्छद्रेवं भगवओ वंदन-वदियाए, पचो तसुरेसं । वंदिओ
 तिरुवचरो सह गोचमार्दंदि' अणविचययिचमामंदसुहमपुहपंतो निमओ । वडा
 वचा नाचरया सह कवपुमेणं । पत्थुपा धम्मकडा । अवि च -

“तिरुव-वचामं काळं कहेरु माहारणेय सहेय ।
 सरोसिं सत्तार्यं तेत्तोव-दिवा(वा)परो वीरो ॥
 जीना य अजीमा वि य दुविहो लोमो सनामओ वमिओ ।
 तत्थाजीया तिचिहा-धम्माधम्मा मडा मपणं ॥
 जीमा वि य दु-विपया सिद्धा संवारियो य नाह(य)वा ।
 सिद्धा वधरन-विहा तिरुवात्तिन्नाइ-मेवणं ॥
 संखारया दुविहा वाचन्नामा तमा य पंचविहा ।
 पुदवि-वल-जलन-वारुप-वण वाचन्तुगो भणिया ॥
 पञ्चपापञ्चया इत्थिया ते मवे पुयो दुविहा ।
 पचेयार्थत-यया तरुमो चिय न उय सेमा वि ॥
 नेरु-मासुप-तिमिया देवा य चउत्तिहा तमा होत्ति ।
 'नेरुया सत्तविहा न्यगात्ति(इ)-महानमंताओ' ॥
 अल-वल-वदपल-तिचिहा(रिया) कम्माकम्माळं अंतरदीया ।
 मसुया वि होत्ति तिचिहा देवा वि चउत्तिहा मवे ॥
 वसुरा नाम-सुवचा उदही-विज्-वणोद्-अलयेदा ।
 वाळ-दीव-दिमेदा कममो 'भवणात्तिचा तन्हा ॥
 किन्म-किपुसिम-महोरणा य पंचव-जम्भ-रक्का य ।
 भूष-गणा य पिमाया अदुविहा वंतरा भणिया ॥
 पंदारया य महा तक्कया तारया य पंचविहा ।
 ओहत्तिया कण्यवमा क्प्याजीया य उपचिहा ॥
 सोहंमीत्ताण-सगंडुवार मार्हिद्-वंमळोया य ।
 लंल-महासुद्धंमि य सहसारे आणए ववमे ॥
 वाचय-अरण-असुव-वारममे कण्यवात्तिणो देवा(रा) ।
 कण्यार्हिया दुविहा वेचिजापुचरा भणिया ॥
 दिट्टिम-पदमा दिट्टिल्ल-मज्जिमा दिट्टिमोवरिहा य ।
 वज्जिम-पदमा नवर मज्जिम-वज्जिमा मज्जिमोवरिया ॥

उपरिम-पदमा उपरिम-सज्जिता उपरिमोत्तरिष्ठा च ।
 एष नव गोविद्या पंचविहायुत्तमा देवा ॥
 जप-विजय-जपत-अपराजित्यसु नवहृत्सिद्धि-पंचमर ।
 एतेषु [अ]युत्तर-सुरा यप-कामा पीशराम इ ॥
 एते सर्वे संसारियो वि अहविह-कम्म-मल-मव(इ)ला ।
 अहविहं पुष कम्मं नवासभो संवरकलामि ॥

नापावरमिळं दंसपावरम्येळं वेपमिषं मोहपेळं आउर्यं नामं गोवं अंतरायं च ।
 मत्प नापावरमिळं पंचविहं वधायं तं तहा - मद्नापावरमिळं, सुपनापावरमिळं,
 ओदिनापावरमिळं, ममपज्जवनापावरमिळं, केवलमाणावरमिळं । अंमि 'ओदिषे अंतु
 हेपाहेर्यं न आणए पुच्छं तं सातु नापावरपं । दंसपावरमयं नवहा - पक्खु-दंसपा-
 वर्यं, अन्वससु-दंसपावर्यं, 'ओहिदंसपावरणं, केवलदंसपावरणं, निरा-वधयं च वि ।
 सुह-पदिबोहा निहा दूह-पदिबोहा च विह-मिरा च ।
 पयत्ता होइ दिवसस उ यपला-वपला प चंकमथो ॥
 अदंकिलिदु-कम्माण वेपणे होइ बीणडी ।
 महविहा दिव-चैलिय-वाचारण-साहपी पार्यं ॥

अंमि उदेसे अंतु हेपाहेर्यं न पेच्छए समिहं दंसपावरणकंमं । वेपमिषं साव-
 मिषरं च ।

अङ्गुलीस-वियप्यं मोहणीयं कोह-माण-मय-लीभा ।
 चचारि चउवियप्पा अवाह-मेपणं सोलसभो ॥
 इत्थी-पुल्लि-अपुंसग-वेपतिषं तम्म-मिच्छं मीरुं च ।
 हासो रई अरई यप-सोचा तह दुगंठा च ॥
 नारय-तिरिष-नरामर-आऊकम्मं च चउविहं जेव ।
 वेउस-व(सु)अल्लो व ददं अणवर्यं मसइ संसारे ॥
 नामं दुचच-भेयं वाह-आइ-सरीर-अंगुबंधाई ।
 बंधय-संधायन-संधयन-संडाण-नामं च ॥
 तह वण-बंध-रस-फाल-नाम अयल-सहुर्यं च बोद्धवं ।
 उवपाय-वरापावाणुपुडि-ऊमास-नामं च ॥
 आवाणुओप-विहायणई च तस-धाचराविहायं च ।
 वाचर-सुद्धुमं च पुषो वज्जवं तह य अपज्जवं ॥
 वनेयं साहाय्यं थिरमथिर-मुभासुवं च नाचवं ।
 सुजय-दूमगचामं सुत्तर तह दूतर पेव ॥
 आइजमणाइअं तस-किरिणीणाममयस-किरिं च ।
 विन्नावानावमउत्तं चरिमं तिलवयरनामं च ॥
 गोयं च इविहमेयं उवापोयं तद्वैव पीयं च ।
 चरिमं पंच-ववार ममासभो तं पयकसामि ॥

वह दाम-दास-भोगोपभोग-विरिचैतराहर्षं ज्ञान ।
चिन्ते योग्यलक्षणं विधेयं नष्टमेवेयं ॥

कल्पवृक्षान्-परिसंदिग्धस्य उच्यतेऽपि वाहक्यं ।
नक्षत्रं वि होह दिई भणितो कम्मस्स त सुवातु ॥
आह्लासार्थं तिर्यं चरित्तस्स च हीम कोटिकोटीओ' ।
इत्थण मोहभिलसस्स सचरी होह विधेया ॥
पापस्स च गोयस्स च हीम उच्यतेऽपि दिई भणिया ।
तिचीम-साधराई परमा आउस्स पोषका ॥

वेपथिपस्स जइथा चारत 'भामस्स अहु उ सुहुचा ।
सेत्ताण जइअ-दिई विअ-सुहुचं विविदिद्वा ॥

अहुविं वि य कम्मं संसार-निबंधं तु र्थंदि ।
सीमे अइति भोक्खं खमपोवाओ' इतो वस्स ॥
इत्थण-जाण-चरिचापि खण्य-हेउज्जि वंसणं तिपिहं ।
खइय खओ'पममिपं उपममिपमिह मन्नात्तेषं ॥

आभिधिबोहियनायां सुयत्ताय पेव ओहिनामं च ।
तह मधपज्जवनायां केततनत्तं च पंचमव ॥
नामाइयं च पदम उेओपट्टावणं भवे वीपं ।
चरिहार-विमुट्ठी य सुहुमं तह संपशाव च ॥
तपो य जइक्खायं खायं मयंमि जीवलोचम्मि ।
वं चरिउल्ल सुविदिद्या कथंमि अपरामर टापं ॥

ता भो देवाभुत्पिमा ! दुल्लहो कयुग्गाइओ संवचावसापो एस क-वच-ओगो ।
मायुस्स-सेव-आई-कुल रुमानेव(न्व)माउयं वुट्ठी ।
सत्त(र)भोग्गाह-मट्ठा संवचो य ओचंमि दुल्लदाइं ॥

ता चण्डिवज्ज चरित्तधम्मं ।" एवं तिथपर-वचणं सोउज्ज निक्खंता अचेरो, अणे
= सावया संजुता । कयपुक्कस्स वि पुच्छियं संवचि-विपचि-कारणं । मयावया साहियं
अंतरिय-पावत्त-दायं ।

तिभि विन्नाया देवा अंतरिया पावत्तस्स को तेण ।
अंतरियं भोग्गहुइ आयं सेमाओ' दावाओ' ॥

ततो मुत्थिप-परवच-पुत्तंते कम्महापुक्क-विमि[व]चिपात्तेस-कापओ महाविभूइए
= मत्तुपक्क-महासंवेगारओ' पड्ढओ' कयपुक्को नि ।

अह नषट्ठ-जहा कयपुक्कस्स दायं दिअं तहा दायवं ति ।
सुयदेवि-क्खावणं सुवापुत्तारेण साहियं चरियं ।
कयपुक्कस्स पुचं सोउज्जं देहि मुत्थि-दायं ॥

॥ कयपुक्क-क्खावाणव 'समस्तं ॥

— [३२. दाने शालिभद्र-कथा] —

उपलभ-कुला' पत्नी पुत्रो से संगमो वि चारे ।
 लोगार्थ लक्ष्याई सुवशिष्टे' सालिभद्रमि ॥
 वेहे वेहे सीर दहृणं कल्पमि निय-उपनि ।
 पापस-करण चहुइ अहृणोरो रोहरो कपो' ॥
 श्रीरार्थमवात्ता पुत्रकृषं पुत्र-जापवा होहि'नो ।
 तं रूपमापी'वि' दहृण देउ कपो तीर श्रीरार्थ ॥
 तीर वि रषेऊन दिओ कपोस्त पापमो माओ ।
 इत्यंतरमि पचो महादुषी मात-समपमि ॥
 हरिस-कम-गुह्य-अंगो तं दहुं संगमो वि चितेह ।
 धमो इं अस्सेसो भोयन-वेलाए संपचो ॥
 "दिसे कालेअमरे पने पचमि 'भोक्क-लक्ष्याए ।
 लक्ष्यादि-विमुहं दामे पुभेहिं निवडेइ ॥"
 ता को वि अचम समो लामो दग्गाउ होहिइ निरुन ।
 इय चिंतितेग दमं दिओ से पापमो केव ॥
 सुमिपि वि य से कालं नाउं उपगुमदाओ' सो बहिओ' ।
 वालीए जो सेसो हचो सो पापमो तेव ॥
 अचुरप-बहुभोयन-तह ब'द'रिमम्याओ' सो वेव तीर इ ।
 स्पचीए बरिऊनं रावधिदे गोमद-बहुइ भदाए ॥
 उपपचो सो गपने कमेय जापमि हरिस-बहिदरथ ।
 जापं सव वि पुर कपं च वदानमं तिउया ॥
 सुमिपमि फलिव-साली दिहो अपचीए तेग से कालं ।
 मासमि गुरुहिं कपं सुपसम अह सालिभद्रो वि ॥

पत्निओ अचम-सालिभद्रिं स्वाह-गुणेहिं, कला-कलावे(वा)इहि य । संपचो तिहृपन-
 सलाइविहं ओइयं । गेहि विप सरिस-पची-वेसेहिं वर्यनएहिं सह अचिरचंतस्त संपचो ।
 सरचो । अमि य, रेइति कमलाकरा, सह रापईवेहिं । हरिसेअति काक्या, सह नह-
 नह-छभेहिं । विपरति इरिप-वनवा, सह मच-महागएहिं । पसरति सचच्छप-वप्या,
 सह मसलाचलीहिं । रेइति काणयाई, सह स-तदागएहिं ति । अवि य—

अह-कससालिय-विमले रेहइ 'नह-बंदिरमि यमि-दीचो ।
 मदिप-विबोहकाले सारप-लच्छीए दिओ व ॥

तओ सालिभद्र-मुष्पात्रिणहिं लक्ष्य-पार्साहिं इयम-सेहि-नरववाइएहिं उपची-
 पाओ' सहालंकार-विभूतिपाओ' से गेहे निरुवम- [रुव]-जावस-बोवग-सिनाए हाव-वाव-
 कला-कोसहाइ-तपदाओ' सहालंकार-विभूतिपाओ' चवीसं कसवाओ' । सचसुमाप-

१ क कला । २ क लच्छीइ । ३ क 'य' । ४ क 'सो' । ५ क 'व' ।
 पृ १३



पत्न्या-पुत्रस्य च भगिनो' गोभर्-सिद्धी मेहि - 'जह वि सातिभर्त्स्य इवाह-पुणेहि
 अग्निसाओ,' 'तथा वि अम्हण्य चेव्युई-निमित्तं मेण्हेउ एयाण मंगलेहि 'करे ति ॥'
 पडिपच्चं से वचनं, उन्मुदाओ' मन्नाओ' वि महाविच्छद्वेणं । एवं ताहिं मइ मइमिनि-
 दात्तापुमान-वभियं धम्मत्थ-काण-सुवाहं' विलिहु-वण-सत्ताहमिअं जिणधम्मपुत्ताण-पं-
 १ विपलोक-सुहसपुहसंतस्स सत्ताकंठो कोह काओ । अथवा य से अथओ' निराहित-
 मिच्छलंक-सामओ वमोक्खर-परो कय-मय-वनिचाओ' मओ' समाणो जाओ' वेमाणिय
 तुतो । तयपुरुव-निभाणिय-कापओ बोणे पुंनिउ वयओ । अचुक्क(क)उ-पुत्तापुमानओ'
 य संपादेह से जणओ' समीहियं तवं ति ।

अम्मंनर-मइविलि-देण्ण-दाण-पुत्तापुमानओ तिपसो ।

॥ संपादेह अहिच्छं कामे स इ(हि) तस्स बहुपाइं ॥

अपुहवमाणस्स सुहं मन्नाइं समं च वचह काओ ।

पुणेहि जणमि-अथया कुंमति सत्ताइं कत्ताइं ॥

अथवा आगतुप-वभियेहि राधो सेभियस्स उवर्णायाणि कंवल-रण्याणि । 'अद्द-
 २ महग्घाहं' ति करिय च महियणि । पच्छा निव-गेहे डिवाए भदाए सत्ताणि ति
 महियणि । 'चिच्छणाए य इतिअमाणीए राध्या वाहराविया ते वभिया । पुच्छिण्णहि
 सेहं जहा सातिभर्-जगणीए मत्ताणि ति महियणि । तओ पट्टविया कथ पुरित्ता ।
 निवणेहि व माहियं जहा एकत्तयं चिय गामि भदाए काडिअण बहुवाणं पाय-सुह्णयाणि
 कयाणि । भवियं च गाए - 'जह पुराणेहि कअं, ता केसेमि' । एवं सोअण गाएपर
 ३ सत्ता 'चिच्छणा - 'एकं पि न महीवं' । विन्धिएण 'पट्टवियो पुरिमो राध्या भदाए
 समीपे - 'पट्टवेहु सातिभर्, पुलोएमि कोउहलेणं, अस्तोरिती महाविभूई' ।

गंतुव आमओ सो रओ साहेह जंफर भदा ।

'चदाएवा पि य मे देहु पुणेण कया पि ॥

य य मेहाओ' धाहि विमिगाओ' ता करेउ जह राया ।

॥ एकं मज्ज पलायं ता गेहे एउ सयं राया ॥'

अह कोउएण पनो मरनाहो पेच्छिअण पर-सोहं ।

चित्तेह मग्गमिणमो अदपरियं मच्चओर्मणि ॥

समासुओ चउत्थ-भूमियाए निमओ सोहत्ताणे । कया तयपुरुवा पडिपवी । सचन
 भूमी-आरुओ भगिनो' सातिभरो भदाए - 'वच्छ ! राया आमओ, तं पेच्छि(च्छ)अ'
 ४ तेव भगियं - 'तुमं चिय से अन्यं जायसि' । तीए भगियं - 'वच्छ ! न एतो वभियं,
 ५ किं तु तुज्ज सेम-तोगाव य सामी । तं पिच्छिअण य पयचत्तु' । तओ इमं अहुव-पुं
 निभाणिकण विधिपमणेण - 'भिरत्तु संवारस्ता, वमि तुहोपर-वाधि-पाय-वपया'

पराधना । भिषग्भवेति वदन्ति पाणिनो ता धम्पा साहस्यो जे त्रिहुपय-सुख्मन्तरेण अर्थं सास्त्री(विं) च पयञ्जति ।

अथि य-नरपद्-पसत्याय नराय करिञ्जराभं व नरि-व नोत्स्राहं ।

दिव-इच्छिप्याहं ज्ञो ! वेसमय-नामाय वि जर्धमि ॥

जिम्बर-आवाए पुणो वहुंता पाणिनो इह भवमि ।

लहिऊय साभिवाहं सिद्धिमभिन्येव नञ्जति ॥

ता जिप्य-ययमायुद्वेषेण अर्धत-दुच्छदं विजुलया-चंचलं सक्तलीकनेमि मधुसूदनं भावेतो अलंघनीय-अपामि-चयगाओ' वधू-उद्दिओ' कामदेवो व सखी-ऊय-लच्छि-समेओ' अत्रपरिओ' सखी । दिहो राया, कव-पगानो य अघायरेण कयो राय(ह)या उच्छमे । पैलियमभेण- 'धम्पो एओ जो निपय-सिरीए त्रियसिद्-सिद्धिं' पतिहुच्छिऊय डिओ ।' एतो नचभं व पतोडु से गिएऊय भविषा भदा राया- 'किमेयं ?' लीए भविषं- 'महाराय ! एयस्स पुञ्जापुमानावजिओ' अपय-देवो-अुद्धिं देहाभि नय-बंध-महालवाराईणि सदाइयस्स पयाभेइ । तेण व सहर मचलोइय-अुद्धुम-विहोवपाईण थंथं । एतो नचहुनायं विसजिओ राइया समसुओ सचमि-भूमियं । अदकीऊएय य सखी राया वि तक्षेव । सचहुवायं च भविओ भदाए- 'महाराय ! कीरउ संयय मोयय-पडिपचीए पमाओ' । 'मा ते परधया वंसा भवउ' चि पडिपचं से वयर्थं । एतो धीकत्थपाए भवयुजाणे यानीयर-वावीडु पात-अलअंत-धओगेण अमिरपंतस्स अहंसंमयेण पडिथं हुदा-रपणं राअं(ह)यो । तउच्छं च थियंतस्स भदाए भविषा दात-पेडी- 'संचारेणु अन्थाय मज्जय-वावीए अउं' । उहा कए से एयय-सुवन्नयस्स मज्जे दिहं इंगाल-सरिसं । विमिइएय पुच्छिवा राइया- 'किमेयं ?' । पेडीए भविषं- सास्त्रिभट्टेण वहुइ य उच्छिप्यापि देवापि एयय-सुवन्नयाइपमि । 'अहो ! कपरयो एय सास्त्रिभट्टो, जस्तोरिसी मडिम' चि भयंओ अहिपंदिऊय मखो निपय-भेइ । इओ य समोपरिओ धम्मपयोसाभिदाणो आयसिओ । मज्जे से वेदय-वडिवाए राया, सास्त्रिभट्टो य सदाविच्छड्डेणं । निन्नामिओ' साहु-धम्मो, भाविपं संजारासात्तचर्पं ति ।

अथि य- "नारय-तिरिप-नरामर-नईतु परमत्थओ सुइं नरिप ।

अर्थल-निरावाहं सुचि-सुइं नितवममयंत ॥

मोचुण साहु-धम्मं संभोवाओ इमस्स वं नरिप ।

ता लंथि वेव जतो कायवो किमित्थ सेवेहिं ? ॥"

एतो दिवय-निदिच-चारिष-परिणामो पम्कम्मया-निचितं वंदिऊय इरिपिो पविहो पयनं सास्त्रिभट्टो । कडिपं भदाए । एतो अयेपात-भाजया-परुक्खयेण नियत्ताविओ भदाए " यह वधू-काहिं संसात्-पडिपंचो । अन्न-दिजहंमि हुदानमचओ विअतो तित्थपरायणयेण धम्म-सिचेय एतो । दिपं से पारिभोसिपं । सदाविच्छड्डेण मज्जे' नयवओ' वेदय-

वदित्वात् । भाव-सार च बंदिजो महावीरो । निराधिजो साहु-धर्मो । विरच-संसार-
सुहेय च मणियमयेयं—‘मगनं ! जाव जगणि पुच्छामि, ताव ते वाव-मूले करेमि वरव-
पदिवर्णीए सुफळं वधुप-वर्म’ । भगवथा मणियं—‘देहाशुषिया ! वा पदिवंथं
कृपसु’ । गजो एवो । पुच्छिया जगणी सह वंधवेहि । दिवं वाचोत्तमा-गुह्यं दाणं ।
कथा सब-जिण्णावपयेसु अट्टादिया-वहिमा । सहहा, किं वहुवा ? तकात्ताशुक्क-विचि-
चासेस-कायसो महाविच्छेदणं वहरसो तित्थपर-मनीवे सालिभदो सह ववीसाए वहुहि
सेस-सोमेष य । एवं च तेस्सेक-दिवायरेण सह विहरसो नामाविह-वयो-विसेस-
सोसिप-सरीरो पुणो वि वनो रावणिहे विकला-निमित्तं । नीहरतो मणियो तित्थ(प)-
रेण—‘अज ते जगणी भिकखं दाहि’ति गजो भहा-वेहं । अट्टसुसिउ थि न नासो,
‘वपव-विण्णो निग्गजो’ ततो । जम्मंत-उवाणीए य इहिष्ठा पदित्तादिसो । पचो जप-
गुरु-मनीवे । मणियमयेण—‘न मम जगणीए भिकखा दिक्क’ । भगवथा मणियं—
‘पुणव-उवाणीए दिवा’ । कहिए पुणवये ईहापोह-भगवथा-गवेसणं करित्तस सज्जणं
जांसरं । तं चिय दाहि पारिऊन कय-पादयोवमणं पंच-नमोकार-परो उप्पसो सहा-
विचावमि ।

- ॥ ता जहा सालिभरेण दिवं दाणं, तहा दाववं ति ।
संसेवेणं मणियं चरिअं शिरिमात्तिभद-वरसुणियो ।
वित्थरसो पुण मणियं नृणं उपपत्तमात्ताए ॥
सुयदेवि-पसाणं सुयाशुत्तरेण माहियं एणं ।
विण्णु सवो वि जवो कई य सुइं निरुवम-सुहेय ॥
॥ सालिभद-कहाणयं ‘समसं’ ॥

दानधर्ममेषाधिकृत्य देहिदं तावत् कथमाह—

इह लोममि थि सिच्छइ मणोग्हो साहु-भक्ति-दाणेणं ।

करी-देवदत्ता-नञ्जं जह पत्तं मूलदेवेणं ॥ २७

॥ इह लोकेऽपि सिन्धवे मनोरथः साहु-भक्ति-दानेन ।

करी-देवदत्ता-नञ्जं यथा प्राप्तं मूलदेवेन ॥ २७ ॥

इह सर्वेऽपि सिन्धवे मनोरथः, आत्मा तावदेव वरश्च । करी च देवदत्ता च राज्ञे
सिन्धवे(त)द्भावमित्यवधार्यः । भाषार्थस्तु कथानकान्धव्यपत्तायेदम्—

— [२३ दाने मूलदेव-कथा] —

॥ अस्थि अचंडी-उपवयासंकारभूया उलेणी नाम नचरी । जीए य मयल्लंतन-‘कवप-
करवासेसु कलंक, विवमि-मण्येसु दीसंति नामाह-पयाधि, वारेज-विहासेसु क-

महापति, रह-कलहेतु कीर्त्तय अक्षिरत्नं, त्रिपतेषु अङ्गुलीनक्षत्रं, विषंभि विष्णुसंभो,
यद्-सत्येष्टु निषाधो'ब्रह्मा-दंभवामि, 'कईवा-करमे दार्णमि महावर्मणं ति । अवि प-

रुई शरो तुभगो गुणशुभो' दोस-मच्छरी 'चाई ।
धम्मवथी कारुणियो अत्य उपो धम्ममुप-सरिमो ॥
रावा वि निप-सकम-निदलियालेक-सत्तु-संपाओ ।
व्वप-वव-पुरियाओ जियसत्तु क्कण्हकसो व ॥
अह कामिणीय कामो अघाम-वर्मणवार-दिगणाहो ।
सत्तु-वप-वाहय-अल्लपो वंचन-कुमुपाय भित्तिपाओ ॥
पणह-कव-क्कण्हकसो दीपाणादाव वच्छतो वीगे ।
विप-कु[ल] मंदिर-दीपो निम्मल-जम-वपलिय-दिपंते ॥
निप-रुज-विचय-परितुलिय-ववय-वेसयय-जाय-माहण्यो ।
सत्त-कलागम-कुसलो सन्धाहो अवलनामो ति ॥
सत्त-कला-वच्छा क्कण्ह-मुणोह-सुरपु-वरिच्छ ।
नामेव देवदाा सुपसिद्धा वणह 'वरवेमा ॥

जा य, परमोसही विममसराहि-दुद्धाणं, सुरसरिया सेनरमणि-त्रिलयानं, विषंकलेहा
गणिया-कुल-वह्यल्लस, उववदाया वम्महस्स, आघाम-वेण(रु)पी समरथ-सुह-सदो-
इस्स ति ।

अवि प-अतिमंतोणमिपीए चिरिया अंगणं नृव पडिपारं ।
केव करादिदुणं व होइ एवारिसी सोहा ॥
सुर-विजाहर-नरपर-सुपदेयं रुव-सोह-खाइ(प)णं ।
वं जीए आसि तयं पिण्यं निम्मिया एत्ता ॥
एयाए कटकख-वल्लोएवाहं निहारणे वि कुवियाहं ।
तत्त-उवाय सुपीय वि चिवाहं 'परंसुहीकुजा ॥
मणहर-कलाकिरामो संपुण-वसि व तत्थ परिवसह ।
धुचेसु परमधुवो, ज्वारेसुं पि ज्ववरो ॥
चोरेसु परमचोरो, ताहलिय-नरेसु परम-गाहसिओ ।
विउसेसु सुसुल-समो, धम्मवर(र)ओ धम्मिय-नरेसु ॥
रुवीसु पंचपाओ, समणो समणेसु, माहसु वि चाई ।
सरलेसु परमसरतो, कारुणियो दीण-क्किवणेषु ॥
इय केव केव समयं संबंधं जाइ तस्स तं तं व ।
परिणमइ मूलदेवो आहरिसो वेव दवेसु ॥

तस्स देवदाए सह सन्भाव-सारं विसप-सुहसपुहरेतस्स सव्वसंतो कोइ काहो ।
अथवा वसंतुसवे उअअसुववगएणं दहुण देवदसें वितिये अपलेव - 'अहो ! निवदिवं
विदिवा कोलहं इवीए रुवं विहेइस्स' । संनाथ-विसपाहिउत्सेण व पट्टविओ संगवो

ज्ञान द्योः' । मयिष्या य वेद्य - 'अत्र ते अवलोक्यो पाहृष्यो' । तीर्ण मयिष्ये - 'साधयं
 तपसागच्छंस्तस्मिन्महत्सु' । कथं तपपुत्रं समर्थं पि कापत्रं । ततो म्हाय-विलिख-
 लंकारिष-सनाधिप-तपोलो, अनुगम्यमाणो प(वि)वेदि, विन्द्य-कुसुमोत्पारं,
 पञ्चास्य-रूप-पर्यं, नाभाविह-रूप-रविं, मयिचकम्भोजलं, कुलभवणं पिय तप-
 लच्छीर् पयो देवदत्तात् भवणं पञ्चोत्-पमने अपलो वि । नित्यो पहागास्ये ।
 कथं चतम-पञ्चालगाह्यं समर्थं पि कापत्रं । ततो केचि सुयंवर पंक-मयिष्य-
 पहागाहि अर्चतापुराम-परादि कदादि चिद्विज्ज गया मेचाह्यो नियय-दृष्टेषु ।
 अपलो वि तीर्ण सह नाभाविह-दाव-भाव-वितास-विन्मगाइ-सुगाई अर्चतापुराम-
 गन्मिषं रद-सुहृत्सुहृद्विड पयचो वि । अवि य -

उह सुरप-दुष्पिहाए रुद-सौदाग-निरुवम-सुगाए ।

दूरमभिरामिओ तो अह तं पिय मद्द सुविषेसु ॥

एवं च तीर्ण सह अहिल्लिय-रुव-पयावेण वि सुहृत्सुहृद्वंत्सु सचद् कोइ पातो ।
 अहिल्लिती वि मूलदेवं अमयि-रूपं न पयेसेड । अत्र-दियहंमि मयिष्या अपयी -
 'पयेसेसु मूलदेवं' ति । अवि य -

चिर-संघिय-विरहानल-तावं हृत्त्वं मूलदेवं तु ।

न समत्थो अवयेठं अयो मपरद्वय-समो वि ॥

जनन्योक्तम् - सत्त्वं' सुत्वं च प्रवादः -

"अप्यजे स्मते मरी, मीते क्सेदि मापय ।

नीचमज्जये तथ्ये, प्राह प्रयेण विवेन. ॥"

वेद्य - सौत्थमपल-देवं समत्थ-गुण-रयण-साधरं एसा ।

अहिल्लस मूलदेवं चोरं जूड(प)पर रोर च ॥

देवदत्ताए मयिष्यं ति -

"रुवमि पेष हुदा 'नार्' 'व-जोवणमि न य दरे ।

चंवरं शुषेसु हुदा वे य सुगा एत्थ निवसन्ति ॥

अ मूलदेव-गाहे निवसद् विष्णव-नाण-कोसल्लं ।

तं कथो निवसेसु वि विसेसओ त्त-वसुएसु ॥"

अपयीए मयिष्यं - 'वच्छे ! न कला-कोसल्लाइपहि पि कथो अपलतामी मूलदेवाओ' ।
 देवदत्ताए मयिष्यं - 'अंभ ! मा एवं असमंजसं कलवहु' । तीर्ण मयिष्यं - 'वच्छे ! न किंमि
 वि असमंजसं, अहवा कीरउ परिमसा' । देवदत्ताए मयिष्यं - 'अंभ ! सुंदरं कलत्तं, ता गंत्य
 भमसु अवलं - 'देवदत्ताए उच्छुमि अहिल्लसो, तं पडुवेसु' । कहिए य अर्चत-निम्भरेवं
 विपाविपावि अयेषामि उच्छु(च्छु)-सगट्टामि । इतिस्वियाम् मयिष्यं अपयीए - 'वच्छे !
 वेच्छेसु अपलतामिओ इय-सुचि' । मयिसायं च मयिष्यं देवदत्ताए - 'अंभ ! निम्भं
 करेसुक्खा, वेषेवं उच्छु-सुंजी केज्ज ?, ता तंपयं भमहु मूलदेवं' । मयिओ एो वि ।

कृती विष्णुश्च इत्य कपडिपाठ, गदियाओ वो-कपडिपाठि दोषि पहाया उच्छु-कृतीओ, रोदि य दोषि गव-सराधाधि, सेसत्य चाउजापयं । निच्छल्लेडम कृतीओ, कपाउ मेदलियाओ, वासिपाउ चाउजापयं, विद्वा पू-कृति, उविपाओ मराश-संपुटे सुनपियपाओ । देवदत्ताए संवायात्वांदाए भसिया जयणी - 'विच्छु पुनिराज विन्नावंतर १, जेस जयलेम जयेन-दक्ष-विधिपोणेय वि न मनद्वाराहाओ' कय चि । सूतदेवेच पुण दवं विणा वि चाउजावाइ-भाविषा अडिप्पमाणा एव मनसवाकहा कय चि । ता सत्वं नरिय विन्नागाइ-पुणेहिं सुलदेव-परियो' । तओ मेसावह-वजलिया द्विया दुन्दिका, सुलदेवस्स छिदापि अजेममाणी । विमयापचाय य न दुह्हाणि छिदापि ।

अदि य - "कोउसीन् प्रात्य न गोविंते । विपन्थि कम्पत्तेउत्तं वता ।

कोमि कम्प न सपिबत मुवि जव ? को नाम यहा शिय । ।

क उलस्य न गोपान्तरावत ? कोउसीं वतो गोवदं ।

को न दुर्जेन-वराउपु पडित् जेम्म जाह पुमान् १ ॥"

अथ-दियहंमि भसियो अपलो जयणीए जहा 'गाम-यमयं कडिउयं पओसे एउत्तु' । एव ति कडिए हरिसिय-मयाए वाहि(हो)राधियो सुलदेवो देवदत्ताए । पओ से भेदिर, समाउओ तीए सह रमितं । इयंतमि सुणिय-बोचंतेम वेदियं समंता देवदत्ताए । यवउदरं अयलेम । मय-मीओ व डिओ पल्लंके हेडुमि सुलदेवो । अपलो वि गदिया-उओ वदिहो राहर, निसओ पल्लंके । लक्खिउम सुलदेवं भसिया देवदत्ता - 'आथ-विदिदुवहुवेसु' । निष्पाउयं सपयं, उवणीया पाण-पुची । 'इए आत्ते निविसत्तु' नि भसियेच भसियमयलेण - 'पल्लंकारुडेण प्थापयं' । देवदत्ताए भसियं - 'सयमेउं विनासिस्स' । तेच भसियं - 'अथं क(का)हाओ' । तह चिय अपेण-जतादुरिय-कमय-कलसेदि प्थापमायस्स जल-वितापमसहंओ बीहरमाओ वित्तुय केमेसु भसियमयलेण - 'किं करेओ ?' । सुलदेवेम भसियं - 'जे ते रोचह' । 'अतो ! महापुमानो एतो । कस्त वा देव-वसवधियो वित्तम-वसा-विमाओ न इव ? । न य विमयापचाय दुह्हाओ आववाउ' चि । अदि य -

"मयाज-अम-मत्थयस्सो देवासु-सपर-संपुन-पयाओ ।

दिय-वसेम वसिउह मह-कल्लेलेण हरो वि ॥"

विमारेवेण 'ममं वि संपप-विषयं सुदउत्तु' चि भसिउम पूउम य सुको सुलदेवो । 'अतो ! कइमप्यमं पओमय-अयन-कल्लंकिं नानारयाण दावेमि' । मयमाओ पपडुओ 'वेध-वहाभिसुहं । यवंतो य समासचीभूओ महाउवीए । दिहो वेण तन्व गदिय-पाठेओ सहदाभिसाओ हुको । 'अतो ! इमस्स संवला(से)गाहं चि महाउवि संविस्तामि' चि भावेतो पपडुओ सहदेव सह गंतुं । नयासचीभूओ मन्त्र-कालो, संपता उदायं, निसाया पन्नेइ-प्यायाए । जल-तीरे य समाउओ उतुं सहडो । 'इने मव्व चि देमह'

१ इ क सुहं । २ क क पाओ । ३ क क विं । ४ इ क पाओ । ५ क पमे । ६ इ क पडुओ । ७ क क विवा ।

पि चिंतितस्तेषु मूलदेवस्य पयडो सद्ब्रह्मो । 'अकर्ण्डे दाहिचि' ति कर्णतो पयडो मूलदेवो वि । अकर्ण्डे ति तद् विषयं ब्रह्मं पड्डिओ पड्डिमि । 'दुइप-विक्खे दाहिचि' । तत्थ वि षा दिच्चं, तद्देव वि न दिच्चं । गमासभोइओ वणिमपस । 'अओ ! एपसस महासु-भाक्खस आसाए नए अट्ठी बोलीया, ता न सपयं उवपरिउं करादि' चेत्तेण भगिओ मूलदेवेण सद्ब्रह्मो - 'संपत्त-विक्खं ययं सोऊज इअसु' । सयं च पविडो वणिममि विक्खसा-मिमिचं । तद्दा कुम्भाया, भरिया पुडिया, पयडो उडामामिड्डं । इत्थंतरमि मासोपवासी दिडो भिक्खवुडा गामामिड्डं एतो महरिसी । 'अओ ! पदु-पुण-वावणिलो एस मइप्पा, विसेयओ मास-पासए । ष ष मे 'कुम्भासे मोपुणमचं दापवमत्थि । एय-पवायेय वि करेमि अचंत्त-अयत्थमप्पामं' । समोप्यत्त-पहरिसाहसएय वणिप-वयेय - 'भावं ! चिपसु यमासुगहड्डा एते कुम्भासे' । साहुया वि दवड-कओवओयेय गहिप' ति । ततो संजायाब्देय पट्टियमयेणं ति -

'पच्छाणं सु नराणं कुम्भाया इति साहु-वारणए' ।

तद्दा सच्चिदिय-देवयाए वणिओ ष मूलदेवो - 'वत्त ! मम्मसु गाहा-पच्छिडेय वं रोचइ' । तेष भगिण्यं -

'गमिषं च देवदत्तं वंति-तहसं ष रत्तं च' ॥

देवयाए वणिचं - 'अक्खिण इविस्स' । ततो भोपुण गामं गओ विष्वापडामि-ड्डं । संपत्तो पओसे एगमि नयरे । पसुओ देसीए चहेदि सपं । सुमिओ सडो 'चंदो उयपमि वणिसभाओ' मूलदेवेण चडेय ष । चडेय अक्खस कडियं 'चंड-पमाओ 'चंडओ वविस्स' ति । एएय सडो यमंतेण अट्टिड्डो मंडओ । मूलदेवेण चित्तियं - 'न एते सुमिक्क-कलं विचारंति, ता किमेतेमि सिडेय ?' । ततो उडेऊज निवचिप-सरी-चिलो 'आपंत-सुइपूओ गहिप-पहाण-पुण्ण-कलो सुहमवत्तसस उवज्जावसस विहि-पूओपवारो सुमिणयं कडिउमाडओ । कडणवापमाणे' दाऊज नियन(व)पुण(पं) सनाइड्डो एत्त-दियससमंतरे पहाण-रत्त-लाओ सुमिओ । कमेय ष पत्तो विष्वापडं । एपणीए ष नदिओ ईमर-चरे सत्त-इहे चैव मूलदेवो सनाइओ वज्ज-भूमि वेउं । ततो चित्तियमयेण - 'किमइपहा वाहणी देवया, उवज्जाओ ष !' । इत्थंतरमि वओ तत्थेव अपुओ राया । नीमियाणि वंच विजाणि त्रिप-नउकाइं ममंतेहि देडो मूलदेवो वज्ज-भूमिए नीगिजंते । ततो काऊज चळ-गअियमत्तोविओ नियप-चंधंमि करिया, हेसिणं तुरगमेण, डिपसुवरिसुहंढ-पौटरीयं, वीइशमि चामराणि, परिस्सियं वंओदएणं, निवदिया कुसुम-बोही । एयं च महाविच्छडेयं मित्तओ सीहासये । पडिक्खा महासामं-ताएहि आया । तद्दा पयडोवदं पयप-महासामंत-वंडळं रत्तमसुइविउमाडओ । ततो चित्तियमयेण - 'अलमिमिया सुंदरेयाणि रत्तेयं पियाए देवदचाए रहियं' ति ।

१ क 'अ कुमा' । २ द क ज 'नजे' । ३ य 'ए, इ' 'इ' । ४ द क य, 'अरो' ।

अवि य- "सुखद जं क ली वा निवसित्यज्ज पदुणे व एत्थे वा ।

सुखेण जत्थ जेतो न 'विप रत्त किमप्येव' । ॥"

इहा य मे देवदत्ता निव-जीविषाओ' वि । ततो उज्जेणीए शवार्ण दाण-सम्माणाह-
नविहिंसं काउज्जा उट्ठा देवदत्ता । एवं च सीए सह सेम-मदितादि य महरिसि-दिण-
दाण-पुन-सुखेण सुखवण-पसंवापिअं धम्मत्थ-काम-तयाहं विमय-सुखमनुदरंवास्त
उमहंको सोद कातो । इओ' य विविपमपसेव । अवि य-

"एतथ-सत्तक-अपला कित्ता पुनं न जत्त पक्खेद ।

निव-पौट्ठ-अण-साल-विट्ठ-सरीण्णेर कि तेम । ॥"

सु पुन दाणाओ, चोरुणाओ', तवाओ', कवाओ य पावेसइ । ता निग्हामि ताव
दाणेष साम्भं किंविं । न व अत्थेव विणा दाणं वि'पजइ । पुन-पुरिसज्जिओ कत्थो
'अविबविण-पोकसो अमत्थो चैव, ता पुन-पुरिस-दरिसिण-मणेरं मंइण देणंरं,
समणेउज्ज पवं, पूरेमि अविण-जग-मणोरहे, कारावेमि किचि(च)यामि, सज्जुरेमि
दीणाणाह-किचि(च)याहणो । तओ पसत्थ-वासरे आधोमपाह-पुण्यं तवात्तापुरुवं पत्थाप-
गमय-निवविषासेस-मंगलोवपणो अणेम-विवतणय-समण-वविण-किणयाइ'हिमपुण्यमंनो
महाविण्णुणं पयडो अयल-सत्थवाहो वि । अवि य-

"अविप-[अप]वाणंरो निवविषासेस-मदियलाओओ ।

दाण-अहं विवरंओ पचइ मेहु व सन्वाहो ॥"

कमेण य पचो परदेसं । आवासिओ' चारिकजाणे । संपचा नरिइ-पुरिसा, वडियाणि
हुंजाणि । अणपा कोटीपर-वणिगो । दिट्ठाणि भंडाणि, दाविवाणि पदिभंडाणि,
दिग्गाओ' हत्थ-सुग्गाओ', जाओ ववहारो । संवरियाणि कोण्णर भंडाणि । दाविवाओ
अंकावलीओ । गहिपाइं लेखपाइं । समाणाओ महालाओ । एवं च तणसुख-निवविषा-
सेस-कापवो पसत्थ-वासरे पयडो उज्जेणि-हुणो । इहा वि य वविणववाए पचो केव्हा-
पवं । 'हुंर-वेजमाणिसु य भंदिमु न सवा[वि] द्वाणि हुंरं दिचं'ति इमिवा
अपराहेण बह्वपणीओ अयलो । 'अहो! कत्थित्थ अयलो?' पित्थित्थेण भमिपं
मूलदेवेण - 'विवाणसि मभं ?' । अयलेण भमिपं - 'को व्वण-विट्ठरिण-जसं महाज्जिदं ।
न विवाणइ ?' । तओ साहिउम विपय-वरिपं समापिओ एत्तो उज्जवाणो य । भमिपं
राणा - 'सत्थपाह-पुण ! कीस उज्जसि ?, न जीविण-दाणाओ अम्भं दाणमत्थि; तं च
ते दिचं । न य ते पञ्चवपारं अह काठं समत्थो मि' । वत्ता मओ सत्थो, कय(इ)वय-
दिणेहि य पचो उज्जेणी(वि) । तुहा नरिइ-सवण-बंधवाइओ, कओ नपर-महत्तवो । विणिओ-
एवं अहा-समीहिणं दवं । मूलदेवेण सदाविज्जा सइइ - 'तुइ पाहेप-आताए मए
अहवी संपिया, का एत्त तुज्ज गामो, मा य पुणो आणण्णेषु नपर च' । वदि[व]इं च
वकरोहिं सुत्थिणं नयरं । न य आरभिसया तवरे विण्णिइं पारंति । अणवा 'पील-वड-

१ क. विमि । २ क. 'अवे' । ३ क. 'उ' । ४ क. मत्थवदियवोर' । ५ क. न 'विण' । ६ क.
पदिववाण' । ७ क. विप' । ८ क. ने' । ९ क. 'ओ' ।

पाठरथो पदम-बयोसे सर्व येथ मूलदेवो त्रिप-चउफ-चचर-गुम्बदाईसु भूमिऊन
 मसुतो एगमि वरसे । ह्यंहरमि आयथो मदियाभिदावो चोरो । पुढो य तेण
 मूलदेवो- 'मद् ! को तुमं ?' ति । तेण भूमिपं- 'देसिओ य आवम्म-ररिरो' ति ।
 मंडिण्य पुवं- 'अम्मासु मय पिड्डो, जेण तुमं अदरिं करेमि' । 'महापसाड' ति
 मयंतो लमो सेऽसुमनेण । दिवं ईपर-चरे खवं, मीणियं तओ दवं, आरोविचं मूल-
 देव-संपे । कओ अम्मओ, पपडो गहिय-सग्गो मंडिओ से पिड्डो । संपत्ता भूमि-वरसं ।
 भूमिपा प पुव-संकेआ मधिणी- 'दयस्म पाहुणयस्म चलये धोरणु' । पूव-तडा-
 सन्धासय-निविड्डस्स चलये धोरंतीए सुहुमार-कासासुरताए मण्णिओ एसो जहा-
 'वलदसु, न तुमं दयथ क्वए पक्खिवामि सेर-पुरिसे व' । हुणिय-वरमस्यो य पहाविओ
 मूलदेवो । एत्थंलम्मि कीए कओ कलयलो जहा- 'पहाविओ पुरिसो' । तओ दव-संगो-
 वण-वाचारमुच्छिऊन गहिय-करनालो पहाविओ मंडिओ से पिड्डो । समारण्णीहो
 य ठिओ चचर-वसंभरिओ । एसो देसिउ ति आहओ कंक-करवनेण । संभो आओ
 दोमि संडाणि । 'मारिओ देसिओ' ति पदिनिपचो मंडिओ । राया पि चोरो लडो
 ति गओ धवलहर । पमाया रवणी, उग्गाओ दिवमयरो । वेडिऊण बहु-वत्थेहिं चरये
 गहिय-दंदो खटंन-सह-वसरो एमस्य दह-चचरे वत्थामि पुबिद्धिंए तुण्णिउमाउओ ।
 रायणा सदाविओ मंडिओ । चितियं य येण- 'अओ ! न सो नूर्ण पुरिसो
 कावाओ, तेण काहरणं' । तो गओ संव-समीवं अम्मुट्टापासय-पवापाईहिं पूहऊन
 भूमिओ 'मिय-भूमिं मे देसु' । तेण दिव्वा, वीटाहिया य । पुणो सम्मानगाईहिं
 गहियं दवं । एवं च क्षीमासिऊण पूवा-तक्कागह-पुववं विन्धतेण गहियं सवं पि दवं ।
 पुण्णिपा सा मारिया-जह दिवं नव पि । तओ वन्हा अमापार-निरउ चि काऊम
 'निग्गहिओ रायणा । एवं सग्गेण मंडिय-वरियं भूमिं । जहा रायणा ताव मंडिओ
 पूवो, जाव दवमतिथ । एवमिमं पि मरीरगं ताव सु(भ)चोसह-वरपाईहिं पोसिअं, ताव
 वम्प-करण-सुमत्थं ति । वन्हा सो निमंटे रअं पणट्ठोपदं व्विउमाउओ ति ।

अओ जहा मूलदेवेण दाणाओ इह सोये फलं पत्तं, एवं सेसा वि पार्वति पि ॥

सुपदेवि-पसाएणं सुपाशुसारेण मूलदेवस्स ।

कहिउं(यं) ओ सुणदं नरो चरियं सो लद्धं निव्वणं ॥

॥ मूलदेव-कहाणयं सेमत्तं ॥

रागादिभिरहितेन आचार्येण गुणवान् निवपदे कार्यं इत्याह —

रागाह-विरहिण्यर्हि गुणवंतो गुरु-पयमि कायवो ।

जह अज्जरकिल्लएहि एवं चिय सेम-सुरीहि ॥ २८

[गुणादि-विरहितैर्गुणवान् गुरु पदे कर्तव्यः ।

कथाऽऽर्षरक्षितैरेवैव शेषस्तूरिभिः ॥ २८]

— [३४. गुरुपद-कर्तव्ये आर्षरक्षित-कथा] —

दमपुर-उप्पधि साहित्य तत्थेव सोमदेवस्स ।

भइस्स रुत्तोमा ज्ञया ज्ञिणवाण-विह(हि)ण्णु ॥

ताभज्जरकिल्लपसुओ पाउत्तिपुत्ताओ' गहिय-बहुविओ ।

निय-त्तपदं संपत्तो ज्ञाणदिय-गाय-नरत्तोओ ॥

सज्झागमेण तुट्ठो सन्वो चिय जंयिया य [अणणी] ।

जणणीए सो भणियो-किमवीओ कळ्ळ ! नए विट्ठियाओ ?' पि ॥

तस्स कएण पवट्ठो उम्ह-सउणेय गहिय-परस्सवो ।

उत्तुर-सउय-गहियो 'अह्हीणो गुरु-समीपंमि' ॥

कत्तो पत्तो घम्मो ? गुरुणा 'पुट्ठेय नाहितं सत्तं ।

पटिहामि विट्ठियायं अह गुरुणा तो इमं भणियो ॥

दियल्लए सो लभ्भए 'एवं चिय होउ' गहिय-सामवो ।

सह(य)वाह-अएण गओ गुरुणा मइ तो उ अकएय ॥

गुरुणो गहिए नाणे बइर-समीपंमि नचवाणो उ ।

निज्जयिय-भइगुणो संपत्तो बइर-वात्तंमि ॥

कि चूण-पय-पटिग्गाह-सुमिणय-दाणेण सुत्तओ पत्तो ।

वाहिर-वत्तहि 'पुण्णो गुरुणो सो काय-सूत्तमि ॥

अल-वसट्ठीए भव(ण)वं सम्मं किह होइ ? जंपिए गुरुणा ।

तेण पि तो निज्जयो आणेमा भइगुणायं ॥

'जो मे सदि निवत्तइ, तो मं अत्तुमइ' तेण कट्ठेय ।

गुरुणा एण निज्जिओ 'एवं चिय कएणु को दोणो ?' ॥

दसमंमि समाउते पुण्णे जगवाइएहि से भाया ।

आगमणत्तं तुरिअं बहुविओ सो गुरुं अगइ ॥

किचिय-विचं चिहए पुण्यस्स इवस्स ? सरिअव-पिरिहि ।

विट्ठंमि उ ग(क)हिओ(ए) गुरुणा सोयाउरो निचं ॥

गमय-कएणं पुण्णइ सोच्छिअस्सइ इत्तं पि य समाओ ।

नाउणं पट्टविओ प्साविय-भायरो एणो ॥

पयो वृत्तपुर-नपरे रावा उवमामिओ उहा वपथी ।
 मोचुव नियव-जवयं अओ पन्वामिओ वहुवी ॥
 छतप-उहिपं वपयं खावेऊन विव-वपवेहिं ।
 परिचत छतपाई सुवमथो सो सुवी जाओ ॥
 दुन्वलिप-पूवमिओ मेहावी चीवगमि वच्छस ।
 उपवेह वपमिओ वयं तु वय-पूवमिओ उ ॥
 गोहा'नाहिओ'हरिस'मामगो कम्पुरकिसओ भापा ।
 विंलो वि य मेहावी एए वच्छंमि जुग-मारा ॥
 वन्वाव-मेहलीए विहरमावस छरिया विओ ।
 दुन्वलिप-पूवमिओ विंछसच्छ'थो'तेम सो मवर् ॥
 पम्हुई सत्त पुर्व वेषव-वेहंमि जं य नो सु(मु)वेधं ।
 वेसि विवोहपहा विवेह गुरू इमस्तपि ॥
 सुरगुरू-ममस्त पम्हुए वेल-साहूव पुव्व-उई तु ।
 ताहे 'जुओ'पुओमे करे म-दुव्वडे नाई ॥
 वप-करवापुओमे वन्मे काडे उवैव दंमि ।
 आपाराईए सो चठविओ होइ अगुओयो ॥
 हरिया निओअ-नीव कहिया सीमं-वरेव जिय-सिहुं ।
 पुच्छर वरि पि इरी महुराए विहिप-दिव-वेमो ॥
 दिवं रा(ना)वं सह देमवेगं वरवं य 'वालिप विहिवा ।
 निष्कारवा य सीला इहि वगहारिवं करिमो ॥
 परिभाविऊव गुरूवा मवेव पुट्टेव छरियो भापा ।
 मानो य सनाहो गुरूवा रावादि-रदिण ॥
 वप-तिछ-वछ-इह-ररिसयोहिं दुन्वलिप-पूवमिचं तु ।
 उविऊवं नियव-वर सरी सग्गंमि संपथो ॥
 महुराए विपिऊवं नाहिप-साई(ई) निवामए गोडो ।
 निष्कारव-दिहुंवा दुन्वलिपं मयहर ताई ॥
 अहुव-वचमं पुवं अपुववमावस सो उ विंछस ।
 मिच्छामिनिवेसेणं सपमओ 'मिन्दो जाओ ॥
 तेगुरेसेण इमं सिहुं चरिवं सविण्णर जेय ।
 सिहुं ति दुम्हणिय-वरिए तथो विव सुवइ सविसेलं ॥
 सुपदेवि-वत्ताएणं सुवापुत्तारेण साहिपं चरिपं ।
 संखिपं निगुणंओ पावद् मोक्खं सया-सोक्खं ॥
 १ ॥ अत्तरकिसव-वन्वावयं 'समत्तं ॥

भक्त्यादिभिर्देवा अपि वक्ष्यन्ति नो नवन्तीत्याह -

भक्ति-विणयाद्दृष्टिं देवा वि वसन्ति होति किं चोत्तं ? ।

जह् जन्तो लोसविओ विचमर-सुपण सकेत् ॥ २९

[भक्ति-विणयदिर्दिष्टा नहि यत्रे नरन्ति किं चोत्तं (आश्चर्यं) ? ।

यथा यक्षस्तोषिक-विचमर-सुतेन लक्ष्णे ॥ २९]

— [२५. भक्त्याऽऽराधने चित्रकर-सुत-कथा] —

अरिषु भक्त्याऽऽराधने-पुत्रिणं सिद्धयन्-सिद्धि-संकेत-द्वारे साकेयादिद्वारं महात्परं । तस्य य उच्यते-सुखिण्ये दिशि-कारं सुखिण्यपवित्तायो संविद्धि-वादिहेने जन्तो । नो य इति सं वसिं कथ-नरुमो विद्विष-चिरकम्भो य रं विचकर काशाह् । अह न विचिज्जह जण-मरं विज्जेह । तयो य कोत्तं दीए एयो दान्तो विष्वाणत्वी क्तो " साकेयं । पविद्धो एय सुखपाह चित्रकरीह गेहे । एवं च तीए सुपण मह संवसंत्स समहकंती कौह कातो । अत्रया आशओ से चिनेयव-वारओ, ककुभिया केरी । पुच्छिया कोत्तं-दीए-दान्तये । तीए वि कथियं-नग पुणस अरतरो । तेव भवियं- 'धीमत्त्वा विद्वन्तु, अहं विचिस्मानि' । तीए भवियं- 'किं तुमं पुपो न हवति ?' । तेव भवियं- 'तह करेयो, तहा कीरंते जन्तो कोयेस्मानो' । तयो कथ-सि-रचोवशातो " प्हाय-विच्छि-सियपत्त-नियत्तो नयेहि फलसेहि अभितेस(प्ये)हि कथपदि अद्दुप-दुपयोनीए उह-वश्यो सहा परम-भक्ति-विष्वाणाहमरहि विचिज्जह उम्पादिवापि अच्छीमि । कथ-परम-महानो पाय-नियविओ विचविज्जहानो वि । अपि य -

"सुमसु सुखिण्य ! ते मे अकार्यमाणेषु किंचि अरगुं ।

प्रापिष्य-वच्छल विप इवंति तुम्हारिसा जेव ॥"

तयो परम-भक्ति-विष्वाणाह-आवजिहव भवियं जन्तेय - 'वद् ! परं वरेत्' । तेव भवियं- 'किं तुह दंतणाओ वि अओ वरो ? , तहा वि वा तथं मारेत्' । तेव भवियं- 'तुह रक्खवाउ विच सिद्धमिगो, अग्यं किंचि पायेत्' । दान्तए भवियं- 'जह् एवं, ता जसु दूपसुन चउप्यसुन वा एममवि देवं पेच्छामि, ते चिनेज्जाओ' वि । 'एवं' ति पट्टिये कथमिज्जह जन्तं नओ दारओ नेहं । आणविओ तयो वि " वित्तये ।

अओ इत्यह-अह से जन्तो भकीए सिद्धो, तहा मयो वि आरज्जयीओ भकीए आराहेपरी । सुह-वक्ष्यापथं जडोपएसमात्ताए । जहा नो सपाधिपथ निर(ता)दिओ, तहा य चंदपओएव नवरी रोहिपा, अह परंपरान्जहि इदुवाहि उलेविपाविपाहि पापसो क्तो, जहा बद्धमाननाओ समोसरिओ, जहा भिगावई उदयने वजोवसु उच्छये " दान्तए चहया; तहा सविश्वर भवियं ॥

॥ वित्त[प]र-कथापथं 'समसं' ॥

पर-रिद्धि-दंशणाओ तुच्छं निय-संपन्नं निरुद्धम् ।

बुद्धंति केच पुरस्ता दसम्पन्नभदो ज्व कथ-पुण्या ॥ ३०

[पर-रि(द्धि)-दंशनात् तुच्छं निरुद्धं निरुद्धं निरुद्धं ।

बुद्धंते केचन पुरुषा दशास्यंनदत्तं कृतपुण्याः ॥ ३०]

— [३६. बोधे दशार्णभद्र-कथा] —

- दशम्पन्पुरे 'नपरे राय-गुण-गणालंकिओ दसम्पन्नभदो राया कामिणीपण-बंधनप-परिवारो बोधे ब्रह्मणो विदुः । अस्याया मनोसरिओ महुष्यस-नामदत्तओ भुरग-भूषणो बद्धवाणसायी । बद्धविओ राया निउल-पुरित्तेहिं नित्यवरागबोधे । तिष्ठं से मयोरहाहरिणं पारिओसिधं । अश्वत्थमि अश्वमिओ चक्राय-पिव-बंधयो दिवसपरो ।
- विहरियाणि चक्रयाणि, मउलियाणि संकयाणि, विषंमिओ संज्ञा-राओ, अश्वदियाणि हृष्यम(र्थात्) कृत्वाणि, पकुत्तयाणि कृत्वा-महायाणि, पयडो दृषा-अयो । तओ निरुपिया-सेस-पओस-कापओ 'तेल्लोक्-सामिणो पाप-बंधन-पणमेण पूव-पावो भविस्सओ' वि मण्यमाओ कथ-बंध-नबोकातो पमुणो राया । मुह-नम्माणिय-निदो य विपुटो एतो पहाय-संगल-सुर-रत्तेणं । 'नमो जिघाणं' ति भणंओ सवुद्धिओ मयथाओ । कथ-महारिह-
- कायओ ग्हाय-विलिपालंकरिओ नमस्कटो वराकण-संज्ञासं महागुहं । छिपं उवण-पासेतु अंतेउरं । पयडो संतु महाविच्छत्रेणं । पत्तो मनोसरणं । पणमिओ नित्यपरो परम-भवि-विमवाएहिं । नित्य-रिद्धि-दंशणाओ य विद्धिओ राया । तओ से संकयं निरुद्धं विविधं हरिया — 'अतो ! अश्वमेमि से मरुं' मण्यमण्यो आरुओ एगत्तं । विउवियाणि से अट्ट मुहाणि । एकेक मुहंमि विउविया अट्टु वंका । एकेक-विमये विमि(म्मि)याओ
- अट्टु पुक्करिणीओ । एकेकियाए कलद्वयाए कयाणि अट्टु कमलाणि । एकेकंमि संकय-निम्मवियाणि अट्टु दलाणि । एकेकंमि दले विउविधं दिव्य-उवणंमहारोववेणं तिवम्-कामिणी-सयाहं वनीस-बद्ध-वाउधं नाउधं । महाविच्छत्रेण यं पयादिपीकओ महावीरो । 'अतो ! कपत्तो मओ, वेधेरिसेण विहवाहमएण पणमिओ नित्यपरो, कओ य इमिया अण-उम्ममि पम्मो, विविओ य अट्टमण्येण दन-त्थएण । ता संसपं
- अपरापण-सकल-सत्त-गुहाहं सिउ-सुर-निबंधणं करेणि भाउ-त्थणं' मण्यतो महाविभूर्हए निरुद्धंओ दसम्पन्नभदो राया पणमिओ नरामरेहिं ति' । उवणओ सपुट्ठीए कापओ ॥

गुरोर्धियं हर्षव्यमित्याह—

इगिय-चिट्टाईहि य गुरुपो चित्तं हरति मुगित्तथा ।

वेसा-भट्टिणि-सचिवा विद्वंता विद्व-माहृषा ॥ ३१

[इक्षित-वेष्टाऽऽदिभिश्च गुरोर्धियं हरन्ति मुगितार्थः(ज्ञातार्थः) ।

वेदया-भट्टिनी-सचिवा च्छान्ता एव-माहृषाः ॥ ३१]

भाषार्थः कथानकेभ्योऽवसेषः । तानि चासुनि—

— [३७. इक्षितज्ञतादिना चित्तहरणे वेदया-कथानकम्] —

सावाचीए नपरीए ह्य-नातय-जोडय-सोडय-कटा-सोडय-गुण-सय-निभूतिपा
अर्थासेषामिहाणा पहाण-सचिवा । तीए य लोए-चिवागारिमसत्वं चिपसास्त्रियाए
छिदाविषा निय-वागारुज्या मने वि नरिदण्यो । पन्सास्त्रिय-चलमो य काडुओ
नियय-[चिप]कम्मे य दिदि पयंय, पसंमई य । लओ मुगिय-नरिदा-सुवंया तयसु-
ह्यपटिवनीए अणुवतिवा इच्छापुरुवं दवं दिंति । एवं मोस्यरिष्या वि गुरुओ
सोसचियल, लुहा य वाचार्ईहि सोस्य-निबंधपेहि पटियाहिमपति ॥

मुगदेति पयाएणं मुयाणुमारेण नाहियं चरियं ।

वेसाए नितुयंतो होइ नगे विपय संपयो ॥

॥ वेसा-कहाण्यं, समलं ॥

— [३८. इक्षितज्ञतादिना चित्तहरणे भट्टिनी-कथानकम्] —

संसंतपूरे नवरे एकाए वंमणीए छिञ्चि भूयाओ संवत-जोडयाओ य महुण्डा ।
पन्सा भविषा उवणीए—'नय-निमर्थं भवारं पदीए म-वर आहयेजानु' । तदा
कए इरिस्त्रिय-चिचो चरयं संवाहितमादयो । भविषा य मा तेष—'पटियेष मन्धर्यं
न दूमिओ ते चयो?' । पमाए य साहियं उवणीए । तीए भविषा—'वन्डे! तुवं
वि जहिच्छं भयसु, मिय-उमिष-पडिनलओ जहा-सुई विहानु' । दुदय-भूयाए वि एवं
चिप पयंयि पहाए सो सिञ्चिओसंतो, उवणीए वि सिद्धो । भविषा भूया—'वन्डे!
तुवं वि जहिच्छं भयसु, नवर शिमवओ इविमए' । तावाए वि एवं निवचिए सा तेष
दूरं सुलीकाडय नीथिया वान्तोहओ । साहियं उवणीए । तीए भविषा—'जह
पयेसो अणववाए आगोहयो' । उवणओ सपुडीए कायओ ।

— [३९. इक्षितज्ञतादिना चित्तहरणे सचिव-कथानकम्] —

संसंतउर नयर । वरनाए-रायसिदि-सकेल-दुगं अरिकेसो राया । चउसिद-सुदि-
समसुएओ महंतुंओ मंती । अणवा आल-वाहिषियजद निमगओ राया । पगएव भूमि-
भागे लुचियं तुंयेव । रमिय-निवसेष य दिदुं तद-दियं सर्वं वि सुवं । निज्जायंतो य

सुदूरं दिव्यो भंतिषा, सुमित्त-मनो-नियम्येव च नाणाविहारस्तुजाय-देवउत्साह-भूमिओ
 मागतमत्तवगपुष्करी काराविओ महाउत्साहो । अक्षया आस-वाह्य-निमित्तमजगणं तं
 तदाविहं तदाग निण्डय अर्चन-विन्दिएण पुच्छिओ मंती राह्या-केपेसो नापम-
 सरासुकारी काराविओ तलाओ ? । भंतिषा भमित्त-‘देव! तए’ । राह्या भमित्त-
 ‘कहं ?’ भंतिषा भमित्तं नाम-वक्ख-दिवस-वेला-तुवणं तए अणुषाए । तओ अर्चन-
 परिउत्तेण मत्तेसु रत्न-नियमयेसु कापवेसु विउत्तो । उवणओ सत्तुद्धिए कपवो ।

धर्मस्वाध विदसाभावपि पूज्या भवन्तीत्यह -

धम्मट्टिया सुदूरं पुरित्त-त्थीओ पुवंति देवा णि ।

॥ जह नंदिसेणसाह सुउत्सा जह नाग-भज्या च ॥ ३२

[धर्मस्वियाए(ः) सुदूरं पुस्याए षीः स्तुवन्ति देवा षति ।

यथा नन्दित्सेन(देव)साहः सुउत्सा यथा नाग-भार्था च ॥ ३२]

भावार्थः उभावकाव्यामवगम्यते चेत्त-
 — [४०. देव-स्तुत्ये नन्दियेणसाधु-कथा] —

॥ तमरथ-देशाथ तिरुपभूर् अंत-तणनए एगमिन् घामे अर्चन-दारिदोवहपानं
 पुरित्तित्थीणं विहंक्का-निमित्तं संवारमपुत्रवंताय नारिणाए समुत्तभूओ गन्थो । तमिन्
 च विन-स्यत्ते च वडुमाणे पवर्त्तीहूओ कण्ठो । वापमाणे च तमिन् जलणी वि गथा
 जम-भंदिरे । नो उ दारओ अर्चन-पण्डु-रुव-लावण-सोहमाह-हीयो वाचसेचो
 अणुक्कंणाए नहिओ माउत्ताणाए, कणं ते नामं भंदिसेणो पि । परिपाळिओ कंणि
 ॥ कालं, तं-निमित्तेणं वा वि गथा अंतप-परमिन् । अवि च -

नियसह जथ अरओ तत्थ वसंताय कुणह मर्यो णि ।

अहवा सुकर दालं कमोदओ वरथ अळियए ।।

कच्छा पर-परिवादीए भिक्खं धर्मवो नहिओ माउत्तणेण । उक्खेण च तत्थ नायाविह-
 वेसण-परापवो चणो जोवणं णि । अवि च -

॥ “वेत्तनुदससंते विवचति विदचनेऽपि तावगमम् ।

दलीयति पाद-रुते तिन्य-कलम्याणि मापुमम् ॥

अवद मत्तस्येन विकीयानि जन्तुम् ।

विहारं कहु कर्त्तव्यो नापिकस्य मौत्तम् ॥

संतंय हि मनो लोके वैदुनाय प्रवर्त्ते ।

॥ तच्छायाभारं भयान् धैर्येण् वारिश्वाय निवर्त्ते ॥”

वित्तनगरादिदिओ मणियो लोकेण - ‘कीस एत्थ कम्मं कनेति?, केव विवचिउव
 दं न दार-संघं करेति’ । तओ अणएव वचंओ सुमित्त-मनो-नियम्येण षण्णो
 मापण - ‘एत्थेव चिहुण्ण, एणं पदम-सुहिणं ते देस्सामो’ । एवं च आसा-परावणं

संपन्न-शोभना सद्गुणशीला से पिठया । तीए वि सं दह्ये भगिओ ज्ययो - 'अए अण्ण
 धारपओ, जइ एणस्स देहि' । 'इयं दुर्यं देस्तामो' ति भगिउण्ण पुणो ति धरिओ ।
 तीए वि उह धिय निवारिओ । एवं सचहि ति विहा पुंजो व न नये ति हाइओ ति ।

अवि ५ -

“उमोहमार नीए सव सवस्स जीक्खेणमि ।

‘विम पुण इ उमोहमार भा केए सचहिअ’ ॥”

“अहो ! उम्मंततरोविप-वास-बहातरुओ समुत्थओ अर्धतामोह-फल-निवहो । अ
 किमयेव अणरथाभिविधेसेण दाराह-संयहाहिलासेयं ? । संपयं ति जाल 'उम-वर्दीहि' व
 सीडिजामि, तव आनेवेमि पुण्य-महा-कण्णसकयं, जेण उम्मंतरेसु वि पुंविमो अणप-
 फलाभि” विविंते वेण्य-सम्भापडिओ 'भणित्ताइओ । दिट्ठो पेण आवरिओ । ॥
 सविषयं व सादिओ नियम-पुण्यो । तेण वि जोगो सि काउण परुविओ संपन्न-दूओ
 पंच-महत्तय-सकस्यो उच्चरमुण-नामालंकिओ अहा-विधिप-दिन-फलाइतओ सुसाहु-
 कम्मो पि ।

पंचमहत्तय-कल्लिओ धम्मो अह परिषा समकसाओ ।

तेण वि सो अणयं विव पटिवओ से समीवंति ॥

एवं च तस्स वैरम्ममग्गाडिनस्स, अमोवेण-सण्णं सुयं पईतस्स, परसत्थं
 निगामैतस्स, रागाइयो सुसुभूरितस्स, कलाए निअमित्तस्स, इदिपामि निठमेतस्स, छज्जी-
 कलाप-संजमे वहुंतस्स, नीह(व)-वासं वरिहरत्तस्स, उज्जय-विहारेयं विहरत्तस्स, दसविह-
 रायाथारिमम्मसिक्कस्स, पववसुत्थ(ई)विहेतस्स, छट्ठ-उम-दणम-दुवात्त-इ-भास-दुमात्त-
 पठनात्तिपार्दिणि विधिय-तवच्चरथामि चरंतस्स, अरहंताइओ माव-सार कयमंतस्स, ॥
 पंचथं सुसाहु-सन्नामसणवरयं दसविहं वेयावयं पराए भवीए करितस्स समकंतेओ खेज्
 काओ । अजया तियस-मज्ज-(निय-सममय)द्विएयं भणियं सकेयं - 'अहो ! कपत्थो
 पंदिसेयसाहु, अस्स साहुधम्म-परस्स दसविह-वेयावयं करेतस्स वचइ कल्लो, न
 च सुरेहिं पि धम्माओ चालिअइ । अवि ५ -

“दसविह-वेयावयंमि संठियं पिच्छप (वर तिचयं) इरी मयइ ।

तियसेहिं पि न तीरइ धम्माउ चालिउं एवी ॥

हरिणो वचयं देवो असदहंतो ण मयमवपरिओ ।

सोत्तुं पित्ताय-रुवं अडवीए आमओ वसहिं ॥

वा-द्विएय भणियं सुरेण 'अडवीए चिट्ठए साहु ।

अतिसारवाहि-वादिओ, वा हरियं एउ भो ! कोइ' ॥

एवं(री) इययं सोउं पारण-समपम्मि मेच्छिउं कवतं ।

संपट्ठिओ महप्पा कपत्थमप्पायं' मण्यंतो ॥

ओसह-कए मंतो तियस-विषा(णि)म्मिणिय-अंतरापार्इ ।

सव-सचीए इंतुं सजोसहो तत्थ सो पत्तो ॥

१ अ क. 'री' । २ क. 'अ' । ३ क. 'सिद्ध' । ४ क. 'अ' ।

दिहो तेण गिलाणो सो वि य सर-कस्स-निहुर-गिरादि ।
 सिसेइ भंदिसेणं सो वि य तं सइइ चित्तो ॥
 रोम-वसेणं जंणइ एसो फल्लामि फइ सु एयस्स ? ।
 रोमाभावो होआ ? केण वि(व) इप्पेण दिजेण ? ॥
 १ सोत्तमं तं जंणइ 'वसदिमायच्छ, जेण मे किरियं ।
 कारेणो' सो जंणइ 'गंतुं न चरमि, ता खंधे ॥
 निषइ ठवेसु' ताहे खंधारुडेण जाइ सो तेण ।
 सुंणइ य सो गिलाणो लहुवरि दुग्गंध-विट्ठाइ ॥
 आ वाव ! वेग-थाओ कओ तए मज्झ गच्छमाणेण ।
 २ ता विसम सुद्धुचं' अइ ! एवं जंणइ गिलाणो ॥
 बीसमिअण सुपरवि सणियं तं षेइ खंधमारुडो ।
 सो वि य बहुप्पयार निहुर-वयणेहिं तं भवइ ॥
 सुससेलो चिव जाहे न चालिओ सो सुरेण वम्माओ ।
 निव-मार्यं संहरितं पटिय पाएसु से देवो ॥
 ३ 'खमसु महारिसि ! जं ते हरिणो वयणमसइहेण ।
 पडिइलं आयरियं खंनि-पहाणा सुणी होंति ॥
 तं चिय एत्थ वयत्थो निय-कूल-मयणस्स पुभिमा-इंदो ।
 तं चिय निम्मल-निय-जस-संछाइय-सिहुयणाओणो ॥
 तं चिय महारिसि ! वंनो अइहुद्धर-वंम-वालगाहिंनो ।
 ४ जंतूणं सुइ-करणो होमि फुडं संकरो तं सि ॥
 पुरिसाण सुचिमन्तो तं चिय पुरिसोचमो समक्खाओ ।
 परमीसरियाइ तहा इंदो वि तुमं सु(न) संदेहो ॥
 वयण-किरणवसोहिय-वन्ध-महाकमल-संइ-निवहाओ ।
 तं चिय जयम्मि सुरो निहिय-दोमाउ तइ वेव ॥
 ५ तव-करणाओ तं चिय सोमो विउसेहिं नपु समक्खाओ ।
 गल्लय-पयत्ताउ जई सुणी वि सुगयाउ वयणस्स ॥
 कम्म-मलं सु खवेत्तो लवणो तं वेव तइ य समणो वि ।
 तव-सेइे वईंतो गय-गमो राग-विरहाओ ॥
 सपल-जग-बोहणाओ पुट्ठो तं वेव तइ य मज्झत्थो ।
 ६ रावाइंणमभयता कारुणित्थो कल्ल-भावाओ ॥
 इव एयमाच(इ)-बहुविइ-अइत्थ-नामेहिं तं सुधि पोउं ।
 निय-छायं संपचो देवो तइ नंदिसेणो य ॥
 साहूहिं सुच्छिओ सो 'कत्थ गिलाणो ?' चि तेण वि पर्वचो ।
 सवेमि परिवइओ तहा कओ तेण देवेण ॥

कप-पङ्क्तौ पञ्चा मरणे तद्गुणद्विए इमं ब्रूह ।
 'ब्रू अतिथ इमस्म फलं तवस्त, ता होज मपुपचे ॥
 कायो व मणभिराभो नर-नारि-पथाव' कप-नियामो सो ।
 महसुके उवपथो देवोऽप्यं नंदिसेगो वि ॥

उवपथो कावथो ।

॥ नंदिसेग-कथाचार्यं 'समस्तं ॥

— [४१. देव-स्तुते सुलसा-कथा] —

रावमिदे तपरे नावरद्विषो तिहृषव-सत्त्वद्विजा' निकम-गुणावली-भूतिपा जिव-
 साहु-भवा सुलसा नाम नारिया । तीए पुच-निमित्तं तियमिदार्शनं नामो उवाइपामि ॥
 देह । दिग्भे ओषर्द्धए 'न च संप्रजति मणोरहा । तीए भणिवो-अण्व-महिळं वीवाइह्यु' ।
 तेव भणियं—'अलमन्वाए सुंदरेषावि सुव' । तयो पुच-निमित्तं वेजुवपसेवं तेहि
 तपतहस्तेहि पयाविवा तिग्नि वेह्ण कुडया । अण्वया य तियस-सहासुवण भणियं
 इरिय वि । अवि य—

वापपाड रिक्त-चर्कं समयं नासैल दिप(व)त-नाहेण ।
 तह वि य सम्मचाओ न चरह सुलसा हरी भणइ ॥

तयो इकेय तियसेय चितियं—

"अवसं पि अतं तुहा गुणं पि देतां कुपंति सहाओ ।
 अवरद्विष-मजावा बहुमो अकुलीण-पुरिसो व ॥"

इमं वावेतो समागओ तियपाडपाड देवो सुलसा-वरिकसा-निमित्तं । कप-साहु-केतो ॥
 तद्गुणद्विषो से पुसओ । कप-विमककम्माए भणियमयाए—'संदिलह, किं करेमो?' ।
 तेव भणियं—'सयसहस्सपानं तिळं देसु' ।

"एषाहं ताहं चिर-चिंतिपाहं तिग्नि वि कमेण पचाहं ।
 माहण य आत्ममर्षं संतं च मन्-वपसाओ य ॥"

नारिती हरिस-भर-निम्भरा सद्गुणिया दाउं । अंतराले य भिषो देवेण कुडओ । तह ॥
 चिय गद्विओ ब्रूण-पडो, सो वि अण्णो । एवं तहओ वि । तहा वि न विवरियमिया' ।
 यथो तियसो भणितमाडचो ।

साहेइ तयो तियसो अह तियसिदेण वभिया सं सि ।
 ता तारिस चिय तुमं करेमि किं तुज्ज मन्वेज्जं? ॥
 तीए भणियं 'महापस' अणं तुह दंसपाड किं कलं? ।
 तेव चिय वज्जणं अहादि वीसेम-कणेहि ॥
 तेव भणियममोहं देव-दंसणं महासुभावा य तुमं ।
 हा मम चित्त-निप्पु-निमित्तं किं पि पण्णेतु ॥

'अहो! या एत भवतो पुत्र-निमित्तं विच्छन्नाहं विविह-विचो सिद्ध' विविहीए भविषं सुलसाए - 'जह एवं, ता तुदापुत्रायेण होउ मे पुत्रो' वि । अवि य - तुत्रेण सजो दिवा वनीसं तेण तीए गुलिपाओ ।

एकिके खाएउतु होहंति सुया उ वनीसं ॥

कउमि पुत्रो जाए संसरियहो वि जेविउं तिपहो ।

इंदीवर-दउ-सारं उण्णओ निम्मसं वययं ॥

'कहं वनीसाए वेइरुपायं हुणाहुइं नलेमि ? । सदाहि एको सुंदररतो होउ' वि भारतीए सुदाओ सदाओ वि समय-कालं, संभूया य जुगवं वनीसं ति पुत्रा । नदिवा महाविषयाए, टिया देवसस कउउससणेयं । पलिपालयो य वलो सुतो । सदाहिं से जहा समकालं सुदाओ सदाओ वि । तेम भविषं - 'हुहुं कयं, सरित्त-आउकसा सवे ति भविस्तंति' । उवसाभिउय वेयवं नजो देवो । कजेण य जावा सुन-संकासा वनीसं ति सुया सेमिबसा तुल्ल-वयया । वडिया देहोवचएणं, कला-कलावेण य । संपत्त-जोहया य सेमिएण सह सुविह-निमित्तं गया जहा वेसातीए पंतीए रहकसा बीरंमाएव-वाचरा जहा उवएणमाला-विचरये सविरवरं भविषं ति । उवणओ कायहो ।

॥ सुलसा-कहाणयं 'समसं' ॥

अपितपाया निमित्तमावेणैव बुध्नन् इत्याह च -

जंमंतर-कय-पुण्णा निमित्त-मेचेण के वि बुध्ंति ।

करकंडुमाहुणो जह संभुया वसहमाइंदि ॥ ३३

[वन्मन्तर हूत पुण्या निमित्त-भावेण केचन बुध्नन्ते ।

करकंडुमाहुणो यथा संभुया वसहमादिभिः ॥ ३३]

अनुसाराणामिकापित्युक्तम् -

"वीण्य होयममया य भया व जमित्त हो वि विहु-सम्पत्ता ।

अथे सति उ निम जो थिय सि पुण्य-निमित्तो ॥"

माघार्थवहुर्यो कपालकेम्बोज्जयेण, तानि चाम्पि । के ते पचेपइहा ? अजो

॥ भव्याह -

— [४३-४५. निमित्ताह बोधे ४ प्रत्येकनुद्ध-कथाः] —

काल्क' कलिमेतु' पंचलेसु य पुत्रुते । नयो राव विवेहेतु गंधारेसु व 'गणई ॥

वसवे व इंदकेउ कलय अने य कुंफर बोटी । करकंडु तुहुहसामी नमिसा गेयासओ य ॥

[१] तय ताव करकंडुयो चरियं सदाहज -

॥ जोगाजयवए सुगानपरि-संकासाए चंपाए नपतीए नरिंदलच्छि-संकेव-हुणो अहि-वाहपो राया । वेडनसि-भूया जिगवक-भाविप-सई तुमुंदरि-संकासा पउमाइं से

भारिया । तस्त य तीर सह विषय-सुखं पुत्रमय-निवृत्तिष पुष्प-वन्धवार-अभियं तिवन्म-सार
 नरलोग-सुखमपुत्रमनापस्त बोधीषो कोइ कालो । अथवा पहाण-सुनिवय-वसुहपा
 वाया आचम्य-सत्वा । समुप्यन्थो से मये विनय्यो 'नारिद-नेरत्थालंकिपा करिवराहडा
 अइ भवामि कामपुत्रावाहंसु' । पुच्छिया य राधा । साहिओ वय(इ)षो होइहओ ।
 तओ वसत्थ-वासरे' मय-करिवराहडा नरनाह-थरिजपाय-उदंड-पौडरीका नरिहाहण-
 कथ-मह-वेत्तालंकिपा महाविभूइए उजावाहंसु भमिउमाहवा । तओ पइम-
 पाउमुच्छलिय-पंचवज-कुसुम-मय-संचलियं परणं आनाउउण संवरिय-रम्भ-सोमओ
 निव(इ)अडिउमागोइए पहादिओ अइवि-हुणं करिवरो । उम्भोअमुमणेणं सेपावलो,
 मंडूय कइवम-ओषयापि निवयो अकय-कओ । दूर-पत्ते करिम्मि दिहो राधा कइ-
 पाययो । इं दहूयं भविपा देवी - 'एपस्त दिह्ठेयं कवी गमिस्सई, ज्ञ इनि एवस्त "
 सहाए लणेसु' । रापथा तदा कथं, देवी उय अपरिहृत्वसेव उ न लग्ना तत्थ । तओ
 पाहिथा सिष(इ)-वय-वन्ध-उर-उर-उर-उर-भोसयाए महाहवीए करिया । तह-जले व
 पविह्रस्त करिणो अवपरिया देवी । तन्हा-सुहा सीउमिष-मय-म्लेपाभिभूया पत्ता
 रावसासमं । दिहो कुलमई । संजाय-विग्गएय व पुच्छिया लेय उप्पवी । तीए वि
 अकय-समायो वि काउम साहिपा सुविथरा । भविषं व वेण - 'पच्छे ! बीसत्था इवसु "
 तव एव्य आसमे, जाव वसिमे सवयो उरमइ; अणं व चेहओ अम्हाय सपयो
 जालि' । तओ तव्य वय-पुष्क-फलाहताए बोलीगानि कइवय-दिगानि । अम-
 दिवईमि पइविचा कुलमय(इ)या तावम-सदाया दंतपुरे, वरय दंत(व)ओ राया ।
 मंडूय वलिमासणं मयिचा ज्ञापसेहि - 'अदे ! वचसु एवाए वचिणीए, न अम्हायं संपदं
 मयय-विसओ हल-किहु' ति । व(प)ं करिय मया तावसा निवय-सवोमयो । हा वि "
 कयेय एवा पुर । नितीहिवा-कथ-पुहपं व पविह्रा वडिस्तयं । वंदिउय वेइयापि,
 वंदिया य वचिणी, सह अजाहि । तओ विन्दिथ-मवाए भविपं मपहरियाए वि ।

अवि व - विपएय कुलं इयेण सुय-मयो जइ वि वच्छि । तुइ नाओ ।

सविसेस-पउची 'कारणेण पुच्छिजसे गइ वि ॥

का सि तुचं ! कचो वा ! वेण व कजेण आगया एव । । "

एकहा चोअनिषं करिउयं वच्छि ! अपयेसु ॥

तओ कइ कइ वि विपलंत-नपचंसुयाए साहिए निपय-पुणं भविपं पचिणीए वि ।

अवि य - 'नतव-तिरिय-नरायण-मईसु तुहु-इकम्म-मल-मईसे ।

तं नदिय संविहाण जे जसली' न पयेइ ॥"

अथ च, वच्छे ! अकय-धम्मणं न दुल्लाहाओ भावपाउ वि । अवि य - "

'निचं चिय विवयत्थे वम्म-विहूणाय हींति सत्ताम ।

धम्म-कलियाण ताओ न हींति जायंति सिद्धीओ ॥"

'ता वच्छे ! अल्लुओएण, पडिपजसु सारी-नामसायेय-दुइम्म-सेल-वजापवीधूरं
 कामणं' । तओ सवोवादि-विमुद्रे नासरे जाय-संवेया 'पहाविषा एसा । नदिपा इचिहा

वि लिखता । ज्ञाना साहस्यीय बहुव्या । अथवा अपन्थासिधो वि(व) नदी
 वृद्धिउत्साहयो से उदरम्मि गन्तो । पुच्छिया पचिणीए - 'किमेपं ?' । तीए वि साहिओ
 जह-दिओ पुचंनो, 'नवर पञ्जा-काले न मए सिद्धं मा पञ्जा न होदि'चि । पच्छ्या
 सावप-मेहे चिहुंनो 'वदिपुष्प-काले पक्ष्या दारणे । पुष्पावीय-कंठरचयं वदिवाह-
 मरिंदक-सुदार महियं । मयापे उच्छिओ दारओ । कससयं निय महिओ नमया-वकिसय-
 पावेयं, समपिओ निव-जापाए, परिहुडा चिचेय । साहस्यीय वि कहियं पचिणीए
 'विनम्भो दारओ जाओ, सो उच्छिओ' । तओ ताए सावंगीए सह मिनीकाऊण अवचस्स
 नेहेय दारवस्स पठमारुदं लुपुपारंमि इहु-दग्गाणि देह । वहुंनो ए जाओ अहुवारिसिओ
 दारओ । सुक-कंठए महिओ हिंमामि लच्छ - 'मयं कंठुचह, जेय मे नाम-नगराईमि
 देमि' । तओ हिंमेहि पुवनामे अवहत्थिऊण 'करकंठु'नामे कयं । अथवा मयायं
 रक्खंतसं कात्थंनरेय वथा तस्य दोम्भि' सुमियो । तओ सयल-लक्षणासुमयं दंठं
 वपुष बभियो इकेय सुमिया दुव-साह - 'ओ एय दंठं कउरंगुण-विपक्खियं पिण्हिस्सह,
 सो हाचि पुहदनाओ भविस्सह' वयंतरिएण तुयं करकंठुणा, बंधपेण य । तओ सगिऊण
 पचारि अंगुल्लमि धरमि महिओ बंधपेण दंठओ, उदात्तिओ करकंठुणा । पचिहु नय,
 उवहिया ववहारेयं करमिपाय तुरओ । सामाईहिं भमिओ वि जाहे न देह करकंठ
 बंधपासु दंठयं, तओ समुपम्भ-कोवेहिं भमिओ करमिपाई - 'किं रे ! इहु ! मायं-
 दारव ! एएण दंठेय तुमं रत्तं सुविहिमि ?' । तेय भमियं - 'को संदेहो ?' । तओ सहायं
 भमिओ सो वेहिं - 'जया तुम रावा इवेज्ज, तथा एयस्स मायं देजहु' । 'ए'ं ति
 पदिवसे पदुविवा दोमि कारमिपाई । दारव-माय्यत्वं पुरिस-कंद-वहिओ जाय बंधयो
 ज्ञानच्छह तओ । इत्थंतरम्मि सुमिय-तुचंनो से जयओ सह महिताए दारयं चित्तय पक्षयो ।
 कमेय य वथा कलिन्ना-विसय-विसेसय-भूए कंचनपुरे,टिया वाहिसजाये । दारओ वि पसुओ
 असोगतलो हापाए । तदिवसं च पंचवीसुओ तस्य अपुओ रावा । अहिवासिपाणि एव
 करिवराईमि दिशमि । भमिउप्यारुहिं दिहो सय-लक्षणा-संहुओ वारओ । तओ पचाहिणी-
 काउमारोविओ मल-कंठ-करण-बुव्वयं निपच-वृद्धीए करिया । हेसियं तुरंगमेय, टिवहुदंठ-
 थोउरीयवुव्वरं, निरहियं विगाताओ अलं, पवीइवामि कामराणि । तओ आवुरियवापेहिं
 असंख-संसेहिं, पवाइअमापेहिं दरेहिं, नचमावीहिं विलासिणीहिं, पदेतेहिं माचहेहिं,
 महाविच्छेपणं नगरे पचिसिउं पवचो; सुमिय-नायंग-बुनतेहिं निवारिओ पओलीए
 पचिसंनो बंधपेहिं । संजायामरिसेय य उम्मिओ इहो पठपानतो ॥ अलिउत्साहयो । तओ
 मय-वीया पणहु बंधणा । करकंठ वि निविहो सीहासणे, अहिसियो वरि-सामंतारुहिं ।
 एवं च जम्मंर-कय-पुष्प-अणियं तिनग्ग-नारे न-सुक्खमइहवमायस्स थोलीयो कोर
 कालो । सुमिय-तुचंनो य पचो सो बंधयो । मयियं च केय - 'बहातायं देसु मम पुव्वुचं
 यामं' । रायया भमियं - 'मैवसु जो मे पठिरह' । तेय भमियं - 'मम पंचाए मेहं,
 तस्य देसु' । तओ पदुविओ दओ सह लेहेय अहिवाहण-दरयो । पठिरह-निवेदो य
 पविहो दओ, समपिओ लेहो । मयियं दूए - 'एयस्स दिवार्हुओ मायं देसु अन्हाय

करूरे) । तत्रो संज्ञापामरिसेष भविषं बहिवार्येष - 'अरे ! दुहुमार्येषस्य एन्दुद्वो अण्ड, जेष मवाचि सेहो विमिश्रिओ' । गल्लपसिद्धस्य प नीबिओ दूओ, कसेण प पत्तो एत्तो । सादियं करकंहुओ जहा-तुचं । तत्रो संज्ञाप-ओरो पपट्टो करकह् तुदुवरि संज्ञामहा ।

अवि प - धवल-बांदाकटो नपराओ नीर(हं)पिकस-संज्ञालो ।

सास्व-पओ व हूओ राधा पापडिय-बहि-ओटो' ॥

तत्रो शुवंतो जहट्टिय-भुय-संघषेण, पिच्छंतो नपय-गंङ्गसेई, दाहजमानो संमुत्ति-मणई, दिओ दाणं कसेण पत्तो चंपाप, आवासिओ बहिरुजाओ । तत्रो आपुरिण्णु जमल्लंविन्ना(से)ण्णु, वाट्ठण्णु एण-तूण्णु, पढंणु हुइल-माण्णु, जाशामरिमाणि सम्माणि होण्णु वि बहिराणं जम-सेन्नाणि पि । अवि प-

हरित्ताहाणं करिओ रत्थ रदियो भडाव नरच्छओ ।

समयं पिय संलम्भा आसोहा वि तुरिवाण ॥

तत्रो कण्ण 'धण-भुय-विण्ण-निमित्त-म-विंरं' । कण्ण निदलिय-मुदटासि-पायण न-सिर-मालोपमसिद्धमान-बहियसं । कण्ण सर-भिवर-विशडिपासेह-मुचासण-विहल-ममंत-तुरनयं । कण्ण प बोउउलाग-किन्न-किंपुरिस-सिद्ध-गंध-जसल-रत्तल-भूय-विजाय-वेवाल-डाइणी-ममाउलं । कण्ण कराल-करवाल-विद-पहार-निवडिय करि-कुंभ-विचलंत-मुचाहल-मपलिय-बहिवंडलं । कण्ण सुमरिय-सामि-पसाय-महागण-मुहड-संपाप-दिज्जाण' -निय-वीविपं । कण्ण पकासि-डिय-जर-खिर-वसामिल-लुइ-निवडंत-भिइ-तव-सकुलं । कण्ण प मुहड-महागण-परितुहा- [गयणं] वय-पिमाण-ति(ट्टि)म-सिपस-कामिणी-विमुक्कमाण-कल्लुमोववार पि ।

अवि प - अमरिन-सक्यासी-भूषिपणं संभरिप-वृक्ष-वेणं ।

पहंति वे वि(आई)ह् बलापि वि(ति)पमासुराणं व ॥

तत्रो कण्ण-बंदाण करकंहु-बहिवीहणाण दाहणं तुवओ निमासिद्ध 'सा जय-कसुओ होइ' वि नाविंती अगया पठमावई मादुणी । भगिओ तीए एणो करकंड रापा-वच्छ । कीम जयण सइ तुज्जसि !' । तेव भविषं - 'कदमेस वयं जयओ !' । तत्रो सादियं सविचरे तीए निषय-शुवंतो पुच्छिषा जयधि-अगया । वेई वि बहियो पकल्लो, दाविषं मुहां-रवणं । तत्रो जहिनसेण भणिया पठमावई करकंडया - 'कड-मियणं कय-वय(हं)णो निवचासि ?' । तीए भगिणं - 'पच्छ ! पीसल्लो इण्णु, जाव वे जयणं पेच्छामि' । गथा एसा, पप(वि)हा नविद-अत्थणं । निवडिअण से चउमेणु परिपणो वेपिठमाहयो । एत्थंतरामि पणसिद्ध मुहासयत्था पुच्छिषा राह्या पठवि । तीए वि सादिया सविचर । 'एत्तो व से सुओ, जेष तुमं रोहिओ' । तत्रो महावि-भूई पहासिओ नपरीए करकंहु । तेण वि पणमिओ सवहुमाणं बरियो । कय महा-पहाणयसं । आणंदिओ कोमो पि । अवि प-

“ए षि वि अगल्ल-सम दिहे इत्थेम होइ जय-सेवक ।

ज कडिअण व तीए लहास सेण्ण-सेकसाण ॥”

१ व सदिहो । २ व सन । ३ व सन । ४ व स व विनास' ।

तत्रो पसत्य-वासरे दोसु वि रजेसु अस्मिन्निजम् करकं(इं) काताशुक्ल-निव(श)-
निपासेल-कपयो महाविभूर्दे ए पवहो ददिवाहण-नारिदो वि । करकं(इं)पो वि मुसु-
रिपारिचकं कपय सामंत-महासामंत-अरण्यं भस्मत्य-काम-सपाहं परत्य-संपपात्य-सपयं
विसिद्धजग-सत्ताह्वितं वर-सोकसु[मशु]दयंतस्य समरकंतो कोट् कालो । सो य किर
गोव(उं)ल-पियओ । तेष अयोपानि नियय-पिनए गोव(उं)लार्हं कपामि वि ।

अवि य - अम्वंत-सुकय-समज्ञिपाहं लोचकार्हं अशुदयंतस्त ।

आर्षदिप-विपलोगो संवचो सरप-कालो मे ॥

तत्रो कोट्(इं)जेण गत्रो चोउलं, दिद्वो वसि-कुंद-संकालो संकुम्भवापचो लव्यपो ।
सं निपुळ्यं सहसिं नभिया गोवाला - 'न य एवस जगणी दोष(इं)का' । कासंतरीय
य जाओ महावसहो । दुर्य-नाराए आगएव य दिद्वो लो नरिदियं ति । अवि य -

सुदिबन-चारु-सिगो तुमार-गोशीर-हार-संचालो ।

वेचहुगिरि-सरिच्छो दिद्वो दपुद्धरो वसहो ॥

दिविप-सदुभिनय्यल वसहा नामंति तस्य गंवेच ।

पडिपय्य-सह-ज्जो तिलओ विव वरणि-रमणीए ॥

॥ तं तहाविहं जाय-कथंथं दरिय-वसह-दुरालोयं अचंत-नय्य-मयाभिरामं निपुळ्यं
संजावाभंदो वि पविद्वो नगरमि राया । पुष वि काळंतरामएव राया सुचिह्वया गोवाला
'करु संपयं सो महावसहो' । तेहिं वि दाहओ भूमीए निवदिओ, क्यपण्हिं
खलीकीरंतो । सं निपुळ्यं सचित्तायं क्तिथिं राया- 'विरतधु ! संतारासारचमस्त, जेण
तारिसं रिदिं पाविऊय संपयं एकारिसो समत्थाववाय कुळमंदिर संकुचो । अवि य -

॥ सेव तुगव सुविमल-सिम धो पारिवा वसय जेहु-वन्ते ।

भेदि अरिद्धिं 'सकुपेदिया य कडिगराया वि सविक्कस धम ॥

'मोहुंमयस मय्जे देकिय-सदेण वस्त भि(म)अंति ।

दिवा वि दरिय-वसहा सुविनल-सिया समत्था वि ॥

पोराणय-नाय-दप्यो गलंत-अपयो चलंत-वस-मोहो ।

॥ लो वेव इमो वसहो पडुव-परिअज्जुयं' सह ! ॥"

एव एवकार्हु बहुविहं संतारासारयं निपुळ्यं ।

संभरिय-पुण्यवम्मो विनखंतो एस नरवाहो ॥

पुष्य-कप-सुकपकम्म्या मिदित्त-मित्तेष नरि बुज्जंति ।

अह एसो चिप बुद्धो विवयं दकुण वसवस्त ॥

॥ तियसोवणीय-लेयं दिण्णं सि[इ]ण्हद्विपंमि संपचो ।

पौसिरिय-कवकम्मो एस सुणी दिहु-वहुओ ॥

[९]

तह पंचाल-अपवट् कपिलपुरे नयरे गुण-रफय-जतनिही लुम्बुहो राया । तस्त प
सुकवकम्म-अधिषं तिपया-सार जीपलोव-सुहमशुदयंतस्त आर्षदिप-रायहंशो निम्बल-

व्यसंजयो देवैर्देव-ररिष-वमहासंक्रिञ्चो निष्कम्ब-नाम-नामो भविष-जड(व)-ननु-सच-सुद्विष-
सुभोदिष्ठो पचो सखाययो । तयो आम-वाहमिवाए नीकरतेव दिष्टो ईदकेऊ बहावि-
भूईए पुइउमत्तो, पडिनिषेकेव य दिवसावमाये दिष्टो भूयीए पडिओ कडावसेओ
विहृत्प्येओ । तं च बहुव चित्तिपममेव - 'एव संनारि सखाय वि संपन-विषपाउ' चि ।

अवि य - बहुव मिरि तर अज्य य जे इदकेल्ले बुद्धे ।

एव गहं कलेएलि दुम्बुह-नाया वि पडममि ॥

एयो वि गद्विष-नामप्यो विहरिउं पवचो वि ।

[३]

तदा विदेहा-जगवए मिहिला-नवरीए नमी रावा । तस्म य दाहज्जाविधुपस्म
विजेदि चंडणमो कहिओ । त च पसंताप महिलिपाय वलय संकारो जाओ ।^{११}
अमण्डनेव रावणा अवपेयादियाओ एकेके वलयं । तदा वि न सीषो सरो । पुण्यो
दुइव नइप-चउत्थमवणीवे, तदा वि न भिद्विओ मरो । पुण्यो एकेके परिपे । तयो
संतो मरो वि मरो । इदंउत्तमि चित्तिये गर्वा - अहे ! जज्जओ धव-धन-रप-
पववाह-संजोषो, तावडओ दुक्क-विपरो चि ।

अविप-मिचो संगो दुक्कवाव यओ वि तविओ वेव ।

अइया सीम-पमत्वा हवति राहु वेपयाओ वि ॥

'सम्हा एनाजिचं सुंदर' लि मय्येओ सुबुद्धो एयो वि । एओवममेव वेवणीपस्म
पडणीहओ तन्निव-बुद्ध-जम्मो गद्विष-नामप्यो विहरिउं पवचो वि । अवि य -

ऐजुं च पड-वित्तम्य राम-सिंहि उतिहउत्त निक्कओ ।

नू-वि-द्विलार नमो एव्य परिमुआयसेस-परमाले ॥

[४]

तदा संघार-जगवए पुगिलपुरे नगरे जपमिनि-कुलभंदिर 'जगई रावा । तस्म
पिपाई सह भोणे सुंतंरम्य संपचो फम्मि-कळपंठि-रवावुरिष-जयंततालो, विग्दानल-
तविष-मिपत्तमाव-वावातुओ, विहृत्तमान-कंदोइ-रव-रेवु-रमिय-दिपंततालो, भाईद-
गादि-संधायत्रिय-ममिर-ममरोलि-संकार-मणटरो, वीसंत-नायाविह-निपत्त-जपा-नू-^{१२}
नयो, पइ-पडह-सहस्रि-वडहिय-सदापुमिजमाव-पपयंयचो संतो वि । अवि य -

मळपाकिले विचंभइ चूओ महमहइ चरुवा रतर ।

अविजइ लिमसरो हियपाहुओ विचयमो ॥

एपारिले वत्ते उकारं पड्ढिम्य नरवड्या ।

संजरि-निवइ-जयाओ सायेंदं पुत्तओ चूओ ॥

अर्योउत्तंहेणं गद्विया ताओ संवरी राइया, तपयु सवत्त-संधावारेव वि । विहृचो
वाओ खावुय-वेचो । रमिउव निवत्तमागेव पुच्छिया आत्तम्ब-नरा - 'यो भो ! कथ

१ म. 'ह' । २ म. 'स' । ३ म. 'प' ।

सो चूओ ? । तेहिं भमिचं-देव ! जाव तय गहिया मंजरी, तय तय सांवाचारेण; एवमा करणंर पावियो एतो सो चूओ ? वि । तयो सविसापं विनियं राख्वा - 'अओ ! करि-
कण्ण-वंकहाओ जीविय-ओवण-अण-सयण-एण-पिय-गुण-मिचाइयाओ विभूईओ । त-
किमणेण भव-निबंधणेण रोजेण ? । संवुटो नी वि गहिय-सामण्यो विहरिउं एपओ
। वि । कलेण प पचा सवे वि भिइपइहियं नयर । अवि य -

नखीण-गुण-जग्गा दूइह-एव-निवण-तीमिय-एरीता ।

भिरता ते पत्ता नउत्ते वि अणियुप-अणे ॥

तयो पाउदुवारे देवउले दुज्ज-द्वारेण करकंडुमणी पविट्ठो, इच्छियेण दुग्घो,
अवणेण नमी, उचारेण नग्गई । कइं महासुणीण पराहुओ ठामि ? वि विर(हु)वियं वावमं-
तरेण नियपइियाए सुह-चउकणं । एत्थंनरमि बल्लि-कट्टेण कर्म कंडुइज्ज सुवं
एगसासमि कंडुवणं करकंडुवा । तं च दइण भमियं दुग्घेणं ति ।

देस-पु-रउ-अण-रावण-कामियो उच्छिउज्ज कव्वउओ ।

ता कीस सअवमिण करेसि उइवण-उज्जण ? ॥

जाव दुग्घेण भमियो करकंडु पडियंतावं न देइ । इत्थंनरमि भमियो दुग्घो
॥ नदिय वि । अवि य -

॥ निपरज-नरिया उच्छिउज्ज राज च कामिणीओ य ।

केलेभिं त ठमिओ भुवियो मरिउओ साइ ? ॥ १ ॥

तयो जाव दुग्घो नमिणी पडियंणं न देइ । इमं वि अंतरेण भमियो नमी
नग्गइए वि । अवि य -

नीचल-अण-अणे येवसा-जिमिउ च दुवसि जइ 'जल ।

ता कीस नू नि'इसि मुणे ? अमि'इज्ज इम केए ॥

जाव य नमी नग्गइणो न देइ उचर, एत्थंनरमि भमियो नग्गई करकंडुण
वि । अवि य -

एव-निवण-सयम-ए पसस-अम्मण-गुण जुए पाइ ।

अहियाओ निवारेते न दोल-वण-अण-मुवेइ ॥

कसउ वा एओ मा वा विसं वा पीरकउ ।

मडियज्ज विवा अण सपक्क-गुण-करिया ॥

सुइ-सु(म) सुइं परिणय-मंगुमं(ठं) च विअंति विंति उचएणं ।

सुइ-कइवं मोक्ख-कलं विरल थिय जीपलोममि ॥

एगसमपमि सवे अवपरिवा वम्मणं च हंपचा ।

निक्खणं नार्थं सिव-अपं च विहविय-कम्मंसा ॥

इरिय-इरं सुपकल्पं कइएणं मंगलं सिवं संदि ।

पचेपसुइ-अरियं भमियं जियसासये एणं ॥

सुषदेवि-वनाएनं मए वि वसेवबुद्ध-मुनि-वरियं ।

मणियं ज्जोवणहुं सिद्धेने मणहरांदिं ॥

जो नित्तुपेइ कयल्लो इत्थी पुरिलो व सुक्क-वावलो ।

सो वन-तिवम्म सुटो निज्जाव-सुई पि पावेइ ॥

॥ वसेवबुद्ध-वरियं 'समात्तं ॥

समिदानं तपो दीर्घसंसारकृतं भवतीत्याह -

दीहर-संसार-फटो समियाण-त्तवो जहा य वारसमे ।

चक्किम्मि तथा पदमे नवमम्मि य वासुदेवंमि ॥ ३४

[दीर्घसंसार-कृत समिदानं तपो वक्तुं च इत्यर्थे ।

चक्किम्मि वक्तव्ये वासुदेवे विद्महे (इ) नवमन्वाहुरेवे कृत्ये ॥ ३४]

— [३६. समिदाने तपसि ब्रह्मदत्तचक्रि-कथा] —

इतिव्यापुरे नवरे समंभुमानो चक्रवर्ती । नहुई से वंती । मत्थ य विहरंता पत्ता
सुओपरा चित्त-संभूयादिहाया महातपस्सिनयो । मात्त-पारमए पविट्ठो विक्कहा संभूय-
मुणी । अत्तत्थं कयल्लियओ वंतिण ति महुप्पण्णो से बोवानल्लो । अवि य -

"तपस्विने सम्यक्काले नातिचरिंशमाप्नेत् ।

अतिनिर्वैयनादीश्चान्दनादपि जप्ये ॥"

तव-नेप-व्रथिय-कोवानल्लस्स विपंभियो पारावय-कनोय-रात्तह-संझाओ पुत्तुप्पीओ ।
तेव य संल्लहय-नदंगणेष जलहर-संझाए पयथिया वण-मपूग, उम्माहिवा पदिजा,
इरिल्लिया कल्लववा, विट्ठ(व)णीहया रायदंसा । अयंतर च विपंभियाओ 'जल्लहा-
वलीओ' । आओ 'य वित्थय-यक्कल-विवाण-संल्लहय-नदंगणाओ व विवरति चक्रवाय-
पत्तीओ' । किं वा संझा-रायाल्लयाओ पसरति वत्ताहय-संतदंओ ? । किं वा सुसुम-निवह-
'ममोच्छहयाड किंत्तुमातोय-वीहिवाओ' ? । किं वा महुप्पसंति किंमयस(स्य)स-रजिया
वेवपंतीओ ? । किं वा फुरंति एकीहयाओ 'तोवामणीओ' ? । किं वा सहरिम-ममण-
मिदिल्लिय-सुरवहु-केसपास-मल्लियाओ' पारियाय-सुसुमचालाओ ? । किं वा तिहुचय-
ममण्यारवत्तुजयस्स विट्ठुरंति कयंतस्स रत्तयाड ? ति । अहवा वंदिंति नरपत्तं, किं
वात्तुपुण्णंति जलहरं, किंमण्येसंति विट्ठुल्लयाओ ?, किं वा मण्णंति रवि-मंडलं ? ति ।

अवि य - पून-सवाटो जल्लयो विपंभियो' सुभिवरस्स वचवाओ ।

पाउम-जल्लयावलीओ मयणाओ विट्ठु-पुंजो व ॥

सुभिय-सुचंती य आवाओ राया, चित्तमाहू व उवसाभियो कइ कइ वि । मवा
दोकि वि उज्जाणं तपस्सिनयो, टियस अणसणेणं । पुणरवि आवाओ तेसि पंदल-वडियाए
इत्थीरवय-सद्धिओ राया । वंदिवा सविषयं । मवासाहय-इत्थीरवय-चिपुट-कासेव चित्तिव

संभूय-भूमिणा - 'अहो ! कथयथो सार्धकृतो, जो एरिसेण इतीत्यथेण तद् वीप-
 तीय-सुहृन्सुहृन्तः ता वद् इमस्म तवस्स फलमत्थि, ता मत्तुपचये एरिसस्स इती-
 रथस्स साभी उ होआ' । चित्तदुग्धिणा वात्थिअंथो वि कय-नियथो गओ महासुहे ।
 तओ जुओ समायो बंभस्स राओ जुत्तपीए भादिवाए चोदत्त-सहसुमिषय-तिसुग्धिओ
 वाओ वात्तसो बंभत्तो चत्तवट्ठी । गत्थिपं भरहं । मत्तु-वत्थ-जाईसरथेण य चित्त-
 जायत्तर्ष अपत्तंवि(वि)या एसा एहा -

'एसा वात्तसो आसो भिग्ग कत्थिओ नो ।
 इम मत्त-तीसए' सेवया कत्थि-वृणीए ॥
 देवा य देवतेणमिंम जग्गि अन्हे मत्तुग्गिमा ।'

१० जो एयं एहं पूरेह, तं राया त्थ-संविजाणेणं एहए । न य कोह पूरेह । इयो' य
 चित्तदेव-जीयो उप्पण्णे पुग्गिमतले वग्गिप-सुओ' । मत्तुप्यन्व-जाई-सरयो अत्तुग्धिप-
 विसय-संथो वेसम मग्गावट्ठिओ' गत्थिप-भामण्णे पयो कंमिहं । भग्गिओ अरहट्ठिएणं-
 'भववं ! तद् जायसि, ता एहं पूरेतु' । नेम भग्गिपं-पट्तु' । पट्ठिए भग्गिपं भूमिणा -
 'एसा ये उट्ठिमा जग्गे अत्तमण्णेहि जा भिग्ग ॥'

११ गओ आरहट्ठिओ राय-समीनं । पट्ठिए भूमि-ममाहहं । सुत्थिओ राया, समासासिओ
 वेदन्-रताईहि । केय एहा पूरिप वि सिद्धं अत्तदुग्धिण - 'भूमिणा' । गओ राया तस्स
 वेदण्णे, पग्गिओ भाव-सार । अवि य -

'त किं वि अत्तण-मन विट्ठे इहमि तद् मग-सेवण ॥
 ज कत्थिअण य एहए तत्तए सिद्धम सुवेण ॥'

१२ सम्भास-सार निर्मत्तिओ भूपी राएया दिवात्तरुवेहिं काणेहिं । भूमिणा वि वट्ठिओ
 संमच-भूओ भूमि-वग्गो, जलमग्गि-वट्ठ ॥ जल-विद् न से हिपय-ट्ठिओ । तओ बोक्क
 कोमे अपरिचय-अम-भोगो गओ अहं सत्तमीए जग्ग-पुट्ठवीए । चित्तो वि संपत्त-
 केवल-भायो गओ नेसायं ति । उवमओ कायओ ॥

॥ बंभदत्त-वत्थाणयं 'समसां ॥

— [४७. सनिदाने तपसि त्रिपुष्टवासुदेव-कथा] —

रायविहे चित्तनेदी चित्ताहसूदं य तस्स तुवराया ।
 त्थसण्णो चित्तसूदं चित्ताहनेदी य इयस्स ॥

रायविहं वयर चित्तनेदी राया महादेवी-गम्भस्सो य चित्ताहनेदी त्थओ
 चित्ताहसूदं तुवराया, धारिणी से मारिका । क्षीए य पहाण-सुत्थिय-वट्ठुओ जाओ
 वारओ । कयं य से नामं चित्तसूदं । वट्ठिओ देहोवचएण, कल-कलवेण य । संपथं
 १० तुत्तं । अत्तया चूवत्त-वट्ठुवेह-कत्थि-कत्तपट्ठि-त्त-वग्गो आग्गिप-विचलोमो
 तुत्त-तीकत्तमओ विव त्तर-संगओ विव त्तर-सिद्धय-वट्ठिसमओ विव संपथं
 मत्तुत्तओ वि । अवि य -

१ क. अ. ली. २ क. "उ. ३ इ. क. अ. क. ४

बहुल-विषय-केसर-नपरदुरास-सुमन-योदिहो ।
निश्चिन्त-सुरस-सुहो महः कसलो वसतो व ॥

तस्यो मिमाओ' कुमारो नगराओ, डिओ नद्वयज-सकाले पुष्कररज्ज् उजाणे ।
हस्ताभिरपंतस समकंतो वसंतुवो । अण्णया नरनाह-महादेवि-वेदीए दइण
जुवराव-सुअं रमतं भणिया महादेवी - 'मामिणि ! गळं कमलधओ' जुवराव-सुपम्म,
ओ पुष्कररज्ज्पत्थो देवो व विचिच-कीदाहि गम्ह । वा जह ते सुओ' एत्थ न रम्य,
ता नित्तपयं रळं मज्जामि' । नओ' इयानल-रविपा पविट्ठा महादेवी कोव-वरियं ।
इमिय-वृत्ततेण प भणिया राहवा - 'रिए ! न एत्थ अन्दाव कुल-कमो, जमण्णमि पुव-
पविट्ठे अण्णो वि पविस्सह । तीए भणियं - 'जह एत्तं, ता अवम्मं मए अण्णो मानेवओ' ।

अवि प - इहया वपणम्मि कर कुल-वपणो न पालिओ' होह ।

कुल-वपणम्मि कए न निवह दइण ति प विमण्णो ॥

तस्यो' भणियं मलिणा - 'द्वे ! कुट्ठेह-उण्णेथं तमाह) नत्तां उवरि अत्ताए निग्गाए
जुवराव-सुपम्मि गणुच्छाहे निग्गाए तुह सुपम्म उजाणे पवेओ भविस्सह' । तहा कए
नओ' पंचत-राहण उवरि जुवराव-सुओ' । मकविण्य निस्सट्ठवा देवा. डिपा आण-पण
पंचत-राहणो । सेमं ति मग्गाभावो पडिलियओ, इत्थेण प पओ रावणिहं, पुष्कररज्ज्
प पविसमाओ भणियो' दुवहरपालेहि - 'मा वनिससु, राव-सुओ' एत्थ रमतो विट्ठह'
'जओ ! इमिणा पंचतेण मीणियो मि' ति । अवि च--

“उष्कलिनियि विज्जणे अडिलणे न नत्ताचरि पणम् ।

त जनमत्तस सखि, वे) मयति वलुप । कए वरिसे' ॥”

'हा किं सुवंच-वपणो व तस्यो उम्मलेमि न्ते ? अहवा न सुवमियमो सुष्क-
विसपाए कए' । तस्यो कुल-वर-नमियाए कविट्ठीए सुट्टि-वतारेण पडिपाणि सत्तामि
कहामि । भणियं न वेण - 'एत्तं विप ते सीमाणि पाटिठं समन्थो जि' । हा
किमणेहिं सारीर-भाणस-दूकल-निबंधणेहिं कोणेहिं ? ति वेरम्म-ममावडिओ नओ
संधूय-महाहणो समीवं । तेण वि नमहाहणो माह-धम्मो, पडिस्सओ धाव-मार । नमियं
न वेण - 'आवज्जीवाए वानाओ वानाओ मोत्तओ' । एत्तं च अण्णसारेण उच-तरिय-
देहो नओ महुराए । पविट्ठो भिवसइा मान-वाणए । पण्य-रं(ग)वा कओहिय पडिं
दइण माट्ठ-धूवा-वारेअण-निमित्तमागपसस विपाहवेदिणो पुरिसेहि कओ कलवत्थो
एत्तं मन्नेहिं - 'कएत्थ तं कविट्ठ-कल-पाटण-चलं ? । इमिय-वृत्ततो प विसाहवेदी
इत्तिउवाइणो । 'अज्ज वि एओ कए-वाण-कम्मो मओवरि वेरासुबंधुवेह !' ति विहितेण
विष्कुरिय-कोवान्तेण विज्जमोहिं घेतुण मामिया सुह्री साहवा, मणियो प
विसाहवेदी - 'अरे दुरावाए ! न दुब्बतस्स ति केसरियो गोमाउएहि चले संडिअह' ।
वेदिहिय-विस्सओ पडिलियओ कए-अव-परिक्खणेण प कए निपाणे - 'पणुपणे तव-
पत्थेण महावल-परकमो' होआ' । नओ य वणाओ उण्णओ महासुके । इमिय-धुक्-

भव-बुधतो विहिषा विहिष-देव-आपहो भोमे भोतुं पपयो । जहा तत्रो सुत्रो' संतो
 वोपयपुरे पचात्-रादयो मिचावर्षे सच-महासुमिषन-रुदो पच-वासुदेवो
 तिचिहु(ह)नामो संपुत्रो । जहा से पूचा-कामयाओ पचावर्ष-नामं जार्यं । जहा सुमदा-
 गम्भुम्भो अह(प)साहिहायो पदमवसुदेवो आनयो । जहा अपल-निचिहुयो दो
 वि वलदेव-वासुदेवा संपुत्रिवा । जहा आसुगीवसु निचिचियो पुच्छिया, पुच्छिएव
 कर्षं सिद्धं । क(व)हा दूयो सुलीकयो, सीहो य वावाओ । जहा आनगीवेण सद्
 द्वावास-संयच्छरिओ संगामो वाओ । जहा य आगगीवो वावाओ । जहा
 कोडिसिहा उक्लिवा, जहा अहुवरहं धुचं, जहा तचन-वहीए मओ । जहा य अपलो
 सिद्धो, क्खोवपसमाळा-विपस्यासुमारेश नायवं ति ।

॥ तिचिहु-कहाणयं 'समत्तं ॥

—[४८. सनिदाने तपसि नवमवासुदेव-कथा]—

संषयं नवमवासुदेव-निपाणयं ताहिअ -

वसंतउरे नपरे दोचि नाउचो गहिप-नपहा वामिल-वटिपाए वाकंर पविट्टा ।
 वचिपीए' पसुतचसलंठं दइण वचिओ महएण लइपभाया - 'उप्पहेण लावट्टु समवं,
 वेपेसा न वावाअइ' । तओ से अचमिअव वपयं चोइया समर-वइहा । अमय-विस-
 संकासाणि ताण वचवाणि सुणंती वावाइया रइ-चवेणं, सपुप्पया सेट्टि-पूया । हविषा-
 उर-निवालिवा य संपच-जोवणा सइभूडा इम्म-तुएण । तओ विचिचयाए कंभुओ
 उप्पयो सो पदम-भाया हीए पुनचाए । ववभए तम्मि आगंदिवा चिचेणं, पसाहिपा
 खवम-सिरीए । सवहा वट्टिवया सव-सगोरहेहिं । कमेण य वसव-वासरे पइया
 एसा । जाओ दारओ । वट्टाविओ सेट्टी । दिअं पारिओसिअं । सवाअरं महावइवपयं ।
 कयं च से नामं रावतसिओ । वट्टिओ देहोवपएणं, फला-कळावेण च । वुइय-भाया वि
 मओ संगो उप्पयो सो वि तीसे मय्ये । वय्य-दोसेण च मया विर, मम्मदेसेण
 वचिवा विव, दावानल-पक्खिवा विव जाया । वय्य-सादवाइहिं पि न विनयो ।
 अय्य-दिययं(हं)मि वय्या दारयं । जापमेओ य उज्जाविओ दाव-वेहीए । वट्टिअव
 पिउजा समपिओ कम्मपरीए । कयं च से नामं संगदचो ति । वुइय-बुत्तंता य इहा
 पइयो । तं च दिट्ठि-भोपरावचियं लोह-कट्टाइहिं खलीकरे । अक्खा इइ-मइसवे पक्कमं
 संगदचं इजाविअं च दइण पिउया तओ संवाय-सोवाए खलीकाअव पविक्खिचो
 उप्पसरे । इह इह वि वाविओ उप्पएण । व्खंरंमि आगओ साइ पुच्छिओ
 पिउया - 'किं वयवं ! उप्पणीए वि मणिको सुओ होइ !' । साहुया वचिअं - 'अम्मंउर-
 निवचिप-कम्म-वसाव' ति । अपि च -

“य दृष्ट्वा वर्तते श्रेयं श्रेष्ठञ्च परिहीयते । स विद्वेषो मनुष्येभ्य एव मे पूर्ववैरिणः ॥
य दृष्ट्वा वर्तते श्रेष्ठं श्रेयसञ्च परिहीयते । स विद्वेषो मनुष्येभ्य एव मे पूर्वशत्रवः ॥”

‘नवव्यास नृप जात-स्तारिः शिरस्तपि वरुह दह ।

वन्तस्तत्र न त्वि वर-वेदित्याइ मउल्लेहि वेत्तमि ॥’

वित्तवरेण सम्मत्त-मूले बहुरिणं मुनि-धर्म्ये वेगव-कन्यावदितो पद्मजो मंगदचो ।
वि । कातेवरेण च भाइ-नेहेन रायललितो वि । तजो तव-मोक्षिच-शरीरा दुविह-सिक्क-
सिक्कवाविच-शामिषो पंच-समिषा सिमुता गुणचंनवारिषो विरमिद्धम उल्लप-विहारेणं ।
वरग-काले भणियं मंगदचोण- ‘जह इमस्म तवस्म कलमरिध, मशुषणे सपल-जण-नव-
वात्संदो होला’ । मजो समाषो मजो देवलोणं मंगदच-पुष्पी । रायललितो वि, ववरम-
कव-निपाषो वि । तजो वि चुषा सनाषा जाया दमम-दमात्सल वसुदेवादिहामसस
‘रोहिणी-देवई-तणया वलदेव-वासुदेवा । सेन-कन्याणवमागामानु(शु)नारेण भावेपयं ।
उतपजो कापयो ।

॥ नवमवासुदेव-वन्द्याणयं समत्त ॥

— [१९. पुनर्मर्यादाधारणे नन्दिपेजमुनि-कथा] —

कम्म-वसेणं मुणिषो जह कह वि सुयंति नियम-मज्जायं ।

पुनरपि घरेति ते च्छिय निदरिसणं नंदिसेणेण ॥ ३५

[कर्म-वसेणं मुणयो यदि कथमपिं भुवन्ति निय-मर्यादान् ।

पुनरपि चाल्पन्ति त एव निदर्शनं नन्दिसेने(पेणे)न ॥ ३५]

रायल्लिहे सेमिष-मुजो नंदिसेणो जाय-संवेणो वारिउंलो वि अस्सव-नापीहिं ।
देवयाए पवईओ । गहिय-दुविह-सिक्कसो गोपद-चगियाए धर्मतो अमाभोणेण वविडो
वेमा-वेदिर । धम्मलाम-पुडणं च डिओ से प(शु)रओ । सहासं च भणियं वेलाए -
‘नदरिसि ! दम्म-सामेण कज्जे’ । ‘अओ ! वज्जमेयाए अह हसिओ ?’ अवेणेन सरणाउ
तणे कण्डिउण पाडिया त्थण-जुही । भणियं च वेण-एसो वे दम्म-लानो । ‘अओ !
अवसुओ एत्त महप्पा निर्ही, ता वसोहेमि’ वि वायंतीए मणिओ वगियाए सपरिहासं -
‘नदिं दाउम मा अण्णात्थ वचसु’ । अशुद्धोपमग्गेहिं उवसम्मिमावासस चलिंयं
संवमाउ से चिचं । अपि य -

नेस्साम-कडक्क-वलोइयाई हसिपहिं विअसिपहिं च ।

तव-सवसस वि मुणियो गिति-तरिं चालियं चिचं ॥

नात्थ-तिरिच-नामर-गईमु अदुविह-कम्म-सइलस ।

तं नत्थि संविहायं जं संसारे न संभवइ ॥

भाविच-वई वि, तव-मोक्षिओ वि, चिन्हाय-वित्तव-संणो वि ।

कम्म-वसेणं चलिओ मेह-सरिण्णो वि निपमाओ ।

'इम इम अदिवचरे वा अशुदिपहं उद न जिषचर-मपमि ।
 घोहेमि कभोऽवर्त्तं विभं व विमल पन्निचयामि ॥'

केचन कालेषु इत-भोगो गुणमपि जाय-संचेयो ज्ञाह्यो । कर्म निकलेक माचयं ।
 उतमशो कायशो ।

॥ नंदिसंन-कहाणायं 'ममत्तं ॥

दुदय-मयं सेविज्यसु दज्याह-चउक्य सत्मात्तज्ज ।

जह् संय-साहु-सावय-ज्यपाओ अज्ज-वचरेण ॥ ३६

[द्वितीयाद सेवेत इत्यादि-चतुष्टय ममाश्रित ।

यथा मय-नाहु-श्रायकवपणात् आर्यवेरेण ॥ ३६]

- ॥ द्वितीयादं अपरादपदं तद् संवेत इत्य-श्रेय-हात-भवान्द्वीकृत्य । यथा संय-वचनात्
 दुर्भिक्षान् पटविद्याया निपाय संघो निस्तारितः । याहु-वचनादज्ज-विमल-दानेन सायक-
 क्षारिताः । श्रायक-वचनात् गुणाम्प्राप्तय महिमा कृता । इदमारुपानकं [५७] सविभ्र
 द्विसुनिचरितादवमत्तपम् ।

॥ बहर-कहाणाय 'ममत्तं ॥

जाणंतो वि तमत्थ भचीए सुणेज्ज गुरु-समीवमि ।

गणहारि-गोयभो विव समत्थ-सुयनाण-जलरासी ॥ ३७

[जानन्तपि त्मयं मत्प्या इत्युपात् सुसमीपे ।

गणहार(या)सिगौतमवत् समस्त-शुभेक-वसगतिः ॥ ३७]

तेह तेह् अणेषु [५१] गोपभो उशहरणम् ।

सुपुरिस-चेहं दहं बुक्कंते नूण कूर-कम्मा वि ।

सुणि-जवु-दसणाओ चित्ताय-पभवा जहा बुद्धा ॥ ३८

[सपुत्राण्येहं दृष्टा बुध्यन्ते नून कूरुमांनोऽपि ।

सुनि-जम्बु-दर्शनात् चित्तज-धमनी यथा बुद्धी ॥ ३८]

सुनिदर्शनाचित्तजः । जम्बु-दर्शनात् प्रभवः अनिबुद्धः । [५१] चित्ताय-कहाणायं

- ॥ उवदसमात्ताय भवियं ति । उतमशो कायशो ।

— [५३. सद्गुरुत्व-प्रभावे जम्बू-कथा] —

रापनिहे उत्सवदत्तम् भारिणीए जह भेमिचिप-सिद्धबुतादेसाओ जंबुताओ जाओ । जहा य संवद्धिओ^१ पठिदुदो, जपणि-जगप-रपणाओ जह अहु कवनाओ परिणीयाओ । जाहि तह 'बुल-पठिवनीहि धम्म-जासनि(र)येव जम्बूलस्य चोर-वदिओ पभरो पोहिओ । जहा हि दोमि वि पवथा, जहा सुपसिद्धं वि काकम न भणिं । भेष-भोरव-भीरुगणओ, नवरत्तुवणओ मवुद्धिं कपवो ॥

भोगे अमुंजिऊण नरग वचंति सुट-किंशु-व्व ।

भोचूण जंति सिद्धिं धुव-कम्मा के वि भरहो व्व ॥ ३९

[भोगानभुक्त्वा नरक अवन्ति म्ल-कृष्ण इव ।

भुक्त्वा वान्ति सिद्धिं श्वेतकर्मणः केषु न भावता ॥ ३९]

यथा विष्णोत्तमो नरके गताः, भस्मश्च निर्वाणम् । प्रसिद्धमाकृषानकडपम् [५४-५५] । उपनयः कार्यः ॥

हियव-गयं सम्भारं गिण्हिजा तवणुरुव-विट्ठाहिं ।

जह गिण्हइ चाणको वणिग्याणं नचमाणाणं ॥ ४०

[इदमत्र सदाव शर्हीषान् नदरुपपेयानि ।

यथा गृह्णाति चापन्तो वणिजा रुजताम् ॥ ४०]

— [५६. सद्भाव-ग्रहणे चाणक्य-कथा] —

जहा चाणको सदेगे जाओ । जहा य अहु-दंतस्य विंवेतरिपे ह्मिणा राजं सिद्धं । वि(न)हिळा-सुवण्णप-निमित्तं पाटलिपुत्ते सीहाम्म-विमण्णो जहा भंदेप चळथा(त्व)-छाविओ । जहा तदुवरि पण्णा कया । जहा य चंदरुचो संगहिओ । पाटलिपुत्तं रोहिं, नहो च । जहा पुगरवि पवपपरादथा सह पाटलिपुत्तं वदिपं । पवपय य सुपे जहा सबं रज्जवुवणं । भंडा-निमित्तं च वणिणो नअं वाहउव जहा ताव विमन-संछा-परिजाणणत्वं पववि(चि)ओ होला-वापण-पुवपं । कोन-निमित्तं पारिवाभिगीहुद्धी वपं रमइ गृह-वात्तएहिं । सोवण-वात्तं दीवारण भणिं । जो जिणइ तस्य एपं वेमि, अहं जिणामि, एको दीवतो दाववो । अवि(नि)चिंरं ति अणं चाउवाणं चित्ते । पा(न)भारण भणं देउ, मज्ज-वाणं च । मचेसु पगवि(चि)ओ अउ-

दो मज्ज वाउ-रचां कंचण-कुहिया सिद्धं च ।

राया मे वसवणी एत्थ वि ता मे होल वाणहिं ॥ १

अणो असाहयाओ अणइ -

वप-वोपसस य मनस उपवसस जोपवसहसस ।

पयं चइ मवत्तहसी एत्थ वि ता मे होल वाणहिं ॥ २

१ क व 'द्विओ' । २ क क जय' । ३ क क ज य' । ४ क क पड ।

अथो भण्ड -

लिल आडयस्म सुचया निष्कसस्म बहुमय(ह)स्म ।
तिले तिले सस्मं एत्थ वि ता मे होल वाण्हि ॥ ३

अथो भण्ड -

नव-पाउसम्मि पुञ्जाए विदि-भईवाए वेण-कुञ्जाए ।
एगाह-महिय-मेत्तेणं नवणीए वाळि पंथामि ॥ ४
एत्थ वि ता मे होल वाण्हि ॥

अथो भण्ड -

उन्नाण नव-किन्नोराण तद्दिनस-जापमेत्ताण ।
केसेहिं नहं छाएमि एत्थ वि ता मे होल वाण्हि ॥ ५

अथो भण्ड -

दो मज्झ अन्धि रथणाणि नालि कर्णईया मह्मिया य ।
छिन्ना छिन्ना वि क्खंती एत्थ वि ता मे होल वाण्हि ॥ ६

अथो भण्ड -

सप सुकित निव-सुर्बधो अजजपुरत्ता नन्धि ए(प)वालो ।
निरणो य दुर्पत्तम(स)थो एत्थ वि ता मे होल वाण्हि ॥ ७

एपं नाळम, रथणाणि मग्गिळम, कोट्टानाराणि मालीणं मरिणाणि, रथणाणि जाणाणि, कर्णिया पुच्छिओ छिन्नाणि छिन्नाणि पुण्णे वापंति । आत्ता एगदिबन-मग्गिया जाया । एगदिबनं नरनीपं । एवमक्खसा[य]णे जहा आवस्सए जाप विदुत्ततो राया जाओ ।

१० जहा य तेहिं नहणेहिं सत्तमाओ पण्हिओ; तथा [आ]वस्सए-विपरणासुसारेण दह्मं उवण्तमाल्ल-विदरगाड ति ।

“कुम्भिवस्स आडयस्म य पत्तो पत्तम्म एत-नत्तस ।

नत्तस मत्तल्ल य पत्तल्ल पत्तल्ल ऐत्ति ॥”

उवणओ सु(स)सुदीए कायथो ।

१० कोवानल-पञ्जलिन्ना गुरुणो वयणं असहहंता य(उ) ।

हिंति भवे माहिल-जमालिणो रोहगुत्तो य ॥ ४१

[कोवानल-दीप्ता गुरोर्बचनमश्रद्धधानाम्बु ।

हिंतिभवे भवे माहिल-जमालिणी रोहकुक्ष ॥ ४१]

माहिल इति कोट्टा(हा)माहिल्ले सुसवे ‘पदापयवेअपि पदसङ्घटायोपचारात्’ अशब्द
१० इत्यर्थे, स चोपमावाची विव्यन्धेनेत्यति । एतेषां उवाणामपि सिद्धवानां [५७-५९] चरित
भावव्यङ्ग्योपदेशमाला-विदरणाभ्यामप्यगन्तव्यमिति । उवणओ सुसुदी[ए] कायथो ।

विष्णाणस्म लवेष वि अवमण्णइ सुग्गुह पि ह्य-मुक्खतो ।

परिवाय-पोहसालो विट्ठतो विट्ठ माहण्यो ॥ ४२

[विज्ञानस्य लवेषात्पथमन्त्ये सुग्गुहमपि इत्यर्थः ।

परिवाद् पोहसालो दृष्टान्तो एव माहात्म्य ॥ ४२]

भाषायां रोहगुणकारणानके [६०] भवितः ।

नाणीण चण-हेठे अण्णाणि-विचिद्वियं किमन्हेर ? ।

जह नाइलम्म जायं मिचम्म विपंनिवं पावं ॥ ४३

[कानिनां चरणहेतुं ब्रह्मनि-विचेष्टितं किमन्वयम् ? ।

यथा नागिलस्य जातमिषस्य विदुम्भितं चाम् ॥ ४३]

— [६१. ज्ञानि-चेष्टिते नागिल-कथा] —

चंपार नवरीय् अहिगय-जीपायीतो मज्जवत्तइ-कुण्ण-त्तयो संवर-मिज्जराइ-कुसलो नाइलो सावयो । मिचो य से अर्धत्तं इत्थी-त्थीतो कुमारनंदीनामा सुवण्यपायो । तेण य जह(हिं)च्छिव-द्वय-वपायेण अन्न-रूपवईवं विवादिपाणि पंचमयाणि तह्य-वसणीय । सो य ताण मज्ज-गओ मशामइओ विव करेत्तु-परिवुओ भोगे सुंजमायो विट्ठ । शगुक्कडपाय य उवट्ठं पि नाइलेव जिण्णम्मं न पडिवत्तइ । अज्जया नंदीसर-ज्जानि [मिचबागावाहिं] पंचसेल-वप(रं)वाहिं-एणइ-तामिपाहिं उज्जामसुवगओ विट्ठो सुवण्यपाओ दास-व्पहाणाहिं चापसंतरीहिं, 'जोगो' पि पुत्तइओ ताहित्तसं । संवाय-पम्माहेव य भणियमण्येय - 'काओ तुम्हे ? , कओ वा आगयाओ ? , ममं य कामेह' पि । ताहिं भणियं । जधि य-

“दीवाउ पंचसेलाओ इहयं पत्ताउ देवचा अम्हे ।

ता जह कामेसि ययं ता तुरियं कथं आनेज्जा ॥”

भविष्यं उच्यते पाओ तमाल-रत्न-सामसं नययं । तयो अचंतातुराग-रत्नेय तस्सुणं चोपाधिपं पडहएण - 'जो कुमारनंदीयं पंचसेलयं वेहं, तस्स इव-फेहिं देहं । एवहा वरुण्येण निशिय-जीविण्यं मीओ पेरेंण पंचसेलयं । विट्ठओ काओ, कामेतो व भणियो वाहिं - 'न इमिया असुत्था सरीरेण अम्हे सेविज्जामो, ता तण्येव गंतुं निवाण-पुक्कयं उलमाइ-पवेसं कुणत्तुं । तेण भणियो 'न तरामो गंतुं' । ताहिं भणियमम्हे नेमो । 'एवं' पि पडिवचे 'ओत्तोवणी दाउम सुओ चंपार वाहित्तयाणे । सोउरहल-तुरियहिं भणियं सेमेहिं - 'किं तर तस्य विट्ठमयुभ्यं वा ?' । सो भणितं वपयो पि । जधि य -

दिहं सुपववुभ्यं न चित्तं पंचसेल्य दीधि ।

किं ताओ' वेण्जेज्जा हा हाओ ! हा परासे ! पि ॥

'जो ! सुट्ठओ चापसंतरीहिं केळपिओ, मा वराओ संवार भयउ' पि भावेतेण

मूल-भंडं दाऊन मुखे इहपुरं पावेह, तत्थ न विहरं न किंचि मेण्हइ । दुइओ पुण न किंचि मूल भंडं वेह, पुत्र-विहरं न छेण । इहपुर-इव-लागा पुण इ-वाइया । ता साइह, कयरेण सह वचामो ?' । सयवेण भणिवं - 'पउमेण सह वचसु' । जइ एवं, ता अणुवपह मसं । तओ मयओ । पत्तो तहुरेसं । 'ऊत्थ ते सत्थराहा ?' । वाणिएणं भणिवं - 'पउमो सत्थराहो एन मइया सुगी, मूल भंडं पंचमहत्तप-रक्खाणि दाऊन सिवपुरे नगरे नेह, न य मेव्वाण-सुहं ममाहिओ मेण्हइ । निइय-सत्थवाहा उ तुम्मे, दाऊन धम्म-मोहं पुणअिएं वेत्थ संसारे सुहर(ह)' । तओ पटिपुट्टेण सयवेण भणियो एमो - 'धम्मो तुमं, पुजंठु ते मणोरहा, करेहु ममीहियं' । तओ पवडुमान-संवेगाइएणो पइओ वणियो, पालिऊन तावत्थं तओ निहायं ति ॥

॥ वणिय-कव्वाणयं 'समसं' ॥

जायइ विसं पि अमर्यं सत्तुसु वि पुण्यभायण-नगरस्त ।

जह खीरीह्वाओ दाडाओ सुभूम-चकिरम ॥ ४७

[वास्ते विवक्यइत शत्रुणमि पुण्यभाजननस्य ।

पथा खी(खी)भीभूता दशः सुनीनचक्रियः ॥ ४७]

— [६५. पुण्य-प्रभवे सुभूमचक्रि-कथा] —

कर्त्तपुरे नगरे उच्छन्न-वसो भणियओ नाच दाओ । देसंतर संकसवानो सत्थेण उच्छिओ तावस-वालि मओ । संगहिओ दाएगो नि काऊन अथाविहायेण तावसेण । तम्मि पंचचीभूए सो वेव दाओ जमदग्निनामो पसिद्धिसुवगओ । दोण्णि य देवा वेसानर-यथंहरि-नामापो मापु-नायम-भवा मणंति य - 'मापु-तावसे परिकसामो' । सत्तुव-सुरेण भणिवं - 'ओ अम्हाण अहमो, तुम्हं पुण सत्तुवमो परिकिसाजंतु' । 'अवं' ति पठिवण्णे 'मिदिल्लइ नयरीए अभिनय-सावमो पउमरहो रावा, मो चंथं वसंतो मातुपुज-समीचे पवजा-निमिचं । सो य पठिइतासुह्णीनसग्गेहि उवत्तण्णिमो वि न विपरिणाभियो । अन्ये मणंति - सिद्धपुत्र-इवं काऊन भणियो जहा - 'दीहमाउचं, ना ताव पवचसु' । तेण भणिवं - 'विउत्ता निजरा मणिसइ' । तओ तया जमदग्निगो समीचं । कय-सउण-वेसा टिया से कुबंधि । तओ माणुस-भामाए सउणेष मणिया सउणिया - 'हिमवंतमहं ममिस्साभि' । न ता विनाजेइ । सा अण्णामचो तत्थेण विद्धिइमि । सो मण(इ) - 'गोपाय-चंमयथाए निस्सवेमि, जइ तुरियं न आग च्छामि' । ता मवइ - 'न एएहिं सवत्त(हे)हिं पठियामि, नवर जइ एवस्स भुणियो दुक्कयं पिपमि, सो सुयामि' । सो नेच्छइ एवं मवइ काउं । रिप्पिवा रुट्ठेण गहिया दोण्णि वि हत्थेहिं । पुण्ठिउएहिं च भणिव तेहि - 'महमिमि ! जणयओ ति' वि ।

अपि च - "अपुत्रस्य गतिर्नस्ति स्वर्गे वै च वै च ।
गृहपतेस्तु पुत्रस्य तत्र स्वर्गं नमिष्यति ॥"

"इहं चित्तं सुतप-सुहृ पुत्रो य देवेर्हि साहिभ्यो षम्भो ।
इहं उर्ध्वदिशं काला वीर्यं बोरेर्हि से तविर्यं ॥"

तत्रो संसुद्धो पट्टिपन्नो नवसङ्घर्षं । देवो वि सायगो जाओ । जमदग्नी वि ।
गत्रो मिगाकोट्टुए । भविभो य जियपन् - 'मम कल्प देसु' । ताव-भीष्म प
दाविर्यं धूषण मय । जा उच्छ्र, तं मेष्दासु । तत्रो न विपाप-संकारं दृष्ट्वा 'न
सज्जमि विनय पन्थिनो' । मन्थवी उद्वियाओ नशाओ वि परसुदीओ फणवाओ वि ।

अपि च - "उत्तरोत्तरं कर्म कर्म सत्यं वि केशलोत्थिनः ।

वेमं पुत्रं ह्य उत्तरोत्तरात् मम केव्यं लघुदिव्यं ॥"

इष्टेय कथाओ सभाओ कृताओ । एमाओ चित्तं कारणाओ फणवाह्य वि नामं संसुद्धं
नगरस्य । पुत्रो य दिष्टा एषा देवेषु रमंती । पणामिठं कर्त्तं 'इच्छति' वि भविष्या ।
पट्टिपन्नं से ववर्षं । गो-महिषि-परियण-महिषा नेउं पयन्तो । सात्विषा कल्प-निमिष-
सुनद्वियाओ, सुद्वियाओ ताओ पयुषाओ काउम यओ आभयं । संभव-वीर्यहेष
सङ्घर्षा' रेणुषा । तेष उउ-सभार भविष्या एमा - 'साहेमि से चरं, जेष
समर-संभव-पदाओ से सुभो होइ' । तीए भविष्यं - 'मम भविषी हरिकणाउरे अर्ण-
'वीरियस्य भजा । तीसे वि सविर्यं चरं करंयु' । कल्पु दोसु वि 'अओ ! जास्ती अई
अउधीमई जाया, मा मन्त्र पुत्रो वि एस्तिओ इवउ' वि भारतीए विमिओ सविय-
चहओ । भविषीए पुष संभव-रुओ पेषिओ । जाया दोण्डं वि पुषा । तावसीए रामो,
एवसीए कर्त्तवीरिओ । वद्विया दोषि वि देहोचरणं । तावसानम-पत्त-मितापीह्य-
पट्टिपरिय-विजाहरेय दिग्वा रामस्य फलु-विजा, साहिया मरवणे । अणो भवन्ति -
जमदग्निव्या दिग्वा । रेणुषा वि हरिषणाउर मया रायमा सपुत्रा कफा, आगिवा
आभय-परं जमदग्निव्या । कृतिण्य व सपुत्रा रावछया रामेण । वरथ चिद्वैतेष
महिषाओ य मत्वाइयाओ कलाओ । भविषीए वि सिद्धमन्त्रेवीरियस्य उदा वावाइया
सपुत्रा रामेण रेणुषा । तओ आसंतूय राइया विद्यासिओ आसतो । पदाविओ मानीओ
पेषुष । रामेण वि संतूय वावाइ-ओ अर्णवीरिओ, विपचिपाओ मानीओ । कर्त्तवीरिओ
राया जाओ । ताव-पद्महेतेउरेय सह योगे हुंजइ । अक्षया जपय-मरणं निमग्नित्तज
वावाइओ जमदग्नी कर्त्तवीरिय । रामेण वि परसुषा मारिओ कर्त्तवीरिओ,
अहिद्विर्यं रत्नं । इओ य सा तारादेवी सवविय-चोदम-महासुमिषा संभवेण कलापंती
तावसासमं मया । फणेण च पट्टिओ सा(से) मुह्येय गम्भो । कवे च से नामं सं(सु)भूयो ।
मम वाराओ निवसन्तीकथा पुई रामेण । अथ जन्म सविर्यं पच्छइ, तथ तथ से
कणु अउइ । अणया तावसासमं बोलेजस अलिओ कणु । 'को एतथ सवचिवा(ओ) ?' वि

१३५ क 'कुवेर' । १३५ क 'भिर' ।

- मणिय संलये तास्तेहि - 'वयं चिय खणिया तावता संजुवा' । एवं च तावतासमे
 विजाहर-देवता-परिम्नहिओ गुण(भू)ओ चक्रवर्ती देहोपचर्यं कला-कलावेण य वण्डितं
 पठयो । मेमिचिएव पुच्छिएण सिद्धं रामस्म - 'ओ [ए]यम्मि सीहासमे भिविद्धो एवाओ
 मणिय-दादाओ वामसीभूवाओ साहिनि, तयो ते वरपं' । वरं काउण व(क)यं सीहासपं,
 * पुरओ निवेसियं दादा-गुणं काउं । निरुविओ अणिवारिओ मवाचारी । उविपा
 आरभिसव-नरा । इओ व, मेहनाओ विजाहरो वठमसिरीए पूपा[ए] मेमिचिया आहं
 शुभोमं मचार पडियरंते विद्धह । अणया सुभोमेण पुच्छिएवा जणयो - 'कि एरिओ
 तोओ?, उवा(दा)हु अणो वि अणिय' । तओ मविल्लरेण नियय-कुचंते सिद्धे रोमाना-
 पण्डितिओ अहिनाणेण वणाओ वारेउते वि वओ हरिधवाउर । वविट्टो तव्य वडे(मडे) ।
 ** जिनओ सीहासमे मुक-कटा पवाइवा वामवेलरी, सीरीभूपाओ व दादाओ अणितं
 वपयो । पवमवुजवा य आरकिसुवा नग निवारिवा' य विजाहरेण । मुणिय-कुचंतो
 संनहु-खंवाकाराणुमम्ममाओ महिय-एरए पचो रामो वि । ज(नि)पं से सेव्यं विजाहरेहिं ।
 तओ सहुवट्टिओ रामो, जाय उवहावा वरए । सुभूओ वि उट्टिओ वं चिय थाउं
 वेकूव, देववाए चकं कवं । तेव छिखं रामस्म सीहं । निवडियं मंपेदयं । जाओ
 * चक्रवर्ती । अहिनाणेण य एकवीतं वागओ निर्व्वभणी कया जुहं । मणो वि इण्डिय
 वि । उरवओ मपयो ।

सुयदेवि-पमाएणं सुभोमवडिम्म साहियं चरियं ।

आगम-विहिवा जीणे निरुपंतो लहर कल्लाणं ॥

॥ सुभोम-कम्पाणयं 'समत्तं ॥

- ॥ सुयसत्त्व-जाण-इंमण-चरणाहरणाण साधगायं पि ।

निखं वडंति सुग कजे जह वेडयनिवस्स ॥ ४८

[सुयसत्त्व-ज्ञान-दर्शन-चरणाहरणाणा आचवाणामपि ।

नित्त वरंते सुग-कारे पथा वेडकट्टस्स ॥ ४८]

वहा वेवालीपु-रोहिपाए वेडवस्म देवेहि मजेव्वं कयं, ल्होरएममाहा-विकरणाओ

- ॥ सविम्भर वापयं [६६] ।

संपत्त-महामहिमो गज्वं न करेज्ज नाउमण्णाणं ।

जह सा विचयग-मुया नरिद-महिउत्तणं पचा ॥ ४९

[सप्राप्ता महती महिमा येन स तथा सर्वं न कुर्वीत् ।

ज्ञाना आत्मान महिमायाः पूर्वं कृपणकरश्चाज्जौ विचरतुता ॥ ४९]

— [६७ गर्भ-निषेधे चित्रकरसुता-कथा] —

बसंतउदरे नपरे विचमस्तु राधा । 'जगन्मोहिं गर्हणमस्मि, तं किं मम नस्मि ?' पुच्छि-
 एष सादियं दूष्य - 'द्वे ! विचमन्ना नस्मि' । तत्रो मेमिच्छन् विचमपरे विभवं समनामेव
 क्षेत्रं, समारुद्धा निषेधे । अन्वया विचमप-दानिया हङ्-मञ्जेष मच्छंती पद्याविच-दुर-
 यासोहाड कइ वि बुका क्या पिठमो समीवं । भविष्य च जाए - 'ताप ! उर्ध्वं विच ।
 भुञ्जतु' । तेष भविष्यं - कारिपाए भंलूय भुञ्जामि' । तत्रो कुञ्चिमि वण्णिरहिं बरहि-
 निच्छं छिरिधं । मोरविच्छासंकाए पमारिओ राधा हत्थो । तत्रो सदासं भविष्यं विचम-
 सुपाए - 'विधिं चाएहिं भंभिया न विदुइ ति बहुकालाओ चउत्थ-वाओ लहो' ।
 सङ्गप्य[ञ्]कोउमेय व पुच्छिया राधा - 'किमेयं ?' । तीए भविष्यं - 'एओ एव राधा
 महाभुक्खो, जो अमेव-इहुंय बहिसुांओदासं एनामीय व सरिसं क्षेत्रं समप्येइ । वीइओ ॥
 आसाओहो, जो इह-मञ्जेषं चाहिएण तुरगमेण वचइ । तइओ मम जणओ, जो
 अणुपणुओ नरपणुओ कए मोरप्यं सीकखोइ । चउत्थो तुमं, जो किञ्चिमाकिञ्चिमायं
 निच्छायं विसेसं न विपप्येसि' । 'अहो ! से विप्यापइसओ !' भावेनेव व पडुविओ
 मणुओ से जगव-समीधे । भविष्यं च मेण - 'राधो नियम-पूर्वं देहु' । भव-विन्ध्या-
 इकावर च भविष्यमयेण - 'किमग्दाय पूजाए रूप(व)विइचाइ-बहियाए परमेसरो ॥
 कादिति ?' । गंतुव भविष्यमयेण । दु[इ]प-वार वि पडुविओ राधा । तीए भविओ
 जणओ - 'भयेससु जहा न बहिनवि काटे समत्थो' । तहा सिद्धेण राधा पेषियं वरं ।
 उचुवा राधा । दिप्यो कामओ । पुब सिनसविधा व पुच्छिया दाम्पेदीए कइजयवं ।
 एगसस राधो पच्छम-पर-हुिया सुवण्यपारा कइहोवं पडेति । इक्षेय भविष्यं - 'राई
 वइइ' । सो कइ विचाणइ ? । दाम्पेदीए भविष्यं - 'माइसु, न चाणामो' । तीए ॥
 भविओ(वं) - 'निदा आगच्छइ संकपं, कइं साहेमो' । कोउमेय व राधा दिओ विर-
 दिसे तीए विच वाओ । पुच्छिया बेटीए - 'कइं विचाणइ ?' । तीए भविष्यं -
 'रती-अंधओ, अइवा राई - तरगो आमच्छइ, मउसिय-पउम-ईसपाओ क' । एकेण-
 (काए) भविष्यं बेटीए - अण्यं कइसु । एनेण राधा दोनि चोरा महिया । वे मंजुलाए
 कोह्य नईए पवाहिया । तीर-बन्धा व विहाविया बेगानि मंजुसा । दिहु पुरिसा । ॥
 एकेण भविष्यं - 'तइं दिवसमन्हायं एरथ इदायं' । 'सो कइं विचाणइ ?' । तीए
 भविष्यं - 'सामिनि ! कइहेतु' । 'संपयं निदा वाहेइ, कइं साहिस्तामो' । पुणे वि दिओ
 वारओ । पुच्छियाए व भविष्यमयाए - 'तसस तेइउरो आगच्छइ, तेण आपइ' वि ।
 पुणे वि पुच्छिया । एगसस राधो अंधंन-सुंदरा पूवा इव-सोनेण अवहरिया
 विजाइरेण । तस्य व चचारि पुरिसा रयण-भूया मेमिचिओ, रदमारो, महसस-ओही
 महसुइयो, विओ । 'जो आपेइ दारियं, सो वेव बीवाइ' वि । तत्रो मेमिचिन्ना
 सिइ - 'पुब-दिसाए विजाइरेव नीचा' । तस्सपंचिय आनासणामी मिचिचिओ राहिएण
 थो । समारुद्धा तत्थ चचारि वि । उच्यइया मयण-वचिपीए । दिहु विजाइरो,
 उणो महससओहिया सह । वावाइओ महससओहिया । तेण व मरमायेण व छिभं
 दारियाए सीसं । संपथा नपर । ओसाहि-सामत्थेण व बीवादिधा बेजेण । उवमारिओ ॥

वि काउं समुद्रिवा मदे वि जीवाहित । 'कदं एतियार्णं महिता हवामि ?' नि
 मन्ममापीए भणियमगाए - 'जो मे मह जल्लंमि पविसुह, तस्माहं भारिया हवामि,
 न अप्पेविं' । ना को तीए मह जल्लंमि पविसिन्वह ? । दानपेडीए भणियं - 'माभियि !
 न यावामो, माहेर(सु)' । तीए भणियं - 'कल्लं कहिसिन्वामो' । तओ विपइ(इय)-दिवसे
 'सिद्धं - 'नेत्तिओ तीए मह चडिसिन्वह, उहा सुरगाए नीहरिसिन्वह' । एव च एरिसिन्वह
 कदाएवहिं छम्मारं निरतर रावा कापिओ । सेम-महिताओ छिद्दामि अपि(ण्णि)-
 स्वंतीओ निरं चिद्धंति । मन्ममदमए च उअए पविसिन्वह चिनपर-वेत्तं काउम अप्पार्णं
 निदति । अवि प -

'एयं वे पिउ-संतं उरदंठी संहं काप-मणिवार्हं ।

- " एयं नहिं-उअयं पट्टंसुय-रपणमार्यं ॥
 ता मा नरं काहिसि अप्पार्णं जापिउअ ये जीव !'
 नहिताहिं निवो भणियो वमा तुह सादयं कुमह ॥
 जाल-अवमसेम तओ अप्पार्णं पुत्तउअ निदंती ।
 ताहे न विप इद्दा जाया महण वरपइयो ॥

" उअणओ कापओ ।

सुपदेवि-रप्पार्णं सुपापुमारयेव नारियं चरियं ।

चित्तकर-दारियाए निहुणंते हवइ मय-मावो ॥

॥ 'चित्तकर-दारिधाए कहाणयं' समत्तं ॥

भावं विणा केतो सुग्गि-चिद्धं नेव पावए मोक्खं ।

" अंगारमहओ विव अहवा वि सुवंधु-सच्चियो ज्व ॥ ५०

[भाव विना कुर्वन् बुद्धि-वेद्य नैव प्राप्नोति मोक्षम् ।

अङ्गारमर्कतत्, अयवाऽपि सुवन्धुसच्चिव इव ॥ ५०]

कथमिदम् ? [६८] अङ्गारमहव-कहाणयं अहोवपत्तमालाए ॥

— [६९. अभाव चरणे सुबन्धुसच्चिव-कथा] —

- " दृश्यमकस्मापरं पुण - पाटलिपुत्रे कम्मण-अपाओ रसात्तमन्थं च चाणकेव चंद
 गुणेण विम-भाविओ आहारो पवचिओ । अअपा चंदसुच-थाले राउकदयाए निविद्धा
 महादेवी बोद्धुं । तं च दृश्य भणियं चाणकेव - हा ! दुद्ध(द्धं) कर्यं । तओ विवप्याए वोठ
 काविउअ कड्डिओ दारओ । तस्म सीसे से विसेण कओ विद्, न चेव दमवस्त नां
 कवं चिद्धारो । नद्धमावो य जाओ वोठणन्थो । चटगुचं च पंचवीरुए तो चिय रावा
 " संतुओ । अअपा जहाअवमर भणियो सुवंधु-नामिण पुक्क-वतिवा - 'देव ! जइ वि संकं

अहं तए परिचनो, तह संतिएण व भोइया संवडिओ, ता अं ते परिणाम-सुंदर तं
सुह-व[ह]पिं वि मणियपहं ति ।

‘सुह-सुह’ परिणाम-सुंदर च मेवति विंति उपपत् ।

‘सुह-सुह’ परिणाम-सुंदर च विंति विंति नरीर । ५१

ता इमएण वीणास-पाइयो चाणकस्य न वीमसिपव, जेव भे जयणीए बोहुं ।
कासियं । तओ पुण्डिका रायणा वयवार्द । तीए वि तह ति सिद्धो । सुहो
राया चाणकस्य । विंतिपं च योग । अतोविओ अमिउनी कोवो सुबंधुया राइयो,
आमचीइओ व भे मरण-कालो, ता तह करेमि, जहा दनो पि न संसार-निबंधं
वियव-सुहमसुदरह । जोग-बंधुइएहिं संशोइऊम गंवे तिहियं सुहं । इउणए सह
पकिइया समुग्गाम्मि, इकिइय थोहि(सि)ओ जव(तु)या । समुग्गओ वि पकिइयो
बंधुयाए, मां वि इकिया ताइय-नएण । तओ जिण-माइ-संय-नमण-वज्ज-वसुहाइयाव
इऊय वर-नार डिओ नगरामणे ईनिधि-मएण । सुणिय-जइहिं-जयणीए मरण-
पुसंती संजाण-पच्छायाओ सबल-वाइयो पओ विदुमारो । मवहुमानं कासिऊय मणियो
चाणको - ‘एहि, वचसु पाइलिपुत्तं, अदिहिंसु रत्तं’ ति । तेण मणिय-अरुमेयाए
संक्रुएए, परिचत्तं मए नरीर पि । तओ जाणिऊय से निच्छरं मओ राया । ‘मा पुणो
सुवन्धु-पच्छायाओ आनमिस्सदं’ ति मणयाणेण मणियो सुबंधुया राया - ‘अहं
चाणकस्य पूर्यं करेमि’ । एव अणिए काऊय पूर मोक(ओ) करीय-मज्जे अंगारो, जेव प
अरुणीभूएण दहो चाणको । सुबंधुया समुग्ग-इण-लोमेण चाणक-नेहं राया
मणियो, दिधं, वधिहो । नए उग्गाइयं ताइय-सए पि, आर बंधुसि-सुत्तं व किंचि
इहं दिहं । ‘अओ ! एयाए मज्जाए उक्खि मारभूत्तं नं इविस्सदं’ । विहाइयाए दिहो
अहु(उ)या थोसिओ समुग्गओ । ‘इहं ! एणए एणएणि मविस्सदं (सस्ति)’ मणयाणेण
विहाइओ समुग्गओ । दिहा मयनपंता नंया । ने अग्गाइय निरुविय-समुग्ग-
अम्मितरं दिहुं अक्ख-मणार्इं इहं । ‘अओ ! सुवन्धु-एणए-संसा इण मविस्सदं
भारितो वाइपं(उं) वपनो ति । अचि य -

अग्गाइऊय एए जो मंथे इणियरो इ न इ चिहं ।

सो उवखण-मेणेणं वव(वि)स्सदं अंतप-मग्गि ॥

संजाय-विमाएणं पुरिसं जेव(अया)विऊय ते मथे ।

इंजाचिओ य भोगे जा पओ उक्खया मएण ॥

तो मो जीविय-हेटं वायाळंकार-इयुव-उंवेरो ।

इणीउ पर पुत्ते एवयाणि उ वंयु-सुहि-मयमे ॥

मयसा वि नेय ज्ञायइ सुणि इ तव-मिपव-सोसिय-नरीरो ।

विहरइ धम्म-विहूयो निव-जीविय-वाएणा नंती ॥

उक्खओ काय्यु ति ।

॥ सुबंधु-कहाणपं ‘समत्तं ॥

अक्षत-पाव-भीरु रज्ज न लयति दीयमाण वि ।

अभय-महासाला इव त्रिणसासण-भाविय-मईया ॥ ५१

[अक्षत-पावभीरुचो रज्ज्व न लयति दीयमाणमपि ।

अभय-महासाला(शा)ल्यविव विनशासन-भावित-शरीरो(मतिवो) ॥ ५१]

जहा अभयहमारैय सेविएण दिज्जंत-रज्जं न पडिक्खं, महापात्तेण य दिज्जंतं न पडिक्खं पाव-निर्वणं ति काउं, तहा कायं [७०-७१] ।

॥ अभय-महा[साल]-वत्त्वाणयं 'समत्तं' ॥

कालापुरुष-किरियं सुयाणुसारेण कुक जहा-जोगं ।

जह् केसिगणहरेणं नोयम-नाणहारिणो विहिया ॥ ५२

[कालपुरुष-किया कुकजुसारेण कुकय यथा-बोधम् ।

यथा केसि(वि)गणपरेण नोयमगणपरिणो विहिया ॥ ५२]

कालपुरुष-कियां यथा महावतादिलक्षणायामानुसारेण यथा भीतन-समीपे पार्थ-नाथीयकेसि(वि)गणपरेण कुतेति ।

— [७२. कालोचितक्रियायां केशिगणधर-कथा] —

॥ तं जहा - पाससाभिणो तेवीम्व-नित्तवस्स केमिवाभो अणेण-तीस-वण-परिवारो सत्तासुर-नदि-वण-वप-वंकजो रोहिणो मक्क-कम्मलापरे, नासितो विच्छत्तन्नचपत्तं, जवणैतो मोह-निदं, नानकप्पेण विहरणाणो समोभरिओ सावत्थीए नयरीए इयि-नाय-पाय्णेण फलुण्णं सिद्धुणादिहामे उज्जाणे । विउरुवियं तियसेहिं दिहमचंत-वणामिराणं कंचम-सयवचं । ठिओ तत्थ । समाउत्ता धम्म-कहा । तंयथा देव-राज-नदिशास्सी वि । अवि य -

तियत्तासुर-नय-चउमो धम्मं साहेइ गणहरो केत्ती ।

दुक्ख-दिह-सारेो मोक्ख-कलं सव-सपार्थं ॥

तीए तिय नयरीए उज्जाणे कोहुगम्मि वीरस्स ।

सीसो गोयमगोचो समोसउो ईदभूइ ति ॥

कंचम-पउम-निसण्णो धम्मं साहेइ सो वि सताण ।

पुञ्जराविरुइं पमाय-नय-हेउ-नय-कलियं ॥

नाणाविह-वत्थ-धरा सीसा केसिस्स तियवउ-समेथा ।

गोयम-गणहर सीसा मिलिया एण्ण चित्तंति ॥

॥ निरिहायि ? , कारण-वाए य पडिक्खमयं ? । अण्णस्स इयिणो कनमण्यस्स कण्णइ । नाणाविह-वत्थ-नाहणे, नाणाइय-तांजवाइणि य । सीस चउत्तायसाभिया कंच महावत्थानि, उन्नयकाल-पडिकमणमवस्सं, तियवत्थ-नाहणं, दगस्स इयिणो 'कयं आहाकम्भाइ सओसे न कण्णमिज्जं सेज्जापरपिट-विउरुं, सामाइयं सेदोवत्था[व]वाइणि ति ? ।

इय एवविद्विचिं(न्तं) लीगार्थं जाणित्वा मे दो वि ।

‘मिच्छन्-नामन्-स्यं’ सुगम-चिन्ताया जाया ॥

तत्रो जेहुं कुलमवेकस्यस्यो अणो-लीग-स्य-परिचारे कुर्षन्तो विज्ञाहर्षद्वि
संपद्विभो गोपयो त्रिदुगुताये भवन्तो केसिमापहरस्य नद्व-सद्विचार । मणियं च
परममुचिषा -

“गोपयो पद्विच्य”[रूपम्]-लीग-सं-समाउत्तो ।

जेहुं कुलमवेकस्यतो त्रिदुगं यथागतो ॥

केसी कुमारस्यस्यो गोपमं दिव्यभाग्यं ।

पद्विक्रयं पद्विचि स्त्रियं यो पद्विच्य ॥”

सपस्यं च लीसेहि स्याउं निलेजायो कय-नद्वारिह-विषयकम्भो गोपयो केसी च नि । ॥

“केसी कुमार-समथो गोपयो च महापते ।

दुहो विमत्या मोहंति चंड-स्य-स्य-धमा ॥”

तत्रो ताय भवन्ताय ममात्मं सोऊय सोऊल-विज्ञाय-हेउं पूया-ईनयभवागया
सुवे चार्थद्विभो, मिहत्था, भवपवद्-वाचसंत-ओहन-वेसागिया[व] च देवापचवेगाउ
सोधीउ ति ।

कुलमीरियो विष यणियं उच्यपवंता’ मंहति मे दो वि ।

निह्नि(हुं)विष-नयण-सारा मेचिजय-सिपत-संकाया ॥

त्रिय-विषय-राग-कपरा महानरिहं च चिदुह-नर-महिया ।

मयणं च निह्वलेवा सुकीनाय च जय-नयडा ॥

करियो च दिव्य-दाया नय-केसरियो च स्वविष-नय-पसरा ।

रनियो च स्वविष-दोसा तरुयो विष मउय-नय-निलया ॥

ताद्विष-विज्ञा नमि-विषयियो च नमियो च कड्विपार्यदा ।

मणिसु च दलिय-सिमिरा हरियो च पतत्य-मम्मवा ॥

दोचि वि जयसरा(अहस्य)-कलिया दोचि वि निय-नेय-नविष-द्व-वाया ।

दोचि वि नवसि-महिया दोचि वि सिदीण मय-चिवा ॥

दोचि वि गरुड-व्याता दोचि नि जिनवयम-नहचल-मिनेका ।

दोचि वि विन्दरिय-जसा दोचि वि तिमलोप-नय-चलया ॥

इय ते दोचि वि दिदुह तिमसागुर-कवर-नर-नय-वृष्टि ।

ददुह-दिदु-सारा तेसोक-नचंसिया धीरा ॥

तत्रो तित्वाहिन-स्यहरो नि काउय लीगार्थं रोहपार्थं पविचनं जाणन्तायेकानि ॥
दुच्छिभो गोपयसामी केसिमवहरेण पुष्पुन-संनर(ए) । गोपयेण मणियं - ‘उत्तम-
चाभि(लित्य-साहु)यो अचंतदुह(कु)प-अदा, बह्मयापसामि-सित्त-साहुयो पुय अचंत-
पक-अदा । अत्रो पुसिह-साहुय दुस्मिोहयो, पच्छिमामय पुय दूरचुपाउत्तो । इमिया
कारयेण दोर्षं पि पंचमहहवाह-लसकयो । मभिहम-जिय-सित्त-साहुयो पुय उकुपा

विसेलम्बुवो, तेव धम्मे बुहा कए णि । निष्कएण पुण सम्मदंलग-नाण-चरिणाणि
निहाय-मग्गो, ताणि च सहेति णि तिरथपर-सीमापं सरिमाणि णि । अवि य -

“साह गोपम ! ते पम्मा जं छिम्भो संयओ मह ।
अप्पं पि संयं छिद् जिम्भिद-वपणा वह ॥
बेगतायं तु सहस्नायं मज्जे चिदुमि गोपमा ! ।
ते य ते अहिगच्छंति कइं ते निजिया तुमे ? ॥
एमे जिण् जिपा पंच पंच जिना जिपा दम ।
दयहा उ जिगिचारं सव-मत्तु जिपामह ॥
‘सत्तु य इति के बुचे ?’ केसी गोपममन्ववी ।
[केसियेचं बुवंतं तु गोपमो इयमन्ववी ॥]
एमे जम्पा[ऽ]जिए मत्तु कयाया इदिपाणि उ ।
ते जिम्भिया जहा-नायं विहरामि जहा-सुहं ॥
साह गोपम ! पण्णा ते छिम्भो’ मे संनओ उयो ।
अप्पो पि संसओ मज्जं तं मे कदय बुच्छिओ ॥
दीसंति बहयो लोए पाम-बहा सरीरिणो ।
सुकवासो लहुम्भुओ फदं विहरति तं सुणी ? ॥
ते पासे मज्जा छिया निरंतुण उवापओ ।
सुक-वासो लहुम्भुओ विहरामि जहामुह ॥
‘पाला य इति के बुता ?’ केसी गोपममन्ववी ।
राव-नोपादयो तिका नेह-वाप्पा अपंकरा ॥
ते जिम्भि(छिदि)ना जहा-नायं विहरामि जहा-सुहं ।
केसी-गोपमवधामं तेवीमहं तु उचरत्तण्ययं ।
एवंविह-पुच्छओ ववाओ लण्ण केसिस ॥
छिम्भा ताओ सवाओ जहायनं गोयमेण संतुहो ।
संपुणह महासत्तं इमेदि सिद्धंतवमणेहि ॥
जमो ते संमयातील ! सव-स(सु)न-महोदधे ! ।
जिगपवयण-वाक्का-ससी एयासिपासेन-परवत्त ॥

तओ पट्टिवम्भो पंच-महदपल्लवओ गोपमसाग्गिणो समीधे केसिया धम्मो णि ।

“तोमिया चरिसा सव्वा संमत्तं पत्तुवड्डिया ।

संपुया ते पत्तीर्यंतु भगवं केसि-गोपमा ॥”

उपमओ कायओ ।

सुपदेवि-वसाएयं जह-डियं गण्णहरेहि ते(तो) भयियं ।

ससेवेव महत्तं नितुपंणो लहठ निवाणं ॥

॥ केसि-गोपम-चरियं ’समत्तं’ ॥

सुह-विन्दुं इच्छन्ती जलनिधि-विडलापि सहइ दुस्स्वपि ।
सति वि मोक्षस्य सुवत्से मधुविन्दु कृपयनरो ज्य ॥ ५३

[मधुविन्दुमिच्छन् जलनिधि-विडलापि सति दु-स्वपि ।
सत्यपि मोक्ष-सौख्ये मधुविन्दु कृप-यनरम् ॥ ५३]

— [७३. मधुविन्दु-रूपनर-कथा] —

नह अटवीए नञ्जे पुरिमो वषट्पि-गोह्मिओ बीओ ।
धावन्तो' पासेतुं पेच्छइ पोंडरिप-मपनाहे ॥
ताप वि बीओ पुत्रओ इदूषं स्वस्वमि अनाइते ।
आरोट्टुं बडरुक्खे सुदीहर तस्म दिहुम्मि ॥
अपडेमि देइ अंभं सर-खमे उग्गिउत्तम से विट्ठा ।
विट्ठइ अइ(प)गरपाओ कपेत्त-सरित्तेण पचयेण ॥
हुंकार-का(का)र-इण्णिओ अणवरपसभित्तेन्ति पत्तारि ।
सुत्ता व कल्लिप-सवत्ता निचं सावति सर-संभं ॥
पुरिय-पहाविप-वणइत्थि-दिग्घ-वट्ठपापवत्ता अइमि' ।
महुणो कुइं जालं समये महुमच्छिउपईहिं ॥
खावति ताड देइं कमेण महु-विन्दुणो व उइ(हु)-सुहो ।
आसाएतो भणियो आप्यास-महुण सपरेण ॥
मप-सीइ-वाप-रक्खसि-अवमार-इमि-दूष-नूत्तप-अपाईवो ।
तारेमि कीम विट्ठसि ? महु-विन्दु-पलेओइओ इत्थ ? ॥
नो मणइ संवमाओ महु-विन्दु ज्ञान मज्झ पत्थंमि ।
विपइइ ता तारेजसु एवं भणियो सओ सपरो ॥
एणोवणओ इइं अइइ-सओ इत्थ दीइ संमाने ।
पुरिस-सओ संसारी वषट्पि-सुविम्मओ मम् ॥
मयथाइ-वण-सरिसा राम-दीसा सुदुत्तया नीरा ।
स्वस्वसि-कण्ठ उ जग कृपव-परिमो नञ्जे भणियो ॥
अवमार-सुइं च नरमो पणि-परिमा कोह-वाण-मय-लोहा ।
उंदुर-परिमा पक्खा सिउयरा दो वि मापवा ॥
सुअंभ-संभं जीयं कवी-सरिताओ विविड-वादीओ ।
महुविन्दु-मया भोगा वेडवठवण-विम्मओ सुक्खो ॥
विजाहर-संडालो कम्मरुह मणइ किमत्थ संसारे ? ।
अणुइवसि दुस्समउठं सुक्खं सुहे माभए वण्ठ ! ॥
एवं भणिय-मिना उदुक्कमा उज्झिउत्तम पापाईं ।
वर्धति सासव-पथं अवरे महुविन्दु-सग्गिसेसु ॥

करि-कथ-पंचलेतुं मातुम-सारी-दृग्भ-देऊडु ।
 तुच्छेह असुहृदसुं भोमेतुं वृष्टिषा संता ॥
 हिना-ऽस्त्रिय-बौरवभ-भेदुष्य-वरिणहेतु आसता ।
 मन्त्रिण काल-माते नरप(रं) वर्यति कथ-पाता ॥

॥ कथय-भवा(नर)-कथापर्यं 'समस्तं' ॥

संदेह संपत्तो मुणिषो पुष्टिञ्ज मुणिय-जिण-वयणा ।
 जह सेणिएण पुट्टो जाया-वरिचं महावीरो ॥ ५४

[सन्देह सप्यजो मुनीन् पृच्छेत् मुणित(ज्ञा)-विस्ववचनात् ।
 यथा श्रेणिनेन उद्यो जया-वरित श्वावीरो ॥ ५४]

॥ — [७५. सन्देह-पृच्छयां श्रेणिक-कथा] —

सेषिओ परिम-बोरुवीण भगवओ वेदण-वडिवाए गओ सवशिवतो । ज्ञापच्छेतेण
 प पओमे विट्ठो पडिवा-गओ वृषी, वंदिओ जाव-सारं । चेहुणए वि सुह-पसुत्ताए प
 निम्भओ पंपुरवाओ वाहि हत्थे, कट्टीहओ सीएए । तओ तं वृणि संमरिज्ज
 भणियमवाए — 'स तपसी कि करिण्णनि ?' । सोऊण व वितियं सेणिएण — 'अवो !
 पाएण दिव्व-वेवेया कम्म वि, तेवेदं कच्छ' वि । वहाए मणिज्ज अमयं 'ज्जेउर
 वइसु' वि गओ मणवओ वरण-वडिवाए । पुष्टिओ मणं — 'किं चिल्लुणा एमवती
 अवेण-पती वा ?' । मययया भणियं — 'दिवापुणिया ! एणपती' । तओ संजाप-
 पच्छावाओ प्हाविओ वपराभिडुदं । अमओ वि सुत्तं हविमालं पसीपिऊण पवट्ठो
 विस्वव-वंदणत्थं । पुष्टिओ सेणिएण — 'किं साहं ज्जेउर ?' । तेण भणियं —
 'आमं' । सेणिए[ण] भणियं — 'कीस तुम न तत्थ पविट्ठो ?' । तेण भणियं — 'अलं
 मज्ज जलण-दाहेण, पइत्तं काहाओ' । तओ 'सा वित्तायं मच्छउ' वि मय्यमाथेय
 साहिओ सम्भाओ वि । उवणओ कापवो वि ॥

॥ सेणिय-कथापर्यं 'समस्तं' ॥

जीयं(वं) अथिरं पि थिरं धम्मणिं कुणंति मुणिय-जिण-वयणा ।
 निहिण्णे अभय-सरिच्छा रयणाणं तिकोदि-जाएण ॥ ५५

[धीमर्त्सिगमनि शिर पर्ये कुर्वन्ति वृणि(ज्ञा)भविण(न)वचनात् ।
 इहिणोऽभय-स्रशा रज्ज्वा तिकोदि-ज्ञातेन ॥ ५५]

गृहिणोऽपि, अनापिअथो उक्तो द्रष्टव्यः । ज्ञातम्-उदाहरणम् । कथमिदम् ?—

— [७५. धर्म-स्थैर्येऽभवमभि-कथा] —

बह्मशाकामिणौ चरन्तिरथपरस्म सीतो वचमनघघने सुधम्मो संपुण्य-दुपालसंगी
 क्रमेण विहरमाणो समीनरिओ राषणिहे । मातुषो व भति-बहुभावा-पुषपं ईमर-परेशु
 आह्वर-वन्थाईदिं पृष्ठसंता ददुण निपय-कम्बुणो निविण्णो निवसंतो 'बहुवारप-दमणो ।
 तं च 'पुत्तेईउण तवसिदि-समद्वासिणं 'ओ ! बहुवारओ केरिणो ताओ' । लोण-
 र्पणाणि अमहमाणेण भणितो सुत्त- 'भवव ! अण्णत्थ उवाओ' । गमव-काले
 यतो गुरुहिं आपुत्तित्तओ अमओ । तेण नि भणियं- 'भवव ! किं मात-रुणो पडि-
 पुणो ?' । गुरुहिं भणियं- 'न पुण्णो, नवरमेण सेहो परीमहं न मए 'मोहुं' । अमएण
 भणियं- 'ताव प तहा कम्भो, जहा न आप्ण परीमहो' । अण्ण-दियहम्मि र्पणाणं
 तिण्णि रासीओ क्कळण 'अमओ र्पणाणि दे' ति पडइय-पुवपं 'वाहितो सओ वि
 लोणो । तओ भणियमभएण- 'उत्तमं उत्तमं महिल उत्तिल्लउण पिण्णं तिण्णि वि
 र्पण-रासीओ' । लोणेण भणियं- 'ओ ! एतेहिं परिचरंते किं र्पणंई काहाणो ?' ।
 अनएण भणियं- 'उद्द एवं, ता कील एवं महावणं दुस्सट-तज्जण्णित्त-समद्वासिणं
 महरिणिं [त्तं] तं किं 'बहुवार' ति वाहए ?' । तओ जत्त-जन्म-भदिना परिच-
 वाओ एतेण द्याओ तिण्णि पि र्पण-ओदीउ ति । उक्कओ कापओ ।

सुचदेवि-वमाणं गुपायुमारिणं शशिप चरिण ।

दमपमुणियो सुषंणो पाणः हिण-ण्णिल्लयं मोक्षयं ॥

संतीए बह्मणा पुरिसा पारंति केवलं नाण ।

जह चंडरुद्र-सीसो संदय-सीसा य दिट्ठना ॥ ५९

[शान्ती कर्त्तव्याः पुण्याः प्राप्नुवन्ति केवलज्ञानम् ।

यथा चण्डरुद्र-शिष्यः स्कन्दक-शिष्याथ दहन्ता ॥ ५९]

— [७६-७७. शान्ती चण्डरुद्र-स्कन्दक-शिष्य-कथा] —

जहा उज्जेवीए नयरीए चंडरुद्रेण वच-बीवाहो वणिय तपओ पडाविओ । जहा =
 पंथे वचंता, गुरुणा देहपाइयस्य मम्म सईउस्त सेहस्य केवलमुण्ण्य, कप-वण्णायान-
 वस्य सुह्वो य । तहोवत्तमाता-विचरणे तदिन्धर भणियं । संदय-सीसाणं पि जहा
 संतीए केवलज्ञानं, एष पि सधित्थर तत्थेव भणियं ति । उक्कओ कापओ ।

॥ चंडरुद्र-जलापणं समसं ॥

१ इ क ल घट । २ क ल 'जे' । ३ इ वणिा, ल मणिा । ४ इ क लोणे । ५ क
 न दीह । ६ क ल दीहि । ७ इ क य ।

रमणीयण-वेळविया विवद्व-पुरिता वि होति हसमिळा ।

जह दिवचरस्त तणओ सिक्कतो जुवह-चरियाडें ॥ ५७

[रमणीयण-अपारिण सिक्कतपुरुषा अपि भवति हसनीयाः ।

कथा द्विजवरस्त तनय- शिङ्गमाषो भुवति चरितानि ॥ ५७]

— [७८ भुवति-चरिते द्विजतनय-कथा] —

कथमित्थम् ? — चिरिन्नाः इवेनस्य पद्दामणि-संहारं सपत्न-निवन्ना-महाजण-ममदासिपं
अरुवच्छे नाम महानपर । तत्र य निव-अम्महम्मापुद्दान-परायणो अरुवच्छे नाम
पद्दाम-दिवसो । पुत्रो से मोवप्पसो । सो य निव-अवयाओ पेणव वेणह-सत्थं,
‘विज्जासु वुत्तिसेव असत्तुहेव शेषव’ इमे भाविनो वनो पाडलिपुत्तं । अदिजिपामि
सुवत्थ-मत्थामि सुवदा, संपत्तो चोदमत्थं पि विजा-अवयाव पार । अम्म-दिवदम्मि
विचित्थमकेथं ति -

‘किं ह्ययं नाम लच्छीय ? सुवदात् ति अम्म-देवमिम् ।

अ न ल्लेय-विउत्तेहि जामिक्क इह द्दुत्तं ॥’

तत्रो वधो अरुवच्छ । आर्गेदिया नाकम्पा, पत्तिमुद्दा वंपुषो, ममादने नावाविह-
सत्थाण वक्कत्ताण । तत्तत्तत्त-वादिव-मत्थ वक्कत्ताण-ओउआओ कर्हिपि उपरोह-
सौलयाण विमएणु ‘निपिपवत्ता निवय-अचार सुमिउत्ता विचित्थ से भारि-
यात् — ‘असो ! पुत्र-पारमिउत्तम विमत्थ-सुदम्म त्तमत्थ-मत्थामि सिक्कत्तेव क्य-
सत्तारपं अप्पसो मज्जे व अप्पेण, ता वेणह’ उआएण एणं पक्खेउत्ता सेवेमि अम्म-
पुरित्तं । अम्म-दिवदम्मि भामिओ’ य यात् — ‘अत्तत्तत्त ! वक्कत्ताणसु मे जुवह-चरिपं’ ।
तेव वमिपं — ‘जामं पि न मए सुपं इमस्स मत्थस्स’ । तीए क्खिपं — ‘ता किं सेस-
सत्तेहि, तेव विष्ठा ?’ । ‘ता इहं ! जामिउत्ता जुवह-चरिपं पूरेमि जाचाए मणोरहे’
[पि] भाविनो पपट्ठो पाडलिपुत्ताभिसुहं । ठिओ महुगउरीए वादिहआवे । तुत्रो
विद्वयाभिहाणत् अह्दरियात् अंत्तो जहा — ‘जुवह-चरिप सिक्कत्तमत्थं पाडलिपुत्ते
ममिस्सापो’ । ‘अदमेव जुवह-चरिपस्स गेमीरत्तव दाएमि’ चित्तंतीए पक्खिचा दाम-
वेडी — ‘इमस्स जपामि-जवपाहप-विसेस मवित्थर नाउव इति मे वद्धसु’ । तदा कए
कमेण सो भिक्खरं भमंनो पत्तो विजवाए मंदिर । तत्रो कंटे पेत्तण देम-पुर-अवणि-
जवप-माह-अविणि-सवणाह-नाम-अहव-सुदरं कट्ठणं रेविउत्त पयत्ता । वक्कत्ताण-सुह
य पुच्छिया चरिपेणव — ‘को एम ?’ । तीए भामिपं — ‘पिचित्थ-सुत्रो भावा वत्तमत्थं
दिट्ठो’ । तत्रो अन्मंमिओ सुवत्थ-तेत्तेव्वं, प्दाविओ महाविच्छेव, परिदाविओ महरिह-
महत्त-सोहं वप्प-सुवत्थं, सुजाविओ विपिवाहारेण, चित्तिओ चंदण-त्तेव, दिओ
संभोत्तो । तत्रो कामिप[ण]-मणोरहे विग्दप-सज्जावइते(पर्वे)पत्ते पट्टम-पओसे भामिओ
अत्तारो विजवाए — ‘अत्त मए भाउणो सया[ता]ओ जपामि अयपाह्याव यथा सुवेयवा,
ता वासहरे एयामी हुमं पिय वत्तसु’ । संदमेउत्ता भयार पविहा तेव सह इत्थ-वात्तहरे ।

कथामि दोष्णि नवनामि निष्ठित्यामि । तेषु नम्राहथा पुत्ररिति-कथा, कहंती चिय
 अंतरित्री निराए, उदुबेऊन भमियबाणाए- 'विकं(विं)नो गुणलि, न मम वेपथं
 विपाणसि ?' । तेष भणियं- 'का तुज्ज वेपया ?' । तीए भणियं- 'बम्हाह-वेपया' ।
 'अथो ! निरा-भोडेपेवं पनउह' ति मन्नेम पुणमि पुच्छिया, बम्हाह-विपय' चिय
 साहिया । तेष भणियं- 'अडे(दे) ! न मम पुत्रओ एवाभिमं जेपिउं तुमं' । तीए भणियं-
 'तुज्ज पुत्रओ म्हामि, जेपाउपेमि' । तेष भणियं- 'हा ! मा एवं इह-परलेम विरुई
 जेपसु' । तीए भणियं- 'नस्सिअथ विगेहो, जेष दापिओ एव मम्मो हरि-रु-पमिहि-
 चापवाइहि महापुच्छेहि' । तेष भणियं- 'मा एव जंणसु, न एएहिं भविणीओ कामि-
 यओ' । तीए भणियं- 'न होमि ते भविणी' । तेष भणियं- 'तथा चाणाए पडियन्ता,
 ता मा उमवसेम-विरुद्ध कुणसु' । तीए भणियं- 'जउ मम-लोन-भोर, ना रमिअय ममं
 बंधमि जीवावेज्जसु' । तेष भणियं- 'किमेत्थ उह्मा ? जीवओ न अस्सयवं करेमि' ।
 तीए भणियं- 'मओ न तरसि, जीउंनो जा ऊणसि । अथ च किमेत्थ [अ] उपायं ?,
 जेष लहदाण चाउठ-अवा बम्हा, उदिवाथ मवक-जवापी, अण्णेमि जाउ-महिन्ना, ऊणं
 पि मओचरा; एत्थ पुत्र विनिय-इया, ता मा सुरव-सुह-विण्य करेसु' । तेष भणियं-
 'किमेत्थ पुपकसो(च)-भणिएणं ? ति, मव-वयणंण मम तुम भणिकिणं' ति । तीए भणियं-
 'जाव न विजुणी, न नाम भे वपणं ऊणसि' । तओ महत्वा संरण पडारियं, संवणो
 उणो । मज्झम-विमिय-मोचम-मगंउं पुत्र-निहित मपणीय-नत्ते उंवि(उच्छि)ऊण भणियो
 होमो- 'विपुइया ताया, तेष रमितं, अणेण पडओ उमिमोदमं, सेकिओ जउपेण,
 वेव-वेहाए मन्वीइओ' भणियण पडुविओ मओ वि होमो । उकिऊण पामहर-कउवाणि
 मणियो कुमो वि- 'जउ दिहो वचओ, 'जीविएण च कज; ना तपयं पि अवा(अता)सुरचं
 पडियज्जसु ममं' । तेष भणियं- 'मइं तुउउवापचं मम जीविय, न विमपद(ए)ल्ला
 सहुप्पज्ज, एवं टिय उं तुमं ऊणसि, कमसंमथ विवियण्यं करेमि,' । 'अउमवासुरसेण
 मणिएणं' ति मज्झमाणीए भणियो एमो । तुमए संलन- 'इन्धी-चरियं सिवन्तामि',
 तेष तुह वोज्जपत्थं एम पयंचो मए रइओ । ना चिरमतु एयाओ, जेष न वेपेहिं पि
 कामिउह । भवि य-

“तंतेहि भूत-वक्रजस-टचरा चेप्यंति डाड्डीओ म ।
 विरहुर-जलपार्इया, बभेयं हव-मवचमार्इया ॥
 मन्वीए देव-गुरुणो, जपनी-अवासाया' विपएणं ।
 मन्वासेण मित्ता, दाभेयं वणो मइं ॥
 रार्थं हियवरओ इमियमार्इहिं वेण्णइ इर ।
 मत्थायं विममाण वि करमन्थो नवरि बुडीए ॥
 इन्धीए वेळं चरियं मायामय-मयम-सोम-रुल्ललिय ।
 एयाण न एकेम वि वेण्णइ तिचमासुरेहिं पि ॥”

तओ वेण्ण सुपरुयं, समाणियण अइउतामि पडुविओ निवम-पनादिहुई । अओ
 न इन्धीय वीनविपयं ति ।

‘सुहृ वि विद्यासु सुहृ वि विद्यासु सुहृ वि न लङ्-पठ्यासु ।
 अङ्गीसु मङ्गिहियासु’ उ वाग्यो नेष कावयो ॥
 रज्जोवति न रज्जलि रज्जि हियमाह न उग श्रयेति ।
 उष्यताम-सुहृओ जुर्दोओ दो वि समिताओ ॥”

- १ सा नेवाचतिष्वा परिहरियवाउ नि, एमो धम्मोचएमो नि ।
 सुपदेवि-पनाएण दिवपर-तणयम्म ताहिपे चरिपे ।
 भाविमापो चम्मं जुर्दंतु विरज्जर जीरो ॥
 ॥ दिवचरनणय-कम्भाणयं ‘ममस ॥

सीहगिगी विव सीसे इच्छए संटिए गिसेविज्जा ।

- १ आणाए अवट्टो कालकसुरि व्व मुञ्जेजा ॥ ५८
 [सिंहगिरिगि विद्यानि-अस्यां कसितान् निषेवत ।
 वाङ्मयामर्तनालाए काठवज्जगिगि व्व मुञ्जेत् ॥ ५८]

चरसुहृय-गुण-जागण्यं सीहगिरिणा गार्हणो भविषा—‘मए गामंतरे गंतं,
 एव ते(से) चरसुहृओ वायणावण्टि नि । अवि य—

- १ “गुण-वेद्वेष वि लहओ गुरुणो वचपाउ इच्छिओ चपरो ।
 सुंदरमसुंदर वा गुरुणो विप तेण जायंति ॥
 सीहगिरि-सुसंभाय भए गुरु-वपण-सदरंताण ।
 चरो किर डाही वायण’ नि न विज्जेविपं वपणं ॥”

मविन्वरमिने [७९]अकसाणयं उपपममात्ता-विचरणाओ नायवं । अओ एवंविहे

- १ सीसे गिण्हेअ, एमो उवपाओ ।

॥ सीहगिरि-कम्भाणयं ‘समसत्तं ॥

— [८०. कुशिव्य-त्यागे कालकसुरि-कथा] —

दुहपमकसाणयं चम्ह—

अणेष-जिष्णवराय-विश्रुसिषाए तियनपुनि-विम्भनाप(ए) उअणीए नपरीए अणेष-

- १ सिस्तवक-परिवारो सुवहुसुओ कालक्यो नाम वरी । जो य, दिवाचरो अष्णाण-कर्म-
 वात्स, कुलमंदिरे नागत-रुहोए, सकेय-द्वारं तवतिरीए, जलविही गुण-रच्यार्ण,
 पाउम-वणो फोवानल-राविवाणं, कण्ठपाचरो मउमार्णं ति । अवि य—

“निय-वपण-किरण-बोहिप-भविप-महाकमल-संड-दिषणओ ।

दुहव-विह्व-नागे कालकपरी सुरगुरु व ॥

- १ सीमंवर-वचपाओ निशेष-कहणेष सक्खियओ व ।
 कालकपरी वि इदं मविम्हं वंदिओ हरिवा ॥”

सीमा य से नारण-राग्पादेहिं खोजवा वि जाते न । मलय-किणियाहपसु पवचंति,
नाहे राईए । पसुने सुकृष पथहो देसंतउ टियम्म इनुयस्य मागरचंदेस्य लसीवे ।
पचसे न वापरियमपेचंतेना सजाय-सका लम्मा से अनुमनयन लसे वि सीमा । जाओ
जगदाश्री - 'कालकवरीओ निम्माओ' । नवप-परपरेण य सुपे मानरचंदेपवि । कमेण
व वचो कल्प कालकवरी, पुनिलओ मागरचंदेव - 'अत्त । कित मय पिषामहो ।
कालकवरी निम्माओ इहायमिणह' । नेण भविषे - 'सए वि सुय' । नाग-परीसह-
सहनाओ ते कानमं पुच्छ - 'केरियं सए वन्माणिये ?' । नेण भविषे - 'सुंदर' ।
पुगहणं च सेन-परीहितो अथासं सुंदरपन मण्णसावन्म अण्ण-दियहम्मि भविषे
कालकवरी - 'अणियेयं वक्कापेसु' । सागरचंदेय भविष - 'असं पि विमम-वयत्थं
वक्कापेसु' । नेण भविषे - 'य विमम-वयत्थमवमण्णमि' । तओ ममाहयो
वक्कापेसं 'अणिल नि थम्महो किं न चिनेमो ?' इथाट ।

अत्रन्तरे भविष्यं (१) कालकेन - "नाम्नि धर्मः, प्रत्यक्षादिप्रमाणबोधरातिशान्त-
त्वात्, स्व-विषाणवदिव्युक्तम् -

"प्रलोक्य प्रोद्वेष्य निश्चितेन प्रसक्तो । उग्रमोहमुग्रमेव वयसा तदव्यतिक्रमे ॥"

न च प्रत्यक्षादिना प्रमाणेनापि गृह्यते, इत्यते तद्विषयमेव 'अहो ! विषामहाशुद्धारी
एव शक्तिशरो' संज्ञापारंकेण भविष्य सागरचंदेय - 'तव वदूक मना तदसह,
यतः कार्यदारेण प्रत्यक्षेणापि धर्माधमे गृह्येते इति । उक्तं च -

"धर्मोऽन्म कुले कौरवपुत्रा यौधम्यापसुंन
व्येण्य मर्त्येन विवेकश्रो-विदादथ-नमपचर ।
कान्ताराध महाप्रयत्न सतत धर्म परिश्रमे
धर्म सम्पत्पुनसिद्धे न्यति हि मर्त्येपवरी प्रद ॥"

अन्वय - "निय-कपोसामिष-क्षपरवाह-मपयो इ केद दीसंति ।
मंगुलकवा जने पुरिमा गोमानु-सारिच्छा ॥
परिसुषिपासेन-नन्द-सुचंति-विन्ममा के पि ।
अण्णाय-तिमिर-लम्मा अण्णे अंथ इ वियरति ॥
संपत्त-तिवग्ग-सुहा एके दीसंति जग-मणामंदा ।
परिवज्जिप-पुरिमत्वा उविपणिका विसरम व ॥
धरिय-वचसाववता वंदियन-उगुहु-ववड-माहप्पा ।
वचंति न्यासुदा अण्णे धापंति नि पुरओ ॥
वमाइ(ही)न पुरिपाण विम्मल-जन्-भरिय-मदियसाभोषा ।
अण्णे उ कलंकिळा पोहं वि भरति कइ कइ वि ॥
अणवरपं देताण वि वडुह दवं सुपं व केरिपि ।
अण्णेसिचदिताण वि वेण्ड नरणाह-चोरेहिं ॥

१ इ क सड । २ इ परिश्र । ३ क इड । ४ इ धरिपु, क कविपु । ५ क अणे ।

जह-जरा-मरण-रोग-मोघाउत्पत्तिं विष-विष्यञ्चोम-कोह-साण-भाषा-लोम-राज-दोमुष्म-
वाधि नाष्वाविहाणि मारीर-माणनापि निरिषवाम्-विष्मनापि दुष्प्रापि वि ।

अपि य - "ज-मरण-रोग-मोघाउत्पत्तिं विष-विष्यञ्चोम-उत्पत्तिम् ।

निरिषवाम् य नरिष्य सुम् दुष्मर विष्य एत-मनुष्मत्तम् ॥"

५ पुषो य दवाविषा जहाममोउत्पत्तिं मोचोवमोम-दिह-वण-विमत्वाहाण-मच्छ-व-
माह-सुधा मय्यमउ-वाणमंउ-ओदनवासी-वेमाविष-वेप-भिष्णा चउहिहा वि देप ति ।

अपि य - "देवा-विष्णव मय कोर-लोह त्थिष्णव सुत्तान वि ।

मय्यमत्त य नरिष्य सुम् य 'एत-मोम-लोम' ॥"

माय-निरिष-नराव-म-म-उत्पत्तिं एतु जेग हास्यं दुष्पत्त ।

॥ तेषां चिच सिद्धि-सुते कायतो आपरो होह ।

गुह्यो कथं मोउं उह-कम्मा के वि माहयो जाया ।

मम्मत्ताह मयेया अण्णे पुण मायया त्थ ॥

ततो सुंपुषो मच्छ-म-ओ । पाहुता सुपिषो विष्णुहा । एत्थंनम्मि भविष

पुम्मा एक इमि-सुत्तं य उर्यं उर निज्जमवदिताहो पुम्मा संतर तिष्णि वलाओ

॥ भविष- "अहो ! कट तत्तं न जायते" । उहा कए चित्तिं सिद्धेभवेण - "अहो !

पुम्मा-कथा एते त्थविषयो न असहा जंयन्ति, ना कि पुष्प वेपारविचं नच इवेअ ?,

सचाइत्तं च कए वेप-विहाणं, अथा कि वेप-विष्णोह ? उरज्जायं पुच्छामि'

भवेत्तेण पुच्छिओ उरज्जाओ - "उरज्जाय ! किमेत्थ त्तं ?" । तेण भविष्यं - 'दिह

य(उ)त्तं, जेव अपोर(५)मे वेने पुत्ति-वयगामि अण्णमाणाणि राव-दोताह-संभवाओ' ।

॥ 'अहो ! जह अपोर(५)मेत्थं, कटं वयम विरोह !' मण्णमायेण पुषो वि पुच्छिओ वेप-

त्तण दुइय-नाराए वि तं विप पत्तव । पुषो मइय-राताए वि 'वेप एव तत्तं' वि

साहिपं । ततो रोम-वस-तवि-अण्ण-वुपहो महुकवाह-उराल-करवालो सहुहाओ

उज्जायाविहं सिद्धंभरो - "जह तण न साहेसि, ना [५]कम्मं वावाइइय अण्णं

मावेस्सामो" । 'अहो ! पुष्णा मे पछ्णा, जेव जीविप-समए वेद-रहसं साहेपहं, सो य

॥ एसो मे जीविप-संभओ' चित्तिनेण भविष्यमुवज्जाएण - 'जह एवं, ना सम्म निमुवेसु -

अहिमा-उकखयो सचादिहिओ पर-उवावहण-नियचि-रुयो तपसुषो-विमुह-वंगचेराल-

किओ अवहत्थिप-परिगहाहओ विष-राव-दोम-परीमहोवमत्तो 'दोम-सील-व-नार-

माह-उत्थाविह-सुवापुगाओ पवकसासुमाणा-वमावमओ पुहाव-व-उत्थाविहो रावमिह

वेप सण्णु-महावीर-पणीओ धम्मो तत्तं' ति । अपि य -

॥ "भीसेम सुण-वधविचं समन्ध-नेलोह-उत्थिपापदं ।

मोतुं जिण्ड-अम्मं कि क्तिर तत्तं जए अत्तं ॥"

ततो भविषं मेत्थंभवेण - 'को मय्य पचओ ! उहा जिणपम्मो तत्तं ?' । तेण

भविष्यं - 'इमस्स ज्वस्स हिह्हाओ मत्त-रवममं भगवओ उमममामिषो पडिमा जण-

प्या-उत्तेण वइसइ' । ततो भूमि खण्डव दाविपा मे पडिमा, क्वमिषा भाव-सुत्त ।

तदा स्वामिन्मनोज्ञार्थं पयमित्तम तस्मैव सर्वं ज्ञानोत्पत्त्यर्थं सेत-द्वं च दास्यम
 निम्नञ्चो निपय-विहाञ्चो । संपन्नो गुणसिन्धवमुत्तमं । दिष्टा ते हृत्पिण्डो । अचिन्-
 (त्वि)या ते धम्मं । तेहिं पि दाविवा श्रुत्विषो, पयमित्वा तवहुत्तमं । पुत्रदिष्टि-विहाया
 विदिञ्चो संसारी, साहिञ्चो सन्निपयो हृत्पि-धम्मो । तञ्चो भविष्यं सिद्धमयेव-
 'अपवं ! देसु मे दिवसं, जहं जोग्यो' । 'को अप्यो जोग्यो ?' पि भवतिव पदाविञ्चो,
 काम-विहिता भवपया । सिद्धमयेव गहिंया दुविहा सिक्त्वा । तवहा किं बहुया ?
 ज्ञानो चोदत्तपुत्री । तञ्चो काळम से हृत्पि-वत्पिताभिस्यं कालाश्रुत्त-संलिहिय-सरीरो
 क्य-मन्-परिचाञ्चो नञ्चोकार-परायणो राजो पञ्चवहरी देवतोनाम्नि । सेज्जमहापरिञ्चो
 वि आपरतो पंचविहमाचार, पञ्चैतो संमच-मूलं गार्ह-नाच-धम्मं, चौहिञ्चो मह-कम-
 जापरे, पयासेरो अहुविह-कम्म-विशामं, पञ्चैतो संसार-निशाम-व्यसयामि सिद्ध-स-
 म्महाहिं, वरैतो गच्छ-जुष्टि, पयासितो तिरवपर-वचवं विहरितं पयचो मयाञ्चो
 वि । इञ्चो य वमि सेज्जमये पञ्चए भविपा से जाया वंसीजयेव - 'किं कीरु ?
 तस्मा विव मुक्ता मसुया, ता किंवि अरिच पौडुम्मि ?' । तीए भविष्यं - 'मयावं
 उक्त्सेमि' । कमेव य वहुञ्चो वञ्चो । उक्त्वि-समए य पञ्चया दारवं । कयं जहरिह-
 कायवं । दारस्ये दिवसे य कयं दारस्यम नाम 'मयाग्यो' वि ।

“जगतीए मरुता हि न ज्ञाने परिपुच्छिमाए सल्ल ।

तमहा 'मयाग्ये'नाम गुरुहि विहिम मुमत्तम ए”

बहुमाग्यो य जाञ्चो अहुचारिसिञ्चो । अण-दिवहम्मि पुच्छिपा जगणी - 'को
 मज्ज जग्यो ?' । तीए भविष्यं - 'तुज्ज वप्यो सेज्जमहाहिहाग्यो पञ्चञ्चो' । 'अतो !
 सुंदरं जापं, वं मे जग्यो पञ्चञ्चो' चिन्तितो असाहिञ्चम जगणीए कमेव चयंते
 पचो वंचाए वाहिरुत्तमं । आपरिञ्चो वि हु भविष्यव्याए नञ्चमहस्स समए विक्त्वाहु
 निगाएसु हृत्पि-वयेसु वचो उरवेव सरीर-चिताए । दिष्टो सरिपा दारञ्चो । ससुप्पण्यो
 सिपेहो वि ।

“नमज्जदं न्य जये-सराए विज्जंति चट्ट वटुं ।

वज्जट्टपि न रवि का-वेहिमाह मठल्लिदि वेसमि ए”

दारस्यस वि एवं विव गुरुम्मि सिपेहो संजुञ्चो । तञ्चो पुच्छिञ्चो गुरुया
 'जे ! कचो तुमं ?' । तेव भविष्यं - 'रापयिहाञ्चो' । गुरुया भविष्यं - 'कस्स
 तुञ्चो ?' । तेव भविष्यं - 'महुत्तिज्जमवस्स, मो किं पञ्चञ्चो, नयण्णेनगालं जाग्यो
 हि, जेव से समीचे वहामि पि, अयवं ! विपावसि तुमं ?' । 'अतो ! एस मम
 तुञ्चो' विमज्जेतेव भविञ्चो गुरुया - 'मो तुज्ज जग्यो मय सरीरपुञ्चो, ता पयाहि
 मम समीचे' । दारस्य भविष्यं - 'एवं करेमो' । तञ्चो गुरुया मह वण्णीए, अतोइञ्चो
 गुरुहि दंठव-गुरञ्चो जहा सचिचो पचोप्पण्यो । पञ्चव-वामरे पहाविञ्चो गुरुया ।
 उवञ्चो-पुवचं च जामिञ्चम से उम्मासे आउवं चिन्तियं गुरुहि - 'ता सुव-जतनिहिणो
 उदरिञ्चम कालाश्रुत्तं सुपमेवस्स दाववं, संपवे य कायवे नि इ चोदत्तपुत्री,

कदापि संशयं कारणं, दसगुणी पुत्र इच्छित्तो अवसत् निजहृद्, ता अहं पि निवृहामि ।
 हे य दस-अव्ययण-विसेसा निजहृत्तमाया विपासे निवृहदा, तेव दसवैपासिचं ति
 सत्यस्त नाम जायं ति । मणियं च वामगुह्यं ति -

“मया बहुषु सिद्धमेव निवृत्तिया दसऽव्ययणा ।
 वैपासिचा च्च) उचिया तन्हा दसकालिन नाम ॥
 आश्रय्यावपुत्र्या निवृत्ता होइ भवम-पयवहो ।
 वामप्यवामपुत्र्या पित्रस्त उ वाम्या सिद्धिहा ॥
 सव्यप्यवामपुत्र्या निवृत्ता होइ वरु-सुदीप्यो ।
 अवमेसा निवृत्ता नवमस्त उ तदव्ययवृत्तौ ॥
 निवृत्तौ पि च अपसो मणिविद्ययाओ दुवाहसगाओ ।
 एव चिह्न निजहृद् मयस्त अस्तुमहद्वय ॥”

तथो छद्दि भासोहिं पठित्तया मञ्जो समाहीए, मणयो देवतोमं मञ्जो । अवच-नेहाओ
 कथो गुल्या अंसुवाओ ति । अवि च -

“छन्नामेहि अहीण अव्ययणमिण तु अव्ययणमण ।
 छम्माते परिकथ्ये अत काठ-मञ्जो समाहीए ॥
 काणद-अमुषय्य कासी सेव्वमहा तद्धि वेहा ।
 ज्जम्हत्तस च पुण्ण क्खण्ड च विवत्तणा तथे ॥”

अथो भवार्ह - अवचन्तेवत्थं जीने सीसे पचावेत्त पभवहरीवेत्ति ।

सुपवेचि-पसाएणं सुपापुमारेण साहियं चरिच ।

सेत्तमच-पमवार्थं निसुणंत्तौ सहउ सामण्यं ॥

॥ पभव-सिद्धंभव-कलाणयं 'समत्तं ॥

द्व्याटवी य भावाटवी य द्वाटवीए दिद्धंतो ।

घणनाम-सत्यवाहो इयरीए होइ तित्थचरो ॥ ६२

[द्रव्याटवी च भावाटवी च द्रव्याटव्यां छान्तः ।

घननामा सार्थवाहः, इतरसां भवति तीर्थकरः ॥ ६१]

कथमिदम् ? -

— [८५. द्रव्याटव्यां धनसार्थवाह-कथा] —

समत्थ-शुच-विभूतिचं वसंतउर नवरं । तत्र जिपसत् चया । दीवाणाह-वत्तलो
 क्विच-सिचम्य-सुहो परोवचान्-मिओ वभव-कुमुयागर-मत्री भवो नाम सत्यवाहो । सो
 देसंतं वंतुकामो पाठदियं भवत् - 'मद् ! उच्योसेतु तिच-पउकरंतु, 'वो पवोच क्व
 क्वह, तस्त इमओ गमाओ जाव इहपुर, एपम्मि अंतरे 'वत्तवाह्या अन्सुचं कर्हि

वि । एवं सौकुम्भ पञ्चदश अंगेण ममय-संज्ञक-समिपाद्यो । तस्य च त्रिदिव्याय
 संज्ञकस्य नुष्य दोषे मन्वाद्यो कश्चिदमाद्यो- 'इह सन्तु देवाभ्युपिया ! इहपुस्म दोषि
 मग्ना वर्धति; एषो उज्ज्वलो, [वीजो] कृष्टिलो । इमिया च मन्वाय सुद्वेष गम्भ्य,
 नदुष्ण कालेण इच्छियं पुर चापिजह; अवमाने च सो वि उज्ज्वल-समोपह । परमेण
 पुन सिन्धे गम्भ्य, किं तु किलेसेष; जेष सो अर्धत-विमसो मन्वो य । तस्य पत्नारो,
 वैश दोषि महाघोरा कण-सिन्धा निवसंति, ते अभिक्लपण्डितवदिति, मन्मा-द्वियाम च न
 पसवंति, अन्वामां च वाय अपुनवृति । कस्तस्य च एव एते मयोहरा, तेसि तावामु
 वि न वीममिषई, मारण-पिचा स्तु सा ज्ञाया । परिमद्विय-संज्ञ-पत्न्यां पुन अतो
 सुहृत्तयं वीममिषई ति । मयोहर स्त-धारिणो महुर-रपणा य एव मने तद-द्विया
 बह्वे पुरिसा बाहरति, तेसि नयनं च शोषई । मन्दिप्या च सत्यं वि न मोक्षइ ।
 लोकेषामिगो निपमा भव । दुरतो य श्वेनो इक्ष्मी अप्यमनेहि ओल्लविप्यो ।
 अलोल्हपिज्जमानो निपमा वदइ । पुणो य दग्नु व पत्रो उवाउनेहि संविषयो ।
 अलंघये निवसा मरिजइ । पुणो महई अणुविसा महवरा सं-सुखंती संविषया, तस्य
 द्वियार्थं बह्वे दोसा । तयो लहुमो खण्डलो, कन्त नवीवे मयोरो नाम संज्ञयो निचं
 कश्चिद्विजो चिह्नइ । सो ममइ- 'इयं खंडं (खण्डं) मन्वायं पूरेह', अत्रयं न सोपई, सो
 पुरिज्जमायो महह्वयरो भवइ । संवाओ य चलिमज्जइ । कस्तमि य एव दिवावि
 पंच-प्यग्राणि नवमानं सुईकराणि कियाम-रुक्खायं न वेच्छिपयारिणि, न मोचन्नाणि;
 शेष सरपानियाणि ताणि । बावीपरं नेणं इत्थ योग महाकराल विमपा मयं सगामभि-
 इवंति, ते वि न मयेपयइ । मत्त-पायं च मन्धि, विमाम-लई विरतं श्वेनं च । अप्यवार्थं
 च न काचई । गर्हए वि जाम-दुनं मंतई । एव च मन्तंतेहि देवाभ्युपिया ! सिन्धमेव
 भवती संविजइ । संविज्जय च तमेगेन-दोषचार-वज्रियं पसरयं सिवपूर चापिजइ ।
 कस्य य न इवंति पुणो किलेसाद्यो । इयं निमामिज्जय के वि तेव च मइ वपुइ,
 उज्ज्वलेण पदाविचा, अप्ये पुन इवरेण । तयो मन्वाद्यो वसन्ध-नामरे प्दाओ य
 चिच्छिनालंकिओ तकासापुस्व-निष्ठाविपात्तेन-कथाय-संगलोपचारो उपल्लिओ-अुमम-
 मागो अंगेणेहि लोकेहि ति । अपि य -

“दुर्गं द्वितो वन्द्य महामहिदी व पणय-भमरायं ।
 आरंदिप-निचल्लेओ महावले एम मन्वाद्यो ॥”

वर्धते य अल्लिइ सिन्हास्तु संवसत दोल-गुण-सिन्धुवशाणि अक्तराणि, सिहइ
 'वसिचं एयं, इचियं सेम' ति । एवं च तस्म जे निरोम-पडि(डि)प्या, ते तेषेण सयं
 वचिरेव नं दुई पत्ता । जे वि सिद्धियात्तुमानेण मग्गं मण्डंति, ते वि पावेति । जे च
 वडिया, न वडुति, छायाइ पडिलेविचो ते च पत्ता, च पावति । एम द्वावकी-वेत्तय-
 चिह्ने ।

इयानि [८६] अवाक्यी-देश-विहंतो जोइइ - सत्यवाह-वाचीओ तिरवपरो ।
 भोजना-धात्रीया चम्मक्या । कस्यद्विय-उमाया जंतुणो, अदवी-धारिणो संसारो ।
 उज्ज्वलो साहु-मगो, वंको सावग-संघो । पय-पुर-वाचीओ मोक्षो । वय-सिध-सुहा

१ इ. अ. "सिन्धु" ।

राग-दोमा, मणोद्गर-च्छाया-धाणीपात्रो इतिथ-पमु-पंडम-संसनाओ^१ वसाहीओ । परिस-
द्विचा-सरिसाओ निरवजा वसाहीओ । मग-सड-द्विप-दक्षतरणपुरिस-सरिया पास्रवद्वो
अकल्लापमित्ति ति । अवि य -

“यासस्यो जोसण्यो होइ कुसंओ उडेव संसरो ।

अरुओ वि व एहे अकदण्णिओ जियममिम् ॥”

सत्थिय-सरिसा माडुपो ति ।

“असहा-सहापत्तं कतिंति मे संजंनं करेतसस ।

एतेण कारणेयं ममामि ई सहा-साहूयं ॥”

इयमिग-सरियो कोहो । चडप-उरयो मायो । वंत-कुडमि-सरिसा माया । खडोत्तम-

५ सरिसो नभोरहाहिद्विओ सोहो, सो व पुरिल्लमापो वित्थरुट्ति ति ।

“जहा लान्ने रहा लेरिओ लान्ने लेरिओ व कहुं कवहुं^२ ।

दोयस-कम कज कोटीए वि न विद्विय ॥”

फल-संज्ञाना विमया । विनापासुकारियो चावीसं परीसहा । मच-पाणापि एत्थमि-
ज्जापि^३ । अ(मिच)-पयावम-सरियो विमुज्जमो, रपयि-जाम-दुग्गं सज्जाओ, गुर-वचायं

५ च मोत्तल-गुई ति ।

“नवि अरिप माणुत्ताण त कुक्कं नवि व सज्जदेवण ।

ज सिद्धाण सोत्तल अत्तान्हकुरणायण ॥”

सिद्धिय-कडराय सरिसं गुणं ति ।

सुपदेवि-वत्ताएणं सुवाणुत्तारेण सत्थियं चरियं ।

धम्मसाध्याइ-जिणायं मितुणंनो सहइ निवार्णं ॥

॥ धम्म-जिण-कम्भाणायं ससमत्त ॥

पुक्केम वि मुग्गि-वयणेण केहू कुञ्जंति इंदनामो व ।

अत्ते पुण कहुएहिं वि न वंमदत्तो व नरनाहो ॥ ६२

[एतेनापि मुनिवचनेन केचन कुञ्चन्ते इन्द्रनामकम् ।

अप्ये पुनर्बहुभिरपि न ब्रह्मदत्तवज्रनामः ॥ ६२]

— [८७. बोधे इन्द्रनाम-कथा] —

कथमिदम् ?

वसंतदरं नवरं । तत्र इयम-कुलमेकं वारिणा सज्जच्छाहयं । एतं दारयं इंदनाभा-
दिद्वार्यं मोक्षाय मेहं च लोकेण विदेहिं चइयं । सो वि इरओ कइ कइ वि वंसल-
५ विवरेण बीइरियो । इयम सुओ वि फाज्ज अणुकेणए जीवाविओ लोकेहिं । पवहु-
रोमेण व विद्वियमणेयं ति । अवि य -

“अथि दधुं द्वा) गदिति मम दारिद्र्येणि शिव-दुःखसिनि ।
निज-वस-परिच्छेदे जह नमस्त-विजम्भो दू ॥”

अथ-द्विपद्मि पपट्टो सिद्ध-व-मन्त्रवाहेण नह रापविहं ति ।

“गणिसं धरिसं वेपं चारिच्छं एवमाह्यं बंधं ।

वेत्तुं ताहृदी लो चषट् अण्यदेमस्मि ॥

निज-सम्मज्जो बहुमज्जो दीणाभादाण वच्छलो लोए ।

लो संश्रवाहनार्त्तं वसु व लोए समुवहट् ॥”

तज्जो करेत्तो कत्त्व-संचारणं, निरुपंतो मुद्दिप-दुद्दिप, वट्टेत्तो महासुभाषणं वट्टं वपणो । इंदनायो वि अत्र-वेनधारी गजो से आकायो भिक्खुए । द्वाविज्जो वप-सुल-सारी पिटो ति । अवि व-

“वह्निप-वपणावंदो न-सुपंणो नेह-संमज्जो बहुणे ।

पिपकासिभि-देहो विज संपणो वेण लो पिटो ॥”

। तदुवज्जोमेण व पचो क्ख-वावरे । सत्थाहेण चित्तिवं-द्वमेवंतरियाओ केमेह, वेण वट्टं न आणओ । तज्जो अचंत-वेहानगाटो द्वाविज्जो पुणो वि पिटो । तदुव-ज्जोमेण व लल्लोववासो पचो से वसहिं । ‘अट्टो महासुभाषो एत वपसंत्तं भाव-सार्त्तं पणमित्तण पडित्तासिओ विजिजाहारेण । तदुवज्जोमेण व पचो चउत्त्व-दिवन्नाओ । एवं आण भासणमणो जाओ । तज्जो भणिओ सत्त्ववाहेण-‘आव हुं न पचो, ताव मम नेहानो नण्यत्त्व भिक्खुदु गंतं’ । क्खेण व पचो रायविहं । कराविज्जो निवप-परात्तणे मट्टो सत्त्ववाहेण । गजो मुंटाविज्जण लीतं निपंत्तिपाणि क्कामाप-वत्थावि । जाओ लोव-विज्जलाओ । जणवओ व पाम-वर्णीए अथ-वाप-वत्थोत्ताहार्त्तं उरपरि-उमावत्तो । वदिवत्तं व चारेह, तदिवत्तं तज्जो वि लोचो गदिचाहरो दुवार-द्विओ वदि-वालेत्तो चिह्ण । एकस्स भोगणे वहिए केत्ता(मा) निपचंत्ति । अज्जो सेम-लोव-जाणवत्तं भोचणे गदिह नेरी वादिज्जण, सोउण्य से मरं लोया निपचंत्ति । एवं वचंते काले, अण्यथा समुत्पण्ण-केवलनाओ चोदण-समण-सहस्रात्तुगम्वमण्यो एमोलरिओ सुगमित्तेण उज्जाणे वट्टमावसायी । कर्ण देवेहिं समोलरणं । वट्टाविज्जो सेमिओ विवगाराणमणेण व निउव-दुमिसेहिं । समुत्पण्ण-हरिसेण व द्वाविज्जं वेण महादार्त्तं । पपट्टो महाविच्छ्रेणं जणवओ वंदण-वदिपाए । पचो समोलरणं । वेदिओ अगाचि-क्खणीयवार्त्तं-सुहसपुशवंतेण शित्थपरो महाभवा[द]एहिं । अवि व-

“त्तं शि वि अण्ण-सयं सोक्ख उत्तरणि विजम्भे विट्टे ।

जं कट्टिउण व लीहं सतिच्छं निरुव-सुहेण ॥”

वेत्तो-द्विपदपरेण वि नमादना सवल-अलहरापुकारिणीए सव-उव-निप-निव-जा-सा-परियाण-परिणामिणीए आणदिय-तित्तुवए वार्णीए पम्बकटा । परुरियाणि असा-संसार-निबंधपाणि मिच्छवाविह-पसाप-क्कताप-जोगार्त्तणि । दाविजाणि व सोक्ख-वत्तवाणि व सम्भव-नाव-वरवाणि । तज्जो वुणिव-अहद्विय-संसारसारुणा जावा

कै वि सुगियो, अचरे साववा । पूणए फडम-पोरिणीए देव-सद्विय-नरिदाएएहि महा-
विच्छेदकेणं पवेसिओ पुइ-दुवारेण वली । कयं पयाद्विषं किरहतं भगवओ पुरओ ।
तओ उट्टिओ भगव ति ।

“अति-परिमणमि काले पुण्य-दारेण हए परिकहाए ।

सिगुए पुरओ पाइम कसइमकथिअ देवो ॥

अइइ अद्वियकेणं अचरेण ह्येइ पायय-अगमस ।

सज्जाअव-अणमसी दुणए नगो व ह्यमओ ॥”

तओ दुएय पोइसीए सनाइत्ता नागहरेण वइ वि ।

“तओअरीअ-सीहसतअमिअ विविहो म पावण्डे वा ।

अहेओ अल्लओ वा नज्जहि क्खेइ विअए ॥

सज्जलीने वि अरे अइइ ज वा पुं पणे उ पुच्छेअ ।

न व अणणइसेसी विअण्डे अण कउमओ ॥”

दुएय-पोइसीए उट्टिओ लोओ [लोउं] । मया लोमा उदामयं । मअहए-समए व
विस्सवुहा सुगियो पविनकाया निवारिया निअवरेण—‘अणइमणेनगाइ वट्टइ’ ।
“सुविओ व चीरेण गोपमो—‘अणसु इंदनाणं उइ—‘सोअणेगपिडिया ! एअपिडिओ
दइमिच्छइ’ । गोपमेष भणियो विनिउमाउओ—‘अइमणेअपिडिओ ?, जो एअं पिंडं
विअमि; अणेअ-पिडिया एते, जे अणेअ-पिडेहिओ गेअंति’ । सइवसंत-कोवेय व
विट्ठियमणेअं—‘अओ ! उअसंत-वेत्तायास एए नण्णहा जंअति, ना किमेअ ?’ । समं
आविंसेय नायं—‘नूअं होमि अणेअपिडिओ, जो सअनचरे पाण्णइअं अणयेमि । एते पुण
अकपाअरसिय-विअुइआइए-भोइओ, ना एए एअपिडिया’ एवं भाषेत्तमं समुअमं जाई-
सेअयं, सुमरिओ पुइ-अओ, जाओ वत्तेअइइमदरिसी अउअणणं भासइ । इंदनाणेअं
अइइया पुत्तं । कालारेण पओ नेहामं ।

सुअदेवि-पनाएअं सुयासुमारेण इंदनाणस ।

सिहुं विअिहुअमिअं विअरतो सइउ सोअसाइं ॥

॥ इंदनाण-अण्णाणयं सेअत्तं ॥

[८८] अंसदए-अण्णाणयं उओअणसुमाअ-विअरणे तहा दइअं, अचरे वोहिअसस वि
विअसस न अडिपुहो वि ।

जावय-मेअं भणियो तावय-मेअं च कुणइ जो पुरिसो ।

अणणेअिअउण सेअं गामेअ-समो न सो जुम्मो ॥ ६१

[आण्णाव भणितसावन्माव च करोति च पुंसः ।

अण्णेअव वेअ अणेअक-समो नसी योग्यः ॥ ६१]

— [८९. अयोध्ये रामायक-कथा] —

एतास्स गण-सेवकस्म चारिया तम्मि मए दास्य वैत्थण 'तुहेण इण्णत्तंमि बहं' ति भावंती तथा गामंवर । संपन्न जौवणेय व पुत्तिउवा तण्णेष—'मम ताओ कइं जीवंतो ?' । तीए भणियं—'ओल्लग्गाए' । तेव भणियं—'इहं मि ओल्लग्गामि' । तीए भणियं—'न तुमं जायसि' । तेव भणियं—'सिक्खवेत्सु' । तीए भणियं—'बन्ध ! वा एहमं ह्राओ दइय नामणिलं मदया सरेण ओहारो कौर' । 'एवं' ति पटिवज्जिज्ज पण्णो रायमिहं । अंतउले व सिप-वडयाय चाहेटिए निहुके दइय कओ मदया सरेय ओहारो । पत्ताया मया । अंबाडिउम मन्मावे सिहुं सुओ, सिक्खविओ व अपुंवाए तेहिं—'एरिसं दइय निहुकनेहिं सणियं सणियं आगम्मा' । अन्तव दिउवा बीरा जाणत्थे दिण्ण-याणया धोवया निहुको आगच्छंनो दहु चोर चि कइउम वडो, मन्मावे य कइए सुओ । एरिस दइय 'एाओ पडउं' चि बुचइ । अन्तव पुग्गाए दल-वाइयु-याणं मन्ने भणियमणेयं—'उारो एय वडउं' । तथ वि ताडिउम मन्मावे पितुमिइ सुओ, सिक्खविओ य, एरिते इमं बुचइ—'समदाणि मे भरिजंतु' । अन्तव दिहं मदयं नीमिजंतं, भणियं च वेण—'जणेमाणि समदाणि मय-मायुत्ताणं मरेहं' । तथ वि कइ वेव हंतुण मोक्ष्य सिक्खविओ, एरिसं दइय इमं मग्गा—'अर्षत-विओणो मे कवउ एवारिसेण' । पुणो पत्तो चारिउए उण्ण-वेलाए । भणियं च वेण—'अर्षत-विओणो मे कवउं' । तथ वि तइ सिप सुओ सिक्खविओ य—'एयं मामयं ति मवउं' चि मग्गाइ । अन्तव दिउओ निरत्तिं (पटि)ओ उक्क(त्त)ने । भणियं च वेण—'सामपवेयं मवउं' । तथ वि अंबाडिउम सिक्खविओ, एरिस दइय 'एाओ लहुं सुचयुं' चि बुचइ । अन्तव दुचि जुवायए प(वि)त्तिं करंते दइय भणियमणेय—'एपाओ लहुं विओल्लुओ' चि । एवं य अपेगाणि एवंविहाणि करंते । डिओ ज-उकुस्स ओल्लग्गओ । अण्ण-दिपहम्मि भणियो से जायाए—'वाहसु भचारं, जहा उण्णो वि केपारित्तो अक्खल्लओ, तीवलीइओ पुण असुंदरपरो वविस्स' । कओ परिता-मन्ने मदया सरेय एवं चिय वाहरिओ, लकापमाणो पत्तो वेहं उकुरो । अंबाडिउम सिक्खविओ—'एरिते कओ जहा-अवमर सणियं कइउइ' । अण्ण-दिपहम्मि पत्तिवे वेहे पट्टविओ उकुस्स वाहग्गत्थं । जहा-अवमर कण्ण-सुले सिहुं जहा—'पट्टियं वेहं' । एओ तथ दिहं दहुं । तथ वि अंबाडिउम भणियो—'पुमं वेहाओ नीरंसें दइय तओ सपमेव तथ छाओ भूली उदगाइयं च सिपइ' । अण्ण-दिपहम्मि अण्णत्थयं पूवंतस्स निम्माओ धुओ, तओ से उवरि पत्तिवत्तो पर नीरेणं ति ।

या जो एपारित्तो अओ वि, न मो पेनओ चि ।

॥ रामेह्लय-कथाणयं 'समस्तं' ॥

कथ-पावो वि मणूसो मरणे संपत्त-जिण-नमोच्चारो ।

स्वविक्रम पावकम्मं होइ सुरो मितपुरिसो व ॥ ६४

[कृतपापोऽपि मनुष्ये मरणे सम्पातजिन-नमस्कारः ।

श्रद्धयित्वा पापकर्म भवति सुरो भेच्छसुखावत् ॥ ६४]

कथानकं शशुकम् ॥

अनिरूपविक्रण सम्मं जो काववेसु बहए पुरिसो ।

सो उदयणो व बज्जइ कारिमहत्थि-द्विय-नरोहिं ॥ ६५

[अनिरूप्य सम्मत् यः कर्तव्येषु वर्तते कुल- ।

स उदयन इव बध्यते कारि(कृषि)महत्शिक्षितनरैः ॥ ६५]

— [९०. अनिरूपितकर्तव्ये उदयन-कथा] —

जहा चासवदवाए संभव-गहण-निविर्ण पओएण अरण्ये इत्थियो मेव्हिसो किंचिह्लिग-
मय-कारि-मज्ज-द्विय-पुरिसोहिं उदयणो गहिओ । जहा य चासवदवाए तह बहणा
जाय ति । सो तीण दिट्ठो बम्महो व, तेय नि रइ व ता दिट्ठा । अणोण-जाय-इरिसं
आवडियं ताण रइ-भोपसं । जहा य जोरंपरायणेय बइणा कथा -

“अदि ता जैव ता जैव ता कैराजठोफनाम् ।

न इशमि वृपकणे नइ योगनवराजण ॥”

जहा य चासवदवं इरतेण परिणं -

“एव प्रपदि सार्दे काञ्चनमाला वसन्तकञ्चरै ।

अहवतो घोषवती चासवदवा उदयनम् ॥”

एवं सर्वं सवित्पर चित्ति-परिपट्ठं उक्त्वा समाहा-विद्यारणे य भवियं ति ।

॥ उदयन-वखाणार्थं समस्तं ॥

पर-तित्थिय-मज्ज-गओ साहू नाउण अणणो निदं ।

पर-लिंगं न्थिय गिण्हइ बोदिय-मज्ज-द्विय-मुणि व ॥ ६६

[परतीर्थिकमभ्यगत-साधुर्ज्ञात्वाऽऽजन्तो निन्दात् ।

परिष्कमेव एहति बोदियमभ्यस्तिसुनिवत् ॥ ६६]

— [९१. समयज्ञ-साधु-कथा] —

अत्थि सिरिहाइदेस-नूढामणिभूयं अपेग-दिइ-अडेवाणुवायं सउलियाभि-
हार-दिद्विय-सण्णिय-वादिहेर-सुणिसुवयतिस्थवर-पडिमा-विभूतिवं भइयच्छं नाम
महाजपर ति ।

“पुत्र-भन-सउलियाए सिचल-बुद्धियाए कारियं तत्थ ।

तुंगं जिणाय भयनं नामेणं सुदंसाणए ति ॥”

तस्यो नन्द्यादिदासो साह कार्यान्वयेण पद्मिनीं गुरुणा इक्षित्वात्तदं । श्यामी
वर्तते य पञ्चमे पत्नी पञ्चदर । चरिणी दिग्गुण-वमरीर । दिव्यो उचरयो, पवित्रो
कृप । कोलीषे य लोके पञ्चमे नाहुन्मि निष्कृष्टा गणिया, उच्य द्वापर । उद्विज्जय य
साहुं चरिपमणाए- 'ममसु वने' ति । अवि य-

"ह्यजसु मम चरिच्छ्रद्ध उच्छ्रद्धि रतेन यप-विलेपेण ।

न य कोह विरुं निष्कृष्ट भयं नृत्न बालो वि ॥"

तस्यो अद्यापि-विद्यारेण भयिर्षं नाहुया- 'शुवरि । गुडर संनचं, चरिञ्चो मि
एचिर्षं कालं पञ्चस्रोक्तदासो विनय मुद्राञ्चो; ता जाय मंग-गुस्मर इयं वेत्तं
उच्छ्रामि, तस्यो करेलि यभीक्षिर्षं । कर्माभूयो एतो वि भालंती पञ्चुया गणिया । तेन
वि वीचप-सिहाए इहुं मवमुगमय । जाञ्चो दिग्गुणो । पमश्या स्वणी । बाहरिया
भामरया 'एत्य सेयवदो वेत्तं येक्य पञ्चुयो नालिञ्चो, तं येच्छ्रद्ध' भयनेहि उच्छ्रादिञ्चो
उचरयो अचरपगेहि; जाय दिव्यो वेमाए खंच-हम्मो निउत्त शय्यणो । तस्यो गिलिया
दिग्गुणो शिसिया लोकेषं ति ।

"मुद्र-महाभिम जय जो दोन वेद पठह तस्येण ।

गहिच्छ्रद्ध नसु लो विद यो मुक्ति मिच्छद् 'मम ॥"

अञ्चो भयच्छ्रद्ध-जहा नेष साहुया पञ्चय-सिन्ना ए-वेत्तं काठमावणीया, एत्तं
कापवं ति ।

मुपदेवि-वनाएवं जहा चरिर्षं ममावयो भयिर्षं ।

निमुगंती रोह नरो गीकयो नच-कञ्चु ॥

[॥ अह-कृष्णात्तं समत्त ॥]

इह लोगभि वि यचं लहंति परदारिणो न संवेदो ।

अह पञ्चोञ्चो चन्दो इत्थी-लोभाउ अभएण ॥ ६७

[इह लेकेञ्चि वच्य लमणे पाग्दालिो न संवेद- ।

यथा प्रथोतो वदः श्रीलोभादभयेन ॥ ६७]

[६८] जहा वेत्तिविवाहिं उपलोभिच्छ्रद्ध अभएण पञ्चोञ्चो पदो, रायगिरिनेच्छ्रद्ध पुणो ॥
उच्छ्रेणी-सीहालषे निवेत्तिञ्चो लोकेच्छ्रद्धमालाए चिन्नि-चरिणसु चरिच्छ्रद्ध भयिर्षं ति ।

निय-सात्त पयटिजसु सुन्दरमियरं य संच-गुरु-कञ्चो ।

विष्णुकुमारो व्व मुणी न दोत्त-वत्तञ्चयमुपेद ॥ ६८

[निजशक्ति शक्येण सुन्दरानितयां च सह-गुरुद्वये ।

विष्णुकुमार इव मुक्तिं शेषवत्तञ्चयमुपेद ॥ ६८]

सुन्दरां निरवद्याम्, इत्या तावद्याम् । अन्निदम् ?—

— [१३. सह-गुरुकाये शक्तिप्रकटने विष्णुकुमार-कथा] —

अथ निरतर-बहुविह-गाणविह-नयन-गाम-भोदिल्लो ।
 सोहा-निखिल-यक्य-मथसंख्य-तुहा-उपगिल्लो ॥
 यय-निवह-निरतर-सचरन-देहेत-उरिय-वरावमभो ।
 वर-ववह-द्विज-शकन-लीला-परितुलिय-इव-वमयो ॥
 वनपावान-विचभिन-दीहर-सुह गाम-गुटिय-गोवि-वयो ।
 गोविषय-वीच-मवहर-संदायिय-दिह-हरिय-उयो ॥
 इति-वउत परिक्रम-तवह-सुह-वाचडिय-ववह-माह-यो ।
 माह-न-निमय-महाभरिद्-रेहंन वव-उमलो ॥
 कननाय-कमल-विसिह(मह) -वाच-ददियमा-दमि-मव-उलो ।
 मम-उत-ववह-मवह-इंदासी-पव-कीम-उलो ॥
 कीर-उत निरतर-संचरत नुपंग-मालि-कम-सोहो ।
 मालि-वम-सोह-निवडिय-रेहंत-सेम महिवेयो ॥
 महिवे-विषह-वाच-मरंत-ववतहर-संखल-समोहो ।
 सोहा-निखिल-मवयो रेह कुरु-वमवओ दूर ॥
 उमहसम पशावयो गुपस्य नामेव कुरुभरिदस्य ।
 लोचमि गुपसिहो कुरु नि अप-वायहो देसो ॥

तत्र च विषिजिपासेत-विमर्ष महादंभि-मायसं विज कृतिपवाउरं नयरे । जं च,
 सुरयद्-देई विव विन्धारिय-निज-निरतर, विष्णुहादिद्विपं च; संदविपं विव मवहर,

॥ कलाहिरामं च । कुल-इ-सोवर्णं विज सुरकेसपं, पत्यषिजं च । अथि य-

लवह-विलासिनि-मालव-चलय-मिहित-जाय-वर-सोहा ।
 कंकेह्लि-वहवा इव रायवहा जमि रेदंति ॥
 पाषाविह-रयव-मसु-उलंत-किरपोह-रजिपावचना ।
 दीसंति जत्य रविगो किरपा तिथधिदु(द)वधु-वरिजा ॥
 सो इंदनील-नामल-पानार वेच्छिज्य माषदं ।
 नवह मयूर-विंद वेतविपं अलय-संकार ॥
 यलंकर-वैतविपा रवि-रह-तुरया लवं मिसीपंति ।
 मरयव-पामाव-समुच्छलंत-उद्विह-करेसु ॥
 निम्मदिय-सुरदि-परिमल-सुहसंसावाव-गरुव-वाह-यो ।
 कामि व जत्य समिपं पविपंमह वारओ दूर ॥
 अह नवर लत्य दोयो निवट्टिपासेम-दोम-निवहमि ।
 अनहरिवय-मजाया रिउयो किलसंति लम-कालं ॥
 तत्य विषंमिय-वदिवकल-मय-वायंग-कुंम-विदल्यो ।
 पवदयव-धुरिपासो राषा पन्नम(हु)करो नाम ॥

जो ष, त्रिभारंभो व भधुशचिप-मिल-वंदयो भुरवसुव इंद्रकलानिवहो व
सहस्रद-मार्दि-वेतो, कमलापयो व जयलन्ठि-गमद्विद्विभो चि । अवि ष -

निवावेति गुा विप नयते बहिर्मेडल जए वयदा ।

एमेव य पदिवर्भं विपंक-किम्बोहि महिवेद ॥

अह पाव किशसिपं दक्षुपनाह-रिपयं व बुम्भिमीहस्य ।

जय-पम्भारेहिं वदं नानेहिं व दू निविभिर्भं ॥

अस्य व गच्छो मयलेनेङ्ग-पदाया ज.ताविद्याया विपयना । जा ष, उज्ज्वल-दी-
हिना विव विमद्व-कंदोद्व-नयव-रेद्विम, दुश्चर-भेगावद व मन्विहित-कृष्णाहरवा,
हेमंतसिरी विव रो(रेक्ष-निगवा, चित्ति-उत्ती विव विवसिप-कुंद-दवच चि ।

अवि ष - चदस्य पंदिमा विव अहवा परि-नस्य ना वि गोममि ।

एया उय नम्यटयो न नल्ल छाहि व करिपई ॥

मयषारिषो व गोमी अद्या परिपस्य या वि देहदे ।

एया पुष विव पयो निवमः नल्लमि देहमि ॥

एवं च राशो तीए मद् जम्भंत-ममन्विवाजि)म-गुष्ठागुमान-अपिपं वद्वन-पंत-
चिजं तिकम-नार जीपलोच-गुहमपुहाजन्त नमरकंनो मोह कातो । अस्याया उच्छं-
ग-नयं लीई दक्षुष पठिदुदा जाल वि । अवि ष -

खंभ-द्विप पंज-केमरोह मुद-इई-भानुन धवले ।

वदि-कदिय-नय-नीराई व पुकण मयनाई ॥

मार्दिपं पच(इ)यो । तेवावि गुणिय-व-बाधुपारंभानि(ते)दिवा पहाण-गुच-जम्भेव ।
अवा(वि)व्यापिय-दोहता व संपुष्प-नमय वरता देवकुमारोउयं दारवं । वद्वविभो राया
पिपंकरियात् वेटीए । दिव्यं ते पारिशीसिप । पदद्विपं दारवस्य बाधं विष्णुसुमारो ।
वद्विभो देहोवपयं, कला-कलावेव य । संरयो मयल-जय-मल्लद्विजं जोहवं ति ।

अवि ष - जयलन्ठि-परिम्यद्विभो पय-पम्भ-कुरंत-वीण-संमउलो ।

कमलापर-मारिचो देह कुमरो म्पनि(इ)मि)दु व ॥

अस्य ष, कुडिता चिदुरा, य महाना; विवशरिपं वरुत्तपलं, न कद्वं भगिर्भः
वपुषो मल्लदेभो, व हीम-विलानो; मपरद्वच-वपु-कुडितायो वपुहाभो, न सुदीयो;
अदीहरा सुपा-ईडा, न केगपुषंपा; परिचाओ नमत्रिप-विद्वस्य, न चरिपस्य; अर्षत-
परिचिभ्राओ कलाओ, न भावाओ; पापद्वामि वुदवच-पंत-नविजागि गुच-विजागि,
न चारपुमिप-वंचिपार्हं; भपुरा ददपा-व्यवकलह-कोवा, न महासेव-जोद वि ।

अवि ष - जल-संतग्नि-विपंभिव-कमलाय व दुज्जमान इद गोई ।

विमला वि हु जस्य कदा विपंक जोह व महदेव ॥

पापद-शुभाईं दूरं सहियप-जल-उत्थिय-हृमिय-जोमाई ।
 चरियाईं व जस्य शुभासियाईं वेपंनि लोपहि ॥
 निद्रुविय-मपल-जोमा पपासियासेन-पपड-वरकन्या ।
 वसरति जस्य दूर कजाचंवा रवि-कर व ॥

१. कालंतरेण व पुणो नि पत्न्या चोदम-नदातुमियप-पितुपिय जान्ना सुदुमर-संकासं
 दारपं । कर्म नदापद्दावपथं । पट्टियं से नार्थं महापउमो नि ।

सो देव-वरिग्गहिओ बहुनो तन्व जुण्यं पथो ।
 निय-कर-पट्टियक-धरो उरकथो दिवहनाहो व ॥
 नमिड ज्ञावाण दईं सुदव-पुरियो व दमवमूहो ।
 ॥ पापद-गुणाक्लीण दयाण व मुकप-पुणो व ॥
 सुविसुद्धाण जराण धवरा(ला) चिदुर व जम्म कीरति ।
 कज-कडाण पुरिया अण्णाण-कर्मक-कम्मिया वि ॥

अण्णपा ज्येण-लौत-परिपयो मनोपरिओ बाहिन-ज्याणं सुवपाहिवाओ महापुणी ।
 जो व, भूमणं तर-मिरीण, नित्तओ विरायपाण, कणाहरणं नापलक्कीण, पुनमंदि
 ॥ संलीण, निवासो दयाण, जलनिदीं मुम-रवण-वेभंडं, पुण्यसिचं अपरिग्गहिवाणं चि ।

अवि व - मज्जकसाय-मल्लो महामोदम(स)ल्लो । गुणाणं सुवलो सुवीणं महल्लो ॥

कलो ससियरो संपनो रावा उह निष्पुट्टमार-महापउमोई । पत्ता न्नामया ।
 कवया नि समाजता धम्मकद वि ।

“धम्माउ चिय उम्हा अत्थाईया हवति पुरिमन्वा ।

॥ वा सो चिय कान्थो विसेमओ मोम्म-कामेहि ॥”

१. तेष देवापुण्ड्रिया ! अमारो संसारो, दारुता कया; अदृष्टिमहाओ तेषु विषयाओ,
 विविधा कम्म-परिण(हि)ओ, समुच्छलंति रागाहो, अव्यवहियं मर्षं, र्वंयला ईदिय-
 तुंराजा, किंपाणकलोपमा विमया, दारुओ विप-विष्यओमो, दरतो वम्महो, नर-
 सोपाण-भूषाओ इत्थीओ, अनामर्ष जीविषं, ममात्तण मन्थं, पंचणा-परा पाणिओ,
 ॥ कसायानल-संजनं जमं, असुंदरो वर-वासो, न सुसईं मशुचनं, दुल्ला धम्म-पट्टियणी,
 कृविमं दिवईं, र्वंचला रिदी, सुविशोवमं पेमं, दुल्ला आरिपखेसाई-संपया,
 मिच्छण-सूदो ज्यो, दास्वमण्णाणं, निदिओ पत्ताओ, परिहायंनि मावा, वेणीहोति
 आजायाईं, अप्य-विरियाओ ज्येणीओ, कम्म-भोगाउरा लोमा, मवहा, किं कृणा ! न
 मोचस-ज्येणसहिलो ज्येणं सुदमति चि । अवि व -

॥ नारप-तिरिय-नरामर-वाईंमु नीसेल-दुक्ख-तन्निवाण ।

॥ मोचुणं सिद्धि-वत्ताहि विवाणं सरणं न वेन्छामि ॥”

१. कओ हियप-हिय-चिन-परिणामेण विष्यन्तो गुरु पउद्वचराराणा - ‘मयवं ! ज्ञान
 निष्पुट्टमारं एते अहिमिचामि, तत्र मे पाप-मूले सकलीकरोमि करि-कण्ठ-रंचलं
 मज्जवचमं पबज्जाहुदुषेण । भववया मयिपे - ‘देवापुण्ड्रिया ! । कायकमियसो

अस्यशास्त्रं, ता वा पट्टिबंधं कृणुतु' । पुणो वि क्वमिडय गुरुं चक्षितो नपरि ।
 साहरिवा मतिषो, सह पहाय-परिवेषेण विष्णुकुमारो य- 'भो भो! तिसुपं चिय
 तुम्मेहि संभारासारतणे । बंधिओ हं एत्थिपं फालं, तं ममत्वं नाशुद्धिपं, ता संपथं
 विष्णुकुमारं गळे अदिमिचिय निष्ठासि पवजं' । तत्रो विष्णुवं कुमारेण- 'ताय !
 अस्मिमेहि किंवापोपमेहि भोगेहि, तुह चरिवमेवशाशुचरिस्मानो' । तत्रो कामिडय से ।
 निन्दपं साहरिओ महापउमो- 'पुच ! पट्टिउत्तनु गुरुं, जेव पक्कामो' । जेव बंधिपं-
 'तायमेवाशुचरिस्मानो, अदिमिचयु विष्णुकुमार, जेव से भिचो इवामि' । गह्या
 बंधिपं- 'बच्छ ! पुचरुत्तं बंधिओ वि न पडिउत्तउ, जेव मए मए पक्कउम्पए' । तत्रो
 मत्रोवाहि-विसुद्धे वानरे महाविष्णुहेयं कत्रो महापउमस्स मवाभिसेओ । पउगुत्तरेण
 वि आशोसम-पुन्वपं द्वाविपं महादार्यं, वृद्धो ममथ संयो, क्कवापिओ सव-जिवाय-
 यथेहु अट्टादिपा-महमनो । पक्कप-वानरे य अणुगम्ममाणो अप्पेगेहि नरिदाहएहि,
 सह विष्णुकुमारेण महाविभूएण पवजो पउत्तुत्तरो । पट्टिअ । कया गुरुवा धम्मकहा-

“अत्थि ममपणि उट्टुत्तमि अ अणुणे ।

मणुत्तुत्तं गुरुं मट्टा सउत्तमि अ वीरिअ थ”

तत्रो श्चओवस्येण शेरकालं चिय बहिया दुविदा सिक्खा । फालंनरेण य उप्पा-
 दिडमं केवलत्तणं । महापउमस्स वि उप्पव्यमाउत्तनात्ताए चक्कपथं वि । अथि य-
 अह कप-पूवं चकं तिपयित्त-विप्पाए जोषवं मेहुं ।
 तत्थेव ठियं रावा संपत्तो मम्म मग्गेण ॥
 उत्तुंन-रहास्सो संधिअ-वापो नमूह-मज्झमि ।
 तिष्णि दिषे उवउत्तो विण-आवंके मए सुयउ ॥
 सो वान-जोषणंमवि ठियस्स तिष्णाहिउस्स देवस्स ।
 अत्थाणम्मि तिपट्टिओ गुण-सुक्को मवह-तिष्णम्मि ॥
 तं पुत्तोहड्डणं कट्ठो 'किष्सेण विमक्किओ मरो एत्थ ?' ।
 दहं महापउमवारं त्कवणमेत्थेण उवत्तंते ॥
 मंतूण तत्रो तिपमो च्चडामणि-दाव-पुणवं भवह ।
 मरणाह ! एत्तो हं पुहदिमा-पालओ तुज्ज ॥
 आणा-कलं ति गुरुं तं मे दाऊण अह वि दिवामि ।
 फलउय मम्म बहिमं संपत्तो दक्खिण-दिताओ ॥
 कथ वि चरदाम-वई एं विअ साहिओ सुरो रत्था ।
 वच्छिअ-दिमाए वण्ठा वजात्त-नानी वि एत्थेव ॥
 सिंघुअय-देवपं माहिऊण वेवङ्ग-सेल-देवं च ।
 तिमित्तगुहाए य पुणो कववाळ साहए राया ॥
 ताहे अहवलेणं सिंघुण दक्खिणं दिसावानं ।
 साहेइ सुत्तेणवई तिमित्तगुहाए क्कवादाणि ॥

- १ उम्पादिऊम सो विष मणि-रपणेणं कण्ठे कुंडाई ।
 आचाम-पुहचेहिं वंचेव धपुमवाई तु ॥
 २ एण्णमन्म-संखाणि दोमु चत्तेमु तीर सो लिहट ।
 उओइय-मम्मेणं वल-वदिओ पविमए ताहे ॥
 ३ उम्माय-विजम्माओ उईओ सो मकमेव पेलेइ ।
 आकाय-पिळाणहिं य जुज्जइ म्म-जाज-हरिणेहिं ॥
 ४ जुज्जम्मि उ ते विविचा कुमरेवे संभरिणु मेदहुइ ।
 ते वरिसिउं पपत्ता निन्तर ताण पपणेहिं ॥
 ५ पाणिय-भवाउ ओगो उविओ मतो वि चम्मरपणम्मि ।
 छत्तरपणेव ताहे चम्म संहाउवं मई ॥
 ६ ओ पुहण्हे नाही वविओ चरम्मि पण्डिमण्डम्मि ।
 तं चिय भुवणि न्ना विष्णामि जा न्ण वपंति ॥
 ७ मण्ड-किऊर-परिणिलिणुट्ट वधउ-अण-वेर-निवडेहिं ।
 उवत्तामिवा निज्जाया नमह-आणं पडि-उंति ॥
 ८ गुणरवि हिमवलोवरि चत्तपरि-ओण्ण-दिओ तिपसो ।
 सिद्धो मरेण छिंदिणं निव-नामं ममऊडे य ॥
 ९ सिद्धए उचरिहं नु मिकमुहं उवेउ सेमाणी ।
 मंमं च म्हावउओ लहुर पुण वि सेमाणी ॥
 १० अइ वेपडुं पत्तो म्म-रहणुमि-अण-वरल-पुलणहिं ।
 ११ एयर-नाम्मेहिं मई जुज्जइ गुण-उपर-उप चळणो ॥
 पुणकल-अण-पापम-गेह-मज्जे-सुहल्लेय-दिपंणो ।
 निवटंन-वाण-रिणो अंरुणिय-नहयत्ता-ओगो ॥
 १२ चित्तसिय-अरात्त-अरवात्त-विहुणो मड-मसूर-रप-सुहले ।
 तियमिड-वदिय-पात्तो आओ एण-पाउओ ताण ॥
 १३ कुहुंति सुहउ-सिं-उवाइं उदिरात्तवाइं मकराई ।
 अण मउल्लण-पत्ता-एपाई म्म-पाउसे पत्ते ॥
 १४ करिनाहाणं करिणो तुग्ग्याव तुग्गमा राहाण रत्ता ।
 समय चिय संल्लणा सुहटा उण्णुदर-अवाण ॥

कईं पुण जुज्ज पपरिणं । — अरुअ करत्त करत्त-छगत्तम-संपडुं चिहेव-सिद्धि-सिआ-
 १५ वुरिय-गाववंचणं । अण्णउ एण-उदिर-मम-संघापरिण-निवटंत-अण-सहस्र-पक्खुवसेव-
 पवण-सवात्तासिय-मसुद्धित-सिण्डिय-मउपणं । अण्णउ धणु-गुण-विहुक्क-वाण-सेमि-संहाउ-
 यासेस-वदि(इ)पलं । अण्णउ पुलमुजेत-ईति-दत्तण-भिज्जे-महासुहउ-अण्णकल-ओमो-
 संकुलं । कईं वि पसरन-अणु-नीह-रप-विरि-विनर-उदितर-अरिय-वदिपलं । कईं वि
 १६ धणुमाय-सपि-सउल-कुंतासि-अणुंदि-अण-विहुक्क-अण्ण-अवासि-अणु-दाहणं । कईं वि अ-
 १७ उदिर-वाण-परिणु-किउकिलेव-वेवात्त-अण-मीमणं । कईं वि सुहउ-वदिपणुणु-अण-

अपरवापुर्लज्जामात्र-दिग्ग-वंदये । अत्रि य, कर्हं पुत्र विज्जह्मदिशेव चक्रवर्ति-चले
सरोहिं ज्ञाय । ति । अत्रि य -

उत्पद् य-वन्दं सो वल्ल-सहस्रेहिं सङ्घ-पमनेरि ।
निय वापेहिं व मययो मयले महि-भंरुल्लभोग ॥
दीनर न नेष्टमापो संविनो वा विक्रुमापो वा ।
कामो व तद् वि विवट अर्पय-संभेहिं वापेहिं ॥
नामेह नर्मि-वले उदय-नो रंहरेहिं वापेहिं ।
सरो व दुरालोको निःपरिव निजिन-विज्जर्प ॥
इय संकृत-सेवात्-निविच-वृज्जेहिं वृज्जिउ नाहे ।
उत्था वृषि वि वृषणे विज्जह्म माण्ड नर्मिण ॥
आवणावद्विष-वसु-विमुक्त-या निच-भरिच-सह-गम्वा ।
दोषि वि नाग-नोसिच सुज्जेरि-वृद्ध-उत्तमाल ॥
दोषि वि मुक्त-पवाश दोषि वि विल-ले-रुहि-वहिन्वा ।
दोषि वि वंचिच-पद्म वृषि वि जय-सङ्ग-माहया ॥
दोषि वि वमिच मग्वा दोषि वि कुट-जलहि-पुम्भिस-मिर्पका ।
जुज्जेहिं दो वि दूरं नर्मण्युत्तु-जयमदा ॥
चक्रपणमिच वरिण कुनि जालाउममि चयमु ।
पदिओ य सपर-नाहो भग्वादिपणो ताहे ॥
मंढप्यवायमुदार वच्छा संतुष माहिओ उवो ।
नासेव नहुमालो नरवणा तीण बीरमिओ ॥
मंग्वा-कुलमि तओ नव निहिणो चकिणो उरनर्मति ।
मंग्वा-हादिमिच्छं सेबापी निचमुदं विपह ॥
नेमंय-वंदुं-विमेल-वचंभ-महापउम-वउतेनामे य ।
तओ य महाबल्ले मंगवमज्जहानिही संभे ॥

[१] नेमंयमिच निवेसो नामानर-नगर-वृक्षानं च ।

दोगमुद्ध-मउंवायं संवाचयं विहायं च ॥

[२] मयिपस्त उ उत्पत्ती माशुम्मात्तमन् अं पमार्यं च ।

पम्पत्तन य वीणाण य उत्पत्ती पंगुए भविषा ॥

[३] मत्ता आहरण-विही महिलार्थं वा च होइ पुरिमार्थं ।

आत्ताय य हन्तीण य विंगलमनिहिमि मा मयिपा ॥

[४] रक्थाम मङ्गपणे चोदय वि पणय चक्रवर्तिना ।

उत्पज्जेने एमिदिवापि वंसेदिवारं च ॥

[५] वत्थाय य उत्पत्ती विष्कवी चैव सप्तमणीयं ।

रक्थय य मंकाय य मत्ता एमा महापउमे ॥

- [६] कण्ठे काल्प्याणं मन्महरागं च तीक्ष्णं वासेतु ।
सिन्धु-मये कम्माणि य निष्णि वपाद् द्विषकराणि ॥
- [७] लोहान्नं य उप्यन्ती शोऽ महाकाल आगसर्गं च ।
रुप्यस्त सुवन्नास्य य मणि-मोक्ष-सिला-ववाहस्त ॥
- [८] सेमानं य उप्यन्ती आवरणार्गं च पहरणार्णं च ।
समा इ दंढनीर्ह माण्यये रायनीर्ह य ॥
- [९] नहुषिहि-नाडगविही कवम्म चउद्धिहम्म उप्यन्ती ।
संये महानिहिम्मि य तुद्धि(रि)र्यमाणं च मयेनि ॥
चकट्ट-वद्दत्ता अट्टस्सेहा य नव य विपसंभो ।
वारस दीहा मंजुस-संठिया जाम्हीय-वृहे ॥
वेरुलिय-मणि-कवाडा क्यगमया विधि-रयण-पडिपुण्या ।
ससि-धूर-चक-लकसाग-अणुमय-वयणोवमर्चीर ॥
पल्लिओवम-डिईया निहि-यरिमा नाम वेसु रउड देया ।
तेसिं ते आवासा सुकीलया हीरच्छाया ॥
एए ते गव गिद्धो(हिणो) पडूय-धन-कलम-रयण-पडिपुण्या ।
जे वसमणुपणेन्ति सधेनि मणुवपालार्गं ॥
नवजोषण-वित्थिण्या नव निहिओ अट्टजोषणुम्मेहा ।
वारसजोषण दीहा द्विष-इल्लिय-रयण-संपुण्या ॥
- चकट्टवाणि चोदस रयणाणि हवंति चकिणो तस्य ।
नामेण सरुवेण य अहकर्म किट्टहस्ताभो ॥
- [१] अरय-सहस्साणुमयं वपन्नधार सुवत-रवि-सरिसं ।
चकं रिउ-चकहर दिवममोहं रयण-विच ॥
- [२] निदल्लिय-सधेगेमं लोहय-गयणं मियंक-सिंभं य ।
उदंढ-पुंढरीयं दिवमिभं दुरयणयणं से ॥
- [३] इरिवारि-मन्नमायंग-कुंभ-निदल्लय-पयल दिवं ।
जम-जीह-तिक्ख-धार रयण-विचिचं सहइ प्पयगं ॥
- [४] निम्मुण्याय-समकण्यं पर-यल-निदल्लय-पयलं दिवं ।
संहरयणं विरावह अहिद्धिंयं जफस-निवहेण ॥
- [५] चम्मरयणं अमेतं सज्जण-विचं व उमिय-जय-हरिसं ।
संछाए-परमियलं सुपसरथं सहइ चकिस्स ॥
- [६] वितामणि-संकासं मणिरयणं तीस-रोग-निदल्लयं ।
विष्णुरिय-किल्ल-निदल्लिय-बहल-सम-तिमिर-निउरयं ॥
- [७] निव-कंठि-तुल्लिय-ससि-धूर-नेयं-वायट्ठिय-वहयल्लामोरो ।
दिवं कागणिरयणं संल्लिय-करि-तुरग-वाहकं ॥

- [६] इष्येण तुल्यि-मयधो कोषेण जमो हरो वि सुषेण ।
 वेष्टय वि पलप-रवी सरो सेषावर्द्धे रयणं ॥
- [९] निष-रूप-विहय-वरितुल्यि-मयध-वेष्टय-जाप-माहृष्यो ।
 दिशानुभाव-कलिधो सेड्डी रयणं पि से नरमं ॥
- [१०] निष-सिष्यकला-कोडय-निषिय-कोकान लड-माहृष्यो ।
 रूपद-मुगावाधो दसमो से बहूर्द्धे रयणं ॥
- [११] अ(आ)रिमवेड-विहृत् विजा-मनाः-लड-माहृष्यो ।
 दूरियाडसु संनिकरो पुरोहिःओ मुग-मगावाधो ॥
- [१२] दम्पुडर-सुहृ-मदानरिद-दुमुसुरणेक-दुल्लिधो ।
 तियमिद-वेति-मरिधो वन्धी रय-लड-जयमहो ॥
- [१३] मय-पक्व-वेग-वरिमं मुरमरयणं मधोहर तस्म ।
 निष्ठासिय रिड-निमिर दिशयह-विर्द्धे व वेस्ममं ॥
- [१४] सोहृग-रुव-जोडय-लडय-कलद-मुग-मगावाधं ।
 मपरदय-कलमयणं इन्-वीरयण पि बोदममं ॥
 पडमाणि मय एधिदियाधि पंनिदियाधि मयेव ।
 जकल-मदस्मापुमय एकेके दिदरयण से ॥
 रबर्धेति दो सहस्मा देहं देवाय तस्म एरं तु ।
 सोलम देव-सहस्मा निचं वडुनि आणाप ॥
 विगमि-मरिष्ठाण नराहिवाच वचीमई महस्माडं ।
 निचं वईति वसे निचद-मडहाण क्हाण ॥
 त्रुगुणा रमणीओ सुगुंरि-विष्मभाड लडहाओ ।
 संपत्त-ओडगाओ मपरदय-जयपडावाओ ॥
 रवि-रह-दरि-इति-तुरगमेदिं सरिनाय मयसहस्माई ।
 रह-करि-तुरगमाणं चउगसी हुंनि वचेनं ॥
 आचरणं पवराचं नमराणं च आसि पावचरिं सहस्माई ।
 लभउई कोडीओ पाडवणं रये अवीयाय ॥
 लड पवर-वदुवाओ अटवालीसं सहस्माई ।
 लभउई कोडीओ सुग्गामाणं च गामाणं ॥
 दोषगुह-महस्माडं नजाकवई इन्व-जय-मदिदुई ।
 चउगसीं साहस्सीओ मडेवाण मणियाओ ॥
 [मणियाओ] लकल-संया लभय्यं अंतरोदगाई च ।
 खेडय-मया य सोलम संवाह-महस्म-चोडसमे ॥
 वचीसद्वद्वामं अहेसि वर-कृणि-नाटवाणं च ।
 वचीसई सहस्मा मुरपड-वस-नाडग-निभाणं ॥

इव पुत्र-यवोपश्रित-विच्छिन्न-पुत्राणुभाव-संज्ञमर्थं ।

नरवर्णो अहं तस्मिन् वनेर्द्धे' को किर समस्तो' ॥

पदसुचारुसुधी वि कालत्रयेण कथ-सान्त्वयो वयो निवार्ये । विन्दुहुतुमारस्तुहयो वि
उन्मा-नयोविद्या-निरयस्त नान-दंतय-नरमेहि वदुमायस्त उप्पण्याओ जानासमानव-
• वित्तवियाओ नाथाविहाओ लट्टीउ वि । अवि य -

मेरु इ तुंगदेहो वचद् भयभामि पक्विलनाहो इ ।

मपयो इ रुचनतो अहूलीयो होइ त्रिपयो इ ॥

वपयं पिय सन्नगओ पडाउ म्फाउ जयिन्-पड-कोडी ।

पंडवाउ पड-सहस्से तेहस्रो पश्य-सुह इ ॥

इव चिच-तव-विचिचा लट्टीओ होति सादुवग्गस ।

इह लोमामि पत्तया परलोने मग्ग-नोक्कता य ॥

अश्वथा मारुक्प्येष विहरमायो संपचो वामारचासण्णम्मि इत्थिमाहरं सत्तीसो
सुववापरिओ । आवासिओ वाहिरुल्लामे । संपचा मे वंदय-वडियाए नरिइहयो ।
• नमाउवा धम्मकहा । निंदिया मिच्छवाहयो पयन्था, पसंक्रिया नम्मवाहयो । तओ के
वि सुषिय-जहट्टिव तित्थवर-वपया पञ्चया, अवरं योवमा जाया । अश्व-दियहम्मि
मिच्छवादिनिवेशेण भयिओ आपरिओ नदुरनामेष मंतिया - "ओ ओ ! एवारिसा
हुम्मे अल्लुगिय-परमाथा जेण पचन्तोपतन्मसाणामंद-सकुरं विसय सुहसुज्जिऊम
अंभीकओ सब-धम्मंदि-दुसिओ विच्छिद्-अण-परिहरिओ जिणधम्मो । तहा निपय-सिद्धिं
उज्जिऊम अंभीकया भिक्खा । अहया, लोचिय-त्तीन-तुंदाय च्छाराभसुंउडियाय
• केचियमेयं' ति । अवि य -

अत्र न इ पुरिस-दूत न अभिहोओ न वेप(वेच) दिय-द्वार्यं ।

तो नो ! न होइ धम्मो अहं धम्मो नपसु वा सुडा ॥^{११}

'अहो ! हुक्क-सदो अणमिनिस्सयाहिवाडं व एय मंती, ता किमपेण सह वंषिय' ?
• भावैतो टिओ तुमिहको हरि नि । अवि य -

"विद्वान्दूरभियमो विदुमि तटे चाममादिना भय्यम् ।

सुत्थे जडोऽनुकाम्ये मूर्ख-उठ ससंथ त्थान्थ ॥^{१२}

तओ सदावस्तो पुणरुत्तं निंदतो सत्तायमायेण भयिओ हरिया - 'ओ ! अहं वाप-
• सामत्वमत्थि, नः करेसु पुत्र-पक्क' । तओ वारसु पडिऊम भयिओ चिह्नेवापरिओ चि ।

'वित्तसंत-दान-परिभल-संपाणुक्किय-भवेति(त)-भयरेसु ।

केसरि-ऊम्मो विराधर सुदंति-समेसु देहीसु ॥

चालिय-नीसेसाचल-सुयंत-ववगम्म देव-त्तामत्थे ।

रेहइ कुलसेल-विओइ(उ)मम्मि न च कम्म-राहणेसु ॥

निय-दिद्धि-दिद्धि(इ)-सो(गा)सिय-वचत्थ-तणेसु देवसुकलस ।

दिद्धीविसेसु छळइ पंतु-निवाओ न कीडेसु ॥

परिसुगिचालेत्त-समत्थ-सत्थ-संज्ञाय-पापड-असेसु ।

सुरसुक-समेसु रेहइ सुह वपयं न उय सुक्खेसु ॥

ता आदिर्लुत्तु गुरुणो जेषाहमेव नासेमि वाद-वर्गं । गुरुणा भविष्यो - 'एवं कुरु' ।
तस्यो चेह्वरणं भविष्यो मंती - "ओ ! जे त्वं संतपं, आखंडरुजं विमय-सुहं तमसोचरं,
तेषु केसि पि जम्भंतर-गुरुज-कम्बाय विस-विगम-नरिमिषं ति ।

"शिव-स्वप्न मिसरणो ज्जिमेसो म्ह-राग-वय-मेसो ।

ज पावहं मुक्ति-सुख कथो ह च्छब्दही ति " ॥"

आपं पि कय-पात्रागामेद्वरुवमिषं पडिहाइ, ताव पि हू विसलया-विलसिपं
मिव येनचालिपं ति । अवि य -

"सुरज-सुह म्क-मिती मसा-पथो पुडिद खौरह ।

कलिचाल-जीविय जेव्यल च ना मुसह दोहाइ ॥"

जं च मणिपं, 'सह पार्सुट-दुमिओ विषयम्मो' व पि न ज्जुचि-संपपं ति । अवि य - ॥

नाया-पार्सुटि-विषयिपयसु मवेसु येव सरथेतु ।

अचंत-विस्सेसु वि जीव-दया नचरि(र)मचिसडा ॥

तिपि सया तेसडा पार्सुटिपं परोप्पर-विरुडा ।

न च इति अहिंसं सो धम्मो जत्थ ता सयला ॥

सा च इहं चिय कीद जीवाजीवाइ-जामगाहिणो ।

अप्ये पुण जीव चिय न मुचिति दया कसो चेव ? ॥

पथो वि च आपनिओ पिसिहु-सुर-मधुय-अयहराईदिं ।

सम्भी पि च बहु-दोमा पंडिपया धम्म-कथेण ॥

जीपं जलविदु समं संपत्तीओ तरेण-लोलाओ ।

मुमिषय-समं च पेम्मं धम्मि चिय अत्तर कुवह ॥

मिक्खा पुण इह-परलोमे सुहाचह पि कइ पि ।

किन्नेस-विदथेय दव-जाएण होइ वार्थं पि ।

आहारो मिक्खा पुण जावइ एमेव पुण्येहिं ॥

"अधुमां च पूरा च भूतोये परिनिन्दिताम् ।

चोन्नासुक्कीं वृत्तिं सर्वपापप्रणशनीम् ॥"

जं च सिर-पुंडनं सीसमि भूइ-वक्खेवर्णं जं संववारीण मरु-पिहिपं विभूतमं ।
अर्थं च न ति-शुरिसा दूपारिहा, राम-दोस-मोहापुमवकाओ, इपरसुरिम व ।

जो विगम-राम-दोसो तवम्पु शिवसनाह-मप-चलणो ।

सम्भूय-वत्सु-मपिरो सो पुजो तिहुपमस्सावि ॥

अवि य -

"कश्चिद् रामो भवति हस्तिशैलीत-नृप-प्रपञ्चै प्रवेष्टमन्व जहरणमज्यास्यपसि पुनान् च ।

विभ्रम्योही स्वष्टिकविमलजसकनाता मलसे तद्विद्वान्ममनका सर्वविद् त्व विहाग ॥"

अनिहाहोचं पि पायाइवावाइ-सुषणयओ न सुंदर ति । अवि य -

"यद् अस्तानि सुअमन्ते चक्ष्णा मय्येते हस्ति] ।

अश्वमेधस्य वक्ष्णात् न्यूनानि पशुपित्तानि ॥"

दिवा वि रागादिदोष-रहिता वसंभिरिति । ताव दिवं महाकलं, रागाद्-बुधात्
बुधासुन्दर-कलं ति । अवि व -

दागस्य नस्थि नामो आहम्मिद(ए) वम्मिद व दिव्यस्त ।

आहम्मिद अहम्मं धम्म पुत्र वम्मिद होइ ॥^१

इय एवमाह-बहुविह-विषय्य-नाय-नाकुलम्मि वावम्मि ।

सो वेह्वण्य विविधो विउत्तमं मज्झपरम्मि ॥

तत्रो छिद्रापसोपय-वरस्य संपन्नो वामारणो । उम्मादिभो विरहि-पयो, विपंभियो
त्रिसिर-माहयो, विरथरिभो पयव-पयो, पयानिभो करहि-गयो, हरिसिभो कसय-अयो,
टाण-द्विभो पहिय-अयो, पण्हो चंदुओओ, न विहरिभो सुप्पि-पयो वि ।

इय हरित-पय-समए सुर्णाण कोपेण मग्गिओ राया ।

रत्तं सच्चिपेण दहं जायहुा कडनय-दिवाणि ॥

रत्त-द्विपम्मि सच्चिपे पत्ता मडे वि आगमा कथ ।

वडानया सहसिा सुत्तं नवर जिनमुष्णिगो ॥

संवरिप-बुद्ध-वेरो हकारेउय मणः सो गाह ।

तुम्हे त्य महापावा जे निदह मव-पासडे ॥

सुक्खा सो संलतो "न नयं वाव ति नह विहायाओ ।

न य विदाओ वव(इ)यो राग-दोसाए विरहाओ ॥

वरनाह-कया रक्खा नडे वि(चि)य आममा निपं धम्मं ।

साहिति नेण राया विप्पह उज्जयिन-धम्मेष ॥

तन्त महीए सुष्णिगो उक्क-वरचक्क-दुहु-पुरिसेहिं ।

अगियं न सुष्णिगि नयं नं नन्वःप्यो महापुण्यं ॥

राव-परिपालियाणि इ मत्ताणि तपोवणाणि सुपत्तिई ।

पूयाणि सामयाणि व गवाणि वि देवहरवाणि ॥

कुमुसहरण-विलेवग-श्रवण-बलि-पुव-दीव-बुधाओ ।

विक्किम्पाओ निचं हपत्ति नन्नाह-रक्खाए ॥

पालिति सड्ढोगं नाएयं गट्ठो विसेसेण ।

दिय-समय-बुहु-हुवई-अणाह-मरणागय-वरदे ॥

इय देव ! समय-संमय-लोषारण्याणि पालयेवस्त ।

धम्म-मित्तवस्त इह दहं कलमिचनो रादणो होइ ॥

रह-तुवि(र)य-क्क-पाय(इ)क-मत्तमायंन-संगयं रत्तं ।

न(नि)हुविच-मत्त-निमिर जायड मह निम्मल-असेय ॥

वर-वरु-पाण-भोपण-संबोल-विलेवणाह-परिमोयो ।

गिरि-सिहरम्मि वि जायड समयं नीसेत्त-रयणेहिं ॥

मङ्गल-वओहर-क्किञ्जंन-मज्झ-वित्तिपण्य-गुरु-निपंवाओ ।

सरसारविद-सरिसाणयाओ लडहाओ कहुपीओ ॥

अबहुंभद व जहि-ळं पुषा वि य होति पीर-धिर-चिन्ता ।
 मित्रा य चित्त-सरिमा निरेम-परा न काम-सुदहा ॥
 बहुर तेजो किती भाहायं सयल-मन्थ-विष्णुर्जं ।
 बरिविजिओ सोटीर गुण-निवडो तपसा वृद्धी ॥
 किं उंपिएण बहुषा ? तं तं हिएएण वळए किंचि ।
 तं तां चिच सिज्जइ ज्ञररुणो धम्म-सिपस ॥
 इह सोए फलमियमो परलोए सुग्गमो व मोक्खो व ।
 पात्तेसु तत्रमियमो सविसेलं माहृणो ववे ॥

अर्थ च - गह-गुण-व्रतण तत्र-विनाय-वेपाल-दाह्मि-कथाणि ।
 इति-वरचक्र-विमहर-दुष्मिक्कस-अपाणि न इवेति ॥
 जाम्प सिवमाकणं कि बहुषा ? न-कल-सिपसो ।
 विहरति जएव सुणियो जगाम चिंतामस्मि-सरिज्जा ॥”

तत्रो से संज्ञानामरिमस्म न परिपर्यं मुख्यं पर्यं ति । अवि य -
 अबहुंभद वि भवियं कोरं बहेइ सुद-पुरिसस्म ।
 जहियो खीर पि विस दिमं परिणमइ किं चोअं ? ॥
 नासेइ दोम-जाणं(ं) गुरुअणमो गुणीणं सु व ।
 बहुर गुणं तं चिय खल्लम वसि-किन्व-मियरो व ॥
 तल्लिळं पिच गुरु-वयणं कल्लावदिपं जणेइ मूदस्ता ।
 वलं जोग्गस्य पुणो सोइ चियं तासपचं व ॥
 ‘जइ तत्तइ दिव्वाणं कओ वेण्णामि एत्थ भो ! ममं ।
 तं वेणु-समं पि अहं मारिस्सामो न संदिहो ॥’

तत्रो उक्ताण-वया भविया वरिया साहृणो - ‘भो भो ! किमेत्थं कायं ?’ ।
 एकेव भवियं - ‘विष्णुहृत्कारसाह-वचगाओ उवतमिस्सइ नमुं, ता सो वाहिण्वड । सो य
 अंगमदिरे सेले त्वं तर्पणो चिहुर, ता वो विज्ञानलेण मंतुं मन्थो तो ववउ’ । एकेव
 सुणिया भवियं - ‘अहमाकासेव वचामि, अक्खंतुं न तक्खोमि’ । गुरुणा भवियं - ‘वि-
 ष्णुहृत्कारो चियं अतोइ’ । ‘एव’ ति वहिवज्जिज्जं उपइओ आणासं । खणनेवेण व
 पओ तमुदेसं । ‘अओ ! कि पि मरुवं तं-कळं, वेयेव पात्तारचम्मि अताओ’ । तत्रो
 कम्मिकव्यं विष्णुसाहं सिद्धवागमण-वओर्यं । वेव-वेताए व तं वेणुणं ताहं वपट्टो
 आवात्त-आयेणं गुणीं पओ नायपुरे । उंदिया सुणियो । तत्रो साह-नमेओ गओ विष्णु-
 ताहं नहुरणो दंसणत्वं । तं मोएण वेदिओ मओहिं पि महानदिशाएहिं । गुरासाण-
 त्वसं धम्मकहाइ-पुब्बयं विष्णुवा - ‘पात्तारचं वाच चिहंतु सुणियो’ । वेव भवियं -
 ‘किमेत्थं पुणरुपोवणासेवं ?, वंच दिवसाणि चिहंतु’ । तेव भवियं - ‘जइ एवं, ता
 एवे चाओ, उक्ताओ चियं टायेतु । तत्रो सजावानरिसिणं भवियं नहुर्या - ‘किमेत्थं
 पुणरुओ ? चिहंतु ताव नगरसुजाणं क, मम रजे वि तत्र-पासंटाइनेहिं निम्नजाएहिं
 वच-तत्रोहिं वेवाइ-दूसएहिं व टापं । ता हरियं मम रजं सुवइ, जइ वेविण्व कळं’ ॥”

तस्यो मनुष्यस्य-कोवानलेष्य भविष्यं विन्दुसाहस्य - 'तदा वि सिन्दु वपायं द्यर्षं देतु' ।
 तस्यो भविष्यमयेष्य - 'एषं वा जद्द सिन्दु वपायस्युत्तरं' पेच्छिरस्तामो तमपस्तं ह्यप-सीतं
 करेस्तामो' । तस्यो मनुष्यस्य-दाहना-कोवानले वदितुं पयदो वि । अवि य -

कल्प्य कर्षत-सरिसो, संगानिव-सपल-सिन्दुवपाभोगो ।
 कल्प्य तस्मरवि-विषो, निष्वासिव-सिन्दिर-सिन्दरवो ॥
 कल्प्य चंद-सरिच्छो, निय-कर-वदिवन्न-सिन्दिरा-भोगो ।
 कल्प्य सुसिंद-सरिसो, सिन्दुविव-सोपय-सहस्तो ॥
 कल्प्य य पत्तय-हरि-सयो, उम्भुसिय-गिरि-वपाभोगो ।
 कल्प्य तियवप-सरिसो, सपमेके सीन-टिप-चंदो ॥
 कल्प्य य मयस-सरिच्छो, निय-कवावयव-सुल्लिय-वियसोगो ।
 कल्प्य कुरंत-चको संगामे भरहनादो व ॥
 किरिदी कुंडली माली दिवसई महजुई ।
 वचुवाणी वजुवाणी व दिव-सगनी महाकली ॥
 ह्य नाषानिह-रुवो वदुतो सो कमेण मेर(ह)-नवी ।
 जाओ औषण-लससो सुवस-वग्गण-सौदिसो ॥
 उच्छलिया कलनिदिपो रमेन-तरग-मच्छ-पडहरथा ।
 मय-वेदिर-तरलच्छा दिसामईदा विओ नडा(डा) ॥
 मह-मन-काविणी विव परंपिया दीन-कापण-समेया ।
 वसुहा वदिवद-दुचं सरिया संपदिया सहा ॥
 कुदिया गिरिषो सधे जोहस-चके पि सिन्दुषं हूर ।
 सुहा वप्यसदेवा सवर्ष चिय भवषवासीहि ॥
 सिन्दुवप-संसोभाओ कुविने ददूग सुषितरं हरिया ।
 पदुविवा से पातं वावण-सुरसुंदरि-समूहा ॥
 गापति कल्प-मुले 'कोशोपमो जिषोहि पन्थो ।
 मा कोवानल-ददुवा जीवा वचंहु नरपन्थि' ॥

'अं अतिक्रम चरित्त' गाहा ।

कोहो व माते व अतिवगहीया मत्त व लोच व पन्तु, कु'मान्ना ।
 कस्तारि यो वसिजे वसतय सिच्छति मूलाइ पुण्यभवसस ॥
 उल्लमेण हणे कोव माय नदपया तित्ते ।
 माय नदवप-मयेम कोम ससुद्धिय जित्ते ॥
 जे चंदमेण मह अतिपद् वारिणा वि लच्छेउं ।
 ससुवह जे य निदय महरिसिपो लख सम-व्यथा ॥
 कोष चरितापकरः सर्वस्यंद्रेणवराकः श्लोक ।
 कैलुपवज्जलकः श्लोक. अरेवः सुसिदिन्द ॥

एवं चिप सेमाओ वि क्लिभ-स्यपरि-देव-रमणीओ ।
 नभंति य पायंति य कीचोचममेहिं वपणेहि ॥
 संस्रोदिय-डेहोषो पलउप्याओ इमो वि कलिउल ।
 सञ्चापइ(च)पे ग-सुरे लोपा पूंलि सिप-देउं ॥
 गुरुकोव-सुभ हुंकार-पयगमन्ग-द्विवा महासेत्ता ।
 भय-दिद्धि-तिपन-सुळा खलोवयारि(र) इ निहदेति ॥
 कय-पूषा-मकारो जिम-वदिमार्चं चउविरो संपे ।
 काओसग्गेम ठिओ संदि-निमिनेण मग्गम् ॥
 कलनिहि-सुवविहाए पायं कउलम सो पुणो निविओ ।
 अवरसमुईं त मिय-मचं घरणीए छोहुव ॥
 इय देव-स्यपर-नरवर-मररिसि-गंधव-सप-ववणेहि ।
 सुरसुंदरि-वगहर-गेव-गडु-जिग-सिद्ध-संनेहिं ॥
 उवसामिओ महप्पा पुणो वि घोर तग करेउव ।
 तं ठाणं संवतो जत्थ मया खीप-कम्मंमा ॥
 चकहये वि य रजं विवाग-कहुयं मि जणितं ताडे ।
 नरवइ-मइस्य-सहिओ मानग्गे विहरिओ(उ) सिद्धो ॥
 सुपदेवि-वसाएणं सुयाचुसारेण मादियं चरिं ॥
 संसेवेण महत्थं मिसुमंतो उइइ सुइमउलं ॥
 ॥ विणहुकुमार-वप्पाणयं ॥

निच्छंति कइ वि किरियं मुणिपो रोमाउरा वि चिर-त्थि(स)त्ता ।

नाणाविह वाहिसो सणकुमारु व मुणि-सीहो ॥ ६९

[नेच्छन्ति कयवरि कियं मुणपो वेवालुग अवि सिस्सत्ताः ।

नानाविषय्यापियान् सनत्कुमारकत् मुत्तिभिः ॥ ६९]

कथयिदम् ?—

— [९४. निःस्पृहतायां सनत्कुमार-कथा] —

जह वयउरम्मि जाओ जहा हिनी जह व पापत्तं पत्तो ।
 जह अत्तिपक्खो विविओ खयर-पहुओ व जह पत्तो ॥
 जह य सुनंदा दिट्ठा सणकुमारेति रोविरी रग्गे ।
 जह वज्जवेराखरो पट्टविओ अंतप-धम्मि ॥
 माउ-मरणेण कुविया जहा व ससाराणी वि दिट्ठम्मि ।
 मयक्क-सर-सहिंयंती सणकुमारेण उइइ ॥
 जह व हिवा जह पत्ता चंद-सुया जह व अचुपवं चंदी ।
 जह हीए सा दिव्वा पक्कणी जह य से वपओ ॥

असणीवेगो पत्नो जह पुञ्जमासि तेण सह धीरे ।
 मो वि य पुत्र-वहेषं बहुविधो नरवह-सुएण ॥
 पिह-माह-मरण-तविषा जह संज्ञावली समोपहविषा ।
 चंदेण जहा पत्ता वेपडे माणसं पुण वि ॥
 आमासिऊण नुरुणो महिदसीहेण जह भमनेण ।
 दिट्ठो सखंकुमाणो सर-सीरे खहपरी-महिओ ॥
 वेपडे जह पत्ता पुणो वि मूणि-वयण-कचुइ-कहिण ।
 पुत्रभवे परिणीयं चंदम्मं मयं पि भूयाए ॥
 विजाइराहियत्ते चंडं अहिमिचिऊण निय-नयरे ।
 पत्तो सखंकुमाणो महिद-सखरिंद-व(व)हु-महिओ ॥
 गुरुणो जह परितुड्ढा महिदसीहो य पाविओ किरिं ।
 आपण्डिय मयल-ऊणं वड्डारणयं जहा आत्ति ॥

जहा य — सोलम-उक्खय महग्गा तहुगुणा रार्हणो तओ इगुणा ।
 रमणीओ भव निदिणो चोदम म्यणाणि भग्दं च ॥
 सिद्धे इमंमि जाओ चफहरो नियमनह-संकाणो ।
 अणुहवद महामोणे जम्मंतम-जणिय-पुण्णेण ॥
 जह सुरनाहो जंघह सखंकुमाणस्स आरिसं रुवं ।
 तं कत्तो नियसाण वि ? का चित्ता सयर-मणुएणु ? ॥
 सुरवणो तं वयणं असदहंता दुबे सुरा पत्ता ।
 दिट्ठो जसोवइट्ठो वंभण-रुवेहि देवेहि ॥
 अब्भंगिओ नरिरो तेण वि आममण-कारणं पुट्ठा ।
 तुह रुव-दंमणत्वं तं डिट्ठं सिद्धमेएहि ॥
 केरिममहुणा रुवं ? प्हायालंकारियस्स मे रुवं ।
 वेण्ठेअह पडुविषा दहुं प्हायं पुणो विलिया ॥
 नरवड्ढा ते भणिया हरिम-ट्ठाणम्मि द्ढग्गा कीम ? ।
 कत्तो हरिम-ट्ठाणं ? मवं नाहेति हरि-भणियं ॥
 आरिमयं ते रुवं पुवं ते पुल्लयं तओ इग्दि ।
 वडुइ अणंन-हीण वहुविह-वादीहि जं भियं ॥
 'जस्स कएणं पावं कीरह जह नाम भविय अणिय ।
 असुइ-चिरमायनायं वहुविह-दुक्खान कुलभवणं ॥
 ता रत्ताइ-ममुक्खय-पावेण अलं' ति भाविठं धीरो ।
 नरवह-सहस्स-महिओ निक्खंतो जिणवर-मयम्मि ॥
 महणासेवणरुवं किरियं नाऊण कुणइ रमम्मि ।
 धीरे महात्तवं सो जह उदिता सख-वाहीओ ॥

निष्पदिकम्म-नरीरो पीडित्तो वि वाहि-विपणाहिं ।
 अहियासेउ महत्त्वा महाह्वयी मुणिय-परमण्यो ॥
 इदं सर्वकुमार वाही-विपणाउर हरी भण्ह ।
 कय सपरवेरु-वेसो वाहीओ अहं वणात्तेमि ॥
 सो मुणिया संलओ इह-पर-वाहीओ काओ अवणेत्ति ? ।
 तेण पलत्तमिह-कदा अनणेमो नेण कल्लोवा ॥
 आमोमदित्तडीए महमाणमंमुयी कुसेऊण ।
 उरुवादिपापर-भारिया मुणिया से दापिया कण्य ॥
 ताहे अप्पार्यं संसिऊण नमिऊण साह्मो वल्लये ।
 संपणो निप-उणं ससो एसो वि लु वाही ॥
 अहियासिऊण मम्मं वात्त-नवा मत्त पच्छिमे काले ।
 कय-मत्त-परिणाओ सप-कुमारम्मि संपणो ॥
 उइ कुरु-वणउर-त्ति-भाइ-वमिह सर्वं मन्दिस्वर भवियं ।
 कस्सेण निपय-चरिह उइ सर्वं संकहेवणं ॥
 सुपदेवि-पसाएणं सर्वकुमारस्त ताहियं चरियं ।
 संक्षेपेण महत्तं निमुण्णो लउउ कल्लणं ॥
 सर्वकुमार-कम्माणयं समत्तं ॥

गुण-दोष-विशेषण्यु असरिस-गुण-दंसणाओ बुद्धंति ।

जह य दिवंबरलडो बुद्धो इदूण मुणि-चेट्टं ॥ ७०

[गुण-दोष-विशेषण्णा असत्तगुणदर्शनाद् बुध्यन्ते ।

इवा च दिवम्बरश्राद्धो बुद्धो इत्थं मुनिचेष्टाम् ॥ ७०]

कथञ्चित् ? -

— [९५. विशेषज्ञतायां दिगम्बरश्राद्ध-बोधकथा] —

अपलपुरे दिगंबर-वतो अरिक्केवरी राया । तेण य कागविको महापाताओ, प-
 ष्ठाविषामि तित्थवर-विषामि । कयविषा दाप्यसाहा, अणुदिग्धं सुंगावेद परमादारेणं
 पंच-रिसि-सपामि । अण्णा सत्त-चिवाए सीदपाए बुद्धाविषा पंच दिषामि वृषिणो ।
 यणे य अंतरीचसे तित्थ-दंसणाओ वण्णि वावो । तयो इदुओ भाषाविषा लणुया ।
 कओ एमत्थ रासी । पण्णिसयं सुद-वणं । पुवासीय-उहिगा व कुण्णिऊण पेतीए
 दिवाव द्वाविषा पिहा राप्पा समवपाम । मवाट्ठा बोधुं । पित्तिपं राह्णा -

“काले दिवस्म पश्येयस्म अण्यो न तीरेण काउं ।

सो थेन अक्खल-वणामिणस्म गेहूहंतथा वरिष ॥”

धेव-वेलाए य सुत्तरचोववासी गोथर-चरियाए रीयंतो वनो धम्मरुद्धं नाम सिपवहो । धम्महाइ-पुववं य द्विओ से पुवओ । तओ भणिया राइया पुरिया - 'देह एवस्स सुणियो सुत्तुगे' । अइया संति काठ अभिण्हो निवचो सुणी । राइया भणियं - 'हो ! कीस न मेण्हति ?' । सुणिया भणियं - 'न सिण्हण-जोम्मा' । राइया भणियं - 'किं सचेयथा एए ?' । सुणिया भणियं - 'न सचेयथा, सचेयथासुगय'ति । राइया भणियं - 'सउं(वं) सचेयथा पुरित्त-सुयथा, न पुण अण्ण-जीवेहि' । सुणिया भणियं - 'अण्णोहि वेदिण्हि अणुगवा' । सुत्तुवं भणियं राइया - 'भो ! कओ एत्थ किमियो ?' तओ दरिणिया सुणिया । चलिणए द्वाविंसे दहिंसे, तं वि रत्तय-संमन चि पडिलेहिइत्थ न गहिंसे । तओ स्रोसं भणियं राइया - 'किमेत्थ किमियो पडिवा ?', जेण न मेण्हति ?' । सुणिया भणियं - 'वडिया । अपेच्छंतेण किमियो भणियं राइया - 'अहो ! सरिणित्त-मच्छराओ अण्ण-चाइयो सिपवडिया' । सुणिया भणियं - 'नरिद ! मा एवं जेणु, को सुणेषु मच्छरो ?', किं य अलिण ?'ति । जेण भणियं - 'ता कण्णेत्थ जंतुओ ?' । तओ वड कइ वि निरुद्धं पुत्तयंतस्स दाविया रस्सया । सुत्तरज्जलं च यओ राया धम्मरुद्धो समीवं । तओ भावसार सोऊण साहु-धम्मं, पच्छा अवषय-ममीवं । एगले च पुच्छिओ कुमारनदी - 'मगवं ! खमणाव सिपवहाए य एओ सिपवयो मानीओ, जेण य समणाव सिपव-हाए य जीवदयाए धम्मो कहिओ । जेण जीवदवा-पालनार्थं सेतामि सचाईमि वयाणि धरिजंति, ता पुण जीवदया अकिमल्य न वण्ण-वचाइ-रहिण्हि मादिक्खं, न य ताणि परिगहो; जेण भणियमागमे—

“अ वि य क्खं न पाव ता वेज्जल पावपुंज्ज ।

सं वि सज्ज-कक्खहा धारिणित्ति परिहरिणे च ॥

न तो परिमण्हो सुत्तो नायपुजेण लल्लण ।

तुच्छं परिमण्हो सुत्तो धं सुत्त मेहल्लिण ॥”

जहा इहुणियचरिए नाय-द्वारं, सहा वच्छं । अणं य किं तुग्हाए तित्थपरेण न साहिवा जीवा, अह सिपवद्वारं ? । तओ सणित्थरं सिपेवर-चिद्धिणमागमासुसारंण सोऊण राया सिपेवस-सावणो जाओ चि । सुणो वि विज्जवं राइया - 'मगवं ! कइ पुण इह-परलोक-फलमत्थिया मंत-उत्ताइ-विहाणेण एमेसरो हाइयो ?' । तओ परवण्णवणो चि काऊण भणियं गुरुणा -

“प्रथम्य लब्धकारं महावीरं सनात्तनम् । भुत्तदेवीं सुद्धं चैव परं तव्यं अवीर्यहम् ॥ १

शान्ताय गुरुवक्तव्यं किनीनाय मनसिमे । अद्वावते अद्वातल्पं जिय-भक्ताय दिने दिने ॥

अकारादि-दकारान्ता प्रसिद्धा सिद्धमाहता । युगादौ या स्वयं श्रेयसा स्वर्गमन महात्पन्ना ॥

एकैकमात्रं तस्यां तत्त्वरूपं समाहितम् । तस्यापि शीघ्रि तस्यानि येषु तिष्ठति सर्वविद् ॥

अकारा ज्ञयं तत्त्वं सर्वभूताद्यप्यदम् । अण्डदेशं समाहित्यं पत्नी सर्वदेहिताम् ॥ ५

सर्वार्थमानं सर्वगतं सर्वव्यापिं मनोवन्तम् । सर्वव्यापयित्वा दिव्यं चिन्तितं पापनाशनम् ॥

सर्वेषामपि वर्णानां सराणां च पुरि सिताम् । स्वज्जनेषु च सर्वेषु ककारादिषु संसिताम् ॥

सुषिण्यादिषु भूतेषु देवेषु समनेषु च । लोकेषु च तर्षेषु सागरेषु सुरेषु च ॥ ८

मन्त्र-सन्धादिपौत्रेषु सर्वविद्याधरेषु च । विद्यासु च सर्वास्तु पर्वणेषु वनेषु च ॥ ९
शब्दादिसर्वशास्त्रेषु व्यन्तरेषु वरेषु च । पद्मेषु च सर्वेषु देवदेवेषु मित्स्वजाः ॥ १०
म्योमन्त्रं व्यापिक्रमेण सर्वेष्वेतेषु संस्थितम् । नामः परस्मै प्रथमं विद्यते मुनि किञ्चन ॥

इदमाद्यं वनेषु पश्य 'कलादीते कलाविनम् ।

नाम्ना परमदेवस्य ध्येयोऽस्यौ शोधकाङ्क्षिभिः ॥ १२

दीपपावकर्मचार्यं सर्वेषां क्षिप्रं स्थितम् ।

विधिना मन्त्रिणा ध्याते त्रिरर्गकन्दं स्तुतम् ॥ १३

पश्य देवाभिधानस्य मध्ये क्षेत्रं स्ववन्धितम् ।

पुण्यं पवित्रं मन्त्राद्भूतं पूज्योऽसौ त्रिरर्गजिभिः ॥ १४

सर्वेषामपि भूतानां नित्यं यो हृदि संस्थितः । दर्पणे सर्ववर्णानां गङ्गोत्पलस्रवा ॥

इकारो हि महाभागः शोकसाक्षेण कृत्विः । विधिना मन्त्रिणा ध्यातः सर्वकार्यप्रसाधकः ॥

पश्य देवाभिधानस्य पर्वणे एव वर्तते । सुसुष्ठुभिः सदा ध्येयः 'म देवो मुनिपुङ्गवैः ॥१७

सर्वेषामपि मन्त्रानां नामाग्रे परिलिखितम् । चिन्द्रे सर्वेषामां क्षिप्रं मुन्यवस्थितम् ॥

इकारोपरि यो चिन्दुर्धनुरो जगदिन्दुरग्नः । शोचिभिश्चिन्दितस्यैव शोधकः सर्वदेहिनाम् ॥

श्रीव्यधरायि चिन्दुश्च यस्य देवस्य नाम वै । न सर्वज्ञः नमालयातः अहं इति पण्डितैः ॥

एतदेव समाख्यते कला चार्द्रचतुर्विधम् । नाहं-विन्दु-सत्त्वाद्येति कीर्तितः 'परमादिभिः ॥

सूतो ह्येव अमूर्तश्च कलातीतः कथयन्वितः । सूक्ष्मश्च वादरथेति व्यसोऽन्यत्र च पश्यते ॥

निर्गुणः सगुणश्चैव सर्वगो देशसंस्थितः । अक्षयः क्षयपुत्रश्च जलितः शाश्वतमथा ॥ १२

सुपदेवि-पमाद्यं हृषि-क्षयप-नावपाव चरितार्द्रं ।

कटिपाथि तो निमामद्रं सुंदरमिपरं च नो हृषदं ॥

अच्छठ ता परस्त्रोमो जीविय-रिदथावहो नमोकारो ।

इह लोगम्भि वि दिष्टो दिष्टो साययसुष्ण ॥ ७१

[तिष्ठतु तावत् परलोके जीवित-निष्पापतो नमस्कार ।

इह लोकसि य एते इहन्तः आनकसुतेन ॥ ७१]

परलोके सुरसुख-शोषफल इति । उक्तं च—

“इह लोके अथ कानां जन्मन्तः अतिरह्यं निष्पत्तौ ।

सिद्धौ च सगं सुसुते पश्यन्तः परलोके ॥”

— [१६. नमस्कार-प्रभावे आचक्षुप्त कथा] —

कथमिदम् ?— रायपुरे सप्तहिमप-जीवाजीराज-पपरथो संकट-कल-रहित-सम्पदा-
महारथमातंकिरो जिव-साहू-पुपारथो जिवमदो नाम सायगो । पुत्रो मे जन्तु-
दिशो । सो य साययसुष्णमवो वि जन्मन्त-अशिव-पारकम्पोरप ह्यिभो अलिपवाई

कोरो परदारी कृत्रपरो मत्तललो कुमिमाहरो पर-वत्तवकारी निर्दुपयो लुहो
निकललो बहो पायी अक्कणो नि । अवि य -

दहो व दोम-निलओ उल्लियगिलो जयम्मि लणो व ।

दिहो व छिहु-वाह् भव-जगओ बीम-रक्कओ व ॥

- ४ एवं च लोकार्णार-विमलापरो व पचो जोडनं । विगो(वा)ल्लिओ जगव-न्हिओ ।
मग पञ्जरनामवाए जीनलोपसम मत्त-मत्तए मग्ग्वा-सुवर्ष भविओ लक्खण - 'अणु-
चिओ वेर चित्तमणी पावम्म, तदा वि सुप-सिण्णोहेण भगामो - आत्तवकाले नमो अर-
हंतारं नमो सिद्धत्थमेउमाहओ पंचनमोकार-व्हाअंओ सुमरिवहो' । तावगो वि आमम-
विहिवा मोल्लव देहं कओ देवलोअं । सुधो वि कात्थिय-वर विहवो पण्ण पर-परिवा-
५ दीओ कुच्छिप-क्कम्मणि काउमहहओ । दिहो कात्थल्लिएणं 'जोयो'वि भविओ - 'अहं
कीव निज्जावरो चिहुमि ?' । तेण भविणं - 'कि जरेमि ?' । कात्थल्लिएणं भविणं - 'अहं
मज्झं भायं करेसि, तओ ते विहेमि अहिच्छिउपं दहं' । 'महापमाओ'वि भगंओ वपओ
ममायाअिहि)अहं मद्द कात्थल्लिएणं । पया दुग्ग्हिअंअ-भूमि त्रिवडिय-सव-सव-समाउत्तं
६ किलकिलंत-नाषाविह-भुवमव तमदानियं मानापहुद्द-करकरावमाण-धद्द-विद्यापुचयं
विपरंत-वीर-रक्कल्ल-पिमाव-हाहणी-निरत्त विह्वरणं । जं च; अवत्तारं चिं जीवलो-
गत्त, सिउं चिं काव्हामिओ, कुलहर पिउ कयंतल्ल, बीमम-द्वारं पिउ मसुओ,
निवाओ पिउ महात्तव-वडभाउम्म वि । अवि य -

"मासेसु विससु छिंदसु संसं हरिह य वेण्ण एताओ ।

सुवति अथ सदा अहमीमा रक्क-भूवाण ॥"

- ७ कओ आण्णविओ अकल्लप-महपं । तेण वि तद्विउमोत्तंविणं आणीयं महपं । एत्थं-
तरम्मि अरथमिओ कमठिणीनाहो, पिपमिओ संज्ञा-नाओ, सत्तुल्लिओ बहल्लतओ,
मउल्लिओ कमल तंओ, चिपमिओ कुट्टुपागरो, निलीओ पक्खि मओ, पमरिओ धूव-
सओ, पवहो वृवा-मओ, आउलीहओ कामिणी-मओ वि । अवि य -

"अत्थमिए दिवनाहं बहुवर-विहण्हि रोषए नल्लिणी ।

अद्वा मित्त-विओमो भा कम्म न द्गहो होहं ? ॥"

- ८ तओ विचिच-रण्णोहिं सिहियं कात्थल्लिएणं मंडलं, मुक्का सुपाए सिरा, अरियं
हरिहम्म कवाळ, पञ्जालिया वणाए रईवया, अफ्फल्लिओ उमरुओ, वक्खिअणं कलीए
एह हरिह, पट्टिअिअं मपमाओ भूण्हिं । एवं च निज्जिवासेत-उक्काओचिय-हापवेण
निवेत्थियं महपं मंडलए । निहियं ते दाहिय-करे कराल-कमवाळ । भविओ लो कावा-
९ छिएण - 'वणाए महपसम चत्थे अक्कसु' । तदा कए सनाहओ मंतं परिचित्तेउं कावा-
ल्लिओ । सण्णरवाए मंतसु पवत्थियं वणाव महपं । तओ संसुद्द-चियेण सुम-
रिओ पंचनमोकारो तावय-सुण्ण । निवटियं महपं । पुणो वि माउत्तं परा-
वचिओ संतो । अद्दुहियं महपं । पंचनमोकार पराउत्तवाओ दुव-वाणए वि पडियं
महपं । तओ बुच्छिओ कात्थल्लिएण - 'ओ ! संतं न पाणति ?' । तेण भविणं - 'अहं
साहेमि, तओ आण्णमि' । तओ अक्कथं परावत्थिद्दं मंते अहं-दुहाअं मद्दिअ-अण्यं उप्पहणं

गवर्गगणे, अमिद्वय शेषवर्गं 'दुष्प्रादिवा किवा गह्वरस्य पद' वि वापाह्वय
 इ(अ)सिवा कावालिपं चडिपं चडपं । त्वाओ कावालिओ दोधि सुवम्भ-कोटीओ । तओ
 संजाय-पचपण य निदिओ सावय-सुवण अथा - 'अओ ! इह-सलोम-सुवायओ न मण
 पावेय कओ सुवणएओ, तेण दास्य पमणं तंपनो मिह । नओवण-सुवणयो व न
 वातइओ, अओ व जाओ; तपभावाओ चम्माइओ वि नविसंति । जा महासुभाय-
 वय-वम्भमसुवणयो न पिहओ आना-चओ इव वि । अपि च -

"नान्नान्त मदान-वज्रगदरिण्यतलम्यमस्यवहस्यवहस्य

ये मायेवासुवतां क्षमये इतिष्ठ सुवण्णतानेइह ।

तेऽवस्व भूतस्वैस्वरणस्वरलतागह्वरेभ्यंति सुओ

प्रवन्सुवण्णमुपया न भवति विहये वीगित्तार्थभिलस्य ॥"

चवृत्ते पडिपञ्च-नाम्भवम्भेय न्धिओ इंडगमिओ - 'दाएसु रावयं' । सुवण्णं
 भविण् कइ कइ वि दाइओ गया । नाहिओ एण कुचंणे । चवृत्त-पुरिसोवत्तइ-वचपण
 य अणुसायं तं वस्सेव सुवण्णय । सइहा जाओ परमगावणो । तओ तिक्क-सार
 परत्त-संवाइव-मथाइ वीपलोम-सुइमसुइविडय च्छिण्ण-वचमि आगम-विदिवाइय-
 त्तयं पंचनओकार-परो चओ देवओचमि । उषयाओ कापयो ।

सुपदेदि-पमाएणं सुवापुमारेण मावयसुवण्य ।

पंचनओकार-कलं सिद्धं तिसुपेउ मोक्कस्सी ॥

सावयसुप-उषयाणं 'समत्तं ॥

कुलवधु-हयराहणं सोऊणं निम्भमेव वट्टेजा ।

संजम-जोगेसु इदं इच्छंती मासयं सोवत्तं ॥ ७२

[कुलवधु विज्ञाचोदाहरणं कुला नित्तमेव वट्टे ।

सपसपेणेषु एमिउत्तुं शायनं सोवत्तम् ॥ ७२]

इयरः विज्ञाचः । कुलवधु विज्ञाचा-भयसुदाइएण्ण, तेषं स्पष्टम् । भावार्थस्तु
 क्वानकाम्बामजलेषः ।

— [१७. संयम-प्रवृत्तौ कुलवधू-कथा] —

पंडनद्वये नपरे एओ इम्भ-सुवाणओ संसुण्ण-ओवणं निवय-जायं मोचुण गओ
 देसंतं । समदंशंताणि एकारम चामाणि । अथावा सुवत्त-ओम-उम्माइय-जयणे कुसुम-
 रय-रेणु-गामिभणे विपंभिव दाइयानिसे सत्तुच्छलिप-कलपळे म्पहर-चवरि-सदापादिप-
 त्तया-यणे पपट्टे महु-नवर महिपापण-परिवुहा गवा चाइरुआणं वहु । दिइयाणि
 सिपेइ-मार चइवाय-पमेहुववाणि वीइियाए रयताणि, अथावा सास-मिहणयाणि,
 तु(पु)च्छंओ इंनओ ईनिचमसुवितो । तओ काम-ओवणवाए पसंतस्य, सम्पणए काय-
 कस, समुक्कइवाए परिवचस, अणेव-नव-अनत्थवाए गाम चम्माणं, निनाए-चत्तमाए

जोह्यस्त, चंचलत्वात् इदिवार्यं, महावादी विव वपटिय-महादुक्थो चिचमिथो सर्वमिथो विसमनरो । चित्तिचं च वाए- 'चोरीयो तेव निचुडएण दिचो अवदी, न संपचो, ता चवेसेमि सुवाचये किचि' । मणिया एएण वडवणेण रहस्म-मंजसिपादिहत्था पेदी । तीए चणियं-

“एचिय-काळं परिचित्तज्जं मा लीउ-सउणं कुणसु ।

को गोपयमिन् बुद्धं जसहिं तरिज्जं वाडो वि ! ॥”

वडूए मणियं-‘हले! संवयं नमकुपामि अणंग-वाग-वाये, ता किमेत्थ वडुणा! ववेसेसु किं विं । तीए मणियं-‘जह एवं ता मा इणु, करेमि मे सवीरियं’ । लो सो सादिओ एम कुचंनो साएए । तीए वि भतुवो । तेव वि तीए सह वडव-कलहं कालजं
 * मणिया वडू-‘इच्छे! न एमा लव साह, वन-वात्तणस्म जोग्गा, ता वटिय(व)पसु सर्वं तुमं’ । ‘एवं’ति पटियमे निरुचिया सवेसु गेह-कायसेसु । लो रयणीए चरम-जाये उड्डिउत्तं तंदुसाई-संठण-पीयण-नोहण-रक्ख-परिसेव(केम)प्राईमि, अप्पाणि व अणेगाणि कायहाणि जहम्भ-मञ्जिसुचपाणि करतीए कुसुमावत्थ-नरथ-तंबोल-वित्तेवण-पिसिह-हारहि(इ)-रहियाए कयेण वचो रयणीए पठम-जावो । भुवं सीयल लुक्कनचुचिय-
 * भोवणं । अचंत-सिन्धा पनुत्ता एमा । एमणुदिणं करतीए पणइ-रुज-सावण-तंबोल-विलेक्क वम्महाए बोली-यो कोइ कावो । ‘अवसणे’मि काळजं मणिया दासुवेदीए-‘किं आवेमि पुरिसं ?’ । तीए मणिय-‘हले! मूटिया तुमं जा पुरिसं ज्ञावसि, मज्झं पुण भोचये वि संदेहो’ । काळंगरेण व आसजो वचवो । कयं पटानणयं । तुडा वडू सह गुरुपयेणं ति । एनो उपचओ-जहा तीए कायवान्ताए अप्पा रचित्तओ, एवं साहुवा
 * वि किरिया-जागाणुडुमोचं ति ।

सुपदेवि-पसाएणं सुपासुसावेण सादियं चरियं ।

वडुवाए नितुणतो अप्पाणं रक्खए पुरिसो ॥

— [९८. निस्यप्रवृत्तौ पिशाच-कथा] —

दुखं-अवि कंचणपुरे महेश्वरचो वाणिको । तेव व मदिहाणो वाणिको कओ वि निसय-साहणो मंतो । काळंगरेण व सिद्धो पिशाओ । मणियं च जेव-‘सर्वं पि नाई जहावारी परैवथो’ । ‘एवं’ ति पटियमे दिक्का वणिएण आणा-‘करेसु सचभूमि-वातंकिचं वातायं’ । ‘मणसा देवायं कज-सिद्धिं’ ति कओ वासाओ । पुणो वि दिण्णो आएसो-‘अरेसु सुवम्भ-दित्थ-धम-वसाईयं’ । वम्मि निवविए आणापिया कोसल-विसपाओ करिथो, उचरावडाओ तुरंगमा ति । अवि व-

“वं वं जंक्क वणिको वं तं सर्वं करेइ सो दयरो ।

पच्छा दिक्कंसाओ सभभाणाविओ तेव ॥

मिचिसचिउं भुवीए उचर-वडुवाइयं कुणसु ता एत्थ ।

जाव अवसरेण आवं परिभित्थिय देमि यो ! तुज्ज ॥”

तयो जाणित्तम से निण्णत्तं विट्ठो - 'उत्तेण संबरेत्तु, वेण मे समीहिंयं करेभि' ।
उत्तमओ कापओ । उक्तं च वाचहमुत्तमेन -

‘वैशाखिज्जनाकव्वल्ल सुत्ता गोपाक्का च सुत्तवत्ता ।
उत्तमयेवैत्तमा निरुत्तर व्याकूट’ कार्ये ॥” इति ।

पिसात्त चत्वाणप ‘सामत्तं ॥

तव-नियम-संजमाहसु ठाणे ठाणम्मि जो विसीइत्था ।

संतय-सुबुद्धय-सरितो नोत्तवो नो सुसाहूहिं ॥ ७३

[तयो नियम-सच-भद्रिषु स्थाने स्थाने यो रिपीदेव ।

संतक-ब्रुह्मक-कथो गोकन्धः स मुत्तापुमिः ॥ ७३]

तयोऽनशनादिवादनभेदम् । नियमः इन्द्रिय-विषयो भोऽन्द्रियनियमश्च । संयमः
सह्यश्चमपगतः, आदिगन्धात् समित्यादिपरिग्रहः । एवं स्थाने स्थाने पदे पदे संयमः
नित्यं तस्य ब्रुह्मक इत्यवगार्यः । भाष्यार्थस्तु कथानुक्तमर्थः । तयोर्दम् -

— [११. विषयगत्यागे ब्रुह्मक-कथा] —

एवो ब्रुह्मयुत्तगो तदारूपायं वेणयं समीये चंचनदवच-उत्तरुत्तं पुत्तापविकई ।
चचकसाह-पचागावाइयं तित्यवर-पणीयं सुमिधम्म निगामिउत्तम तत्तात्तापुत्त-निवविवा-
तेस-कायवो ममुत्तप्य - संवेवो वुचच-सहिओ ‘चइओ । गहिवा वेण दुविहा सिक्खा ।
जो वेत्तओ भवइ - ‘संत ! न त्रामि उवाहणा-भरिओ चक्(चं,मिउं’ । तओ
सिण्णेत्थे अकायवं वि सुत्तगो से देइ । अपि च -

‘यत्त वेत्थो भवं तत्र वेत्ताद् दु कम्म नाज्जनम् ।

वेत्तात्तामि तु कम्मि उचित्तवत्तो पर सुत्तम् ॥”

‘अत्रावस्था सक्तस दुक्कम वेत्तति नेह-पण्डित्तया ।

सिण्णति निज्जम-सुह विविक्खा वेत्-वासाओ ॥”

अन्न-दियहम्मि ‘न सकम्मोमि आयवं सोटुं’ तओ सीस-द्वारियममुत्ताण्ण । अमणा
‘संत ! न त्रामि लोपं महिउं’ तओ सुत्तेण सुत्तावेइ । ‘संत ! न संघारं विहाइ’ ति -
तओ पचन्नापच-त्तिउत्तमयुत्ताण्ण । ‘संत ! न त्रामि एकासत्तवं काउं’ तओ पट्ठात्तिवं
देइ ति ।

इय जं जं चिच मग्गइ सं तं मोत्तेण मोहिओ देइ ।

मोह-मूहाय अहवा येत्तमिणं सइ मचायं ॥

एवं किमिच्छिच्छि वोत्तेज्जमागो संयच जोत्तयो मण्डितामत्तयो - ‘संत ! न त्रामि
अविहवाय् विवा विहिउं’ ति । तओ पचहु-नेत्तेण ‘अत्तोगो’ वि कात्तल नीम्पिओ
साहु-मत्ताओ जणएण । विष्णावाइ विरहिओ अत्तपच-मपोत्तरो छवे च सात्-भोवच-

गरुड-वधाय विस्मृत्याय अद्रुक्त्वाभोवगञ्चो मरिडगोतकञ्चो महिगण्डु । संपन्न-जोष्यो
 न्हिञ्चो भम्महेण समसोविण-मरो वहिडमादणो । खंत्पमाहृ वि तथिण्णं विव
 पालिडण मिकलंकें समण्णं जाञ्चो वेमाणिय-सुरो । पउपावहिणा य दिट्ठो वेह्वप-वीरो
 संपन्न-वहिण-परियाञ्चो । पुड-सिबेहेण य काडण पुरिम-वेसं वहिञ्चो भम्महेहिञ्चो
 महिनगो सुरेण । विउदिञ्चो मरुण-भानो । तञ्चो तए विधेडण पुणरुत्तं मणइ — 'खंत्त ! न
 सकुयोमि अयोनाहणो, जाण अविगइयाण विष्णंति । पुणरुण य तुणेंतस्स ईहापोह-
 मग्गच-गवेसण करितस्स जायं से जाईमरणं । सुमरिञ्चो पुउचरो । तञ्चो कया त्रिपलेण
 चम्मकइह । कप-अत्त-परिचाञ्चो तमोकार-वरावणो मञ्चो देवलोए महिप्रञ्चो वि ।

सुपदेवि-पमाएणं सुपासुसारेण वेह्वप-कहाणं ।

॥ कहिणं वो सुपइ नरो लो विरस्स पाउठाभाउ ॥ वि ।
 वेह्वप-कहाणायं समत्तं ॥

तथि तवसो असत्तं तत्तो खती तहा वि सुपमत्था ।

मोत्तण महाग्गमए वेवइ सुरसुंवी खुट्ट ॥ ७४

॥ [नात्ति तपसोआप्थ वनः क्षान्तिस्तथापि सुपमत्ता ।

मुक्त्वा महाअपसान वन्दते सुसुन्दरी क्षुत्तम् ॥ ७४]

क्षान्तिवृत्तमिति शेषः । कवचिदम् ?—

— [१००. क्षान्तौ क्षुत्तक कथा] —

एगमिह मच्छे वामारत्तमि तिन्नाया विवसइहा रामग खुट्टणा । कइ वि पनाएव
 ॥ वापाइया समगेण मंडुक्किया । वेह्वएण भणियं— 'महरिसि ! मंडुक्किया तए वावइया' ।
 सेस-विनप्पाञ्चो दंसिडण भणियं समएण— 'रे ! कि इट्ठसेह ! एयाञ्चो वि मए वाव-इ-
 याञ्चो ?' । डिञ्चो तुमिहञ्चो खुट्टञ्चो । आवइमयकाले मळोइया खवणेण । वेह्वएण
 वणियं— 'समगरिसि ! मडुक्कियामालोएणु' । 'अहो ! अत्त वि दुराचारो अयुवंधं य
 सुंचइ' पित्तो से काडणत्थं सेसेण चलिञ्चो गहिण-सेल-महञ्चो । अंतरे थंमए य
 ॥ आवहिञ्चो मञ्चो समणो जाञ्चो जोइसदेवो । इञ्चो य वसंनउरे नवरे अरिदमणस्स
 रइञ्चो सुञ्चो अहिणा टमिञ्चो । पउइय-पुवणं य सेलिया मंतिञ्चो । तञ्चो एणेण वाएण
 तिदाविचाणि दोखि मंडलाणि मंधमथामंधगथाहिदाणाणि । सुमरिञ्चो सप्पावरिसिञ्चो
 मंत्ते । सप्फुरएण मंतस्स आगया नवरवासिणो विमइग । तञ्चो मंडणा मंधममंडले
 पविट्टा, अंधवया कुण अंधमणचमि । तञ्चो पत्तालिया चिःया । भणिया अहिञ्चो—
 ॥ 'जेण राव-सुञ्चो इको, तं मोसुं सेना मण्णेतु' । डिञ्चो एको अंधमणो । मंतिणा
 भणियं— 'विंसं वा उकाउ पिपसु, उठ्ठयं वा पविमसु' चिइवमञ्चो ऊहं नरं पिचामि' ।
 चि पविट्टो अलणे । राव-सुञ्चो वि मञ्चो जमभंदिर । तञ्चो राया नप्पाव सट्ठो सप्पा-
 हेटण समावेइ । जो य अहिञ्चो नीत्तमावेइ, तस्स दीवार इइ । एव काले वचइ ।

इतो य सो क्षमन्-देवो तत्रो जुओ समाधो उप्यन्वो दिद्विषिवाण कुटे । ते य जई
 सरमाणा दिद्विरे 'देहेस्मामो न विचनओ भवन्ति, नर रईए आहाराद् कन्ति ।
 अन्वया मंत्रिणा दिद्वामि ताव पवाणि । तयाशुनारेण दिद्वो विद्वे, तव्य सो क्षमन्-
 विद्वदो चिद्व । सुहाओ तेण तत्रोमहीओ, ताव तेयममहंतो जुन्तेण नीररिड-
 बावओ । 'या सम्मुहो नीहरंतो एव दहिस्माओ' । सो य अचिपं अचिपं नीधम्,
 तचिपं तचिपं छिद्व । श्वेव-विषामं भाविओ पंचनमोक्षार-पगो मरिड्वा उपवओ रइओ
 अगामहिर्सीए पुनचाए । सो य देवणा-परिमदहिओ । नीए सिद्वं रइयो - 'संपवं
 विरमहु विद्वद-भारवाओ, पुनो य ते करणो हविस्मह, नागदवाहिद्वाम य कावर्ष' ।
 विद्विद्व-दोहदप-संचाउभेण वद्विओ मवओ । तचिप-समए पइया देवी । जाओ
 शरओ । कपं महापइवावषं । परइविवं से नामं वावदओ वि । वद्विओ देहो-
 वचर्यं कला-कलावेण य । अचंतोपसना-गुणेहिं सुपेइ य जिगधम्मं । पुह-मनासेण
 सुहृओ विव परइओ । अवि य -

“उज्ज्व जम्म वद-महा दातम-भम्मज हव । तेनेवा-अपमेणिक दवेवा-भम्मते पुन ॥”

सो य अचंत-तिरिपाशुभावेण अईव-सुहाए, सुहृन्मसाओ आरम्भ ताव इंजइ जाव
 अत्यमन-समओ वि । अवि य -

वद्वंति जसल इंमण-नाच-शरिचाणि त-सुहृत्कसार ।
 वम्मि य गच्छे खमण तइति चचारि सु-वमया ॥

इदं चाउम्मात्तिप-समगो, तत्रो परओ वेचामिओ, तत्रो वि करओ दोमासिओ,
 तत्रो वि करओ मासिओ, तत्रो वि परओ सुहृओ वि । ते य तवे खमणे रोहिड्य
 रंदिओ सुहृओ नाव-सार देवपाए । निचवंती य मरिद्या चाउम्मात्तिप-समएण अंचले -
 'आ कइएपणे ! इयं परम-तवस्मिओ भोक्तवं एयं कुरमाहुपयं वेदसि ?' । सा मणइ -
 'नाउखमणइ वंदासि' । सा य तं सुहृपं न सुंछइ । अज-दिपइस्मि सुहृण्णे विप
 गदिव-रोसीषेण य निचंतिओ चाउम्मात्तिप-समगो । रौतुकि-लेण य निच्छदं भावे ।
 'मिच्छा मि दुकड'-पुइयं अमिपं चेछरण - 'उहर-वरत्थानवेण श्वेवओओ नेर-महओ' ।
 तं निच्छदसुदुरिड्य संवेग-सार निमंतिओ तेमासिओ । एयं चउअं वि निच्छदसुदुरिड्य
 तं(प)भापसुच्छिर्वतो गदिओ रामणेण हत्ये । संवेग-भाए य विनिवमणेण - 'अहो !
 से अधम्मवा, वेण तवं वि दिपइं प्पुणो विप आहारतम्म वचइ, अण्य च जाओ सि
 त्तेसिं कन्हादि इ उवेवकारी' एवमप्यापयं निंदनाचरस, कम्म-परिणइं नावेंउमस,
 कसाप-विचारं चित्तैतसु, संसारामारतयं मिहवैरस्म, पमायेसु अज्जवमाव-हायेसु
 वइवाचसु, समुच्छलित्त-तीव-वि(वी)रिपसु, समाउच-खवपसेटिणो, सुकज्जावाकल-
 निह्व-कम्मचउकपसु उप्यन्वं केवतं नामं ।

द्विप-दोम-संग-शर विरमकलंके हम्मि वरवाणं ।
 उद्वान्छे व जापं सत्तिओ य अपुव-किं व ॥

इतो मज्झिणा वसुमई, अवहरिया तिममा, अवहरिपं एव-रेजु-सहर-तवापं,
 परिचियं रंथोद्वं, विमुकं हनुम-वरिसं, विउरविंयं सीहासणं । निसणो तव्य मवर्ष ॥

दूत रोहिषा नमसी जियततुषा । तदाविह'-भविष्यत्तयात् य मनुष्येष्व-सतो राया
परिचचाहसो नमोकार-सो चरिउभोपचम्बो देवदोए । नागरएहि यं समपिष्ण
जियसतुषो नमसी । सदाविषा चचारि वि सायगा । तेहिं वाविषाणि नियच-विष्णा-
षाणि । नरमेगेन एसाओ जंषाओ तेहं न षीषियं । भषियं च- 'ओ मए सरिसो
होअ, सो 'नीहारिही तेह' । सो य तेह्णेन इहजंषो कालंतरेण य 'कामजंषो वि ताम
कवं । ते य ते धरिजंतां वि न डिषा, कातागुरुन-कय-कायवा महाविभूईए पहरया ।

कोकणव-विमए वेत्तमण्णुस-संज्जतं सोप्पारयं नमर । तत्त य रहगार-दासीए
वंमयेण जाओ दसओ । कयं च से नामं कोकानो वि । सो य अवंत-वेहासी । रहगारो
य नियच-पुणे सिक्खवेह । तेण य भोगजयं गहिंयं 'का ममं न सिक्खवेह' ति । ते य
मेहाविषो न वेणंति । कोकालेण पुण सविसेसं गहिंयं ति । अपि च-

"वादि-सत्तम-वेहात्वा काल-पापम-वासताम् ।

नरी-गुरुन-तोषाणमन्तर म्हरुत्ताम् ॥"

मरम-पञ्जवसायवाए जीपलोपसस रहगारो मओ । जाओ कोकालो जोगो ति दिषो
से रहगार-वर-विच्छदो राया । कालंतरेण कोकणे दुष्मिक्खं जायं । तओ भागओ
कोकालो उलेसीए । रहगो जागानगरयं जंतमयं-कवाडोहिं हराविओ से कुटुम्भाराओ
साओ । जापिळण निवेयं, राया वाहराविओ कोकालो । सबहुमायं च कपिया से
विची । समुष्यणो वीतानो । क्कराविओ जंतमओ गरुओ । तव कोकाल-महादेवीए
सदासहिउम राया उण्णओ मययेण आपावेह सब-राओ । मभ्रवंतो कोह काओ ।
मन्वी-वेहए य पुण्डिया महादेवी सेनदेवीहि - 'अए सीलियाए जंठ उण्णए, निप-
का वा ?' । तीए य पुण्डिओ राया । तओ जायंतेषावि इन्धियाव चर-सहावं भद्रागेण
साहिओ करमथो । मपिया य एसा - 'न तए अप्पेसिं कठेचं' । तीए वि साहिंयं
सेन-देवीण । महादेवी-रोसेण वि सहिया नियचण-सीलिया सेनाहिं । राया वि ते
ममारुओ, पओ कालिण-विमयं । नियचण-समए य न दिहा सीलिया । विहसंजतं वा
भषि-मिडण निगहिंयं धरणीए जंतं । कोकालो ताण विरिच-पएसे मोचण मओ
उपमवास्स नमरे । दिहो रहगारो राय गेहे रह-चंठं समारतो, जाहओ उक्करयं । तेण
मनिवमिमं राय-संजियं, नियम देमि । जाय नियच-भोदाओ आपेद, ताव य अह-
समारियं चकं तं तेण समारियं । दिहं रहकारेण, जाव भूमिए न पहर, पडिच्छियं
पि कच्छओहुचं मच्छद । 'अओ ! विष्णायाहसयव इमिया कोकालेण होपवं, जस्य य
वलेण कायजंवेण राह्यो आगाविषा' । तओ रहकारेण सिहं राह्यो कोकालामयं ।
तेण वि गहिउम वटो नि । अपि च-

"सालिन्वा वलितेन्द्रनीलसकलप्रणमनमसोऽन्तरिते

ममस्वाङ्गानुद्धमेचकनिमलशोरे कुटोऽन्वेषणाम् । ।

हातम्य फण्यच्छकालमणयो न सुखैरि कोटिभ्यो

वेनेनेसतिमातृश्रेष्ठ मुष्मिन्सौख्यं वास्तवपद्म् ॥"

वीहिकृपापेण य दक्षिणो राया सह देवीर् । निवहिरुष निरुद्धं सोम्यं । तत्रो
 अयस-भीरुर्द्विं नमरेहिं वचनिकाओ कागविडीओ । कासंतरेण य वचिओ कोकासो -
 'मम पुत्रप-सप-सद्विपस्य पागार्थं कुरु, जेपाड लथ पुणेहिं सकारुडो गडपो आण-
 वेमि' । सपाडनो काडं । निरुधिर् य पवेस-दिउसे पट्टविओ पच्छम्भो काकरंयस्य
 सुयस्य लेहो अहा - 'अह अमुनविचमे जायंतव, अह य कालिग-राया[विं] मारिस्सामो,
 तुमं य अग्ने विचम जेम पयसि, तहा कायवं' । पचो एपो । कालिग-राया वि न्पुचो
 पागाम-मज्झदेम' -ओट्टियाए लीनियार मपडकनो यओ जम-नेहं ।

“अन्वयैव विचिन्त्यन्ते पुरुषेण मनेनवा । देवजापिस्तोडुआरु कामेण मरिस्समवा ॥”

सो वि निवय-ज्वमि-ज्वर कोकासं य वेत्तु पचो उलोयीए नि ।

अओ सुउईण न गुज्जं साहियव ति । अवि च -

“नीयमानं सुपणेन नालपीडारकोअनीए । न भीरु सुज्जम-अडि उदन्त लन्व जीवितम् ॥”

सुषदेवि-वमाएणं नुपापुमारेण काकरंयस्य ।

भविपमिणं जो नितुवड सुउईण न साहए गुज्जं ॥

काकजज-कम्भापायं समसत् ॥

एताउ इमं लहु इमाउ एयं नि जो विसेमण्यु ।

सो पावइ सामण्य सुउरिनदेण एत्थुवमा ॥ ७७

[एतस्मादिह सोक्तवस्मादेतदिति शो विशेषतः ।

स प्राप्नोति अस्मभ्य सुन्दरीनन्देवाजोन्वा ॥ ७७]

— [१०३. विशेषज्ञतायां सुन्दरीनन्द-कथा] —

दक्षिणावहालंकारभूयं नामिक-नवर । नंदो इमं सुओ । सुउरी से जाया अचंत-
 वल्लहा । तत्रो लोमेण सुंदरीणरो ति नाम कयं । मो य तीप(ए) एद-जोवण-सोहम्म-
 सायम्य-कला-कोपल्ल-सोहिय-विचो न सेम-ममर्पासु अचंत-सुंदरारीणु पि अहिरपड;
 न य धम्मार्हसु कजेसु पयट्टर । सुयमिमं पुण-पचइएण से भाउना - 'मा विसपास्यचो
 त्तंनारं ममड' ति चिंतो पचो साह, सुहासण्यथो वदिओ सुउरीनदेण । पत्तुपा
 धम्मसद्धा, राउकडो ति न परिपया । मय प - 'अह धम्म-फलं उतणव सुंदरी-
 वरिणं कलत्तं खयं पि सुपामि !' ति ।

“सुम्माओ य सिबेहं सम-सुह-दुक्खं अविण्यप-रहसं ।

अय्या सुत्त-विउडा मणिल मेचं य(व) पेच्छंति ॥”

'अओ ! सुंदरपर-ईसयाओ एम सोहियवु' ति परिचिन्तित्तण भविणं सुधिया -
 'सिउ वेचं भूमिओ इयं वचप' । दक्षिण्य-वट्टिएण य सद्विपमयेण । तग्गो लोअ-
 मणेण । ओणो य भविठं पयचो - 'अओ ! पवइओ सुंदरीनदो' । चट्टा सुधिया सउण-
 गंटी । निवत्तामो नित्यचानो ति पुमरुचं वाहरपाणो नीओ उज्जाणे । भविओ सुधिया -

‘शेधि मयं सुरसेल’ । तेन भणिवं - ‘न त्वाभि एभिय कातं विओमं सहिं सुंदरीए’ ।
 हृषिका भणिवं - ‘सधि आपेगे’ । दन्तिअणपडिएण य पहिवणं से वपणं ।
 विआ-आमत्तयो पयहो गह नं गहेअण । इहुण य वानरिं भणियो सो हृषिका -
 ‘किमेसिली होइ सुंदरी’ । तेन भणिवं - ‘गुरु वि काअण वे समिअइ एपारिं
 भणिवं’ति । अवि य -

“कथं जय-वायड-जसा केसे(देवे)हिं वि सेविपा महागंमा । ।

सयल-अण-हीलपिआ कथं व भय ननर-सिद्धमणी । ।”

येनंतरं वचंतेहिं दिहुं विआहर-सिद्धगणं । अणे भणंति - ‘वेणं थिय विउहविणं’ ।
 पुणो वि पुण्डिको - ‘होइ एनिली सुंदरी’ । तेन भणिवं - ‘अणुहरेइ मयायं एसा
 सुंदरीए’ । कमेयं व पना सामण-विह-सिद्धपणसुल-पडिमा-सवाह-देवराणसुगणं औपण-
 सवसहस्ससियं कंचममेइहाअंकिंयं मेत । कथं य सिद्धापणणे चउवीसं वि तित्थपराण
 पहिमाओ इमाणं जवसदहुसुममाअणं सोउमाहयो मुणि वि । अवि य -

नमिअण जिणे सुवदेवणं च जपसह-हुसुममाअणं ।

पुणमि जिणवरिं दे उसभाई-वीरविण-परिणे ॥ १

जय मयवाअल-जलहर ! जय जय इहु-इहम्म-पण-पण्य ! ।

जय भणिय-कमल-दिणपर ! जय उसभकिमिंद ! जय-वाह ! ॥ १

जय विजिय-हुअण-वम्मह ! जय जय-वीसेम-सिद्धपणाणंद ! ।

जय सिद्धिबहु-विसेसय ! जय अजियजिंदि ! सुर नभिय ! ॥ २

जय गुण-रयण-महोअहि ! जय जय कुल-जलहि-पुण्डिकाणंद ! ।

जय मोह-तिथिर-दिगवर ! जय संभव ! जणिय-जय-इरिस ! ॥ ३

जय मेरुसिहर-भूमण ! जय संसार-जलहि-वरचोव ! ।

जय उवल्लिख-सुसंयय ! अहिबंदण ! सुअण जय-वाह ! ॥ ४

जय कोव-सहोरण-सिद्धमंत ! जय जय सुरिंद-नय-चलण ! ।

जय माण-महाअल-वंपसाह ! जय जय सुसह-विणईद ! ॥ ५

जय रायलथिअ-पूइय ! जय जय विआरविंद-कय-चलण ! ।

जय पउमप्पहयामिय ! जय जय सुअणमि सुपसिद्ध ! ॥ ६

जय कित्ति-मदानय-दिहसेल ! जय समत्थ-गुण-निरुत्त ! ।

जय नाणलथिअ-सेविय ! जय जयसु सुपास-विणणंद ! ॥ ७

जय सिद्धवणेकसामिय ! जय जय सत्ति-हुंद-हार-संकास ! ।

जय वीमलचन्य-देसय ! चंइप्पह ! जय जयसु जय-वाह ! ॥ ८

जय पण-दिबकेल ! जय जय वेलोअ-दिहु-व(इ)हुव ! ।

जय जय सिद्ध(दि)अण-विणयम ! जय सुअिहि-जिभिंद ! जय-राण ! ॥ ९

जय सिद्धयण-सिदि-सेविय ! जय जय नीसेम-वाव-अल-रहिण ! ।

जय सयल-सुअण-भूमण ! जय सीतलनाह ! जय-चलण ! ॥ १०

जय हुङ्गाय-बौह-संगस्यमर्हन् ! जय जय शुभित्-भव-वत्तय ! ।
 जय त्रय-साधिय-कर्मिण्य ! जय उपदि विमिद ! क्षेत्रम्स ! ॥ ११
 जय नागतच्छि-लक्ष्मि ! जय जय नीतेल-लयाजकुविण्य ! ।
 जय बसुदायामन-पशय-वत्तय ! जय जयहि यस्तुपुञ्ज ! ॥ १२
 जय शविय-रम्भ-दृष्टय ! जय जय तेजोह-नहुयल-मिवेक ! ।
 जय माया-कवठ-कुलगि-वत्तय ! जय जयसु त्रिय-विमल ! ॥ १३
 जय हुङ्गाय-करि-दृरि ! जय जय त्रिय-कर्मि-दक्षिण-वपलिमिर् ! ।
 जय तद-विमिय-वत्तय ! जय जयसु अर्णव-त्रिय-दृद ! ॥ १४
 जय स्याद्विय-वापद-साहृयम्म ! जय जय यमस्य-दर-वत्तय ! ।
 जय यममिय-यमय ! शुभित्-यमय ! जय जयसु त्रिय-धम्म ! ॥ १५
 जय यमय-तियलकामिमि-बम्मोहवेह-वृतुम-यय-योह ! ।
 जय दुरिय-वत्तय-वत्तय ! जय सन्नि-विमिर् ! सु-वमिय ! ॥ १६
 जय सुत्तिय-क-वयव-विद्यामवि-यान्नेतु-माहय ! ।
 जय यमवसत्तय-वृत्तय ! जय कय-कय-दृरिस ! त्रिय-कुण्यु ! ॥ १७
 जय र-अर-दिसय ! जय जय ज-मरय-योग-दय-दृरि ! ।
 जय राम-योग-वत्तय ! जय त्रियुय-यमय ! अरवत्तय ! ॥ १८
 जय शिविय-शुभय-दामर-महल-वत्तय-तद-वत्तय ! ।
 जय त्रियुय-वरय-रावह ! जय महि-विमिर् ! ॥ १९
 जय यय-किरय-बौहिय-मय-महाकुण्य-सीर-भित्ताह ! ।
 जय शुमि-मरह-संशुय ! सुमित्तुयय ! सुभव जय-वत्तय ! ॥ २०
 जय यय-यय-यय ! जय जय वत्तय-यय-दृष्टय ! ।
 जय विवि-दुयय यययाहम्म ! पु-शुभियमिय ! यय-वत्तय ! ॥ २१
 जय जयवत्तय-यय ! जय जय शंरोह-यय संकाय ! ।
 जय यय-यय-वित्तामय ! जय जयसु [अ]विष्टय-नेमि ! ॥ २२
 जय सुत्तिय-विपद-दृष्टय-यय ! जय जय विष्टय-संकाय ! ।
 जय ययीम-शुभिय-यय-मय ! जयसु त्रिय-यय ! ॥ २३
 जय संशुय-विष्मय ! जय जय त्रियुय-यय ! ।
 जय जय शिविय-वरीय ! जय त्रियुय-वत्तय ! त्रिय-वीर ! ॥ २४
 इय विष्मय-यय-यय-द-मुय-मार्त-यय जो कंटे ।
 विष्मयुयं तो पाद-मय-योयं यय योयं ॥

विष्मयि च तत्र अम्भो-मयययि केनाशिय-तियल-मिष्टयययि सुमित्तम् वि
 यययय दृष्टययि । एते मयिजो साह्य- 'दियसुररंति एयाजो सु-वमियजो
 श्रुदरीर' । तेय अशियं - 'ययं ! एयाय सु-जो सुदरी मयइरि(री) न युय' यि ।
 मयि य-

सो सुंदरी-विरचो इन्द्र रमणीउ दिव-कवाओ ।

गुणनंतयमि विद्धे कल्प मणो उर इपरमि ? ॥

‘मयं ! कथं पुन एताउ पाविअंति ?’ । मातृणा भणिये—‘दुग्धि-धम्मेणं नेकायं
पि पाविअर, का गणया द्यासु ?’ चि । अवि य—

दुग्धि-धम्माओ विमिद्धो चळमिह बोधस्यो जियेहिं पणाओ ।

सुर-नर-सुखइं अणुसंविपाइं इह किंति-वळाउं य ॥

सो पाविओ नासिकपुर त्वालासुरस्य-निवधिपात्तेय-कापओ पणओ सुंदरीनंदी ।
परिपालिय-अरुहिय-सामण्यो षओ देवलोणमि । दुग्धिपाअंतर-सव-सुपंतो निवधिप-
तियत्त-कापओ सुसुंदरीहिं सह भोगे सुविउं पयओ चि । उवणओ कापओ ।

सुपदेवि-वसाएणं सुपासुवायेण माहिणं चरियं ।

सुंदरिनेदम्म दुइ निदुधेणो उउउ निवाणं ॥

सुंदरीनेद-कम्पाणायं ‘समत्तं ॥

दो नर-पसुणो बंचइ जुवई एकेण चैव इणोण ।

आगमणेण पइणो गमणेण तहा अणाउस्स ॥ ७८

[दो नर-पसु, पचयति सुपरिरेकेण चैव इदियेन ।

आगमनेन च पसुणमणेन त्वाज्जाउ(जा)स्स ॥ ७८]

अवाटाः परसुणः । जेषं स्पष्टम् । कथं चैव ?

— [१०४. स्त्री-चरित्र-कथा] —

कुसुमपुरं । घणवाओ सत्थावाह-पुत्तो । बंधुमईं से भारिया । तीण य सह जीवलीग-

सुहमसुहवंतत्त समरवंतो कोइ कातो । अण्णया विमोहिच-रहनाइे संपचे वसंते
चारिअंतो पि वपंसाहएहिं पणओ सत्थाह-सुओ वेअंतर संवपहार-वडियाए । अण्ण-
दियहम्मि उन्निअण मारं भणियो बंधुमईए पि—

“अइ वचंते पियवम ! वचइ सत्तं पि ‘अण्ण तणु-सोक्खं ।

अइ तीच-सीत्तं दइं वचसि को तं निवारो ? ॥”

एवं भणियो अणुण्डण से वक्त-भणियं पणओ एत्तो । अण्ण-दियहम्मि अण्णमिए
दिवनाइे, मउसिपणु पंके(कर)सु, विमहेसुं कुसुमावरसु, पइ(य)हे दूया-वणे, दिण्णोसु
संसा-पईंषेसु, आण्णदिएसु धी-कुलेसु, हरिसिवाणु कुंमलीसु, मया एता निवच-मंदिह-
आणे । तओ रम्भयाए काणमाईंय संजाच-वम्भयाए देहो पंथिय-हुपायओ । ‘पुल्लओ
साधुरामं । तओ पंदहुदिमिअण भणियमयाए पि—

“तसुव-तसु ! अविस्-दंसण ! नयणापंदवर ! बइ व दिहो सि ।

पंथिय ! परमि वसु अइं न वचसि ‘अण्णमिपय ! नयो वं(ते) ॥”

दुषिय-भान्त्वेषं य भवियमेषेण ति -

“नयथाप्यंदो चंदो जो सुंदरि ! यमिओ तह कह वि ।

सो होइ तुज्ज परओ विर-निवसेतो किमच्छेर ? ॥”

सुषिय-नय-विज्ञा(वन्धा)ए य नीओ नियम-संदिह । एवं च ताया समसंके विसयसुह-
बसुहसंतया समसंको कोइ कालो । अण्य दिग्दग्धि दिहो करण सुवाणओ वानेभवतो ।
चलसहावणओ य इतिवपानं पट्टविषा तन्मि मापुराया दिहो दुषा । नववा-विषये
आणओ तीर सुमगेवं । दिग्दग्धमण, पन्नालिया चलया, यदिया इत्ये, एत्येणमि
पयो पदम-जातो । इतिं च भवियमेषेण - ‘किमेवं ?’ । अवेण-सुद-रागाए भवियं बंसु-
संहर - ‘अपवादागम्य-बहुवचन-निमित्तं कटवं इत्याओ विधिदृष्टिच्छे’ । अण्य-दि-
ग्दग्धि कय-विधिं दृष्टुं ततो भवियमेषेण - ‘आ पावे ! किमेवं ?’ । तदिह भवियं -

“मह पुस विप डका पंकवनाया(वन्धा)दरीए भमरेण ।

अहर पलोइहणं साठ्य ! मा सुतगु इमीए ॥”

एय एवंविह-अनमजसाभि दृष्टुं तीए सो विरओ निव-गेइं पट्टविओ । सावि गया
तेण सह, पंवे य रन्तोह-मिवाओ य नियम-भचार आणच्छेवं दृष्टुं भवियो अण्यओ
रोविरीए - ‘बसतु इधि’ । कओ एतो । दिहा भयुवा वि कठवं कंती, तुच्छिया
तेण - ‘किमेवं ?’ । तीए भवियं - ‘गुहागम्यं सुखा सम्भूदुषागया, तीए तुह
दंसयेण आणंद-नाइ-पूरो जाओ’ । तओ तीए दो वि [रोवि] तीए इकेण रूपेण
कोसिय वि । कओ एयसु निमित्तवं ति ।

सुपदेवि-पसाणं सुपासुकारेण अद्रोवि-पुरिसाण ।

चरियं जो सुगद नभो सो विरह पान-सुवईसु ॥

पर-कज-करण-निरवा महाणुभावा चवंति निय-काज ।

असिबोवसमि भेरि पत्यंतो वासुदेवो व ॥ ७९

[परशर्वकरविराज यहादुपाचलवति निवकार्वम् ।

असिबोवसना भेरी शर्वकन् वसुदेववत् ॥ ७९]

— [१०५. परोपकारे कृष्णवासुदेव-कथा] —

सुतहाए कतरवई नपरि 'ति -

जा कण्-इलहरावं कजे तियसेहि रयण-निम्भरिया ।

महि-महिलाए च्छावमि व को वकिउं कम् ? ॥

तीए य वसत-इल-नदव-मिपंका पलदेव-वासुदेवराइओ । वासुदेवस्त च मौली-
सपंदवमईओ देववाहिद्रियाओ चचारि मेरीओ; वं जहा - संताममेरी, कोइईमेरी, ॥

उच्चव(च्छव)मेरी, अतिशयसममेरी । का पुत्र पत्नी उच्चवी ? - सोइस्ये कये
अपेय-देव-परिवृद्धेण भगिण्य सकेवं ति । अवि च -

“अरहंत-चकि-हत्तर-वेत्तव-वचनाह-पुंगवा दीर्घ ।

न लपति वरस्तेण जुज्झति न अहम-जुज्झेण ॥”

१ तसो इवमनन्दलेण भगिण्यमेवेण देवेण । अवि च -

सुंदरमिपर क्खु जुगति इपर पि सुंदरं सुद्धा ।

कलिकाल-विसुव-वरिमा अबो ! तन्ने पि सुरनाहा ॥

कलिकाल-विसुव-वरिमो होसि तुवं मूढ ! न उण निवसिदो ।

किं वा वि पल्लेणं ? सवे गंतुं परिक्खसिद्धि ॥

२ आगओ सो परिक्ख-कल्लेणं । एणे व समोसरिओ अविद्धेसो । अंतराले विडोहं
अर्षत-सुंदरं इण्हिंसेपि किमि-कुल्लडलं सुवप-मडप । पपट्ठो स-बलो वंदणस्य
कसो । वसस वीथेण निपयो तसो पि लोयो । वामुदेव-सुच्छिण्य व भगिण्यमेवेण-
‘संदल-वीथेण न तीरए गंतुं’ । भावित-अट्ठिप-पोग्गल-परिणामो पपट्ठो इरी तेणं
विथ मणेण । इद्दुण व संदलं भगिण्यमेवेण नि -

३ मामे संदल-वपणे डमणा रेहति संवया भवत्ता ।

मिच ॥ वल्लप(व)-नमा अह्वा नव-पाउस-पणम्मि ॥

तसो चित्तिपं देवेण - ‘न काव दोम-न्याही’ । कमेण य पत्तो समोसरं इरी ।
चंदिओ तिरपवरो सह मगहगईहि । अणवया वि पणुवा भम्मकद्धा, तपावसाले व
गया देवाइणो निवप-ठाणेसु । एणंतमि हारिं अणमवचं देवेण । कसो कलपसे
४ बंदुरावाइएण । सभद्ध-वड-कजया निग्गया सुमारा । वपयाइएण व विजिया सुरेण ।
सुणिय-सुचंओ निग्गओ सह ननिदेहिं वामुदेवो । भगिओ सुरो - ‘कीस तुरपरपं
हरसि ?’ । देवेण भगिणं - ‘जुज्झित निवचेसु’ । हरिया भगिणं - ‘सुंदरं संतर्ष’ ।
नवरमवपरिउण भाइहसु गंतं-तुरगवाहंसु । देवेण भगिण्यमेवेण । हरिया भगिणं -
‘वाहु-इहि-वंड-स्वगाराएहिं जुज्झामो’ नि ।

५ जं जं जंपइ कसो न तं जुद्धं निसिपर देवो ।

पण्ठा सुरेण भगिणं जुज्झामो षो(षो)इ-जुज्झेण ॥

विजिओ मिह अहं तुमए न नीय-उद्धेण इत्थ जुज्झामि ।

हरिया भगिओ ताहे सम्मानं ताहए तिपयो ॥

“वण्णो सि तुवं केसव ! जं सम्म-गएण तियसनाहेण ।

६ अणलिय-सुवोहिं सुवसि समएव(व)-देवाण मज्झमि ॥”

सुद्धेण भगिओ सुरेण - ‘अरे वरेसु’ । हरिया भगिणं - ‘किं तुह इल्लवाओ वि जणो
वरो ?’ । देवेण भगिणं - ‘तहा पि मम निज्जु-निमित्तं किंचि परेसु’ । तसो निवप
कल्लमविउण भगिओ देवो - ‘लोयावमसिपोवसमि मेरिं देसु’ नि । अवि च -

“किं चन्द्रेण महोदयेऽप्यकुल द्यौःपि समित्कला ।

सुखैर्देवैरेव विरभति प्रजति च क्षीमे क्वन तन्त्र ।

अ. अ. ।) इति सागरचन्द्रेणैकैकैविकेण देवैःपि समित्कला स्या
सैकैरेविकेण केन चरति तनुता इडा न तु किराम् ॥”

इत्यत्र मेरिं वशो देवो । इतिशो से आरभितशो । इत्यत्र वानापरं साहस्य(त्र)द, सह-वाहीशो उवसमेति, अश्याशो य इत्मासे न भवति । अश्याया वरुका भेरी । अश्याशो जराभिभूशो गार्भन्तराशो वासिपशो । दीवार-सन्ध-वशायेण य गदिया शो(चउ)रगुलिया सहरिया । तोडापुचण्य य कंभीकया भेरी । न तदो पुरिया-सूदे, विस्वरियाशो वाहीशो । निरुतिना भेरी, आर कंभीकया । तशो वासाइत्य य आरभितयमद्रुममेषवारादिरेव तुरेव दिव्या अश्या भेरी । अश्यो उदो आरभितशो ॥ ति । उवसशो कश्यो वि ।

सुषवेति-पनाएण सुषासुनारेण गदिवं चरिय ।

कण्डस जो नितानद् नो पावद् परम-वड्डाव ॥

कण्ड-कन्यापर्यं 'समस्तं' ॥

रागान्तल-पञ्जलिशो कञ्जाकञ्ज न पेच्छद् पुरिसो ।

सागरचन्दो व जए कमलामेलाए संबेवे ॥ ८०

[रागान्तलेन पञ्जलिः-कञ्जाकञ्जे न पेच्छे पुरिः ।

सागरचन्द्रवद् जगति कमलामेलाया नमस्ये ॥ ८०]

—[१०६, राजे सागरचन्द्र-कमलामेला-सम्बन्धः]—

इहा चारवईए सागरचंदो राप-सुशो । अश्यो नहसेयो । कमलामेला य राप-मुया । सा नहसेयसा दिव्या । तेण य नारशो न बहु-सन्धिशो, सो तीए पुरशो निदिशो । सागरचंदेण बहु-सन्धिशो, सो परसिशो । तस्य य पुरशो परसिधिया कमलामेला । तीए सुचो तर्ब विप कमलामेले नयाइ वि । तशो केरीए संबेण द्विपानि शेषयामि । ‘किं कमलामेला ! आगता तुमं ?’ ति । तेण भधिवे—‘कमलामेलो हं । सागरचंदेण भधियं—‘सब-पहण्यो हवेअयु’ वि । तशो चतुव्याई-कुमारेदि पण्यपी-पान्धेण हरिइत्य दारियं परिपाविशो सागरचंदो उज्जाणे । सुधिय-सुधियेण सिई नहसेयेण हरियो । निन्धशो न-सिपी । उवसाशोहणं कुनाराण केरीए, हरियो तन्मा-पेण । इधिय-सुधियेण य सनाविशो नहसेयो विन्दुव वि । तहा सन्धियं उवसना-का-विधये भधियं ति ।

सागरचंद-कलापर्यं 'समस्तं' ॥

नीसेस-गुणाहारं नरनाहं निज-यहं पि मौचुण ।

गेष्टुहं पंतुं सुकुमालिय इ मवणाउरा नारी ॥ ८१

[निःशेषगुणावार वरनाथ निरपनिमसि सुकला ।

एकानि पद सुकुमारिकेव वदनादुत नारी ॥ ८१]

— [१०७. मदनानुरतायां सुकुमारिका-कथा] —

वसंतदरे नयरे जियसत् राधा । सर्वतेउर-वदाया सुकुमालियादिहाणा वल्ला
देवी । तीए वि रुज-सापण्य-सोहगमाई-अभिसुचो न पेच्छए सेत-रमणीओ । मंतीदि
भण्णामापो वि न निरुवेर रुज-कळाणि । 'वसप' पि जाणित्तण चलिवा सेत-रादणो ।
इधिय-सुचंतेण व भण्णियो मंति-मंडलेण - 'देव! चलिपामि पर-कळाणि, ता संछ(व)णि
कावेसु' । पुष्करुषं भण्णियो वि जादे न कोरु वपणं, तओ पाइऊण महर तीए मर
पसुचो पभिसुचो अडवीए । ठविओ से सुओ रओ । लड-वेपणेण व इधियमणेणं ति ।
अवि च-

^१मदनाथिमे अमुनिवन्ता विहारीमे अनन्विता मये चोरा ।

दोति अनिन्ना-सहाया समन्नि विममन्नि व समत्था W'

१० भावेतो वट्टिओ तीए सह वसिमाभिसुहं । शेष-वेलाए न तरए पंतुं सुकुमालिया ।
तेण भण्णियमेण रुज-कळाणी चिट्ठु, जाव पाणियमाणेमि । जजामानाओ व सुचण
धा(वा)हारेणिसं भण्णियो इहिसएण पुडओ, पभिसुचा ओसही । 'कडुमसुवपं, अन्धीणि
इधियज पियसु' । जहाएइं पाइऊण पवट्टी । पुणो वि शेष-वेलाए - 'न तरामि कडाए
वंतुं' । तओ उरु-मत्तामि छेण्ण दवणीए वडऊण दिष्वाण्णि । संरोहणि-भुत्तिपा-
११ संरोहिय-सरीणे पवट्टी तीए सह । वचाणि एगाम्मि नगरे । विविधित्तयाहरणामि
समाहरणं वणिसं(जं) । एवं चिट्ठुणए समहंतेतो कोइ कालो । अण्य-दिपहम्मि भण्णिय-
महाए - 'न सुकुमोमि एगामी चिट्ठुं, विरज(व) देसु' । वीहीसो उवगओ, निरवाउ
ति काठं दिष्पो पंतुतओ । तेण प इधिय-वीच-सविपार-संपिएहिं आवजिपं चिचं,
निवेसिओ दरु-सरो, अचतासुराण-वचा एप-पंतुम्मि । राहो छिरामि मम्मइ ।
१२ अण्णया वसंतूमणे मया उज्जाणं । बहु-भज-वराण(यं)णो पवाडिओ राधा गंगा-जले ।
उच्छसिओ एवात्य नगरे । सुमिणमिव मरुंती पसुचो असोमत्त-च्छापाए । तहाविह-
भविषयपाए व कओ कथ अणुचो राधा । अदियासिचामि पंच दिशामि । कओ सो
विप राधा । अहिसिचो सामंतेहि । अवि च-

^१मत्ताइस्य वरगहभिविदलस्योत्तमेनिद्रुस्य पुत्र

कृत्वाऽऽसुविंशत्येव खल निरतितो नक्त कुषे योषिन ।

सुखस्येप्येतिरेन सन्धामसौ तेनैव यात तथा

सत्यधीरिहृत देवमेव हि नृणा कृडा क्षमे चाकृतम् ॥^१

सुकुमारिया वि पुरण-मगौरहाए दवं तेण सह खाऊण वच्छा तं वेच वेतुं परे परे
सापंती महर । पुच्छिया व अण्ड - 'एरितो सुकहिं दिष्पो मचारो'णि । दवं च काव-

कृतमशुद्धभेदी गामागराहसु समन्ती दद्या मरिद-पुर । जम(र)विषंतविला य राहो
 पुरओ धरिउं पपत्ता । सुषिन्देय य पुच्छिय राह्या— 'किमेव रंगू !' । तीर भविषं—
 'पुरहि विभो भवारो, तमपुपालेमि पय(इ)वया होती' । तओ भविषं राह्य पि—
 "बाहुभ्यां शोभितं पीतकुरुमानं च भक्षितम् ।
 यद्वायां धरिदो भर्ता साधु नातु पद्विप्रते ! ।"

तओ समशुद्धमि निम्नियाणि ।

उपमओ कापओ । फामेदिमय वि उपमओ कावओ पि ।
 सुषदेवि-वसाएयं मुवापुनारेण सादिषं चरिषं ।
 सुकुमाहियाए पुरिमो निसुपंतो जाव(उ) वेरमं ॥

श्रीवेन्द्रियाम्पविकृत्याह—

तोइदिय-याणेदिय-विभिन्दिय-परवत्ता खय अति ।

जह भदा रायसुओ मोदासो जह य नरनाहो ॥ ८२

[श्रीवेन्द्रिय शोभेन्द्रिय-विहेन्द्रिय-सन्तया. धम यन्त्रि ।

यथा भद्रा रावसुतः लोदासो यथा च नरनाथ. ॥ ८२]

आचार्यस्तु विभ्याः कृत्वा नकेभ्योऽपत्येपः । तानि पाठयि—

— [१०८. श्रीवेन्द्रिये भद्रा-कथा] —

यसंतउरे नवरे मत्पवार-महिला भद्रा नाम बउत्थवस्या । पुष्कमालो य संभ्रिओ
 अंभन-विहो, भेष्य पुषो किसने । तेग य निय-विष्णामेवावलिओ नगर-सोमो ।
 भद्रा-दासीओ य कालंतर-पद्विवाओ तस्म मदाप-पण-विन्द-चिवाओ पिरकात्म
 पमाओ । अंवाहियाहि भविषयेवाहि— 'तामिणि' ना कुम्पसु कलाहके कारणेण,
 तमक्रमन्देहि सुयं तं पशुयं पि लोहं उषेह, कि पुग तपन्व-विष्णाम ?' । संजाय-
 कोउयाए भविषं भदाए— 'जह एय ता देसेह एयं' । अन्व-दिवहमि नगरदेनयाए
 महुसवे पपद्दा भद्रा तह वेवीहि । सुया देवया । मपविओ य मारुज्य पसुओ जंगये
 दरिलिओ चेवीहि । तओ तं पुत्तज्य निह्वं भदाए । त्पंतरमि दिवुओ एयो ।
 कदिपं वातवचिय-नरोहिं तत्पवार-महिलाए तं निदियं । संजाय-मच्छरेण य विरया =
 सन्ववार-कहा । कि च लेहइसु लिहियं पि—

"जायामि तुम्ह विरहे दिषंत-हुयातयं पवजामि ।

ना द्वियप-वंनरत्या तुमं पि उन्निहिसि पीहेनि ॥

वायाए कि व(च) मन्वउ ? किलियमेतं व(च) लिखराए लेहे ? ।

तुह विरहे जं दुम्हं नस्म तुमं येव महियत्या ॥

मम विरहान्तर-वचियं देरमिमे सुपशु । संजाय-अलेण ।

उत्पद्विज्य समत्या इत्थं तुम कओ अया ? ।"

अप्य-दिपइमिभ भवाविवा भदा- 'भारवेसु धरे, उवेसु संगतकलये, बंधसु संदण-
माला' । राईए व सचमभूमिप-नासाओवरि वसुताए पडिया सदा पि महुंणो कडा ।
नाप इया पादा-

कम-संमलौवधरो एसो दारेण एवेमए नाहो ।

साहसा अलहुंणोली पडिया पचा व उम-भोई व

उक्तं च- "काम-दोक-मणेन्माद-नै-सदापुपमुदा ।

अमुतावपि पचमिदि पुणेउवस्मिपलसि व" ।

"उतात् उतरपुंति सेति उताम विन्ता समालमणे

किञ्चिद् भ्यामति निज्जोत्त ननसा योगीव पुणेउत्त ।

सा उतामननेत्तम वृत्ति पुन, ऊन्नेहेति 'पुन सतो

पन्मलो भूति वे मितुन-मदमा पित् दु सिता क्कनिव व" ।

पुपदेवि-वताएवं सुपापुमारेव नादिसं चरिसं ।

भदाए मितुमिक्को वेरामं पावट मवूलो ॥

— [१०९. धाणेन्द्रिये राजकुमार-कथा] —

॥ वासंतदरे नगरे मंध-गिओ कुमारी । सो व धर-वावाए रंतो सवधि अणपीए
पडप-विस-संजोएय-मंध-विषबाओ मओ पि ।

— [११०. जिह्वेन्द्रिये सोदास-कथा] —

सोमसो नगरे सोदासो राया । सोपम-नेलाए अवरिवमामिसं किरातेव ।
अवसरेण व पचं मंसं सवपारेव । तओ विम वावाइउम सुसंमिसं दिव्वां । 'अहो ! न
॥ पवारिसं मए कया पि भुच-जुव' । विदप-वामरे परिभिद्धं नामप्यमामिसं । तओ
भविषं राइमा- 'चारिसं क्को परिभिद्धं, नासिमपुदिषं वाववं' । दिग्भाषण
मितुमिक्कं सम्भावे अचुदिषं मापुस-मंसं सुंमिउं पचओ । सुधिप-जुवतेण व वारिओ
मंति-मंडलेण, अहुपदेतो व पविणओ अडपीए । उओ से पुचो रओ । नो व लप
अपुदिषं मापुमाणि वाववंओ चिहुइ । अणया तेव वरुतेण सरुवेण सह सुणिओ
॥ पवंता टिया तन्व काउससमोण । आमओ एमो । तन-सचीए व न उमह-व्वंतेरे
पविसह । कया धम्मकहा । वेरमा-मग्गावदिओ निपओ एपाठ दुइवसिपाठ पि ।
उवमओ कापओ ।

सोदास-अन्वाणयो 'सुमसं ॥

वासंसदिप-वक्कावपं [१११] पुक्कुं जहा माहुरवाणिएण वारिणी विहा, जहा
॥ अ विदिसं पि ।

एवं पञ्चापीन्द्रियाणि अनिदृशानि दुःश्राव भवन्ति; अतस्मानि प्राक्कनीयानि ।

उत्पत्तिचाङ्-चउविह-बुद्धि-समेया हर्षति सुय-जोग्गा ।

भरहाभयाङ्गो विव (इह) दिहता आगन-पत्तिदा ॥ ८३

[शीलतिम्पादिस्तुविपुद्धिसमेता भवन्ति सुत्रयोग्या ।

मस्ताभयादन इव (इ) प्यन्त आगन-पत्तिदा ॥ ८३]

‘बुद्धमदिहमसुपमवेद्य-उत्पत्तय-विकु(सु)ह-बहिपरथा ।

अवाहि(ह)प-कल-योगा बुद्धी उत्पत्तिना नाम ॥

भरह किल-पणिय-रुपये सुदुग-पद-मगद-आन-उचारे ।

सय-वयन-मोल-संभे सुदुग-मगिन्धि-पय(उ)-पुले ॥

[भरह-किल-मिद-हृकुद-वाहु-ह-रथी अवाह-वयनवे ।

पायन-अडवा-वचे खाडदिला पंच पिपणे भ ॥]

महसिन्ध-बुद्धिपके य भावए भिन्नु-वेदन-निदाणे ।

सिन्धायं(इ) अत्यसत्वे इन्द्राय(उ) मह मयसहस्से ॥”

—[११२—११०. औत्पत्तिकीसुखी रोहकादि-कथाः]—

उल्लेखीए आसन्धो नडमामो । तत्वेगस्य नडस्य भजा मया । तस्य सुखी रोहप-
नामो सुदुखो । पिठया अण्णा परिपीया । ता रोहपस्य न सुह बहद । तेण भणिया —
‘अह ताएण कर्जं, ता मन (सभं) बहसु’ । तीए भणियं — ‘इत्तं तुमं ह्ठी करिपि’ पि । ।

अपि च — ‘अस्सुं स्से अय मात्ति तुं न्हं पणमाज ।

निज्जात्तुपहो न स्त म स्स इत्तं करिपि’ ॥”

तेण राईए पिवा भणियो — ‘एण पुरिमो’पि । एव सुणियेण मो चित्ते — ‘अहो !
पर-पुरिसामता एणा’ । न तीए मह आलवेह पि । तयो तीए रोदण’-विहसियं नाऊण
भणियो — ‘बुद्धप ! तुह पड्डीदामि’पि । तयो तेण भणियो पिवा पुणो वि — ‘पुरिमो
पुरिमो’पि । ‘कत्थ तो ?’ पुच्छिणव निपय-हाया दाविवा । ‘अहो ! आरिमो इमो
पुरिमो, तो वि एपारिमो’पि वेळिओ तासुरामो मदिसाए वाओ ॥ अण्णाया पिठया
सह उल्लेखीयं सओ रोहपसुदुखो । महिय-अण्णा य पया सिन्धाय्-तीरे । तयो तस्य
पुचं मोचून सओ से जयओ नयतिं परसुह-पुडयस्य । रोहएण वि निप-चउकाह-नया-
हा सिद्धिया पुल्लिये नपरी । तेण पएमेव गथा आगच्छंती भणियो रोहएण — ‘मो !
अबुधिय-परसत्वं अपिसुणियो हस्सारुदो य रावह्णये पदिमसि ?’ । संजाप-विमदएण य
पुच्छिओ राह्वा । तेण वि अदा-विज्जायं दाविवा नपरी । ‘ओ सि तुमं ?’ । तेण भणियो
(वं) भरह-सुओ ‘रोहप-नामो । राहिरियाए वनामो ॥ राहो य एग्गाणि पंच
मेत्तिसयामि । एयं बुद्धिमेवं ताण माणियं नवेसेह । तओ रोहप-बुद्धि-आणपर्यं भणिया
तम्मान-वासिणो नडा — ‘जा एसा महल्लिया मे सिद्ध, तीए मंडवं करेह’ । तओ
विस्तम्भा सवे वि । ‘रोहओ य जयाएण विवा विम-संजाए न भुंजर । तओ रोसेतो गथो
सुनवाए अयाप-समीयं । जयएण भणियं — ‘वच्छ ! वणह्ण अम्हाण भोग्यामा, तेण

राष्ट्रा सिलाए संदवो करविओ' । तेण भणिये—'एहि ताव हुंजाओ, पन्हा करिस्मानो' । पुणरुणं च तेण भणिया गया समेहेसु । अण्ण-दिपदम्मि लुण्णविज्जम वीह-सुद्धं निवेसिया नत्थ सिला, तस्स तले ठिये मव । निवेदयं राष्ट्रो । 'केण कयं ?' पुच्छिए सिद्धं—'रोहण' ॥ तत्रो मेलओ पट्टविओ, अण्णविद्या य—'एण पक्खेण एचिउ चिय 'पञ्चपिण्डियवो, न दुण्णलपरो, न वत्तलिओ' । रोहओ पुच्छिओ । तेण 'वहरण सह संघाविओ । कलं जायं वि तदंमजाओ अवेह ॥ पुणो ह्हुटो पेसिओ 'एण पक्कानी लुण्णवेह' । अदाओ पुत्थो कओ, तस्य पुणंयं पट्टिपिंयं द्दुण्ण लुण्णिउ पवओ ॥ पुणरवि निल्लयमणेणामि खारि-सहस्सामि पेसियाणि; 'तिल-माणेण य तेहं दायवं' । तत्रो आपरिस-माणेण गहिया ॥ पुणो अण्णविद्या—'वाहुणा-वरणं पट्टवेह' । तेहि

• भणियं—'सग्हा धूरा वा जारिणी कयवा, तारिहं पमायं दसेहि' ॥ पुणरवि लुण्णो पेसिओ करी । अण्ण-दिपदं च जीयंतस्य 'वट्ठी दायवा, न मयम्म । तत्रो तम्मि मय विचनं राष्ट्रो—'देव ! अज्ज सो हत्थी न उट्ठेह, न चउह, न विपह, न उवमह, न नीसमह' । राष्ट्र्या भणियं—'किं मओ ?' । तेहि भणियं—'देवो भयह' ॥ पुणो वि अण्णविद्या—'निवय-सूवं पट्टवेह' । तेहि भणियं—'नागरिय-हृदियं पट्टवेणु, जेण ते

• मग्गासुल्लग्नो आगच्छह ॥ पुणरवि भणविद्या—'पणसंके उचरदिगाउ दाहियेण करेह' । तत्रो आवासिओ उचरदिगाए मामो ॥ पुणरवि भणविद्या—'अग्गिणा विद्या पापतं रवेह' । अण्णदस्स-वत्तले खीर-वेदुलेहि मह धाली विविसत्ता । उण्णए य सिद्धो पायमो चि ॥ तत्रो सो चिय अण्णविओ रोहओ अहा—'तए आर्यतवं, मवर न कण्णिय-पक्खे, न सुंके; न दिवसओ, न राहए; न च्छयाणए, न आपवेणं; न पंवेणं, न उण्णवेणं; न ष्हाण्ण, न मत्थेणं; न जागारुवेणं, न पाय-चामेणं; न ल्हेणं, न आत्तासेणं' । तत्रो अंभोएहि काउज पक्क-मज्झमूमीए एउकवारुटो चात्थी-निमि-उचियंणो संज्ञा-समयम्मि असावासाए आगओ वि । साहियं राष्ट्रो—'अहा उण्णओ आगओ रोहओ' । तस्य सवहुनायं सुउत्तम उविओ मत्तासन्धे ॥ पहमज्जम-वि-उट्ठेण पुच्छिओ नरवह्णा—'सुचो ?, अग्गसि ?' । तेण भणियं—'अग्गासि' । 'किं चित्तेसि ?' । तेण भणियं—'अस्सत्थ-पचायं किं देवो महत्तो, उदाहु सिह ?' वि । राष्ट्र्या भणियं—'साहेसु' । तेण भणियं—'देो वि मयासि' ॥ विदय-पहरे वि पुच्छिएण कहियं अहा—'अग्गसिण-विहियओ वाउवा कदिगाउ हयंति' ॥ ल्हाय-पहरे विपुट्ठेण पुच्छिओ—'किं चित्तेसि ?' । तेण भणियं—'खाउहिल्लए जेचिय पुच्छं, एवहयं सरिओ; जेचिय पंडरं, जेचिय कळं' ति ॥ चउत्त-जाने बोहिंथो वि जाहे वायं न देह,

• तत्रो 'केविचाए चिट्ठो पुच्छिओ—'अग्गसि, सुवसि वा ?' । तेण भणियं—'अग्गासि' । 'किं चित्तेसि ?' । तेण भणियं—'पंचहि पिचरेहि ते जाओ—राष्ट्रा, वेसमणेण, चंडालेणं, एण्णं, विच्छिएणं । 'कइ विद्यासि ?' । तेण भणियं—'जाएण पुहं चासेसि जेण, तेण राय-पुचो । अपरिमिय-इव-दाण्णाओ वेसमण-सुओ । रोसेण चंडालो । सवस्स त्य-हरणेणं एणो । 'केविचाए विचयेणं विच्छिय-जाओ' ति । निवधेणं

जगधीए बुद्धिब्याए मरं लिहं । राया लुहो । सभ-भंडीय सायी कयो, देसो य से दिण्यो ॥ 'कम्प सव-त्थामेसु उप्पत्तिपा बुद्धि' ति । भरह-मिने ति मरं ।

[२]

पत्तिय ति । जहा ककेव वासुकीओ जगधियाओ । धुवेण भणियो - 'अद् सदाओ भक्सेमि, किं देसि ? । तेव भणियं - 'जे तपर-दानेण सोयमो न निग्गच्छद्' । तेण दसयोहिं डकिवाओ । सो बणद् - 'न सदाओ' । ओपारियाओ ह्ये । सोयो बणद् - 'किमेवाहिं सदाहिं ?' । सो सोदगं भणियो विमव्यो । जपारेहिं बुद्धी दिण्यो - 'सोदगं पओली-दुपारे काळय भणसु - 'निग्गच्छ मो सोयमा ?' स य निग्गच्छद् । ज्जाणावसुप्पत्तिपा बुद्धी ।

[३]

कख्ये ति । जहा सकडा फटणिय न देति कख्येहिंतो । सेहहिं पहाया नहा (देति) । सेहण्णरंजाय उप्पत्तिपा बुद्धी ।

[४]

सुदुगो । अभाओ उदाहरणं । जहा तेव ह्माओ छायेव नितियं बहियं ति ।

[५]

बडे ति । जहा सोग्गि तुलकया पहाएणि । एवएण दसो पडो । अण्णाएण तुण्यो । तुलह्यो दसं वेणएण पयाणो । मग्गिओ न देड । वनह्यो जाओ । निवएण-तुणेहिं वणाविया । तओ महिसाणं सुव-परिकम्भाद् नाडय समणिया । करवियाएण उप्पत्तिपा बुद्धी ।

[६]

सरडे ति । जहा एराएण भणियो विसानर्थं पुरीसं वोस्सिनएण सरडो दुइयसरडेण मद् तुज्जंतो अवाभं पुण्णेण आहणिया नितं पविट्ठो । 'अओ ! मए सरडो अवाभेणं पोहं पविट्ठो' । अधिण्णं दुग्गलो जाओ । वेअएण कहियं उदाहरणं । तओ मर(प)-सरडं कएणाएण-ममेव छोइए बंडए, दिअं से विरेकव, टावियो सरडो । एण्णी-ह्यो वाणियो । जीविअ-दाए' ति पुणियो विओ चहुदरेणं ति । वेअएण उप्पत्तिपा बुद्धी ।

[७]

पिइओ व सरडो । विअसुएण सुइओ पुण्णियो - 'एण किं सीसं चाडेर ?' । सो मयाद् - 'किं विअसुं तुमं विअसुणी वा ?' । सुइएण उप्पत्तिपा बुद्धी ।

[८]

कामे ति । रणंवेण वेह्यो पुण्णियो - 'किं तुअं सएण-पुआ ?' । वेहएण भणियं - 'चाडं' । तो किकिया एण कया दंसति ?' । विहएण भणियं -

'यहिं काय-सहसरां जाय वेणापडे परिअंसति ।

अद् उया पनसिया अम्महिआ पहुणा आया ॥'

सुद्वयस्व उपपत्तिः ।

[१]

विद्वञ्चो । निदिग्धि विद्वे महिलं परिक्रम्य 'रहस्तादिहा न व ?' वि । 'न क्व
कस्म वि कहेषवं - 'मम अवापेय पद(द्व)न-बन्धो कावो पवित्रो' । तीर्थ पर्वसिवात्
सिद्धं । परचरेण राग्वा सुयं । इकारिञ्चो पयिञ्चो । सवभावे सिद्धे दिग्चो से निदी ।
पयिपस्व उपपत्तिः ।

[१०]

तद्वञ्चो । विद्वे विस्तिरसं दद्वय पुच्छिञ्चो भ(भा)गवेण सुद्वञ्चो - 'किनेतो
विरुवेह ?' । सुद्वयस्य भयिपं - 'विष्णुं निहासेह सव-वाचनञ्चो ।

॥ "ओके विष्णु स्वोके विष्णुभाऊके विष्णु माळिके ।
विष्णुमालाकुले लोके माळिके विधिदरैण्यम् ॥"

सुद्वयस्व उपपत्तिः ।

[११]

उच्चारं वि । जहा एवो दिञ्चो बज्जत् सह वचद् सामंतरम्मि । पुचम्मि अपुरचत्
॥ निन्दुटो भवागे । कारि(र)मियात् पुञ्चो पवहारो लग्गो । दिग्ण भयिपं - 'बसेत्ता
मत्ता, बज्जकेपत्तापुरचा' । 'कि मे संवत् ?' । दिग्ण भयिपं - 'सित्त-भोपगा' । तिग्णं
वि दिग्णं विरेपणं । तञ्चो विद्व-विरुवोय निष्कटो पुञ्चो । कारमियात् उपपत्तिः ।

[१२]

मय वि । जहा वसंतडरे रापा भयद् - 'ओ हन्धि सोल्लेह, कस्म लक्खं देमि' ।
॥ एवेण नावाए हन्धि काऊगं नावा अत्थाह-जले वृदा, रेहा य कया । तञ्चो कच्चिऊगं
नावं कहु-लोहार्द्धि भरिऊग वृदा पुञ्चो वि । तोलिअर्द्धि य कहुर्द्धि नावं
परिमाणं । तस्स उपपत्तिः बुद्धी ।

[१३]

पयञ्चो वि । जहा एवो गान्ध-भंडो राग्गो रहस्तिञ्चो । तस्स पुञ्चो रापा देमि
॥ कप्पेद् जहा निजग्घा(गय)वा । भंडो भयद् - 'मा एवं भयत्तु, जवरं जाए वेलाए ता वाय-
सोक्खं करेद्, त्थए वेलाए पुष्क-भंभे वा देह' । एयं जाणित्तण दिती व गदियं पुष्कं,
तञ्चो वाळ-भंभे सङ्खल्लिए हसियं राग्घा, विलिवा देवी, रुद्धा भंडस्स, जाणचो
निजित्तञ्चो । तञ्चो दीह-वंसवृत्ताहगामि भरेऊग पवट्टो देवि-दंत्तवात्थं । तीर्थ (तेण)
भयिपं - 'अपेवा[भि] देसंतराणि संतकाभि, इमिवा निमित्तेण तेणोवाहवाञ्चो गहिणाड'
॥ वि । 'मा देसंतरेत्तु एवो साहेस्वद्' वि लज्जंतीए ;परिञ्चो भंडो । पयपस्व
उपपत्तिः ।

[१४]

गोल्लथ वि । जहा उउमय-गोल्लञ्चो नात्ताए पविट्टो । लत्थ(त्थ)-सत्तामाए कट्टि-
ञ्चो । कट्टुवंतस्स उपपत्तिः ।

[१५]

संभिंति । राक्षसा मंति-परिक्लमत्वं पापत्रो संविभो - 'तदाग-मन्त्र-स्त्रिपं खंभे
जो तद-द्विभो पंपेऽहं तं नंति करेद् ।' तत्रो एगेभ तदि शिल्पं संभिलग परिवेदेव
बहो । सं[ती] संवृचो । एवम् उपपत्तिः ।

[१६]

सुहृषति । जहा परिवृष्टि(बह)याए पटहत्रो एवाविभो - 'जो जं करेद्, तमहं
करेमि' । सुहृषो पटहय वारिकल गय-नयं वजो । तीए भविषं - 'कतो गिलमि ?' ।
सुहृषण चाहणं दरिसिपं । वजयाए पटमं दरिसिपं, मा न तद् । सुहृषण उपपत्तिः ।

[१७]

मन्त्रित्यति । जहा मूलदेव-कंडरीमहि देवे वषंतेहि दिष्टो एगो तुवागयो ॥
तक्यमहिताए सह वषंते । तत्रो महित्यए अन्त्रोवदण्ये कटरिपं भाऊग गया
दो वि अगजो । कंडरियं ज्म-कुंजे खेडक डिओ मग्गमि मूलदेवो । मन्त्रिओ
य वेण से भचारो - 'एवं महित पटवेसु मम महिता-पसगत्वं' । गया सा, दिष्टो
सो कंडरीओ ति । अवि य -

सो तीए दिष्टो मरुड व तेव वि सिरीव मा दिहा ।

अण्णोण्ण-नेह-मार आपे तुसं दुवेणं ति ॥

'सुहृषण-दारओ जाओ' भगंतीए, मूलदेवाड महिययुचरिअं । मूलदेवण उप-
पत्तिः, विसं दुव महिताए ति ।

[१८]

पहति । जहा दोएद भाउगामं एवा भळा । दो वि से सर(रि)म ति खोग-वाओ । ॥
राक्षसा मती पुच्छिओ - 'किमेववेधं ?' । मंतिणा भविषं - 'अरिच विसेतो' । तत्रो
मयाविया दुइ-पच्छिम-गामेसु गंतुव तम्मि दिवसे आचणंनु ते खणो । तत्रो बहो
पच्छिमदिशाए पंतिओ, इगरो पुवाए; जेव से जंजम आचणंणमस व मग्गुओ
खो । अहा दो वि गाम-गया जरयाभिभूया मग्गुहा । तत्रो पच्छिमदिश-द्वियस
गया । मंतिस्स उपपत्तिः ।

[१९]

पुत्तति । जहा एगो वणिओ दोहिं भळाहि तमं खंजंरं गओ । तमेव वओ ।
एगाए भळाए नहुओ दारओ उणणीए विसं न वाणद । पुत्त-उणणीए दं
हवद । 'मम एगो दारओ' विववाह वणद मयं ति । तत्रो मंतिणा दोधि एह-रासीओ
काऊग दारणं येतुण 'छिदेद' ति भविषा । छिदा तुच्छिका सनकी । उणणीए वणियमं
मम दवेणं, मा दारणं छिदद । तत्रो दिणं तीए दं दारओ य । मंतिस्स उपपत्तिः ।

[२०]

महुसिन्धेति । कुर्विद-भारियाए पुणेण सह गुमिडे निहुवण-डियाए महुषंजं
दं । वचारो य किमिओ वारिओ । गयाणि लव न पेच्छद । तत्रो तद् विप उऊण

दायिषं भृत्यो महं । तत्रो नायकधेय - 'तृणमर्हं एषा, कदमशला एवंविहं सुतप-
कृत्यर्षं दाम्' ति । कुर्विहस्त उष्पत्तिषा ।

[२१]

सुरियं चि । जहा पुरोहिभो सोम्याय नासे विश्वह, अग्नेः य । तत्रो दमणेय
१ क्लिष्टेभ्यो विदधो समन्विभो साहस्मिभो नडलो । कलन्तरेण य मन्विभो न देह । दमगो
वाडलीहृओ । तत्रो अमर्षं पंथेण वचंशं भण्ड - 'अग्नेसु मे भो ! पुरोहिषा नडलवं' ।
सङ्गुष्पण-कहयेष भग्निओ रायाञ्जनेय - 'एवस्त नडल पुरोहिभो पुत्र-गदियं न
समग्नेः' । तत्रो संवच्छरापण-मान-दिवस-परिप्याड-पुर्षं पुच्छिओ सविसेसं पडवि
दमगो । शङ्खा वि जप ललेय वेत्तुय पुरोहिषा सुरियं पडाविओ मयूतो पुरोहिष-
२ भारिया-समीवे - 'पुरोहिभो भवद् एषाभिष्ठायेन अमुग-काडाहसु जो नदिओ
नडलमो वं समग्नेसु' । तत्रो य चिनुग आनभो पुरिमो । दरिदिओ इमवस्त,
परिपामिऊय महिओ । पुरोहिपस्त' विची छिन्ना । जहा राह्यो उष्पत्तिषा ।

[२२]

अंके ति । जहा एणेय नडलमो दीकाराय भरिओ ममन्विष(ओ) । तत्रो मन्विष्य
३ कृदाय भरिऊय ममन्विओ । ववहारो जाओ । क्वरविपहिं पुच्छिओ - 'केरिषा
मायंनि !' । तत्रो नडलप-परिमाणममुष्यदेय भग्निं मेमूलए[न] जहा - 'महस्त
पस्त्रिषा' । य माया । इवनेय - 'अट्ट मयाभि' तेहिं पट्टिपुष्पो । तत्रो द्वाविभो
सुंदर दवं ति । करविषयाममुपत्तिषा ।

[२३]

नाप्ययं चि । जहा एवं चिप सवं, नवर कालो वड्यो समन्विओ नडलपस्त ।
एते य जया दीकारा । तत्रो नाऊय द्वाविभो अन्धे सुंदरे । क्वरविषयावं उष्पत्तिषा ।

[२४]

भिक्षस्तु चि । जहा एवं चिप रत्नदस्त य नडलमो अपिओ । न देह । तेय
ज्जारा ओल्लमिया । तेहिं भग्निवं - 'जाए वाराए यथ तेय सह वंपामो, ताए वेडाए
४ मग्नेऊसु' । तत्रो ज्जारा रत्नर-वेनं काऊय मया । मन्विष च वेहिं - 'जल वेहवाई
वंदिऊयामच्छामो पुग्देमाओ, ताय एयं सुवष्पवं डवेसु; अग्ने य महिय-सुवष्पा
निसुसुगो आगमिस्संति, ताय वि डविषवं' । एवमिन् अवसरे मग्निओ तेय नडलओ ।
तत्रो तीए लोल्लि(ल)वाए मग्निओ अपिओ नडलओ ति । ज्जारायामुष्पत्तिषा ।

[२५]

वेडय-निहाणे चि । दोहिं मेचेहिं निही दिडो 'कल्लं सुंदर-दिसे वलिहायल-पुवर्षं
५ मिहिस्ताओ' ति भग्निऊय मया निर-वेहेसु । तत्रो एकेय वेत्तुय एवं इंगाला ऊय
इसा । विद्व-दिवसे ति सो इंगालपरिओ दिडो । पुणेय मन्विषं - 'जओ मंद-पुष्पा
वयं, वेय दीकारा इंगाला जाया' । अहो! वंविभो ति इमिना पुणेय विषार अदावेतेय
भग्निवं दृष्टएयं पि -

“न हि मयति यस भवत्य भवति च भवत्य विनाश्रिय मयेन ।

कारुण्य-मदमपि मयश्चि यस तु भवितव्यता मयति ॥”

तथो वन्द्य मेई कथो तस्म सरित्तो जस्यो । वृद्धता देइ तद्वरि मकहाय भर्त, ते ष तमास्तुहिल्लन शापति । अन्ध-दिपहम्मि निमतिषा से पुत्ता, ये(नो)विषा ष । गवेसंतस्म ष तिई महा - ते सुपा मकडा आपा । भाग्यो से मेई, जस्यमपयेत्ता । भिवेतिथो से द्वापम्मि । तथो किलकिलेत्ता आरुडा तद्वरिषा मकडा । तेण भविणे - ‘जहा दीवाना इंगाला आपा, तहा पुना वि ने मकडा’ । तथो दिव्ये भिविस्स अई । उप्पविषा एवस्स वि वि ।

[२६]

मिकम्भ वि । जहा एनो उपपञ्जाओ ईमर दारण ‘अज्जावेइ । तेण वहु ववं तई । । ‘म छंते मारिस्साओ’ न इवं से नीविउं ददि । अन्धया उप्पविषं नवगाल । अइ पञ्जापि पट्टिप-च्छलेण दवं नईए वहुविस्साओ, से सुमै विषई । तेण ष अहुमि-चउत्तमि-पञ्जासु तिईसु ‘एव अम्हाय आपाळ’ वि मयनेए मायाण (नीविपं) तवं इवं । ते पञ्जा अन्धया पन्ना(ज)या ति । एवस्स उप्पविषा ।

[२७]

अत्थसन्धे वि । जहा दुष्ण महिल्लण एनो दारथो । नवर देवीए भविषाओ - ‘मम सुजो मे ववहार छिदिस्सई, तार एगहा साई’ । न पुत्त-मायाए पट्टिवधं, सा सिद्धाडिषा । देवीए उप्पविषा ।

[२८]

हच्छाइ वि । जहा मप-वत्थाए पइ-भेचो भविओ । सुम्भावे कट्टिए मंतिषा ॥ एणत्थ सुच्छं कव इवं पञ्जा उप्पयो जकत्थ वहुवं । सो पुत्तिओ - ‘कवरं हच्छति ।’ । तेण वहुगमिच्छियं । मंतिषा भविपं - ‘ता देवु एपं एपाए’ वि । मंतिस्स उप्पविषा ।

[२९]

सपसहस्स वि । जहा एमो पुत्तो वणइ - ‘जो मं जपुवं सुगावेइ, तस्साई - सपसहस्स-ओळं खोरपं देवि’ । सिद्धपुत्तेण भविपं -

“पुत्तु पिअ मम विज्जेओ पोर अणुत्तम सपसहस्सं ।

अइ सुम-एव दिज्जेअ अइ न सुम सेत्तप देवु ॥”

सिद्धपुत्तस्स उप्पविषा ।

इए एवसाई पइवो दिहेत्ता आपमासुत्तारेण सादेत्त जहाअपर भविषाण रोहपाहाए । ।

‘वरदाइ-चरिपं भविपं’ ।

अप्यासत्ता महिला घर-भारं पुत्रार्थं च भत्तारं ।

नासेद् कटु-जाया वज्र व निरकुसा पावा ॥ ८४

[अत्यासक्ता महिला पृथ्वारं पुत्रक च भत्तारम् ।

नाशयति काष्ठ-जाया वज्रेण निरकुसा पावा ॥ ८४]

१ कथमिदम् ?—

— [१४१. दुष्टस्त्रियां वज्रा-कथा] —

वसंतउरे नगरे कट्टो सेट्टी । वज्रा ते मारिया । ज्ञानस-पत्ता पत्ता दारयं ।
शाश्वो अट्टुवास्त्रियो । तत्रो 'महिला पुत्रो मुही दोउ' चि भावंतो योगतिथकत्वं तत्पच्छो
एए मोचूण वशो देसंकर दव-निमित्तं सेट्टी । आलम्बाईहि नड्डिया मरुत्तस चि ।

"अथ दारयो महतो रत्नो-मन्थमि दथ चि सील ।"

'पुत्रो किय विदालो रसोत्तो महतो अट्टो ॥'

तस्त च त्रिन्वि रप्याणि कुकुटो केमालो मयमरुत्तया व । ता य तं मरुत्वं
परिसंतं से(म)वद् । मुषिया दिपयण वारिया सुण्य स चि—

"पञ्च-दोसो जन्तेवत्तं जो रत्तो रोह जन्मि अत्तुमि ।

जो अण्णियार दशो अट्टय जो अट्ट यत्तो चि ॥"

पुत्रार्थं च कलदंती यावद्दया वयमरुत्तया । सुपं च जालंवरिएण मरुत्तय
मिक्ख्वा-वप-दुमि-दुवत्तं परोपर सणियमुत्तवंतं—'जो एयस्त कुकुटयस्त सीलं
खाइस्सद्, सो ज्झचि वाया भविष्सा' । तत्रो वंमथेण अणिया वज्रा—'कुकुटयस्त
मसं वपा(ना)हेत्तु' । तीए भणियं—'पुत्र-मारिच्छो एतो, अर्थं ते नंटा देमि' । तेण
अणियं—'किमेत्थ बहुवा ? इमस्स मसं देत्तु' चि । तत्रो मारिज्ज वपाहिंयं से संसं ।
जाय भट्टो आमच्छद् प्हाइज्जण, ताव तेदमाय्यए पचो [पुत्रो] कुट्टुत्तो 'दाएट अर्थ'
मग्गतो । तत्रो खानिज्जण पुकुटय-सीलं पट्टुविओ । जग्गो मरुत्तो । परिचिट्ठं सील-
रुहिंयं संसं । 'काय सीलं ?' ति पुच्छियाए तीए भणियं—'पुत्तस्स दिग्गं' । तेण
अणियं—'हा ! इहु कर्त्तं, सील-करण मए मारिओ, तं च तए पुत्तस्स दिग्गं; ता ज्झ
तं चिय पुत्तं मारिज्जण देसि, तत्रो ते इं पुरित्तो' । तीए भणियं—'ना एवं भणत्तु,
परिचचो एय मग्गो चिल्लतेहि चि' । तेण भणियं—'किमेत्थ बहु 'पल्लेण इ; जद् मए
कज्जं, ता ज्झचि पुत्तं मारिज्जण देत्तु' । 'एवं' ति पट्टिक्खो पणवार्त्तं दारयं वेत्तण
मुषि[र]—पुत्तंता पत्ताया, कमेय य पत्ता देत्तंकरं । अपुत्र-नरिद-वरत्तं वंचदिवाहि-
वासमेण सो चिय दारओ रत्ता जाओ चि ।

"अथ वज्रा भवितव्यं न तद् भवति अन्यथा ।

नंत्यो तेन नर्मेण स्वयं वा तत्र गच्छति ॥"

कालंतरेण पचो कट्टुसेट्टी । पण्डु-सोई मत्ताम-खरितं मंदिरं निग्गल पुच्छिया
वज्रा जाहे वचुत्तं न देद, तत्रो पुच्छिओ कीरो । तेण भणियं—'ताय । पंचराओ

१ कट्टो । २ इ व 'मि' । ३ इ व 'सि' ।

सुषसु' । उहा कए सिद्धं सुव । अहो ! जाय कए एरिबयाग किलेसो किअह, ताप
 म्पारिसिं वैद्वियं वि । तओ महाकलाच बेरायं अंने पइओ । विहरसो य महाविह-
 मवियवयाए पओ तत्थ, अन्ध सो सुओ राया जाओ । निम्बसं ममओ य पविहो
 पुत्रावासिय-बजाए भर । नाऊय य दिव संडएहिं सह सुवण्यं । नीहरसो य माहुम्मि
 कओ कल्पसो - 'एम पोहं' वि । दिहु सुवण्यं । नीओ नरिह-समीवे । पचमि-
 प्याओ थमवाएण, रोईऊन सारिया पडथी राओ । तेम वि पचमिओ भाव-मार ।
 बजा वि आमचा निबिनया । कओ तत्थ बाणारसो । कओ राया मावसो,
 सेम-सोमो य । मन्डतस्म य बासातत्थ ममचीए भगाविषा परिभट्टिया पिज्जाएहिं
 जहा - 'मम पोहं काऊय मी बचसु' । तीए एव तवतीए वि 'पवण्यस्म उण्णं
 भवउ' वि संन्धमायेव भवियमज्जेयं वि - 'अह मम कयं, काळ-कमेय जोणीए'
 नीहरउ; अं अणेय नो ज्जवि' । तओ पुइं फोह । जाया पवण्यस्म उण्णं वि ।

॥ बजा-महाण्यं समत्त ॥

विणय-रहिओ न टायं पावइ जह निचओ पुणो लहइ ।

विण्यवाहितो पुरिसो दिट्ठलो निचओ चेव ॥ ८५

[विनय-रहिओ न खान समे यथा निम्बक, पुनडेते ।

विनयान् पुरसो एण्णो निपकयैव ॥ ८५]

कथमिदम् ? -

— [१४२. चिनये निम्बक-कथा] —

धनपपुरि-संकासाए उजेणीए जिणययव-भाषिय-वई अंबरिसी बंमणी, माहुमा ॥
 से मारिया । निचओ सिं पुणी । माहुमा पंचनसोकार-वरा पचवीभूय वि ।

अपि च - "संवे धम्मन्ता निचय पत्तन्ता समुत्तया ।

सयोम विवेकान्ता मरान्त वि जीवितम् ॥"

तओ अंबरिसी निचएव सह पइओ । सो य निचओ पावोदवाओ काहप-भूणीए
 कंठके निभिसुवर, सन्नाप-पहय-समए सिअह, वन्ताय-वेत्ताए विकई करेइ, लवदा ॥
 एवं सामापरिं निवई करेइ वि ।

'अं भवसि ते व काहं अतो वारेसि तत्थ वचामि' ।

किं ते अलिज्जाओ उट्पं चित्तु नरं (ई) नेवि ? ॥"

तओ भविओ एरी साहई - 'निचओ वा चिट्ठउ, वयं वा चिट्ठओ' । तओ नीणियो
 निचओ । तेव य सह नीतरिसो जयाओ वि । अण्ण-विहारे गया, तत्थ वि अरिपी-
 पचयाओ निकालिया । एवं किउ उजेणीए पंचसु वि वसडी-सपसु कय वि हुणं
 न सई ।

अथि च - "बलवृत्तौ उन्नतवृत्तौ असनाहिल्यौ अनेन-बुधवृत्तौ च ।

एते च अप्सरवृत्तौ परिहरिष्यन्ते पक्षेण ॥"

तत्रो उल्लास-नर्पं विपर रोषंत द्रुम भगिषं निवण्ण - 'ताय ! किमेवं ?' ।
 तेन भगिषो - 'तुच्छ चिद्विषयस्य आववा-वेदिरमई वि संकुपो म्दि' । तत्रो मधुष्ण-
 श-पण्ड्यपावेण भगिषं निवण्ण - 'ताय ! एकवारार(र) पक्षेसं करोतु, जेपात्तयेमि ते
 दुन्वर्ष' । तत्रो पुषकसं भगिषो चत्रो से जवत्रो आपरिय-गमीने । तं च वेच्छुय-सहिषं
 द्रुम संकुद्रा मवे मुषिषो । अचरिसिमा भगिषो गुरु - 'सक्यं माम्मापारीणं चिद्वि-
 (वदि)ससई' । तदा वि केच्छति माहृषो निवषं । आपरियहि भगिषं - 'तदा वि
 इकदिवसं पाहृषया संपचा(संता) चिद्वंतु' । एव च क्व जद-द्विषं माम्मापार(रि)
 चउंउंतेय आमाहिवा गुरुणा सह मवे मुषिषो; जाव सवर्षयो सि । उनवत्रो कापयो ।

अमुषिय-जिषिठ वयना सज्जम-कल्लिया वि नेय(व) उवइइं ।

षडिषज्जति सम्म जह मीसा पूसमित्त(मुह)स्म ॥ ८६

[अमुनि(ज्ञ)रविने-उपपन्न. त्पमकलिना वसि कैनेपरितम् ।

प्रतिपवन्ते सम्मय यथा शिन्वा पुष्यविमस(पू.) ॥ ८६]

— [१४३. अज्ञाने पुष्यभूति-शिष्य-कथा] —

अथि भरद्वाजे गुणगर विन्ममं सिउचउणं नगर जपलन्ति-संकेप-द्वार्यं । सु(ह)-
 दिवन्तो राया । वदसीप-परिवारो पूमभूई आपरिषो । तेन च गवा मावगो कयो ।
 अप्पया गुरुयं ज्ञायं पचिसिउकामेण सुरिया वाहरिषो सप्यो वदस्सुओ पूसमित्त-
 शिष्यो साह । समावर्षे एमत्थ निगुंजे ज्जमय । ते पठमाये मीमे इगओ अवघेठ
 'मा विम्यं भविम्यई' । त च उजाण महापाण्य-गमिस, उनामा वि न वम्म उववविम्य-
 ज्जति । त-ओ नहाविह आपरिषं द्रुम भगिष संन-वृणीहि - 'मा ! काउ-नर्पं वि आप-
 रिय न इवेसि' । तेन भगिषं - 'मा विम्यं करोह ज्जाणम्म' । तत्रो जहे उनाम-
 नीमासा वि बोपलसिउज्जति । तत्रो संतुप उदिय रहयो जहा - 'काउ-नर्पं वि आपरिषं
 वेचाउ-साहणत्थं न एम तिनी अम्हाय कहेई' । तत्रो आर्मन्ण विरुम्मातो दिट्ठो करी
 राइया । पूसमित्तेण चारिउंता वि समादया 'सजनी । 'मूवे' विमासिउह' वि मण्णवा-
 येण छिन्नो कापंगुद्र । विवुहेण य भगिषं गुरुणा - 'अजं कीम साण-वापाओ
 कओ ?' । तेन भगिषं - 'कि न वेच्छति एते अगीचन्थे निपय-सीसे ?' । तत्रो ते
 खरटिउण भगिष गुरुण वि ।

अथि च - "अज्ञानं कुरु कुरु ज्ञेयार्थिभ्योऽपि सर्वपापेभ्यः ।

अर्थं विदमदितं ना न वेत्ति येनावृत्तो लोकः ॥"

उववत्रो कापयो ।

पूसभूइ-सीस-कहाणयं 'समत्तं ॥

बोसानल-बज्जलिओ इह परलोए व पावए दुससं ।
गंगा-नाविकनन्दो व धम्मरुद्धो समासाओ ॥ ८७

[बो(दे)पानल्यन्वलिह इह परलोके व जाओति दु ससं ।
गङ्गा-नाविकनन्दवद् धम्मरुणे सकलान् ॥ ८७]

कथमिदम् ?—

— [१४४. हेरे नाविकनन्द-कथा] —

नाविकनन्दो भवं उचारिद् । तत्र य लोकेन मह नाराहटो धम्मरुद्धं नाम माह उवा-
चिओ । लोको व मोल्लं दाऊव राओ, सुषिओ तं नलिच । तेव मो तत्र बालुका-मन्हे
विरुद्धो । मयाकेण बिकरु-वेला । समुप्पन्न-लोकेण य दिट्ठीविण-रुद्धीए प्पट्टीकओ
नंदो । अङ्गुलाम-दोसेण य सहाए पर-कोडलओ जाओ । धम्मरुद्धं वि विहनमाओ ।
गृहिय-पाव-भोपओ तं चिच महमाहीओ । इहुण व सुषि मजाए-रोसो बद्धरि कपए
वाहिउमाउओ । हुवरुवं निदाडिओ वि जाहे न दाइ, तओ इओ पुओ वि दिट्ठीए ।
तओ मयक-तीरे उप्पओ हंतणाए । माह वि लीपकले अंतो पओ रुद्धेसं । पयटी-
हव-ओओ य बरिउपमुदयमस पम्माओ इमि-उपरि परिमिउं पवओ । जाहे न दाइ,
तओ दहो कुओ वि दिट्ठीए । जाओ अंजणपए केपमी । साह वि नदाविह-भविण-
याए मत्थेण मह नेण ममीयेण वंतुं पवओ । इहुण वं, मोचुम नन्वे पराविओ सुषि-
भोअभिमुहं । तत्र वि मारिओ संते बाणासीए विण-सुओ जाओ । जाओ अहुवरि-
सिओ । इहुण व तं रिषि अण-दिवेहिं मह धृति-रोहमाएहिं उरुमनं काउमाउओ ।
निवसेसु वि विंसेसु जाहे न मो विट्ठ, तओ ठारीकओ ममाओ उप्पओ तथेण
राया । सुभरिया हुव-मवा । तओ समुप्पन्न-मएण सुषिओ जाणएए अकलंविआ
एसा पष्ठा—

“गणए नाविके नंदे, समए भरोएओ । इमे मकल-सीएए, सीओ अणमन्ए ॥
धम्मरुद्धो वहुओ, तत्र लोकेण अणओ ।”

ओ एण पणं पूरेः तस्म रावा अट्टरजं देव । तओ मवे वि पुरिउमारडाः न
तवाएरुवमुत्तर आह । जाव विहरमाओ पओ मपरिणं सुणी । आर[हो]विण भविणं—
‘मयवं ! पणं पूरेसु’ । तेव भविणं—‘पट्टु’ । ‘नेमाए नाविओ नंदे’ वि, इवाए-
भविणए पुरिया इमिआ—

“एतेसि धामओ ओ उ लो दे ओ(अव, एतेव) एणमओ ॥”

राओ आरहडिओ । पविहारेण निवेहं राओ । पविट्ठो । पुरिए व पणएण सुषिओ
राया; तमासासिओ चंदणसाएएहिं । विट्ठो धम्मनाओ आरहडिओ तेहिं पुनिसेहिं । ते
वारिअण भविणं राणा—‘ओ ! कइं तए पणहओ नाओ ?’ तेव भविणं—‘वेव ! एस
संमायाओ(ओ) पणएण पणहं वंसेयाओओ’ । राणा भविणं—‘कए सो हुयो ?’ ।

तेषु भवियं - 'उज्जाये चिह्न' । तत्रो पट्टविया मंतिषो - 'अन्य-वसात् कर् आगच्छा-
मो वे वंदयन्त्यं' । आगत्रो राषा । कृपा धम्मकदा । जात्रो भावयो । कृपा स्तुतया ।
आलोच्य-विदिय-वदिषेत्-कप-उहाविह-पापच्छिपो य चिह्नो इति चि । उवयो
काययो ।

मंद-कथापायं 'समस्तं ॥

तव-सोसिया वि सुणिणो कोद-वरा मारिकन जंतु-गणे ।

सावेन महानरद् वचंती(ते) करड-कुरुड(ट) व ॥ ८८

[तव-सोसिया अति मुनय-कोपरा कारित्या वन्तुगणार् ।

सावेन महानरके मयन्ति करड-कुरुडानिव ॥ ८८]

कथमिदम् ? -

— [१४५. कोपे करट-कुरुट-कथा] —

वेममणनपरि-कथात् कुपालाए महानपरीए नायाविह तव-विसेस-सोसिय-तयुयो
मानकप्येष विहमनाया संपना उद्विपोवन्ना(प्या)या दोचि करड-कुरुडादिहाया तव-
सिसयो । वपर-निहमनात्प्य-वसोहीए भावाप्तिया । 'मा सुणीणसुवदवो हवड' चि
देवया निओणेया य नवरि-मज्जे वरिमह । नाकपया य निदिटं पयना । पुनकर्म च
हीलिउमापेहिं तसु(प्य)ण-ओवानलेहिं भणिययेपहिं -

'वसित्तु देव ! कुण्डलाए' करडेण इयम्मि भणिए,

कुरुडेण भणियं - 'दिवसादि दस पच व' ।

पुणो वि भणियं करडेण - 'पुड्ढि-भिच्छहिं चरहिं'

कुरुडेण भणियं - 'ज्जा रई तदा दिवसा(व)' ॥

भणियण वया साकेवं । वपरी वि सजयवया पधरमहिं अहोरपेहिं पक्खिना
समुईमि । ते वि सजयवरिसे* रुदन्नापोवमाया मरिउम उववन्था तवमपुदवीए
कालनपरि(रए) वापीतनामरोवमाउयो नेरइया वाया । कुपाला-विवातकालाओ य
हेरसमे वरिसे महावीरसस केवलं तसु(प्य)णं । उवयो काययो ।

करड-कुरुड-कथापायं 'समस्तं ॥

सम्ममणाल्लोएंतो मच्छियमल्लो व वचइ विणासं ।

आल्लोएं(य)तो सम्मं फलहीमल्लोवमो होइ ॥ ८९

[सम्ममणाल्लोचयत् मच्छि(मात्ति)कमत्तवद् वयति विज्जइत् ।

आलोचयत् सम्मं फलहीमल्लोवमो ववति ॥ ८९]

कथमिदम् ?—

— [१४६. आलोचनानालोचने मल्लहर्य-कथा] —

कुबेरपुर-संक्रान्ताए उल्लेणीए जिपमय राया । मन्थ्य राज-विभक्त्याओ मन्थ्य-मल्ल-
चूदासणी अट्टणो ने(ना)म मल्लो । उओ व सोषान्ण नपरे सीहमिणी राया । लो व
मल्ल-मल्लपरं दुणद् वरिस-वरिसं । मो(जो) य जिषद्, तम्म वडामाए तद् बहु तित्थं ।
वेद् । सो व अट्टणो तथ गंतू ल व्हेण मह जड(प)वडांणं वेणु[द्] । अण्णया चित्तिपं
राष्ट्वा— 'जोदावणा मय एया, जमन्थ—रत्ताओ पडामं वेणु । तओ दिट्ठो मन्थिओ
वसुं पियंओ । 'जोमो' वि काऊण गादिओ निरुद्धं । चोत्तिओ वरुवारी-रोद्धं । पने व
मल्लपे तम्मो वि विमिज्जिओ अट्टणो, मन्थिण्य-मल्लेण महिया वडामा मह इव-साहु-
कारेण । विमय-दुम्मणो वओ अट्टणो उल्लेणि-दुणं । चित्तिपं च वेण—अणं सुवाणय-
मन्थिस्सामि । न्थेण सुग्गुवियए दुग्गुवियया-पाम मामो, तथ डिण्ण दिट्ठो
एओ दि(दासि)ओ एणेण इन्धेण इलं वारेओ, दुग्गण कलि(लहि)ओ उप्पारंओ,
सूर-सुधपं तीमिण पडण्ण सुंजमाओ, आवट्ठिय-पुरीसं च रोत्तिरओ । 'उचिओ एओ
मल्लवमस्स' भावेण्य भण्णिओ अट्टणेण— 'का ने जीविवा ?' । तेण भणियं— 'कलि-
तथेण' । तेण भणियमहमट्टणो मंतवसीवर करंमि, जड मे वयथं करंमि' । 'एवं' ति
य पडिचण्णे महियाए कथाम-मोहं दाऊण नीओ नो उल्लेणीए । वण-विनेप-
पुण्यं आणेविपं पनं । जओ महात्त-राऊमो । लिक्खविओ वि(नि)रुद्ध । पण्णो
सौवारी(वा)पायिउद्धं । कमेण य अहावेतो कलं पओ महपने । निम्पओ राया ।
संपओ वेण-वाह-सहिओ मन्थिण्यमल्लो । मंगलदरेणु, आरुरिणु संसेणु, जयवणविने
मामहेदि, वणविउमारडा मन्थिण्य-कलिह(लहि)मल्लि ति । अवि व—

वन्मंति दो वि वन्मंति दो वि पहरति दो वि जय-तुडा ।

निवर्द्धति दो वि उर्द्धति दो वि अहियो व वरणीए ॥

व(वा)भवत-वृद्धि-कोप्प-आणु-पहारेदि लुम्बितं दिनसं ।

संतुण्णिय-मवणा संपणा दो वि निव-दाणे ॥

तओ पुण्णिओ अट्टणेण फलहीमल्लो— 'पुण्य ! कि ते वाद्द ?' । नेण वि 'सुग्ग' वि ॥
काऊण निरासंकेय साहियं जह-द्विव । तेण वि अर्थय-सेव(च)ण-वडामाएदि पउपीऊओ ।
मन्थिण्यमल्लो वि राष्ट्वा पुट्ठो— 'किं ने वाद्द ?' । तओ माग्ग-उज्जाह-विमोदिय-मणेण
मणियमणेण माणेण— 'अल्ल मद्द-संभणयोवकमेण, न मे तेण व वहाएण वेया वि
पीडा कीर' ति । वसुंसे तद् विप तम्मा दोण्णि । मन्थिण्यमल्लो अचिय मरीओ जाहे
न तद्द लुम्बितं, तओ वग्गाह-दुण्यं काऊण उचिओ । नेण भणियो अट्टणेण फलही
ति । तओ सपाळं तोडियं सीस । महिया वडामा । पुरि मवणा, संपव-तिक्ख-सुई
ति । अओ भण्ण— अट्टणेण पुण्णिर्य जह-द्वियं कलिह(लहि)मल्लेण सिद्धं, तथा पुण्णो
आलोच्यवर्णं न जहा मन्थिण्यमल्लेण कयं तथा कापयं ।

कलिह(लहि)मल्ल-वण्णायणं 'समत्तं ।

सुवर्दं राग-रत्तो राग-विरुद्धं कगावर् पुरिसो ।

मिर्च नि आत्रयाए पकिस्त्रवइ जहा य धणमित्तो ॥ ९०

[सुवर्तो रगरत्तो राजविरुद्धं कगावर्त्तं पुरिसः ।

मिर्चमयावदि अक्षिपति कथा च धनमित्तः ॥ ९०]

कथमित्तम् ?—

— [१२७. रागे धनमित्त-कथा] —

वंतपुरे वंतच्छ(व)क्षो राधा । ससवटं से महादेवी । आदण्व-मन्थाए य दंतमय-कामाप-
कीटयाम्नि डोहले ताए राहया निय-वेन-वडइम्पि-दंशा आणापिया नरिहाहितो ।
अम्भो मेहंतो ददिजइ । समाहया वंत-वल्हिया । इभो य तरवेर चणमित्तो पणिय-सुभो ।
= दोषि से मारिया । चणमित्तो पदमा । पठमसिमी खिया अर्धत-नहडा य । अणया नि
वंठणे पपड्डे मणियं धणमित्तिए — 'इला ! कि ते ममाहितो अणमहितं ? , लेण महमुह-
इत्ति; न य ते सच्चवर्दं विव वंत-वल्हिया कीमइ' । तीए मणियं — 'अरम्मं कारयेस्सामो' ।
पविट्ठा वेत्र-वरे । पुण्डिओ परिपणो वणिणा — 'अथ विपयमा ?' । दाविया परि-
वेण । लेण मणियं — 'पिए ! कि केण ते अरइ ? , कि वा न संवरणं ? , जेण पुणिया
= मि' । पुणरुत्तं च पाहरियाण साहितो निपयाभिष्साओ — 'अइ वंत-वल्हियं न करेसि',
तओ अरम्मं पाये परिचयामि' । विजा-वज-निव्वरस्स संपणो निपय-विज-विज-विज-
मन्थान-मिठी वडमित्तहिहामो वान-सुही । मणियं च वेण — 'कील निमणो ?' । तओ
सम्भावे निमुमिए मणियं वडमित्तेण — 'वपेत ! विपए विजा तुमं न दवसि, तए मरते
अइ न बीमामि । अइ मनेण पव-वामं — अइवीए पुंसिरेहितो पुत्तेण वेत्तुण अर्धत-गुरे
= अण्येमि दंते' । तओ पुण्डिय-सुग्ग-दवाणि वेत्तुण मओ एसो । बहिय-दंतो य पणो
नगर-वाहि, तव-पुल्लव-विट्ठिए य कमारिउमारडो । तओ वसवेण पहिए वुल्ल
'खइ' नि पडिओ दंतो । 'विरुद्धकारि' नि मडिओ मरद-पुरिसोहि । मणियओ
नरिदस्स । लेण वि य वज्जो समाइडो । तओ सोल्लण पाव-वटिओ धणमित्तो विज्जवि-
उमादणो — 'दिव ! न एवस्स महाणुवायस्स दोसो, मए एयं राग-विरुद्धं कारावियो;
= वा सोत्तुण एयं ममं वायाएस्स' । वडमित्तो पुण्डिओ — 'कि न मणमित्तो ?' । लेण
मणियं — 'दिव ! नाहमेयं विजामामि, नवर वम पाण-सरकलणव्हे निव-वीमियवुत्तइ' ।
तओ बइ कइ नि धुमिय-सुचंतेण राहया लकारिउज्ज मुक्का ।

उवगओ कापओ ।

धणमित्त-नस्साणयं 'समत्तं ॥

इच्छन्तस्स वि पूजा न होइ अहं धम्मघोससाहुस्स ।
पुण्य-रहिचस्स जायइ धम्मज्जमस्सोव पुण्येहि ॥ ९२

[इच्छन्तेऽपि पूजा न भवति यथा धर्मघोषनाथो ।
पुण्यरहितस्य जायते धर्मवशम इव पुण्यं ॥ ९२]

कथमिदम् ? -

— [१४८ निःस्पृहपूजायां धर्मघोष-धर्मवशाः कथा] —

विजय-नाहपुत्र-वध ममाउल्लस्य चात्स्य संकल्पाय कोसंबीए महानगरीए राप-
ल्लन्धिमंदिर अविपसेधो मया । चारिणी चहादेवी । तीणं चिय सुवरपय-महोपहिणी
धम्ममसु आयरिया । तामं च हो पहाणतीना धम्मघोसो धम्मज्जो व । अज्जचं-
दयाचुकरिणी विमयवई चरिणी । विमय-मया ते जीमपिया । तीणं वधं पचमत्ताये ॥
सधेण य महापूजा-मकारेण य निज्जकिया । ते च धम्मघोम-धम्मज्जमा चत्तारि वि-
चिचार्इ विगइ निइहियाणि चत्तारि इमिणाज्जम-विहायेण मरीर-परिकम्मं पणउमा-
ट्ठया ।

इहो च उलेपीए नगरीए अयेण-सम्माह-पयय-पाय-वंकओ गयस्सिरि-संकेयट्ठामं
चंडपज्जोओ महानंदिओ । तस्स य होसि पहाण-पुजा भाउणो पातयो, गोपालयो
व । गोपालयो निज्जिण्य उम-भोगो चवड्ठो । पातयो रापणं कवुणो । तस्य होसि
वि पहाण-पुजा भाउणो अयस्सिपट्ठयो, 'रि(र)इवट्ठयो व । अरंनिपट्ठयं रावार्थं
'रि(र)इवट्ठयं च सुवरत्तं काउण पट्ठयो पातयो वि । उण्यया वसंतूपमे नंदयण्णोपमे
पाहिहज्जाये वीसत्थं रसेलीए लुक्काय-भारियाणं चारिणीए मरीर-सोई निएउण विविप-
मवनिपट्ठयानंदिव । अवि य -

'किं मात्र जीवित्तं' एवमपि वि जइ उमाट नहं भोगे ।
सुममुत्तन्निभन्निमाणं जंनिट्ठयं भो' व सुउमो ॥
मो चिय उयमिणं पण्यो तो चिय मोहम-महिओ व वंओ ।
ओ एपाए पावइ इह-कम्मत्तं चंचरीडं व ॥"

तयो संताप-वम्महेण वट्ठविपा दुई । माहिओ नंदि-हिण्णाओ । तीए भविपमत्तये-
पाए सवट्ठाय, परिहरिओ एनं मम्मो सुइ(र)-सचेहिं वि ।

अपि चण्डानिलोदृत-उत्तमस्य महोदये ।
कम्येत्तं जन्तो रोडुं नानुत्तमस्य वेत्तम ॥"

पुण्यरुचं च पत्थिज्जंतीए अविपस्यं भविपमत्तए - 'हता! दुष्ट! किं भाउणो वि न
लज्जए मया ?' । एयं सोउमया रावाहओ वट्ठवट्ठयो । पुणो वि भगाविषा - 'संययं
इच्छसु, अवसीयं ते सल्लं' । 'अयो ! मम तुडेण वावाहओ पुण्य-रपय-महोमही अज्ज-
उत्तो इमिणा नंदिहाहयेण, तो ज्ञाय तीण-भंगं न करोइ, ताव अरंनिसेयं पुणं मोसु-

बभिवेव अक्षय्य वक्तव्यो' पितृकृत्य नहिनामरथा पपट्टा सुखेय सह, कोसंकीर
 कमेव य संपत्ता । कथ दिङ्मात्रे साहृणीभो । वंदिकृत्य य पुष्पकवं पुच्छिपात् साहिजो
 परमरथो । संजाय-संवेनाहमथा य लिखन्ता एमा । अक्षया(प्ला)सिभो विव वाही
 बह्निउमहादत्तं बोद्धु । पुच्छिपा ए(र) पवतिषीए - 'पच्छे ! विमेय !' । तीए बभिय-
 मायप्प-सत्ता पवत्ता, न पुवं सिद्धं, मा पवत्ता न होदिति' ति । मपहरियाए भवियं -
 'न सुंदर कयं' । पच्छिपाए बह्निभो एवभो । कमेव य मत्त-लक्ष्मण-सुवं पट्टया दत्तवं ।
 'ता साहृ-साहृणीगहुवपाय-कितेयाएवो इवटु' चिततीए नि(र)द्वपद्वप-नामंकिपाए
 रयपहुदिवाए सह सुको नीरिद-मरगंगये । मोत्तण अवकत्ता नाहृणी । दारजे वि
 उवरि(स)-कत्ताकृतेय मभि-प-मा-सहृजेप ववगमयो दिट्टो राह्याः पेकय न दिप्पो
 " चारिषीए - 'एन वे अयुवाए पुवो' ति । 'पच्छिप कम्भा देवी पट्ट' ति कयं
 महात्तद्वान्तर्यं ।

अपि च - 'पते पते शत्रु-कत्तादिमये म्हाग्गे पर्वत-महते वा ।

सुत्त प्रसन्न भियम-सिधो न सन्ति पुष्पानि पुष्पानि ॥'

साहृणीदिं पुच्छिपा - 'कत्त एमापिणी मया !' । तीए भवियं - 'वावर्था दिमरुवं
 " जायं, तस्स परिशुववर्यं' । सो न पंचवार्ह-चरिचुटो बह्निउ कचो । कयं च से नामं
 मभियपभो । साहृणी य महादेवीए मह भिवि क्काऊय दारयमभिनंदविह । कमेव
 संपत्त-ओवपस्स कथो अ(पनि)पसेन(व)भरिदो । 'अमावापण-गुणावाण' ति क्काऊय
 अगिच्छेवो वि अहिसिचो महानामंतेदिं रत्तादिसेय्य ।

अपि च - 'नीदन्वापर्विताधेते न वाउन्नेतीमरे प्सेते ।

" जहमा तु पावत्ता मेम पावनाखन्ति सम्पद ॥'

पपासुरागाइ-गुण-मयावजिपं परिचयं रत्तं । एवं च जन्मंतर-समुवाजिप-पुष्पाउ-
 मात्त-जपियं तितन्ना-साए जीवतोय-सुहमपुहवंतस्स मभदकतो फोइ कालो ।

'अवो ! तीए कएण भाया वापाइभो, ता वि देवी न जाया' मत्त-पप्प-पच्छावावो
 तेवं विव सुयस्स अवतितेय्यकुमारस्स रत्तं दाऊय क्कात्तापुक्क-कय-कामवो महाविभूर्हिए
 " पक्कभो अवतितेय्यनरिदो । अवतितेय्यराह्या वि सिट्टा सवे वि पुष्पाइवो, नचरं
 मभियपमराह्या वत्त-कालो वि न पट्टाविजो करो । तस्स मग्गणत्वं पेसिओ द्दो ।
 पडिहार-विषेइभो य पविट्टो एवो । कय-जहारिह-कापवो भवितं पपचो ति -

'आइसइ महाराओ अवतितेय्यो मभियपमनरिं ।

क्कात्तापुक्क-कयं दाऊयं रत्तमपुहवसु ॥'

" तयो अपुव-उक्कमाय - 'सइ सोऊय सत्तुपप्प-दाऊय-कोवानळ-पम्भुहु-कापवेण भवियं
 राह्या - 'अरे रे ! एयस्स अत्तगिन्सिय-जंपिरस्स ज्जापि सिप्पं सिद्ध' । तयो 'इं
 महानाओ आण्णेइ' मत्तिप-सत्त्वा सत्तुट्टिया पुरिमा । एत्थंतरमिंम सुभिय-मपो-विपपेण
 पदियं द्दयं ति -

“राजन् । पापय परमेद नम सम्माजोन्मत्तिय ।
 स्य चान्ते च महीपाला सर्वे दत्त-मुखा वत् ॥
 निपत्तस्तपि ज्ञप्तेषु सद्युते च महश्चरे ।
 दृष्ट्वाप्य देवता तुल्यमप्य-व्यव च नीलितु ॥”

तत्रो मृषिय-नीर्हस्यशेषेण पुणो वि जमिपं वदुय नि -

“दूय 'नि जे न वज्जो एवं भगिउय उवसि इपाम ! ।
 इहा एवं भगियो' जीवन्तो जाह किं तुस्सिो ! ।”

इएय वि संदूय निवेदो एम पुणतो अवतिसेगराउणो । सो वि महावत्-सत्तुदएणं पपट्ठो कोसंसी-दुचं । कमेय व मवानग्गीइओ तीए । मृषिय-दुचंतेण च कथा मधि-
 प्यहराउया वि कुञ्ज-मागमभी । ताव च धम्मघोच-धम्मजमह्वणीय कथ-पठिकम्माय ॥
 पइमनाहुया थितिय - “जहा मलय-संपाओ विगयमवाए मकारो इह-द्विवाए वाविओ,
 तहा-इहमवि पाविस्साओ । इहइ थिय जेवनणे उअमिं । नहा उवं । धम्मजयो पुण -
 'कम्म-कसुव समादत्ते किं पूया-सहादेण जायरं ? । कथं ववामि, उवच न कोइ उवाइ'
 भावेतो कोसंसीद् उजेवीए च अन्दरे वण्डमा-सीर-पइयसम कंदरमिण टिओ भगमयेवं
 ति । अवि च -

“नो इहलोमहाए उवमदिद्विजा, नो परलोमदिद्वियए उवमदिद्विजा, नो विरि-कण-सद-
 थिलोच-द्विआए उवमदिद्विजा, नव्वएय निज्जद्विवाए उवमदिद्विजा, नव्वएय अरि-आर'द्विआए
 हेउअि उवमदिद्विज ति ॥”

एवं अवतिसेवेण च आरंभूय रोहिषा कोसंसी । तत्रो मणजंति महासुहदा,
 आउलीहोति निओहणो, कम्पिजंति करिणो, वसस्वरिजंति तुरगमा, सज्जिजंति सदया, ॥
 सम्माणिजंति सुहदा, सचविजंति वरुण-गणा, अणुमिजंति पिपपमाओ, विउद्विजंति
 महादिह-करि-तुरगमाओ, 'किमेव नविस्सह ?' ति लमाउलीहोति कामरण ।

इय सवे पिय लोमा निय-निय-कापइ-वावटा आया ।

न च कोइ धम्मघोसं अविनंदइ भारहीए वि ॥

अवि च - “अय्योए विचिन्त्यन्ते पुहोम मजेतथा ।

देवउपरितसइजयात् ससोथ मतिन्वया ॥”

अथ-दिवहम्मि वहुविओ अवतिसेवेण जानहो मधिपमस । जमिपं च वेण -

“जइ सच थिय लोहो वपि-नुहाए कधि नीखरउ-तु” ।

अथ नोनाउ सच यइ नवो-दीय नीहरु ॥”

राहया जमिपं नि - “सक निवएद मीहे कोपवि-नुहाए देव उइ कउ ।

निम जीविएण वस मा कुल उ विवेदेतु ॥”

अह बंदिण पलण 'पुमरुत्तं बोहिओ सि पुव एवो ।

संपोदिओ नराहिन ! नीहर नपरीए तुज्जामो ॥

१ क म पु नि जमन । २ क ज 'जिओ । ३ क 'सु' । ४ क ज 'जिओ । ५ क 'वि' ।

‘एवं’ इति पठित्तमे संज्ञायं मान्देष्य निय-बहुषो ।

सिद्धिमिषं तो ताहे सचदो निय-बल-समेओ ॥

तत्रो मधियमरापा वि स-संभावसो लपरीए नीहरीउ पवरो ति । अवि य-

प्याओ कन-बस(लि)कम्मो मियवत्पाहरण-कुमुम-सोहिओ ।

भवत्त मरंदासदो मत्तो ‘इव नीह कम्माहो ॥

रह-तुरि(रो)व-पकसाङ्क-बनकरिताह परिगाओ एवो ।

एव-रहम-पुनरावसो भरहनरिंदो व नीहरा ॥

एवंकम्मि विविषं ते अवपीए साहूपीए - ‘जाव निरवरह-अव-संसओ न दोए, ताव संवेहिउय एयं निवारेमि भंइयं’ । तत्रो संज्ञायं मधियो राया अत्ताए - ‘बन्ध ! वैमटावेसु जगं, माहेमि इचि वपणावि’ । तत्रा कए मधियमयाए - ‘वतीन मियप-मदोपरेण सह जुञ्जमि’ । तेण मधिय - ‘मगवई ! कीण अलिनं बाहरमि’ । तीए अणियं - ‘बन्ध ! न मग्ग-सामए वि नाहूपीओ अलियं वंपति’ । तेण मधियं - ‘ता कइं वे सहीसरो’ । तत्रो जह-द्वियं मत्तिवत्त कहेउय निय-बुचंतं कच्छा मधियो - ‘जह न वणियमि, तो एयं अवपेमि दाणि पुच्छसु, गुरुरइय-नामकिपं-सुई व कंहावि(वि)उय वच्छतु’ । एवं कए पवह-सकेण वि मधियं तेण - ‘तहा वि संपयं निवतंतो लज्जामि’ । तीए मधियं - ‘बन्ध ! अउं जुञ्ज-अवनाएणं, भापर वि ते लवसावेमि’ । राया तव्व । पठिहारोण विजयो राया - ‘देव ! पइया इहुमिच्छइ’ । पविट्ठा एमा, निज्जा आसवे । ‘अहो ! अम्हाय सामिणीए सारिण्ठा का वि एवा अत्ता, ‘निससंयपं धोरिमि’ ति जामिउय पाव-पठिओ वरिपयो रोविउं पवरो । वच्छा सवित्थर

३३ निवप-बुचंतं वदेउय पुणो वि साहियं अहा - ‘एम ते महोचरो, ता अउं जुञ्जेय’ । तत्रो कवा लोभं वि भाउयाणं अत्ताए परमपीइ वि ।

“तं वि वि अल्लणा-अन लोसए सहु वत्ति उय वनेय ।

व उच्छिउय न तीरइ वाम-सहस्सेहि वि वरुहि ॥”

अपि च - “वाता हिमाचोलेच्छित्तं व मूला मन्व सज्जं सज्जममगमर्षं ।

एवंउत्तम्येषु सुव विचरो क लहत्ताना पुनसिद्धं म्हा’ ॥”

एवं च कोलेपीए वंचि कातं हिपपाशुइतं सुहसपुत्रविउय पुणो वपत्ता सह मयहरिवा साहूपीहि जगपीहि उजेमि-बुचं । कमेण च पूइजमाया वपनएण, पठिचंता पाहुड-तपाणि, धोमावेता अमाहिं, पुईता विग-सुमिणो, अणुकंभनाया दीपापाइ-सरथावए वचा वच्छगा-तीरम्मि पवए । तत्र वरेनवारिपो सुधि-सावया-

३४ ह्यो आगच्छंते इदंय वयाओ ताओ वि । वदिओ भाव-सार, मधिया व एताहि रायाओ - ‘वयं तव उचिमह-द्वियसु सुधिमो वंद्ययं चिद्धिस्माओ’ । तेहि मधियं - ‘एवं वि ते पूयं करेमो’ । तत्रोपुत्तुदिपहं मन्व-संकेण नरिंदेहि व पूइजमायो वंदिजमायो सोचूय कवेवरं गओ देवलोनाम्मि । ते वि संपवा उजेपीए सह साहूपीहि ति ।

अथो भण्णइ - 'अग्निच्छंलस्य वि चम्मज्जस्य पूया जाया, इयस्य इच्छंलस्य वि न जाया; अथो अहा चम्मज्जसेव कर्पं नहा कायइ ।

गुणदेवि-पसाएणं मुपाशुभारेण माहिणं चरिणं ।

दोष्इ वि सुणीण पुइ निमुणोते तहइ विण्णं ॥

धम्मपोस-धम्मजस-कम्माणपं 'समत्त ॥

सुद्ध सहावम्मि जणे जो दोम देइ पटइ तम्सेव ।

रुदस्स व गुण्डिज्जइ जो धूर्तिं सिवइ चंदम्म ॥ ९२

[शुद्धसहावे जने जो दोष दहति पति तस्सेव ।

रुदस्सेव गुण्डने जो धूर्तिं सिवति चन्दस ॥ ९२]

कथमिदम् ? -

— [१४९. दोष-दाने रुद्र-कथा] —

पंचाणं 'कोमिवल्लो उवज्जाओ । दोनि से सीमा अचंन-गुण-दोमाजग अंगरिमी रुद्रओ व । पडुविवा य दाऊणाणं । कीडा-मचस्य य धम्मदो गुणुवणो रुदस्स । नररत्तथमण-ममण अंगरिणि नमारोविच-रुद्र-भाणं दडुण उवज्जाय मीओ पवडो अइवि-दुचं । विडा जोइलणं नाम वच्छवाली 'पंचवादिहात्म्य सुवम्म अचं' दाऊण राहिय-रुद्र-पला आचच्छंती । नं मारिकेण राहिलो रुद्र-भाणो, उवणीओ उवज्जा-पस्स । तओ करे धरिठ्ठव मणियं रुद्रेण - 'एणेण सुद्ध सुसीसेण इच्छवाणि काणि-ऊण मीओ तीण संतओ रुद्र-भाणओ । तओ नीणिओ अंगरिमी । निवप-रुम्मं तोएणो पमत्थ-ज्जवसाण-दुपेसु रुद्रमाणो केवली जाओ । देवा अचपणिपा । मणियं व पेहि - रुद्रेण ना मान्णिपा । तओ लोणेण विदिअमाणो सो वि जाण-संवेणो सुवरिय-पुव-अचंतरो केवली जाओ । उवज्जाओ यह भडुवीए वडओ । पचाति वि सिद्ध वि । उवणओ कपणो ।

रुद्र-कम्माणपं 'समत्तं ॥

जो न वि वट्टइ राणे न य दोसे दोष्इ मज्जवाग्ग्मि ।

सो भण्णइ मज्जत्स्यो मुववसाहु व कय-मुण्णो ॥ ९३

[जो नापि वंति राणे न च द्वेषे इयोर्मध्ये ।

सु मज्जते मध्यस-सुवगतप्राहुवन् कुतपुणः ॥ ९३]

इयोर्मध्ये राव-द्वेषयोर्मध्ये वर्तते स मध्यसो राव-द्वेषान्श न रह्यत इति अत्र-रावोः । भावार्थः कथानक-वाम्यसंघेदम् -

१ क ज सुता । २ क ज ल । ३ क कोधि स्यो । ४ क पला । ५ क पण । ६ क ज मर् । ७ क ज ल ।

— [१५०. साध्यस्थये सुजनसाधु-कथा] —

सुरेन्द्रपुरे सुलभनामो बाहवर्षे । सुजना से मजा । ताप व जिय-नयन-भानि-
य-मईषीं त्रिभुव-भार मधुन-सुहमपुहवंताप जाओ दानओ । कर्षं नडाकषर्षं, पदद्वियं
च से नामं सुदह(व) वि । नम्म-कालाउ आरम्म सुहंसुहेण बहुमाओ संपचो जोषणं ।
१. जाओ विशादीषं वि कषविओ । नहानिह-वेराष समीषे साङ्-कम्म सोऊण निरिण्ण-
भव-वर्षचो कह कह वि पुरुषणाशुणाओ सुज-जिय-साङ्-संचो महाविश्रंण पवओ
एओ । सहिया हविहा वि तिक्खा । कालेण य एवहविहार-पठिमं पठिनउडम विह-
रिउमाइचो । तओ उनओम-पुण्यं देव-परिणा-भार्यं भविषं पुरदनेव — 'अहो ! सुदय-
साह न राग-दोसेहिं चालिखइ' वि । इममवदंसा एवा दोष्णि तिक्खा एणिकणायं ।
२. केष भविषं — 'अहो ! महासुभाओ एम सुणी इमा-वमयाती' । इउएण भविषं —
'अदहओ एओ, जेण सुज-वंस-विक्खेओ कओ' वि ।

अपि च — "अपुत्रस गतिर्मरिचः" इति श्लोकः ।

पुत्री वि श्रविया जयणि-जयया विसवासका विरवंता चारिजमाणा व । पुगो
समाइया अशुद्धलोभमग्गा, पिउरुविवा संवे उउणो । समोपरियाओ सुसुंदरीयाओ । समा-
३. टणं नाभाविह-मस-हाप-भाप-करणंवेहाराइ-उपं भिक्खणयं । तहा वि न राग-दोसेहिं
अभिसूओ वि । तओ उप्पणं केवत्तं, जाव संपचो नेहाणं वि ।

सुदय-कम्माणयं संमत्तं ॥

आलोचनाइ-पुत्रं आगहेताण जायए सिद्धी ।

पंडव-कर्म-लयाणं चिई-मईषं वै नरलोए ॥ १४

४. [आलोचनादिर्षयारापवतां वाचते निदि ।

पाम्बन-वृक्ष-लवचोर्भूति-मत्तोमि नरलोके ॥ १४]

कवमिदम् !—

— [१५१. आराधक-सिद्धौ धृति-मति-कथा] —

पंड-महुराए निरिण्ण-काम-भोगा जोम-पुत्त-निमित्त-व-रुज-भारा उक्खालाशुरूव-नि-
५. शपियासेस-कायथा महाविष्णुणं निक्खता कुट्टिद्विकरापाहो' एव वि पंडया महाविज्जा
(पहाविवा) अरिदुनेमिओ तित्थवरसस सवासं । कमेण य एवा इत्थकर्म । भिक्खं
भमंतेहिं विज्जा स-विमौणा गवय-मग्गेण बोळिता तिक्खा । 'किमेपं ?' वि । देवेहिं
भविषं — 'हेलोक-दिवापरणे-अरिदुनेमित्थिययो नेहाणं वचो । इम्म पूया-निमित्तं अ-
यरिया वचोसं वि सपरिपरा तिक्खाहिंवरणो । 'अहो ! अठमम्हाणं जीविएणं, तेलोक-
६. दिवापरम्मि अत्थमिणं' बावैता परिदुविल्लम भिक्खं सवासटा ससुंजयं सेसं । टिया
कापचोवमसषेणं । तओ भावैताण संसारासारणं, तिदधम्मण्य अणेन-भव-निशपि-

प-शावकम्भं, पञ्चशुभाय-संविद्य-मनुचक्रलिय-जीवति(वी)रिवाय, समारोविष-क्षयमसेटीय, सुकृन्तापोन्त-विदुः-कणवाह-कृष्मिपवाणं मनुष्यं विरिभिर दिङ्मपत्तं सोमलोम-प्या-संभं केयलनायं । चलिषाम्ना मुक्ता पना लियमा । कथा वेयलि-वहिमा । पुषो वि सुविडन भवोदग्नाहि-कृम्भ-चउक्यं एगममएण संवता कर्मवद ति । एताव पंतुम्भ-पत्त राह्यो दोष्णि पूवाओ विद्-मईनामाओ । ताओ वरहवाग्डा नसृ-मग्नेष । उञ्जेलप-संदवत्पं पयडाओ । सागमंतक-काएव(य) पयश्चं दृडज्य-कृतात्-चयं व सपूर-मज्जे समिठं पत्त । तओ मग्ग-भय-सीपा सोवा संद-क-चद-सुग(रि)द-सागिदायो विष्णयिठं पत्ता । चिद्-मईओ वि 'एस मग्ग-कातो' वि आओपय-गहग-विद्-प-पुवयं वत्तओ परिचय-सपल-मावज-ओगाय पडिनम्भ-सामग्गाय पचकत्तप-व-उविहाराण्य मनुचक्रलिय-सुहचरिगामाय समारोविष-मुकञ्जापान सहुप्यं केवलं ॥ १५ ॥ मायं । भिष्ये वरह्ये सुविडन भवोदग्नाहि-कृम्भ-चउक्यं पत्ताओ नेअयं । एतव तीरे सरीराणि उच्छलिपानि । नायं लवणममुदाहिवशां स-परिचय-सुरेण महिमा कथा । देवुओओ य जाओ । कपभिद् तं पञ्चासाहिराणं नित्यं जायं ति ।

अथो वप्यद्-वहा ताई आगहिषं, तहा आगहेचं ।

सुपदेवि-पत्ताएणं सुवायुनारेण पंद-नचुपय ।

सिद्दं विस्सिद्-चरियं निसुमंओ उडउ निवाय ॥

अविहीए सामणं कयं पि औपकलं समकत्वायं ।

गोवालि-सिस्सिपणीए पउममिरीए व लोमग्गि ॥ १५ ॥

[अविधिना आत्मन्ये कृतत-पत्तकल उवास्थातम् ।

गोपलि-शिष्यिष्वा पचअनेव लोके ॥ १५]

गोपाल्याः शिष्यो गोपालि-शिष्यो वत्ताः । कश्चिद्व ?-

— [१५२. अविधि-आत्मन्ये पञ्चश्री-कथा] —

रायणिहे समोसरिओ हेतोक्-दिवाकरो चट्टापगाममी । सेविएण पुच्छिओ-
 'कयं ? का एया देवता ? आ नहुविहि दाउम कया' । अत्रया भविषं- 'वाणा-
 सीए नदरीए भदसेवनाम सुणसेही । नंदसिगे से भारिया । ताप व कस्सिपट्टपेणि-
 व उविचमिष्ठा, कानि व अविद्-वहा, चविपच्छु-वेहि व अविद्-कथा, विद्-वाति व
 दुरहिंवा, ताळउड-विततप व असुर-रत्ता पउमसिरी नाम एव ति । अवि प-

अमंत-कप-वावा कृषद्-सुमेहिं वजिना एया ।

दिद्वा जेधे दुक्कं कपंत-सुधि व सुवेमि ॥

मयमानल-संतया वं अ पत्तेर संसुल्लभर पि ।

नरचकुडवि व तेय ति कयता पि न कापए वड ति ॥

अथवा समोत्तरिणो पापनाशो तिरुवपरो कोट्टुर् वेर् । कय समोत्तरनुवागवा देव-नरिदाण्यो । कथुया धम्मकदा । तथो अरुओ वाचमुने धम्मं नोऊग पवह्या पउमसिरी । समथिया मोवाळिनामाए मवहरियाए । तओ पुवं अहुणेण संजमाणुदाण्येण विहरिउम, पच्छा उण्णवीह्या । सा (पो)उत्तमाणा य रिपा पुट्टो-वण्णहीए । तओ एयाओ टाणाओ अण्णलोह्व-वट्टिंकेता मरिउमोत्तव्या पुळ्ळुहियवने पउमवहे सिरी देव-भणिया । [ती]ए नहुं हाइपं । अण्ये आपरिया वण्णति - इतिवगी-रुव काऊग मह्या सदेण वर्यं मोत्तुमाउता परिताए बोह्यात्वं ति ।

पउमसिरी-कम्पाणयं 'समत्तं ॥

- ॥ जौ मरणमि वि पत्ते वयं न सिद्धिलेह् नियव-सत्ताओ ।
सो जिणदेव-सरिच्छो वच्चइ अवरानरं टाणं ॥ ९६

[यो नत्तेउपि ज्ञाने ज्ञानं न सिद्धियति निवसत्वात् ।
स जिनेदेव-सत्तस्य मवसत्तस्य स्यात् ॥ ९६]

कथमिदम् ? -

- ॥ — [१५३ अतदाह्ये जिनेदेव-कथा] —

पारवई वेसमण-संघसो अरुमिचो सेट्टी । अणुपरी से भारिया । ताण य जिणधम्मामुट्टाण-वराकवाण जाओ पुनो । कयं च से नामं जिणदेवो । वट्टिओ देहोपचरणं, सम्भरंमणोरसम-वाणाह-पुवेहि य । संपनो ओवणं । जाओ विअइरीणं वि पत्थणिसो । अथवा मनुष्ययो दास्यो वाही । सहुं(व)ट्टिया वसतति-परिसा वेजा ।

- ॥ तमाउता चउण्णारा विक्किण्ठ ति ।

अपि च - "पिसम्भोवज रोमसि-अतिचारमरुण्ड ।

चियिमाउह्णानि चययि विक्कीणानि न्वपिसइके ॥"

न जाओ विसेमो । तओ भणियो वेजेहि - 'किमेत्थ बहुणां, जइ पर संन-रसेण इउइ, वंसं च स्याद; तओ पउवीहोइ, कण्णइ ति । सेण भणियं - 'किमेत्थ बहुणां ।

- ॥ अह मे जीविएण; अं कय-संसेण इवइ' ति ।

"अ प्रेतु अलिता हुउण्णम न चपि मअ पिन-नचित्त तउम ।

अ हि नुत्तु पुण्डुवण्णमे न चपि उँत्तसत्तित्तल जीवित्तम ॥"

वेजेहि भणियं - 'कुमार ! को वास-अधुणे बोका ? । अपि च -

"न मासण्णमे दोणे न मये न च भणुने ।

- ॥ मनुंसिया मूउनां निवृत्तिनु मरुक्कल ॥"

कुमारेण भणियं - 'अह पवेदिप-बहुण्णयेण, मआमम-मरुहिएण, असुइ-देहुण्णवेण, मसेण [व] दोसो ? ।

मर्जं वि तारीर-मायस्यपेमा-दीन-कारणं' ति । अपि च -

"वैश्वस्य व्यतिरीषिष्ठ स्वजनपरिम्य कार्येभ्यस्तस्मिन् ।
 विद्वेषो दृग्भ्यस्तत्र स्मृति-मति-हास्य विमयेभ्यस्तस्मिन् ।
 पास्तत्र नीचोक्त्य कुलकलकुलक धर्म-समाहर्ष-हृत्ति,
 कष्ट भो ! पीडयन्ते' निवृत्त-व्यसक्तः मयाजनस्त दौष ॥"

मेहुषं महापुरिम-मगद्विषे समार-निबंधनं सुगवार्धं वि माहारणं ति ।

अपि च - "आदीनामपि सामान्य मेहुष ये निबंधनं ।

त एषो ज्ञक वदति ऋतु सममानुमत् ॥"

तयो अरुण-वेज-वयवस्य 'भराणि' वि संजाय-निच्छि(च्छ)यस्त वास्यो पटिवस्य-
 वास्तस्य, द्विष-विहित-बंधनमोहास्य वैश्वशीय-स्वभोवम-सर्वोदय-सारीरो कष्ट कष्ट ॥
 ति सुमनसाणुष्माधो' रूप-विष-साह-संघ-मंदाव्यास्यमो महाविच्छेदेषं वास्यो एवो ।
 द्विषा दुविषा विस्त्रा । कालंनरेण सङ्गुष्ण-विषमयो पतो निवृत्त ति ।

जिनदेव-कल्याणयं संमत् ॥

जाई-कुल-परिहीणा गहिष पि वयं पुष्यो वि मुचंति ।

जह् संगमओ दासो अणुमइया जह् च दासि' ति ॥ ९७

[जाई-कुल-परिहीणा एहीवमपि वत पुनरपि सुवन्ति ।

नथा सङ्गमको दासोऽनुमतिफा वया च दासीति ॥ ९७]

कथमिदम् ? -

— [१५४. व्रत-त्यागे जाति-कुलहीन-
 सङ्गमानुमतिफा-कथा] —

उत्तरीए नषीए देविता-सुओ रावा, अशुरनलोपया से मारिया । तीण प
 पयो चिहुरे समारितीए पतिपे दहुम भविओ रावा - 'दुओ आमओ' । म-मच्छर
 'मदपनिवेदओ इहं पविहो ?' ति कुलपंतो मविओ देवीए - 'देव ! मम्म-दुओ
 आमओ' ।

"उच्छसु विमप, परिहरतु दुष्णए, उणु निव-मद पम्मै ।

उच्छसु कम्म-सूते इहं सिहं च(व) पत्तिष्णं ॥"

तयो' उष्पाडिउष्ण दारिषं मत्ति-संकास सोम-उच्छसु-वेदिषं' सोम-उष्ण-शते कप-
 पूषा-मकार नदरे मविषं । 'अहो ! सलु भलु(षादिह-पत्तिष्णं' पुष पुरिसेहिं पटिवस्यो
 पपवामो, अहं पुष तान विमपानयो डिओ, वान जगए अविमूओ मिह ।

"पत्तिष्ण-उच्छसु दूओ कम्म-उष्णमिष संडिओ भवइ ।

अम-उच्छसु एव जग जं कायवं नपे कुणतु ॥"

१ क मर्जो । २ क ज भारी । ३ क ज 'पनी । ४ क ज मर्जो । ५ क ज पयो ।
 ६ क ज दासो । ७ क ज दासो । ८ क नरेण ।

तत्रो पठमर्हं पुनं रजे अहिंसिचिउत्त पचडो असिचिचिरिम्मि ताव[स]-उचोवणे पचो ।
 तत्र पचडो तद् देवीए । तत्रपुगणेण य पडहाणि संगमजो अणुमडया दोभि दाम-
 रुवाणि । काळंतरेण य सहुण्ण-विसयादिवासाणि उण्ण[ह]पामि । देवी य बुहुण्ण-
 ण्ण-गण्णेषालुचिउत्तमाणी अपस-भीरु ललायमाणेण कइ वि सारविवा राह्या । कमेज य
 पडया दारिपं; उडया दोसेण मया जण-नंदिर । दारिवा वि 'संशुता सेम-तावकीहिं । कपं
 च से नाममजुसंपडमा । कमेण य रडुंती पत्ता जेवणं । आपुरिया सायण्णार गुणेहिं ।
 अउवीए य आपय जणर्थं संवाहेइ । तत्रो से सरुव-जोवण-कर-फासासिच-चिणेण
 चिचिपं उण्णण- 'अउं कइं वा मेण्णामि' ति । अण्ण-दियहम्मि अणवेमिसाउम
 इह-परलोण-अपं पडाविओ संजाप-मपयो तीए महणत्थ, जगता व(प)डिओ खड्दाए ।
 ॥ १५५ ॥ इतिरं, जगता दंता, विचामिपं नाम लोचणं, सुडिया कणा, चुच्चिया नासिया ।
 अवि य - "अम्मर-उज्जाणुमंसे न मुअर निय-पुमं पि पचये व ।

इह म पत्थ य तीए पचड रिज्जाणि कण्णामि ॥"

तत्रो सहुण्ण-वेण्णो परिमुच्चिय-जियपम्मो साहणीयं दाडय उपं 'मव-वामे-
 हिलो विरणेण दोपव' भावेतो पडडो एमो, दारिवा य ।

संगमयाणुमडया-कहाणयं समत्तं ॥

सपत्त-महावसणो धम्म सेविज तेयलि-सुय व ।

अपमाय मा मुंचसु दिडंतो मगहगणिवाए ॥ १६

[सण्णतमहाण्वसणो धर्म सेवेतं तेय(व)सिसुवत् ।

अम्मर ना मुयेत् दण्णो मगपणिकाया ॥ १६]

॥ कथमिदम् ? -

— [१५५. उचसने धर्म-सेवने तेतलि-सुत-कथा] —

विजाहर[पुर]-संकासं जण-निरतर सुविभन-निक-चउक-चवर लुहा-पंक-धवलहराणु-
 मपं नेचलिपुर नाम नयर । उच य रिउ-वच-दावामतो कामिणी-कुमुमसंड-मचसंडयो
 कममरहो रावा । सुरसुंदरि-विचममा कमलावई से भारिया । तेयलिपुओ से मंती ।
 ॥ सुमिथाग्नेडि-धुवा अचंत-रुववई पोडिला से भारिया । सो य राव(वा) विसव-
 तपदाओ जाए पुने वावाइए (एइ) । अण्ण-दियहम्मि भणियो मंती कमलावईए -
 'रक्खसु एइं दारयं, जेम अम्हाण जावया-काले तण्णं इचर' ।

तेनोक्कन् - "अरम्मणि न तद् भणि भणि चेत्त उरन्वया ।

इति चिन्ता-विपत्तेऽजमलत् किं नि. व.) पीक्ते ' ॥'

॥ देवीए कथिपं - 'परमत्थओ एवमेव, तथा वि लोण-डिई एत्ता' । लहाविह-भविप-
 इयाए समकालं पोडिसि(ल)या दारिपं, कमलावई दारपं पडया । तत्रो दिओ दारयो
 पोडितया(लाए), इवरीए दारिया । राडया पुच्छिथे - 'किं ताथं देवीए ?' । परिपण्ण

विष्टुं - 'शासिया' । तसो [कसेण] कर्षं से नामं कषमज्झओ । कस्य-पञ्चनसाणवाए व समत्थ(प-)सत्ताचं अण्ण-दियहम्मि पंचचीहुओ गवा । चित्ताणाम व नरियाम देवीए कसमत्थं कहेउम अहिमिचो कषमज्झओ । अण्णया पोड्डिता मंतिओ अगिड्डा वाया । साहुणीओ वसीकन्यामि कुण्डलीए ताहिं माहु-अम्मे पडिबोहिया नेवलिमुणं भवेए - 'एए सुका करेमि पवजं' । तेव अणियं - 'पडिबोहेतु' । 'एव' ति पडिबज्जिउम कष- निफलं क सामण्णा उण्णया सुगतीयम्मि देवचाए । कषमज्झओ वि जाओ महात्तदिओ । अणियो उणणीए - 'वच्छ ! ते एव वीविय-दापओ वन्तो, एवसम सम्मं पडिउत्तु' । तसो नियचो सवेसु रज-नियधणेसु कापवेसु ति । एव तिवग्ग नार 'बुहण्ण-सांसमिळं जीवतीय सुहममुहसेताग मकाकनो कोड कातो । पोड्डितादेवण पोट्टिवस्स वि न मंती संजुज्झइ । तसो चितियं सुरेव - 'जाव आवसं न पचो, नाव न कुण्णइ' वि । ॥

उक्तं च - "भुक्तो न जन्तति परस्य वृ क्, न मोक्षतश्च कश्चनित जीतन् ।

अपहृत्य भिक्षुर्वैकन्यञ्च आर्तं नत वर्जयत मरुतिः ॥"

अण्ण-दियहम्मि विचरियामिओ गवा, तसो तसो पाएसु पइइ, तसो तसो उण्णराहुचो डाइ । मेओ मेइ । तस्य 'सुवंकिन सुइ-परिषथ वडुय निक्कतओ । कल्लकूळं(डं) सइइ, अमर्षं जायं । केकालिया स(क)वराए पडामे डिण्णो, न विवण्णो । 'ओत्तंथिओ अण्णा ॥ कसस-ताहुणीए, रज्जु खुडिया । अण्णाम्मि पविड्डो, हिमं आयं । गिरिणो पडिओ, वं सुमि[ओ] । अण्णाह-वले पविड्डो, धाई मनुत्तं ति । अणि च-

मन्तं तु मंपचोओ पावे कम्मम्मि विष्कुमतम्मि ।

मारणं पि से न जायइ परिचितियं पडिओ पडे ॥

नाथ वि मचमइदो कुट्टीए एइ मग्गओ गइइ ।

पासेसु मिह-वग्गां मरा प निवडंति मज्झम्मि ॥

परिणी गपणं नीर दिवाओ वरं पि इचि सु(प)अत्तिपं ।

हा पोड्डलि । मे माहसुं मप-सरणो कथं रचामि ? ॥

'पोड्डिलपरुवे सुरेण सुवोहिओ' इमं भगइ ।

'ता मे ! सुणियं इण्हि करेमि सक्कपचर्यं जेप ॥

अण्णिणं पावसम तसो नेवपइओ माहिओ मनुत्तंती ।'

मंती रण्णा ताडे पवेत्तिओ' विभूइइ ॥

वाऊम महात्तायं 'चिचिया-रुओ महाचिभूइइ ।

पुण्णंती रण्णा पइओ सदि-पानम्मि ॥

१. व. क. सुट्टी । २. व. अहियम्मि । ३. व. ताए । ४. व. सुट्टी । ५. व. 'मत्त' । ६. व. उण्णविड्डा । ७. व. सइमि । ८. व. म्मुण, क. सुट्टी । ९. व. 'उ' । १०. व. पडि' । ११. व. क. पइ । १२. व. क. क. सुट्टी । १३. व. वचो । १४. क. व. कडुम । १५. व. सडि' । १६. व. 'उ' । १७. व. कर्ण' । १८. व. सइ म' । १९. क. क. व. सभरीणो । २०. व. 'ए सु' । २१. व. सडियं' ।

अह तेयस्त्रि-गाए गणहरेर्हि तुयामि सादिपमिहस्त ।
 निम्नमयं नह सम्मं नवित्तर होइ नापयं ॥
 सुयदेवि-वगाएण तुयासुतारेण 'तेयस्त्रिमुपस्त ।
 संखेदेवं चरियं 'सिद्धं नितुभेह मोक्खस्त ॥
 तेयस्त्रिमुप-वत्थाणयं 'समत्तं ॥

— [१५६. अप्रमादे मगधसुन्दरी-कथा] —

पुरापुर-संकासं रापगिहं पुत्रग परं । उपल-वगनाह-वउउ-किरपावली-मिहल-
 नह-मपुहो तिहुपणसिरि-संकेयद्वाण जंरासंभो महाजहिंदो । तत्त्वं य समन्व(च)-नेजाव
 'वृदात्मबीभूयाओ' रुवाइ-सुय-सुल्लि-व-यो-रि-रुवाओ' दीण्वि विलासिगीओ' मयह-
 "सुंदरी मयहसिरी य । मयहसिरी चितह—'अह एमा न होआ, हा को मम आणं
 खंडेआ । राया य वमवपी होआ, निम्मल-उमो पाविला' । तओ मे छिह-भोमव-
 परापमा चिहुइ । अण-विपवमि मगहसुंदरीण नचव-वितसे विलपु-इविचाणि तप-
 सोवण-सु(न)आण-योइयाणि नचवभूमीए चइयाणि कणियार-कुमुमाणि । तओ मयहसुंद-
 रीए वयहसिवाए वमरेहि परिहरिलेनाणि दइय चितियं—'दूणं सडोनाणि एयाणि,
 "तेव महपमा 'पु-वदयामि वचं(च)ति' । तओ 'वीतिवा-पण-उलेमं वारिवा सा
 तीए चि—

'पंडेइ वसंतमाए अमोइ-वमोइ-ववचवमि ।

मोचुं कणियारए मयग तेयन्ति 'चप-कुमुमाणि ॥'

तओ चितिय मगहसुंदरीए—'किं पुण अहंडे एना गीइया गाइया ।, ता दूण
 "कारणेणं होयं' । तओ अमर-वसिहरियाए नायं उहा 'सविताणि कणियाराणि' । तओ
 अण्यमथा नथिवा, न य छलिवा । एए सुगिवा चि अण्यमाओ कापवो ।

मगहसुंदरी-कथाणयं संमत्तं ॥

— [महावीर-गणधर-संस्तवः] —

उत्तमाह-विमिदायं गणेनि गणहरे य वेरे य ।

परासासुओम-अधिवा अह मणिमो वीरव्हाएल ॥ १

नमिह्मा महावीर सह सुयदेवीए गणहरे सुमिमो ।

देसाओ(उ)-अण्य उगपी-कम-नाम-अएण सुय-विहिण ॥ २

१ व वेरिण । २ व क ज सिह । ३ क ज वं । ४ क व सुह, ज सुह । ५ व अरं
 क ज पणिओ । ६ व उ । ७ व उण्यव । ८ व सुयं । ९ क व मू । १० क व वीरव्हा ।
 ११ व कणि । १२ व सु, ए, व । १३ व 'विहो' । १४ क ज वं ।

- [१] सुवर्ह-वसुधूर्ह-सुओ गणहारी जयद् इवभूद् वि ।
 बाणउई-नासाऊ गोधरगामुम्भनो पदमो ॥ ३
- [२] सुहवी-वसुधूर्ह-सुओ गणहारी जयद् अग्निभूद् वि ।
 चउहचरिनासाऊ गोधरगामुम्भनो वीओ ॥ ४
- [३] सुवर्ह-वसुधूर्ह-सुओ गणहारी जयद् वाउभूद् वि ।
 इह सचरिनासाऊ गोधरगामुम्भनो नदओ ॥ ५
- [४] कोह्लाम-सन्निवेशे उण्णयो जयद् गणहर-चउन्धो ।
 पारिणि-पगमिच-सुओ असीद-नरिमाउओ पुओ ॥ ६
- [५] अहिल-अम्मिल-तणओ गणहारी जयद् वचन-सुहम्मो ।
 कोह्लाम-सन्निवेशे उण्णयो वरिण-सुव-वीओ ॥ ७
- [६] पणदेव-विजयदेवाद् वेदेषो जयद् नंहिओ लहो ।
 वेसीद्वरिनासाऊ मोरिपदेसुम्भनो जयवं ॥ ८
- [७] मोरीए विजयदेवाए नदयो वचनऊव-नरिनासाऊ ।
 मोरिपल्लिवेन-आओ मोरिपपुओ वि सचमओ ॥ ९
- [८] देवे-जपंतीण सुओ अकंविओ नाम अट्टमो जयद् ।
 अट्टचरिपरिनासाऊ मिहिलाए ससुम्भनो भयवं ॥ १०
- [९] नंदा-वसुण तणओ गणहारी जयद् अणलण(भा)प वि ।
 वावचरिपरिनासाऊ कोसलदेसुम्भनो नवनो ॥ ११
- [१०] तुंगिणिवेसुण्णयो भेषओ जयद् गणहरो वसमो ।
 वाहणदेवीए सुओ वेवसस विपट्टिवरिनासाऊ ॥ १२
- [११] अदमदाए बलरत व पुओ चाठीसररितओ जाओ ।
 रावगिहो उण्णयो एकारसयो पभासु वि ॥ १३
 इव द्विप-वेसुण्णया समन्प(त्त)-सत्थन्व-पारगा लुवे ।
 धम्म-सरीरा मोक्खं विमल-सुण गणहरा दित्तु ॥ १४

— [महावीर-तीर्थ-श्रुतस्वविरानुकीर्तनम्
 (स्वविरावली)] —

नविऊम महावीर' तद् सुवदेवीए तम्म निअम्मि ।
 वेदामो सुप-धेरे अणामविहिवा-उंगुपुवीए ॥ १
 जंभुं पभवं सेऊमवं व तणो नवामि जसमद् ।
 संसूय-सूळभद् महाधिरि-बलिस्माए नमिमो ॥ २
 अह अऊनामहत्थि रेवय-सीहे" य वेदिलापरियं ।

१ व "वेदा" । २ व "विज" । ३ क "वेरिणलओ", व "वेरिणल ल" । ४ व "नदयो" । ५ व "वीओ" ।
 ६ व "इह" । ७ व "वच" । ८ व "उण्णयो वित्तु, व विण" । ९ व "वेह" । १० व. क. क. "अट्ट" ।
 ११ व "ह" ।

अभिर्मतं नानाशुभसृष्टिं पचन्मामि विष्णुण ॥ ३
 ततो व भूयदिषं लोहसंता उ वृन्गणिसृष्टिं ।
 अह देवनायण पि व चउर्वीण्डरं मया नभिमो ॥ ४
 इव स्वमाई कहे वे शोलीणे तह व वडुमाये व ।
 अगाभिणो य थेरे सुण्यमई जाव पचमामि ॥ ५
 इव सुपरपण-महोपेहि-पेरासुकिवणं दूह-विणारं ।
 विमल्लगुण पटमाणो तहइ तरो सानयं ठाण ॥ ६

— [ग्रन्थकार-शुरुपरम्परा-प्रशस्तिः] —

एता धेरावलिपा वा पुत्र-सुषोहिं चीरनिग-भणिया ।
 सेलावलिपं ईहि अहयं भगामि तं गुणाह ॥ १
 अह देवनायगाओ' समरंतेसु वेगसृष्टिसु ।
 भिच्छच-तिमिर-सरो बहसरो आसि खनासमगो ॥ २
 तस्म जय-बायह-जसो पंचविहायार-सृष्टिओ सीसो ।
 त्रिष-पयवण-मयण भेसी नत्तापरिउ चि सुपमिडो ॥ ३
 तस्म वि पहाण सीसो नामेणं जयन्वमयहरो' आसि ।
 सेट्टउयम्मि निविडुं जिणभवनं जेज सुपसिडुं ॥ ४
 तस्म तव-नेप-समो दुममा-नरनाह-भीम' कय-सलो ।
 भवारदिद-भायु कण्हसुपी' आसि से सीसो ॥ ५
 अपयण जम्म-निक्खमज-जाण-निहाण-जिणवर-वराओ ।
 संघ सहिएण जेणं नभियाओ' भारहे बहुहा ॥ ६
 इयमासिय दोमासिय-तेमासिय-चउमासियाणि खमयासि ।
 काय-किंहेसेय विणा कयाणि जिणकप्पिएणं व ॥ ७
 सुर-मसुय शिरिय-गह-भूय-रोय-उवमया-भारि-रिउ-नभियं ।
 चोराहि-व(म)ण-पन्थिय-इस्तुमिवासउज-विहिपे व ॥ ८
 मणीव(इ)' नाम-बहपेज जस्स पुरिमाय "इति खयं मेइ ।
 तरणि-कर-निपर-भियं तम-तिमिर कथ संवाओ ? ॥ ९
 दिव्व-बहुविटोहि व ममाण-भूमीसु सभ्राईर ।
 उवमयेहि महप्पा न पैत्तियो ओ सुमेर व ॥ १०
 जेव भरहम्मि वसे अजाय-समंयपार-वडिपाण ।
 जिणपचव-पईकेणं पावडिओ सिद्धपुर-मम्मो ॥ ११
 पवापिया बहुविहा नरिद-दिय-सिद्धियो महामया ।
 जणो जमय-नरिण्ठा ठाये ठाये कया सद्धा(द्धा) ॥ १२

१ अ. क. ज. 'इ'. २ अ. क. ज. 'व'. ३ अ. व. 'सि'. ४ अ. 'उ'. ५ अ. व. 'प'. ६ क. 'पयरो'. ७ अ. 'उ'. ८ अ. व. 'इ कयसु'. ९ अ. क. ज. 'उ'. १० अ. 'नाम'. ११ अ. 'इति कथं'. १२ अ. 'पत्ति'. १३ अ. व. 'म'.

कटराधियाधि जिज्जमंदिराणि मेगाधि 'जिज्ज मच्छलय ।
 देसेसु बहुविहेसु चउरिह-सिरिसंघ-जंवाधि ॥ १३
 नवने(रे)सु सपं(प सं)तुच्छो सुतुं वा ज्ञाप सुज्जरस्ताए ।
 नागउताइसु जिज्जमंदिराणि जायाधि वेवाधि ॥ १४
 जाधोमहि-सेलोमहि-विधोमहि-ज्जुमाई विच्छई ।
 नाहीपो' नालेले परमोसहि-विधमो एगो ॥ १५
 इय कस मरामुणियो गुणार्थे [अं]ले न वीणए मंतुं ।
 बो ना सुपठ एमार्य नयणा-वीगम्मि दहाण ? ॥ १६
 तस्य सु-नपुष-संपुष-चलग-द्विय-वंसुरेण अनमेण ।
 सौम्यवचेष कसं जयसिंहापरियानमेयं ॥ १७
 धम्मोचएसमात्ता-विपरणमहिवागमासुनारेण ।
 सुपदेवि-पसाएयं विमल-सुगं कुसुम-दामं व ॥ १८
 जग्गाण-राग-दोमाइएहिं जं किंचि विग्गपमसुचं ।
 सं सुपदेवी-सुणियो सत्ति(मि)ज्ज कविंतु सुसिद्धं ॥ १९
 आगम-विहिणा भणियं सन्नमियं नरिय कप्पना-सूर्यं ।
 ता जिण वषण-सषष्ठा आगम-भपीए मेवंतु ॥ २०
 जो सुपदेवि-गणोच्छ-विग्गसं चित्तिज्ज वाए ।
 परिमाण मो ज्ञापइ तीए संरेध-मोकसई ॥ २१
 'वधइ परिहरतो मोकसस्यमिं दुज्जओ न-सचीए ।
 पुरिमस्वेहिं न सुंचइ सेतोहिं वि कण-कउलं व ॥ २२
 लम्हा जिण-गणहर-चल्लवहि-चलदेव-वासुदेवाना ।
 केवलि-मगोहि-वलेवदुद्ध-जिणकप्पिघाईणं ॥ २३
 चरियं एव कहिज्जइ तमणिहु-विपाइ चित्तिप-सुहं व ।
 चिनामणि व इहइ परतोए मोकस-सुह-जगमं" ॥ २४
 लम्हा दुरिय-विपाइ इह परतोणे य जं च कल्लायं ।
 इच्छंतो सुप इम वाएसु व स(म)व-मच्छायं" ॥ २५
 धांतो निमुपेले भणियासुदुज्जममिं वईतो ।
 सिच्छइ तदयमिं नवे अहा उच-दुमाईसु ॥ २६
 ज्ञाप इ(व) वीव-महुरा कुलमिरियो वंद-सु" विवि देवा ।
 का वसुरठ अकल्लसिं मगोहर नेमि-चरियं व ॥ २७

१ व जेव । २ क व लो । ३ व रि । ४ व क ज 'व । ५ व क ज 'दिहि ।
 ६ क लो, व लो । ७ क मा । ८ व 'वद' । ९ व 'वला' । १० व. सुतो । ११ क व. ज्ञाप ।
 १२ व. वीव' सल्लय । १३ व. व. व. 'वदे' ।

[विवरण-रचना-समय-राज्य-स्थलादि]

संवच्छरणं नवहि सद्यहि पण्यारस-वास-अहिरहि ।

भद्रप-सुदुर्पंचमि सुहवारे साह-रिक्खम्मि ॥ २८

तिरिभोजवैश-रत्ते पवहुमात्तम्मि जय-मणालेदे ।

नानउर-तिणायतणे सभाणियं विवरणं एयं ॥ २९

विवरण-वरणा कुसलीं जं विविदि समत्तियं मए तेण ।

बजा उहंतु मोक्खं कप(हा)गा सह सासयं सोक्खं ॥ ३०

इय जय-पयड-कपहुमुणि-सीस-जयसिहसुरिणा रइयं ।

धम्मोपदेशमाला-विवरणमिह विमल-गुण-कलियं ॥ ३१

[क. ज जयसिहाचार्यकृतेः सङ्गोपदेशमालयाः ।

सङ्घाशास्त्रपुस्तकेः सप्तोत्तराणेन सङ्कलिता ॥ ३२

सङ्कलनया चानतम् ५७७८]

धर्मोपदेशमालापुस्तकं समाप्तम् ॥ *

१ क. व सङ्घिन । २ क. एवम् । ३ क. प महु । ४ व. सोक्ख ३० ।

५ व. वस । ६ व. वस । ७ क. व सङ्कलनमाराण सङ्कलितं सित । ८ सुम भवतु ।

अ १२६ म्मे-सपत्त १६७७७ एवं वेत्तास्साम्मे उज्जयले उतत्ती तुपपउरे पुण्यनइये कोउपी गोभीवत्त
विपवितां देवपट्टणवर्त्त । क ॥ सुम भवतु, वेवक-साउक्ख । ख ॥ धी ।

परिशिष्टम् [१]

धर्मोपदेशमाला-विवरणान्तर्गतोदाहृतपद्यानां सूची ।

	पृष्ठे		पृष्ठे	पृष्ठे	
अद्भुतगण्ड वीरु	४०	दृष्टिं कच्छी देवताया य	१०	दृष्ट कलमिथिनो बुद्धि	११
अनेह गमिष्याह	४४	एव देव ! सत्यं यमय	१०५	दृष्टिपल्लव आउरारण य	११०
अद्भुतं नि भविष्य	१०३	इह सन्तु भो ! यमस्यण	५०	दुःसुमहारण विद्वेषण	१०२
अहोसिमा जहा पापे	१०४	(गद्य)	५०	दृष्टिपुष्पविण काणामिषण	१०
अपहृत वा द्विचलोत्तो	४१	इह लोच न्यय काना	१०५	द्वैतं सुख न चक्यो	४५
अविह विमोक्षियमेव	४३	इह लोच कलमिथिनो	१०३	दोःशर्म्यु कान्य न गर्विता !	१०३
अकिण्ठेय इमोद्	४४	उपशमिषि विमथये	११५	दोहो य ज्ञानो य अवि-	१०४
अजस्र सि जस्र	११५	उपदेशो हि सुलोक्यान्	४०	द्वेष परिहायक	१०४
अज्ञान सन्तु सत्यम्	२१०	उपभुज्यु न उद्विग्त	१०३	अज्ञान ज वा न वा	४४
अप्याप्योवहाएण	११	उपरोदयान् जज्ञ वीरद्	११५	दोहाहृष्टि पचष्टि	५६
अथ एव सुख सिचोचने	११	उपरोदयान् वीरद्	११३	गान्धर्वानिभो नदो	५०६
अथसिद् विचयान्दो	१०५	उपसमेव इतो वीर	१०४	समपद्येन न कुर्यात्	१०
अथो कानो मोचथो	१०	एगलिन महापयसे	४४	समिन् अविण देव	११४
अथ चनेद्वैरेद् वाजान्	४४	एचिय काल उदरमिषण्य	१०३	समभयभीतर-	१०५
अथनेव विचिन्तानो	१११, ११४	एवाद् वाद् विर विदित्वाद्	११५	सद् नृद् अजस्र-पञ्च-	१०३
अथावे रमते नदी	१०५	एव उवाचि कानो	१०	सिन्हाद् रोषे सि तुषे	५१
अथि अथाविशेद्वृत्-	२११	अथ जय पापय जहा	११३	सुप्त-रोषे पावैरसद्	५०८
अथुमस्र उदिवीचि	११५, ११७	अथ सचोऽप्यो सानु ?	४३	अथा अथा सेका	४४
अथा येन दृष्टियन्थो	५३	अथ पापे सि सपुत्रो	१०	अथुमस्रस्र दृष्टे	४४
अथिभलवा सुद्विधा	४४	अथ-पुत्र-सकाथो	१०४	अथावे परमप्राप्ति	११५
अथिचन्द्रस्र जयम	४	अथ सज्जह्वं सुषे ?	५३	अथिचन्द्रीशान्त	१०४
अथस्यद् अ उदका	१०	अथस्रको अजस्रको	२०६	अथुम सयम अथो	५०
अथस्र चक्षि इमद्	११५	अथिद् सनी अथी	१०१	अद् दुःसुप्त अविपलका	६३
अथेवथा सनसायद्	४३	अथस्र नसोक्षन	४४	अथिचन्द्रिभो अथो	११३
अथेवथालीने दुःखम्	५०	अं वधि अजस्रो सानु ?	५३	अथ सपुत्रो महद्दो	५०८
अथस्र-सुखिण एन पच-	४४	अथ ! ज्ञानसि से सुखम्	६५	अथ सपुत्र सन वीरो	८४
अथस्रान् य पूर्वा य	१०५	अथ-सोय अथोऽप्याद्-	२००	अथा अथा सद्मनका	१०५
अथोपान् विप्रे	४३	अथिभ्या दृष्टियेन्द्रोत्त	११०	अथिचन्द्रि चरित	१०५, १०६
अथस्र वीरचलेन	११, ११३	अथो द्विपल पद्मेवचान	१०४	अथ सनप्री कान अथेद्	१०६
अथिराष्टि व सानस्रण	४३	अथो सपुत्रस्र जज्ञदेवक	६३	अथद् द्विधा न सानो	४३
अथ सल क्व सिचिभो	४४	अथि चन्द्रेण सद्देवरेणकुलम् ?	११५	अथि चन्द्रेण न वीरद्	४५
अथास्रस्रसुपुत्रा	५३	अथि उचिपुत्र सपुत्रा ?	१०३	अथि च चक्र न पारे वा	१०४
अथास्रो जयस्राना	५५	अथि वाद् सान सन्धीद् ?	११५	अथस्र कण-पाया	२१३
अथस्रमेव दृष्टिमेवको	६४	अथि वाद् सिरीद् पञ्चाय ?	५८	अथस्र-सुख-समविषाद्	१०४
अथस्र-अ-वैभवाद्-	४०	अथस्रस्रस्र कुरोऽप्येवा	४३	अथो सिन्धु सन्धे सिन्धु	५०४
अथस्रेशो जयम	४०	अथस्रमेव अथस्रिणी	४०	अथ चोदस्रस्रदि	६०
अथ विर सुपय-सुप	११५				

	पृष्ठे		पृष्ठे		पृष्ठे
सह सह कीदृशं कर्म	१५५	देवकोकोपम मोक्षस्य	६५	परिपुष्पितकोक कमलम्	१०५
सदा दासो सदा सोको	१५६	देवे कालेऽप्यन्ये नरे	६७	पद्मा विमालोद्भिता वपुःसह	११८
सामसि पुत्रक विभवे	१५६	हीनान्पुत्रकारुण्ये	६९	वाहिते सप्तकोणे	१०९
सायत् सिधमाश्रम	१०३	अशक्तं तु सायम्	१०७	सिद्धको सुद पत्नीसो	४९
सायं सुष्ठु सुद वस्तु	८७	पशो भक्षितं पुत्रो	४२	सुखाय नानुभवम्	१९
सिधमाश्रमपुत्राश्रमो	१५५	धम्मात् सिध उम्हा	१५७	देवा पिच्छमाश्रमस्य	६५
सिधमाश्रमपुत्रो सुखे	१५६	धम्मोरो न धारिद् ?	४९	अकालितं वरुणेन	१०७
शीघ्रं सदा-सिद्धुं सम	१०३	धर्माश्रमं कुले कर्तव्यमुपा	१०६	अनायासि अनायासे	४९
सैद्धान्त्येणु मासेषु	८७	य चाट्टस्युप कस ?	५४	विशदुपांवेभारु	८९
सेन शीघ्रति सन्ध्यासि	८७	न मांशमस्यसे सुप	२६६	उत्थायस्य वपुःसहैषु	१
सेन सिधमं वक्षि देसि	८९	नवमाहं तु साहं म्याहं	११०,	वट्टायसेनं सुपयस	११०
सेन रोदिति वीचसि	८९		१५३	वट्टं सुपेहं वन्धेहिं	११३
सो चरुणेन वाद्	१०७	नयनाजदो चरुो	१५७	वट्टस्युत् विपयस	८९
सो कोशास्य विच्छ	६५	नवमाहं नवमासा	१०२	वाट्ट-या मोक्षितं वीचसु	११६
सो विपयं सदा दोमो	१०७	न(न)नयनास्य नवमास	१५, १५३	नयापानं वपुःसहितिकमसो	११८
श्रीया कोपनस्युपा	११३	नवमाहं वनयानं नवमास	५५	नवमाहं वपुःसह	४५
सह वक्तो विपयस !	१५५	न स्यात् कश्चित्को कस	४९	विपयं केवलं केवलम्	२६६
स किं वि अन्तम(श्च) सम	५७,	सन्धिं सन्धिं वापुःसाय	१५५	सुखं न वा न का	१०५
५९, १३, ११५, ११७, १५७, १३८		सन्धिं सदा कश्चित्को कस	१५७	सुखसु सम वरुणस्य	१५९
समस्यमेष न भवति	३५	न सो भविमहे सुखे	१०८	सुखो नथा सिद्धुस	४९
सम सदैम वि न कीदृशद्	५६	नया पामसि विपुःसहसु	१०९	ससुसस्य सुखसस	५७
स सन्धिं सून कस	३८	नया सिमानं कश्चित्को	४७	सकसि साकसा	४५
ससुसस्यु ? अधिरसस्य !	१५७	नया विपेयं स्यात्	१५, १५७,	सस सिद्धासक सन्धि	१५५
ससन्धिं स्यात्कीदे	१५३		१५७, १५७	सससासक सससा	५५९
ससिपयस्य न वरुणिया	६५	नासिद् दोमं वास	१०३	सह सुखं सिध उम्हा	१५५
सस्य सहीय सुसिन्धो	१०३	सिधं सिधं विपयानो	११०	सहसुसाय सस्यसै	४५
सस्य सुद कस सुसिन्धो	४८	सिधसिधं सस-मासस	३५	ससोपयस्य सिध सही	३७
सानीं सस्यसि असा	१५	सिधसस्यसि सस्येणु	२१०	सससाया सससायससस्यसिपयस-	
सह सह सस्यसि वट्ट	४९	सिध सस्य सिधि देव	३५		५१, १८९
सिध सस्यसि सिधस्यो	१०९	सिधं सिधिं सिद्ध-सासिप-	१०७	सा वट्टं को सि सस्य	१५७
सिधिं सस्येहिं सस्यसा	१५	सिधस्युं सस्य सस्यो	११५	सुसिजनासो सिधिसिद्धो	१५७
सौरस्युं सौरसुसि	२००	सिध सस्यसो सस्यसो	१५७	सुसि सुसो सीकं सौरो	५६
सुस्य सिधोपयस	४९	सीकसाय सुस्यसै	१५९	सुद सस्य वरुणस्य(श्च) सैसुस	
सै असा सस्य सस्यो	३३	सै कोसै सुस्य सिधिद्	३५		१६५, १६५
सस्यसि सस्यस्यस्यस्यस्युं	५९	सो सुस्यस्यस्युं सस्यसिद्धिस			
सस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यो	३७	(सस्य)	२१०	सोस्युं सस्य-धम्म	५५
सस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्युं	५७	सोस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्य	२१५	सस्यस्योऽप्यसिध	१२
सोस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यो	१०५	सस्यस्ये सस्यस्य सौद्	१०	सस्य सस्यो सस्य सस्य	१८३
सुस्य सिधिं सस्य सस्यद्	११९	सस्यस्ये सस्यस्यिया	८७	सस्यसि न सस्य सस्य	२१७
सस्यस्य सस्य सस्यो	१०३	सस्य सस्यस्यस्यस्य	५६६	सस्यि नं सस्य सस्य सस्य	१५०
सस्य सस्य सस्य	६५	सस्य सस्यस्यस्यस्य	५९	सस्यसि सिधेस्यस्यसा	५७
सुस्यस्यसा सस्यस्यसा	५७	सस्यस्य सिधिस्यसा	४७	सस्यस्य सुस्य सस्यस्य	२०९

	पृष्ठे	श्लो.	पृष्ठे	श्लो.
वीरवपुत्रवर्णनम्	११५	कविव देव ^१ कुलात्मन्	२१५	घर्षे कृपात्मना निवहा
व द्यूतं वधेति घोष	१२७	कथमेतन् व उचिष्यतां (अन्तु-		सुविष्य विषुः पुरवत्कम्
व द्यूतं वधेति खेद	१२७	विषया)	१५, १५६	सतु काशं मित्रं काशा
यद् लोकात् क्रियेति श्रीभिव	५०	कसहि क्व विविचिदिष	३५	यद्ये वि सन्त्सृषेय
यत्कौन्ति न उच्यते	१२६	वाचिं पावनं षोडश्या	१५७	सामयसेवी ज्ञायो
यत्ने चने वपुल्लखयित्वाये	२११	वाच्यस्यैव वपुणो	२१०	स्य च दृग् विषुः कीर्ण
यद् दुरथ वक्त	१०९	वाचात् किं च अयवाह ^१	१५९	साहच-सल्लस-यवतां
यद्दुःखेण कविविवादि	६१	वितोष्यति वा लोके	३०	सात्त्वत्यवाहाहा
यत्समेकवद् एव हि वासा	५१	विद्वाद् कस्तुविद्यया	१०७	सद्वीर्यं भय उचिष्यकान
यत्सन् ^१ वापय वरमेकम्	५१७	विक्षालं द्रुमं विहीनम्	७१	सुखी न वासाति काक
यत्सन्विवादिवादि हि	१०९	मिलत्तत् प्रथमं परिच्छेद	१०७	
येद्वेकं वापदुशी	३५	विहिंसो वक्षेण कनम	५७	
यस्य दथ सन्त्सृष्य	३५	वक्ष्यन् वादिविशिष	२२१	
यस्यत् वा सौ वा वा	१२२	वोष्यति यानं वाप	५६	
येतु व दत्तं विचरणा	१२३	वाच्यदीगायति सासात्मन्	१५३	सुधाव मे सुपद
यस्य दथ सन्त्सृष्य	६७	वाच्यं किं ^१ उचिष्यकानम्	५५	सुधी मेव काक
यस्यत्सन्त्सृष्य वापो वा	६३	यद् क्त्याणि विपुणन्व	२१, १०३	सुख-सहायि वसे
यस्यत्सन्त्सृष्य वापो वा	५१	यस्य वविन्दे वि सुरी	३६	सुपन-सुहृद-सिद्धी
यस्यत्सृष्ये विही	१०५	यस्यत्सृष्ये देवा	६२	सुपति-वय-सहाय
यस्यत्सृष्ये वपुणो	१०६	यद्दुःखं सत्सृष्य	२५१	सुपना वीतुं सृष्टी
"	१५७	यत्सृष्टी व विही	१५१	सुपत्सृष्ये सुविचरणा-मिता
यत्सृष्ट वपुणो	२२५	यत्सृष्टी व वपुणो	६८	सुविचरणा-सहाय
यत्सृष्ट वपुणो	२२५	यत्सृष्टी व वपुणो	७	सुविचरणा-सहाय
यत्सृष्ट वपुणो	२२५	यत्सृष्टी व वपुणो	१०६	सुविचरणा-सहाय
यत्सृष्ट वपुणो	२२५	यत्सृष्टी व वपुणो	१०६	सुविचरणा-सहाय
यत्सृष्ट वपुणो	२२५	यत्सृष्टी व वपुणो	१०६	सुविचरणा-सहाय



ਬਿਬੇਕਮਾਲ	ਪ੍ਰੰ	ਬਿਬੇਕਮਾਲ	ਪ੍ਰੰ	ਬਿਬੇਕਮਾਲ	ਪ੍ਰੰ
ਦਸਮਸਾਲਿ-ਪਤਿਕਾ	੧੫੨	ਸ਼ਿ ਕਾਮਿਬਰ	੮੧	ਸ਼ਿ ਬਸਵਰ	੨੧,੨੨,੨੩,੧੯੧,
ਸ਼ਿ ਰਸਮਦੂਤ	੧੫੬	ਕਾਮਕਲਿਯ	੧੦੦,੧੦੧		੧੦੨,੧੦੩,੧੦੪
ਦਸਮਦੂਤ	੧੨੧	ਬਿਬੇਕਦ੍ਰਿ	੬੩	ਗਦਯ	੧੨੩
ਸਵਯੰ	੧੦੮	ਸ਼ਿ ਕੁਮਾਰਕਾ	੨੧੩	ਗਦਯ	੬੪
ਸ਼ਿ ਕੁਮਾਰ	੧੫੧	ਸ਼ਿ ਕੁਮਿਕਾਯੰ	੭੪	ਸ਼ਿ ਗੁਣਕਾ	੭੪੪
ਕਥਾਨਾਮੀ	੨	ਕੁਮੀ	੦	ਗੁਣਕਾ	੭੬
ਸ਼ਿ ਕਥਾਨਾਮੀ	੧੧੮,੧੨੧	ਕੁਮੁ ਮਿਯ	੧੫੩	ਸ਼ਿ ਕੁਮਲਿਕ (ਕੁਮਲ)	੫੭,੧੦੦
ਕੁਮੁ (ਕਾਮ ਕੋਈ)	੧੦੮	ਸ਼ਿ ਕੁਮੇਰਦੁਰ	੨੧੭	ਗੋਟੁਕਾਦਿਕ	੧੦੮
ਕਥਾਪੂਰਨਾ	੧੮੫	ਕੁਮਾਰਨਾਮੀ	੧੩੩,੧੦੮	ਗੋਟੁਕਯੰ	੬੧
ਕਥਾਯੋਗ	੨੨੪	ਸ਼ਿ ਕੁਮ	੧੩੨,੧੦੦	ਸ਼ਿ ਗੋਲਕਰ ਯਾਮ	੨੨੦
ਕਥਾਗਦ	੨੨੨	—ਰਾਜਾ	"	ਗੋਲਕ	੧੦,੧੮
ਕਥਾਮਲ	੨੦	ਕੁਮੁਕ (ਕੁਮੁਕ)	੨੧੨	ਗੋਲਕ (ਗੋਲਕ)	੧੩,੧੨੮,
ਕਾਠੀਯ (ਬਿਯ)	੨੦੪	ਸ਼ਿ ਕੁਮੁਕੁਮੁਰ	੧੩੩,੧੧੭		੧੨੭-੧੨੮,੧੨੮
ਸ਼ਿ ਕਥਾਕੁਮੁਕ	੧੩੪	ਕੁਮੁਕੁਯੰ	੧੮੮	ਗੋਟਾਣੀ (ਗੋਟਾਣੀ)	੧੨੧
ਕਥਾਕਠਾ	੧੧	ਕੋਲਕ	੮੮,੯੦,੧੧੯,੧੧੦	ਗੋਕਿਯ	੮,੫,੧੫
ਕਥਾ (ਕੁਮੁਕ)	੦,੧੧,੧੨,੮੧,	੦ ਕੋਕਿ-ਗੋਲਕ-ਬਿਯ	੧੦੨	ਗੋਲਕੀਯ ਕਠਾ	੮੨
	੧੧੭,੧੧੮	ਕੋਲੀ ਕਠਾਦੁਰ	੧੨੦-੧੨੦	ਕਥਾਕੁਮਿਕ	੧੦੮,੧੧੦
੦ ਕਥਾ ਕਠਾਕ (ਕਠਾਕੇ) ਫਿਲੀ	੮੮	ਕੋਲਕ (ਕਾ)ਕ	੧੮੧-੧੮੧	ਕਠਾਕਠਾ	੧੦੧,੧੧੧
		ਸ਼ਿ ਕੋਲਕਯੰ	੧੩,੧੫	ਕਠਾਕੁ(ਕ)	੧੨੧
ਕਠਾ ਕੁਮਿ	੨੧੮,੧੨੦	ਸ਼ਿ ਕੋਲਕੁ(ਕ) (ਕਠਾਕ, ਕੋਲਕ)	੧੨੦,੧੧੧	ਕਠਾ(ਕ)ਕੋਲਕ	੨੫,੨੦
ਕਠਾਕੀਯ	੧੩੪	ਸ਼ਿ ਕੋਲਕਾ	੧੨੦	ਕਠਾ	੧੨੧
੦ ਕਠਾ	੧੦	ਸ਼ਿ ਕੋਲਕੀ	੧੦੧,੨੧੨,੧੧੦	ਕਠਾਕੁਰ	੧੨੧,੧੩੮
ਕਠਾਕੀਯਾ	੧੨੦	ਸ਼ਿ ਕੋਲਕੀ ਕੋਲ	੧੮੨,੧੨੦	ਕਠਾਕੁ(ਕਾ)	੮੬,੮੮,੯੧
ਕਠਾਕਾਮੀ	੨੨੨	ਕੋਲਿਯ	੨੧੫	ਕਠਾਕੁ(ਕ)	੧੨੨
ਸ਼ਿ ਕਠੀਕੁਮੁਰ	੧੧੦,੧੧੦	ਸ਼ਿ ਕਠੁਕਯੰ	੨੨੮	ਸ਼ਿ ਕਠਾ	੧੨,੧੨,੧੨,੧੧੫,੧੧੮,
ਕਠਾਕਠਾਕਯੰ	੮੧	ਸ਼ਿ ਕਠਕਯੰਯਾ ਕਠਾ	੧੦੦		੧੧੯,੧੨੧,੧੨੨,੧੨੩,੧੨੫
੦ ਕਾਮਯਯਾਯ ਕੁਮੁਕ	੧੫੦	ਕਠਕੁ (ਕਠਕੁ)	੧੨੫	ਕਾਯਕ (ਕਾਯਕ)	੧੧੫,੧੨੮,
ਕਠਕੁਕੁ(ਕਾ)ਕੁ(ਕਠਕੁਕੁਯੰ)	੮੧,੯੦-੧੨,੧੨	ਕਠਿਕਾਕੀਯ	੧੨੦		੧੧੫
		ਕਠ(ਕ)ਕੁ(ਕਾ)	੧੮੩	ਬਿਯ(ਬਿਯ) ਕੁਮਿ	੧੧੩,੧੨੦,
ਕਠਕੁਕੁ	੧੧੧,੧੧੮	ਕਠਯੰਯੰ (ਕਾ) ੧੧੩,੧੦੦-੧੦੧			੧੧੮
ਕਠਾਕ (ਕਠਾਕ)	੧੧੨	ਸ਼ਿ ਕਿਠਕੁਕੁਠਿਯ	੨,੧੨੦,੧੨੨	ਕਿਠਕਾਰ-ਕੁਮੁ	੧੦੧
ਸ਼ਿ ਕਠਿਕਾ	੧੧੫,੧੧੮,	ਕਠੁਕੁ	੧੦੬	— ਕੁਮੁ	੧੨੦
	੧੨੦,੧੨੦,੧੨੧	ਕਠਕੁਯੰ	੧੧੫	ਕਿਠਕਾਯੰ	੧੨੦
ਕਠਿਕਾ	੧੦	ਸ਼ਿ ਕਠਾ	੮੧,੧੧੦,੧੧੮	ਕਿਠ(ਕੋ)ਕੁਯੰ	੧੮,੧੨੦
ਕਠਾ(ਕ)ਕਠਾ	੧੮੧-੧੧੧	ਕਠਕੁਰ	੨੨੧,੨੨੦	ਗੋਠਕੁਯੰ	੦
ਕਠਾਕਿਠੀ	੧੧੧	੦ ਕਠਿ-ਕਿਠਕ	੧੨੦	ਕੁਠਕੀ	੧੨੦
ਸ਼ਿ ਕਾਠਕੁਕ	੦੧	ਕਠਕਯੰ	੧੮੦	ਸ਼ਿ ਕੁਠਕੀਯਕਠਾ	੨੩
—ਰਾਜਾ	"	ਕੋਲਕ	੧੫੦	ਸ਼ਿ ਕੋਠਕੁ	੧੧੫,੨੦੬
ਕਾਠਕੀਯ	੨੦੧	੦ (ਕਾਠਕੀ) ਕਠਾਕੁ	੧੮੧-੧੮੧	ਸ਼ਿ—ਕੁਮੁ	੮੧
ਕਾਠ(ਕਿ)ਕੁ(ਕਾ,ਕਾ,ਕ) ਕਾਠਕੀਯ	੬੦-੬੨,੧੧੮-੧੧੮	ਕਾਠਕਿਕਯੰ	੧੨੨,੧੦੦	ਕੋਠਕੁ (ਕੋਠਕੁ) ੧੧੫,੧੧੫,੧੧੬	
		ਸ਼ਿ ਕਠਕੁਕੁ	੧੧੫,੧੧੧	ਕਠਕੁ ਕਠਕੁਰ	੨੨੮
ਕਾਠਕੁਕੁ	੧			ਕਠਕੁਕੀਯੰ	੧੦੧

विक्रियनाम	दृष्टे	विक्रियनाम	दृष्टे	विक्रियनाम	दृष्टे
अथवा-अथवा	१	विक्रि (वे)रु(विवेक)		अ दृष्टु	११०,२१०
अथवा-अथवा (अथवा)	१२०	१०२,१२३		दृष्ट(वे)रु	११०,२१०
—अथवा	१२०	—आयाम	१०	दृष्ट-अथवा	२१५
अथ	१२०	—आर्ग	२१,२०	दृष्टय सुवि	१२५
अथद्वि	११०,१२५	—सुवि	०	दृष्टदृष्ट	०६,०५,००
अथद्वि	१२०	विक्रियरु	३,२१,३० ३२,०५,	० दृष्ट कर्ण कर्ण	१०
अथद्वि	२,२१,३३,३२,	५५,६१,०३,०५,१०३,३३,३३,		० दृष्टकालिक (विधातिक)	१५२
अथद्वि	३५,०५	११०,३५३,१००,१५०,२००		अ दृष्टकालिक	११०
अथद्वि	१२०,१२५,१५३,२२०	विधादि	११३,१०५	दृष्टकालिक (दृष्टकालिक)	११०
अथद्वि	२२०	रु(वे)रु(वे)रु	००,२२०	अ दृष्टकालिक	१००,१००
अथद्वि	३५	विक्रियना	२१५	दृष्टकालिक (कर्ण)	०,१०-१५,
अथद्वि	२२५,२३०	विक्रियना	१२०	१५,३५५	
अथद्वि	०५,२२५	विक्रियना	१००	दृष्टकालिक	०५,११५,११०
अथद्वि	२२	विक्रियना (विक्रियना)	११३-	दृष्टकालिक	३००
अथद्वि	१०५	११५,१२०,१२०		अ दृष्टकालिक	३३,५५
अथद्वि	१०५	रु(वे)रु(वे)रु	५०	अ दृष्टकालिक	१११
अथद्वि	१२०	विक्रियना	१००	०० रु(वे)रु(वे)रु	१००
अथद्वि	०,१०,००,११३	विक्रियना	२२०	०० रु(वे)रु(वे)रु	१००
अथद्वि	११३,११३	अ विक्रियना (विक्रियना)	३	दृष्टकालिक	१०,१२५,१००
अथद्वि	१,३३,१३,१३,	विक्रियना	११५	दृष्टकालिक	००
१०,५०,१३३,१००,१३५,१३३		विक्रियना	१,००,१००,१००	दृष्टकालिक	२२०
० —अथद्वि-अथद्वि	१२५,	—विक्रियना	३५	दृष्टकालिक	१००
	१२५	—विक्रियना	१००	०० रु(वे)रु(वे)रु	१००,१२५,१३५,१५३,१००
—अथद्वि	१०,५३,५०,५०,५५,५०,५०	अ —विक्रियना	०५	दृष्टकालिक	११५-१२५
अ —अथद्वि	५२०	विक्रियना	५०	अ दृष्टकालिक	२१५
—विक्रियना	०५,१०५	अ विक्रियना (विक्रियना)	१५५	दृष्टकालिक	२२०
० —अथद्वि	१३२	विक्रियना	०५	दृष्टकालिक	२१५
—अथद्वि	०५,१०५,१०५	विक्रियना (रु)	१२५	दृष्टकालिक	२२०
—अथद्वि	१००	अ विक्रियना	२२०	दृष्टकालिक	०,१०,११५
अ —अथद्वि	१३०,२२०	अ दृष्टकालिक	३०	अ दृष्टकालिक	०५,११५
अ —अथद्वि	५०,२२५	अ दृष्टकालिक	२२५	दृष्टकालिक	१५
० —अथद्वि	१०५	दृष्टकालिक	२२५,२२५	दृष्टकालिक (विक्रियना)	१००-१०५
० —अथद्वि	१०५,२२०	अ दृष्टकालिक	०५,००	दृष्टकालिक	१५
विक्रियना	२२५	दृष्टकालिक	२२५	अथद्वि	०५
विक्रियना (वे)रु	१३,१५,५५,	० दृष्टकालिक	१२०	अथद्वि	१००-१०५
५५,०५,०५		अ दृष्टकालिक	१३३,१५३	अथद्वि	१५
विक्रियना (विक्रियना)	२२५	दृष्टकालिक (विक्रियना)	२१-२३	अथद्वि	०५
विक्रियना	१०५	दृष्टकालिक	२१५	अथद्वि	०५
अ विक्रियना (वे)रु	५५,	दृष्टकालिक	३०,३३	अथद्वि	२१०
०५,१०५,१५५		दृष्टकालिक	१३३	० (२)	२२०

विक्रियवाक्य	पृष्ठे	विक्रियवाक्य	पृष्ठे	विक्रियवाक्य	पृष्ठे
कुल्यन्तु	४२	मरु (१)	२४, २९, १०५,	वहामाह	१४०
कुल्यन्तु (कुल्यन्तु)	४१-४५		१२९, १५३, १४५	मरिचमिह	१४५
ॐ कुल्यन्तु मरु	४२	मरु (२) मरु	२५१, २५३, २७०	मरुमरु	९, १०
कुल्यन्तु	४२, ४३, ४४	ॐ मरुमरु (मरुमरु)	१०५, १४०,	ॐ मरुमरु (मरुमरु)	४०, ४१,
कुल्यन्तु (मरुमरु)	१५५		१२, ५४, ४९, २१०		४८, ४९, १०८, १४५
ॐ मरुमरुमरु	१२४	ॐ म (म) मरु मरु	२१,	मरुमरुमरु	१८२
ॐ मरुमरुमरु	१२१		२३, ३०, ३९, ३९, ४९, ५५, ८८, ८८,	ॐ म (म) मरु मरु	४३, १५५
मरुमरुमरु	११४		१८५, २२८	ॐ मरुमरु (मरुमरु)	१०५, १०६
मरु (म)	२२०	मरुमरुमरु (मरुमरु)	१५५, १५५	मरु	१०
मरु	*	ॐ मरुमरु	१४५, १४५, १४०	मरुमरु	२०५
मरुमरु	२१०	मरुमरु	२०५	मरुमरु (मरुमरु)	१०, ४१, ४८,
मरुमरु (मरुमरु)	१०८, २१०	० मरुमरु-मरु	३		५०, २०५
मरुमरु	४०, ८३	मरु	२२	ॐ मरुमरुमरु	१३४
मरुमरु मरुमरु	१८३	मरु	२८, १३५	मरुमरु	१०५
मरुमरु	१३१	मरुमरु	२२८	ॐ मरुमरु	१२१, १३४, २२०
मरुमरु	२२२, २२२	मरुमरुमरु	२२	मरुमरु	४५
मरुमरुमरु	१०८	मरुमरुमरु	२३०	मरुमरुमरु मरु	१५३
मरुमरु मरु	२१४	मरुमरु मरु	२२१	० मरुमरु-मरुमरु	१५०
मरुमरुमरु मरुमरु मरु	११०, १५५	मरुमरु मरु (मरुमरु मरुमरु)	२२४	मरु मरु	१०५
मरुमरु	२२४	मरुमरुमरु (मरुमरु)	२२५	मरुमरु	१००-१०१, १०५
मरु (१)	११४	मरुमरुमरु (मरुमरु)	२२५	मरुमरु	२२४
" (२)	११४	मरुमरुमरु	२१३	मरुमरु (१ मरुमरु)	४५-८०
मरुमरु	११४, १५५, १५८	मरुमरुमरु	४३	" (२)	२२४
मरु	२२४	मरुमरु	१५३, १५५	मरु	१०५, १५३
मरुमरु ०, १३, १८, १९, ८१, १५५		मरुमरुमरु (२)	२१५, २१०	मरुमरु	१३५
मरुमरु (२)	२२४	मरुमरु (१)	१०५	ॐ मरुमरु मरु	२२४
ॐ मरुमरु	५, १८, १९, ५४, ८१,	" (२)	२१४	मरुमरु	२२४
	१५५, १५४, २१४, २२२	मरु	*	मरुमरु	१४८
मरुमरु	४५	ॐ मरुमरु	२१४	ॐ मरुमरु	२१५, २१४
मरुमरु मरु	१८५	मरुमरुमरु (मरुमरु)	५५	मरुमरु	२०५
मरुमरु	८०	मरुमरुमरु	११४	मरुमरु	२०५
मरुमरु	१३०, १३८, १३९	मरुमरु मरु	४	मरुमरु	२०५
ॐ मरुमरु (मरुमरु)	२५, १०५-१०५, २०५	मरुमरु	२५	मरुमरु (मरुमरु)	१५, २१
मरु	१०८, १०५	मरुमरु	२०८	मरुमरुमरुमरु	१८२
ॐ मरुमरुमरु-मरुमरु	३२	मरुमरु	१५३	मरु (म) मरु (मरुमरु)	५, ६,
मरुमरु	१०४	मरुमरुमरु	२२०		११-२१
मरुमरु	२२१	मरुमरुमरु	१८५	मरुमरुमरुमरु	५, ५०
मरु	३०, ८५, ९०, १५५, २००	मरुमरुमरु मरु	१५४, १५५	ॐ मरुमरु	४८, ४९, ८९, ९४,
मरुमरु	२२४	मरुमरुमरु मरु	४१०		१००, ११५, १२५, १२५, १२५,
		ॐ मरुमरुमरु	८५		१२५, १३५, १४५, १५५-१६५,
		मरुमरु	१५३, १५८, २१४		२२५, २२५, २२५

विविधमाळा	दुहे	विविधमाळा	दुहे	विविधमाळा	दुहे	
राजसभिय	११६,१६०	राजसभेचा (वसिष्ठा)	५०-५३	५ वेताळी	११६,१६५	
राजा वेद	०५	राजु	२२०	राजा गडी	१५३	
० रिती चरित्र	११६,१६१	राजुदेव	०	५ राजे(वि)चा-विहार	१५०	
राज (वेद)	२१६	राजुदेव	१५३	राज्य	५३	
राजुचा	१३५	राजुदेव	२२०	राज्य	११५	
५ वेचण (१) उच्चारा	०,१०,५०	राजुदेई	०५	राजुका	१६०	
" (२)	०५०	राजुदेव	२२०	राज्य (साहचर)	३	
राजिणी	१०	राजकमुखा	१०३	राज्या (१)	५०,१०३	
राजकुल	१३५,१६१	५ राज्याणी	२११,२२१	" ५ (२)	२२३	
राज्य	२०३,१०३	राज्यादेवी	२२०	राज्याचरित्र (३)	१६२	
राज्येची	०,१०,१२०	राज्यावला	१६०	० राज्याचाच गुण	१५०	
५ राज्या वृत्ती	३	राज्यदेव	०,१३,१०,१५,५०	राज्याचा	१०	
राज्य(वि)य	२०,२५	०,१३,१५,१५,५०	५ राज्या (५) विदे	५३	राज्याची	१०५,१०५
५ राज्या विदेकाळ (लोका)	०	राज्यकुल	१३५	५ राज्याकुमार (१)	१३३,१२५	
राज्या	१३३	राज्यामहा	२१६	" (२)	१०५-१०५	
राज्याच	००	राज्याचकाळ	५५,०३	० — चरित्र	१०५,१०५	
५ राज्याचकाळ	२२३	राज्याचदेवा	२२०	५ राज्याच (राज्या) वेळ	२२०	
५ राज्या देव	१०२,१६०	राज्याचा	१३६	राज्या	१०३ १०५	
राज्यामहा	०००	५ राज्या (१)	०१	राज्या विद्या	१३३	
राज्याचरित्र	००,१०५	" (२)	१००	राज्याचरित्राच मंत्र	१०५	
५ राज्यामहा	००	राज्याची	१०३	राज्या	५३,१५३	
राज्या(वि)य	२२०	राज्याचकाळ	२१६	राज्याच विद्या	१५३	
राज्या	१००,१००	राज्या	२०३	राज्या	२२०	
राज्याच(वि)	००-००	राज्या (विष्णु) कुमारा	१३३-१३५,१००-१०५	राज्या (जो) राज्याच (राज्या- विद्या) ०,१०,१०		
५ राज्याच	२१०,२१०	राज्याच विद्या	१३३	राज्याच	००	
राज्याच	१०५	राज्याचिका	३५	राज्याच	१३५	
राज्या	२००,२००	राज्याचकाळ	१२०,१२५	राज्याच	१३५	
राज्या(वि)य राज्याचकाळ	२२०	राज्याचकाळ	२०	राज्याच	१३५	
राज्याच	१००,१००	राज्याचकाळ	२०	राज्याच	१३५	
राज्याचकाळ	५५,१०५,१३०, १३५,१३५,२२३	राज्याचकाळ	५५,१३५	राज्याच	१३५	
राज्याचकाळ	"	राज्याचकाळ	१३५	राज्याच	१३५	
राज्या	१३०	५ राज्या (५)	५२,१००	राज्याच	१३५,१३५	
राज्याच	००	१५३,१५०,१५३,१५३,२१५		५ राज्याच	०२,०३	
राज्याच	००	राज्याच	१३५	५ राज्याच (५)	५२,१५,०५,	
राज्याच	००	राज्याच	१३०		१०५	
५ राज्याच विद्या	१३५	५ राज्याच	००	राज्या	"	
० राज्याच	३०	० राज्या (वेद)	३,१०३	राज्याच	०५,०५,१३५,१३५,	
५ राज्याच(वे)य	३,०,२१,२१, २५,२५,२५,२५,२५,२५,१११, १३५,१३५,१३५,१३५,१३५, १५५,१५५,१५५,१५५	५ राज्याच	१३५,१३५	राज्याच	१५०	
		राज्याची	००-०२	राज्याच	५५	
		राज्याच	२२३	राज्याच	१३	
		राज्याच	१३५	५ राज्याच	५०	

विक्रियनाम	पृष्ठे	विक्रियनाम	पृष्ठे	विक्रियनाम	पृष्ठे
लासिमद् (वासिमद्)	८१	सुवस्य (१)	४०	सुवस्य	११०
ऽ साधनी	११, १११, ११०	ऽ (२) सु	२२४	२ सुवस्य	१०
सिख्य सुविधा	११०	सुवस्य (१)	७१	सिखायास्य	१८१
सि (से) ज्ञानस्य	११, १११, ११०, ११०	" (२)	११०	सुवस्य	१११
सि (से) ज्ञान (केवलम्)	८१, ८८	सुवस्य	१०१, १११	सिख्य (व)	१८, १११, १११
सिख्य	१११	सुवस्य	१११	११, १८, १११, १११, १११, ११०, ११०, ११०, ११०	
सिख्य (साधनाद्)	११०	सुवस्य	१११, १११	सिख्य	११
सिख्य	८१	सुवस्य विषय	१११	सिख्य	१११
सिख्यस्य १, ११, १११, १११, ११०		सुवस्य	१११, १११	सिख्य-सिख्य	
सिख्यस्य	१०८	सुवस्य	८०	सिख्य (२) विषय	१११
सिख्यस्य विषयस्य	११	सुवस्य (सुवस्य)	१११, १११, १११	सिख्य	१००
ऽ सिख्यस्य (व)	१११	सुवस्य	१११, १११, १११, १११	ऽ सिख्य (व)	११०, १११
ऽ सिख्य स्य	१११	सुवस्य विषय	१११	सिख्य	१००
ऽ सिख्य स्य	१११	सुवस्य	१११	सिख्य (१)	८१
सिख्य	१०८	सुवस्य (देवता) - सुवस्य		" (२)	१००
सिख्य	"	(देवता) १, ११, १११, १११		सिख्य	८०
सिख्य	"	८८, ११, १०१, १०१, १०८		सिख्य	८०
सिख्य	८१	१११, १११, १११, १११		सिख्य	८०
सिख्य	१०१	१११, १११, १११, १११		ऽ सिख्य	८८
सिख्य	१००	१०१, १०१, १०१, १११, १११		सिख्य	१
सिख्य	१११	१११, १११, १११, १११, १००		ऽ सिख्य	११०
ऽ सिख्य	११०	११०, १११, १११, ११०, ११०		ऽ सिख्य (सु)	१११, १११, १११, ११०
सिख्य (वा) देवी	१, १८, १११	ऽ सुवस्य (सु)	१, १८, १११, १११	ऽ सिख्य	१११
सिख्य विषय	१११	सुवस्य	१०१	ऽ सिख्य	१११
सिख्य	१०८, ११८	ऽ सुवस्य	१११	सिख्य	१०
सिख्य	१११	सुवस्य	१११	सिख्य	१०
सिख्य (१)	११०	सुवस्य	१११-१११	सिख्य	८
" (२)	१११	सुवस्य	१११	सिख्य (सु)	१११-१११
सुवस्य (सि)	११८, १११	सुवस्य (सुवस्य)	१११	सिख्य	१११
सुवस्य (व)	१, १०	सुवस्य (२)	११, १११, १००	ऽ सिख्य	१११, १०१
सुवस्य	११०	सुवस्य	१११	सिख्य	१
सुवस्य	१११	सुवस्य	१११		

